



श्री

# अनुभव जैनहुकमप्रकाश.

“ विविध ज्ञानोपदेश ग्रंथ. ”

केटलाक ग्रंथो, पंचप्रतिक्रमण सूत्र, स्तवनो,  
थोयो, चैत्यवंदनो, लावणीयो, गायनो,  
वाजुं वगाडवानी रीती विगेरेनो  
म्होटो संग्रह.

आ ग्रंथ

योग्यजीवोने विना मूल्ये आपवानो उराव करथो वे.

उपावी प्रसिद्ध करनार

शाह. हरगोविंद वर्धमाननी कंपनी,  
रहेवासी सीनोरना.

(प्रत १९००)

धम्मदावाद

युनियन प्रिन्टिंग प्रेसमा वाप्यो

सवत १९५२

सने १८९६





श्रीचोवीस तीरथकर उरमी परभासा

देव गुडमा हरसन करवा साउ

आरे ले  
आएवासा  
भरुन  
तरदुधी  
शाला  
पुजण  
दुडम  
तीर्थ  
श्रीचोवीस तीरथकर



भत नी शीलम ह्यो ता सुपी मलसे देसाचार वाजाओने भगवी दुःख  
बिचारेतस रस

अथमा भडावो कगण राधो नही

दरसन करवानो ज प होअतोनभतसेही



नजानी आसतना करवा लेवी नही देवगुनी आसतना करवी अरे मोड पाप ले सुवाणी लगावने मुकवा नही

अरय भोकलवो अरेले भोकलवाभा आवसे पत आवेके कायमा भडावो



## प्रस्तावना.

हरेक कार्य सिद्ध करवामां प्रथम ते विषयनुं ज्ञान मेळव  
नी अगत्य ठे, ते ते कार्य संबंधि ज्ञान विना कोइ पण कार्य  
घतुं नथी. ज्ञान शब्दनो साधारण अर्थ जाणपणुं एटलो  
यि ठे, ए जाणपणुं अगर माहिती तेज हरेक कार्य साधननुं  
मुख्य कारण ठे ए ज्ञान केटलुं अगत्यनुं ठे, अने ते गुं गुं करी  
शके ठे? एनी व्याख्या करवी घणी मुश्केल ठे. ए विषे म्होटा  
म्होटा महात्मानुं ए घणा ग्रंथो रची खुदासा कख्या ठे, अने स्थले  
स्थले ज्ञाननीज मुख्यता बतावी ठे.

तो धर्म साधन करवामा पण धर्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करवुं  
जोइए हवे ए धर्म संबंधि ज्ञान प्राप्त करवाना कया कया मार्ग  
ए विचारतां मुख्य वे मार्ग नजरे पडे ठे. १ सजुरुनो उपदेश,  
सजुरुना रचेली ग्रंथो. ए वेमा पण सजुरुनो उपदेश ए मुख्य  
परंतु आ छपमकालने विषे सजुरुपदेशदाता सजुरु जवलाज ठे.  
ने जे ठे तेज पण महोटा महोटा शेहेरोने विषेज घणो खरो  
खत गाले ठे, माटे तेवा सजुरुनो उपदेश श्रवण करवो छल्लेज  
पट्यो ठे. एवा वखतमा सजुरुनना रचेली ग्रंथोद्वारा सजुरु  
जेवोज जोइए, ए माणस मात्रनी अशक्यनी फरज ठे पूर्वा  
र्योना ग्रंथो वांचवाथी घणा ज्ञाननीज धर्म पामे ठे, अने एज  
पूर्वाचार्योनी परोपकार बुद्धिनुं सार्थक ठे.

ए ग्रंथोनी वृद्धि थवाथी ज्ञाननी वृद्धि थाय ठे, अने ज्ञान  
नी वृद्धिनीज सर्वत्र जय ठे, एम केटलाक विचार म्हारा मनमां  
गाव्याथी धर्म संबंधी परचुरण विषयनो संग्रह करी आ ग्रंथ में  
पाव्यो ठे.



एमा अध्यात्मज्ञानने माटे हुकममुनिजी महाराज कृत सात  
ग्रथो, तथा परचुरण स्तवनो विगेरे, अने पूनमचंदजी महाराज  
कृत चोवीशी ठे तथा आपणने दररोज आवश्यक क्रिया करवामा  
प्रतिक्रमणसूत्रनी घणीज जरूर ठे, तेथी प्रतिक्रमणसूत्र दाखत  
कस्यु ठे वली हालमा गायननो शोख पण घणोज वधेलो जण्यु  
ठे, ते माटे चोवीश जिनना गायनो तथा वाजु वगाडवानी रीति  
पण कडक जणावी ठे. विगेरे केटलीक वावतोनो संग्रह कस्यो ठे.

आ ग्रथ उपाववानो म्हारो विचार उत्पन्न थवानु मूल का  
रण महात्मा श्री हुकममुनिजी महाराजज ठे तेमनो उपदेशज  
ए हतोके "ज्ञान विना कोइ जीव सिद्ध पद पामतो नथी, माटे  
धर्म सबधि ज्ञान मेलवी, धर्म प्राप्त करो, एज हितकारी ठे  
वली सर्व जीव उपर मित्रता अने करुणाजाव राखवा इच्छता  
होय, तो पूर्वाचार्य महान् पणितोना रचेला उत्तम ग्रथो योग्य  
जीवोने वाचवा जणवा माटे विना मूळ्ये अर्पण करो, एन  
जेवी मित्रता तथा दया बीजी नथी."

ए उपदेशनो अकूर म्हारा मनमा ऊगी नीकलवाथीज अ  
ग्रथो उपावी योग्य जनोने विना मूळ्ये आपवानो विचार राख  
ठे, ते विना मूळ्ये शास्त्री जणवाने सीनोरमां जैनशाखा स्थाप  
करी बंधावी पणित राखवामा आव्या ठे वाचवा जणवा मा  
घणा पुस्तको ठे

आ ग्रथ उपाववामा म्हारी अज्ञानताथी यथास्थित अ  
क्रमे ग्रथो तथा परचुरण विषय गोठवाया नथी, तथा अज्ञा  
तानो दोष पण घणोज आवेलो ठे, विगेरे जे कइ दोष रह्या हो  
ते म्हारो अपराध सुद्ध पुरुषो क्षमा करशे, अने सुधारीन वाचशे  
एवी म्हारी विनती ठे

( ३ )

आ ग्रंथनुं शुद्धिपत्रक करी म्हारा एक धर्मस्नेही मित्र  
शा. धरमचंद केवलचंदे म्हारी उपर मोकळ्यु ठे, तेमनो उपकार  
मानी ते शुद्धिपत्रक आ ग्रंथना पाठलना जागमा दाखल क खुं ठे  
संवत १९५३ना मागशर } शाह. हरगोविंद वर्धमान,  
शुद्धि ५ ने वार गुरु } सीनोर.



# अनुक्रमसूचिका

विषयार्क.	पृष्ठ.
श्रीमन् हुकुमभुनि महाराजना जवनयरि- त्रनो हुकुमार धमय्य कृत	
कृष्णे	१-१२
श्रीमन् हुकुमभुनि महाराज कृत अयोभाषी	
१ ध्यानविषय	१३-४१
२ अनुभवप्रकाश	४२-५५
३ शिलनहनरीशी	५६-६३
४ रागभाव	६४-७८
५ मनोरथभावना	२१८-२२८
६ वास्तुकपूजा	२२८-२३४
७ अर्थात्मशैली	३०२-१०६
श्रीमन् महाराज हुकुमभुनि कृत परचरण्य	
१ अन्तराती विधिमा जीष्वा अक्षरे	
श्री पार्श्वनाथनु यैलवदन	८०
श्री सीम वरस्वामीनु यैलवदन	८०
श्री पद्मकारकनां यैलवदन	८०
श्री महावीरस्वामीनी योयो	८०
श्री अश्विनाथनु यैलवदन	८०
श्री सलननाथनु यैलवदन	८०
श्री अभिनहनस्वामीनु यैलवदन	८१
श्री सुभतिनाथस्वामीनु यैलवदन	८१
श्री पद्मप्रभुजनु यैलवदन	८१
श्री सुपार्श्वजिननु यैलवदन	८१
श्री पार्श्वनाथजती योयो	८१
५६-५	
१ अरु भवे ज्ञानीरे राप्दनो अथ करे	८२
२ मेवो तुमे प्राणीरे मत शुष्ण हेपीने	८२
३ आतम वना नदि धीजे	८२
५ रथ जगमा कौर्ष	८२
४ विचारो तुम विचारी रे मनुष्य	
भव मेहेज नही	८३
५ ज्ञानी तमे मज्जे रे पशु तो	
जे भरी	८३
श्री भान्नेकाळी देववन विधि	८३
श्री अमरनेज मुनिनी सज्जाय	८८
२ आल्लोष विधिमा-	
५६-२८-३० साधुने रीभामणु	१७४थी
५६-३५-३६-३७ मनने री	
भामणु	१७८थी
पारभास	२८६

विषयार्क	पृष्ठ.
५६२ तिथि	२८७
मनश्रीशी	२९०
धृती ५ भी, मुनिनु दुष्ण	४३२
रुपी ८ थी १६ भी सुधी	८४३५-४४०
सज्जाय १-२-३-४-५ मुनिना	
शुष्ण	४५२-४५६
५ श्री प्रतिकमणु मत्र	३०१
१ नकार	३०१
२ पश्चिदिय	३०१
३ अमाममणु	३०१
४ सुशुने शाना सुभपृष्ण	३०१
५ अश्विनाथिय	३०१
६ तरमडतरी	३०१
७ अत्रथउससिअथे	३०२
८ लोगरस	३०२
९ आभाषिनु पयभाण	३०३
१० आभाषिनु पारवानु	३०३
११ जगयितामणी यैलवदन	३०३
१२ अक्षियि	३०४
१३ नमुशुष्ण वा रकतप	३०४
१४ अनति अथ्याथ	३०५
१५ अनत केविसा	३०५
१६ पयपरमेठी अम्रार	३०५
१७ उपमगदर स्तपन	३०५
१८ जयवीयरय	३०५
१९ अरिहत अथ्याथ	३०६
२० कल्याणु-दनी स्तुति	३०६
२१ रनातग्यानी स्तुति	३०६
२२ ससारदावानी स्तुति	३०७
२३ पुष्परवरदी	३०७
२४ सिद्धाणु शुद्धाण	३०८
२५ देवावम्यगराणु	३०८
२६ जगवानादि वन	३०८
२७ देवसिअ पडिअमणे हाठ	३०८
२८ अश्विनाथ अमि	३०८
२९ अतिचारनी आर गाथा,	३०८
३० सुशुने वाणु	३०८
३१ देवसिअ आलोठ	३१०
३२ मातदाथ	३१०
३३ अरार पापग्यानु	३११

३४ स परमवि	३११
३५ श्रावक वर्तमान	३११
३६ अष्टभुक्तिभूमि	३१४
३७ आचारिय इव श्रामे	३१४
३८ नभोग्नु वदमानाय	३११
३९ विमानायन	३१५
४० श्रुतदेव श्रेत्रदेवनी स्तुति	३१५
४१ भिनदेवयात्रे करेभिः	३१५
४२ श्रमनक्षणी स्तुति	३१५
४३ श्रुवनदेवनानी स्तुति	३१६
४४ नानादि उद्युक्ताना	३१६
४५ अनाद्य त्रेमु भुनि न	३१६
४६ परमन	३१६
४७ नधु गति अनव ।	३१६
४८ यद्विष्णाय	३१७
४९ भरदेभरनी स गाय	३१८
५० भन्निष्ठाद्युनी स गाय	३१८
५१ तीयन ना	३१८
५२ मङ्गलादत्	३२०
५३ अन्नितशांति स्तवनामपट रभरथु	३२२
५४ बृहद्व्याति	३२६
५५ मनिः श्लो न नामक तृतीय	३२८
५६ श्री पाक्षिभति निरतारतिवार	३३०
५७ नमुक्षर भदियनु पञ्चपञ्चाथु	३४२
५८ पौ सि माः पौरिमिनु पञ्चपञ्चाथु	३४२
५९ मियाभण्णा जेभमथुनु पञ्चपञ्चाथु	३४२
६० आयमिदनु पञ्चपञ्चाथु	३८३
६१ निविार उषवामनु पञ्चपञ्चाथु	३४३
६२ यद्विद्वान् उषवामनु पञ्चपञ्चाथु	३४३
६३ पाण्डारनु पञ्चपञ्चाथु	३४४
६४ यद्विद्वारनु पञ्चपञ्चाथु	३४४
६५ निविदारनु पञ्चपञ्चाथु	३४४
६६ इविदारनु पञ्चपञ्चाथु	३४४
६७ श्री निषम धारनारने हेमा रमा	
निःनु पञ्चपञ्चाथु	३४४
६८ योमदनु पञ्चपञ्चाथु	३४५
६९ योमद पारना गाथा	३४५
७० अधारपारमी	३४५
७१ निःपुपुत नामक यतुर्थ रभरथु	३५८
७२ नमिःपुनामक पयम रभरथु	३५१
७३ अनाम नामक सप्तम रभरथु	३६०
७४ कपयःपुमरि स्तोत्र नामक अजम	३६४
रभरथु	

७५ बृहद्व्यातिस्तवनाम नवम रभरथु	३६८
७६ श्री रत्नाकरसुरि कृत श्री रत्नाकर	
पञ्चविंशिका	३७१
७७ सामायिक पारवानो विधि	३७३
७८ सामायिक लेवानो विधि	३७३
७९ पञ्चपञ्चाथु पारवानो विधि	३७४
८० पञ्चपञ्चाथु लेवानो विधि	३७५
८१ देव वाचवानो विधि	३७५
८२ देवसि प्रतिकमथु विधि	३७६
८३ राध प्रतिकमथु विधि	३७८
८४ पञ्चिभ प्रतिकमथु विधि	३८१
८५ यजमासी प्रतिकमथु विधि	३८२
८६ सव मरी प्रतिकमथु विधि	३८२
८७ श्री पाक्षिभति सक्षेपातिवार	३८२-३८९
८ श्री पुण्यविमलसुरि कृत (दुकममुनिथ	
महाराजना शिष्य पूनमयद्वल कृत)	
१ मोनीरी (शुगराती निपिमा जीष्वा	
अक्षरे)	१५८-१६८
२ प ( )	१६८-१६८
७ श्रीमन् दुकममुनिथ महाराजनी स्तुति	
१ शाब्दी रामयद्र दीनानाय कृत स	
भूत यिन मज्यमय तेनी सरकृत	
टीका तथा शुगराती भाषांतर	
सहित	१०१-१४०
२ धमयद्व कृत वदनात्रिदशी (शा	
निकिडित १३ छंद) सटीक (शुग	
राती भाषामा )	१४०-१५३
८ जानशीनन विवास सूर्ये कृत (शुग	
राती निपिमा जीष्वा अक्षरे)	
१ शैलवदन	४
२ योयो जेग	४
३ स्तवने	६
४ सज्जयो	३
५ सुरपः वीशीभाधी रूपे	२
अलनन स्तवने विजेरे	८८
१ शैलवदने	५
१ सीमधर परमात्मा, भधरजिननु	३४६
२ श्री सीमधर जगधष्ठी,	३४७
३ रिमन डेवन जान कभवा, श्री सि	
दायपथुनु	३४७
४ श्री शतु जय सिद्धजेन,	३४८
५ श्री परमेश्वर परमात्मा, श्री पर	
मात्मानु	

२	स्तवतो	
१	सुषो यदाञ्च, सीम वरनिननु	३४८
२	श्यामी सुमाहु सुहकर, श्री सुमा- हुनिननु	३४९
३	द्वेवजसा हरिसधु कगे, श्री द्वेवज सानिननु	३५०
४	सीमधर युगमधर भा, श्री वीश विहरमाननु	३५०
५	आभडीये रे में आनशनु जे दीडारे, श्री शनुजयनु	३५१
६	जत्रा नवाणु क्रीजे	३५२
७	यायो यायोने राज श्री सिद्धाय गीरीजे	३५२
८	विभनायव निनु वहीये	३५३
९	श्री महावीर श्यामीना २७ भननु स्तवन रगविजय कृत	१५४-१५८
१०	ममुद्रनिजय सुतसुदरे, नेमनिन स्तवन	१६९-१६९
३	योयो	
१	पयतीर्थ योयो <रोक ४	३५४
२	शभेश्वरपार्थनिन स्तुति	३५४
४	सक्राये	
१	पययणु देवी जित धरीञ्च, विनयनी	३५४
२	ञ्चन वाईछु मोरा वालभा, सीभा मयनी	३५५
३	त्रेखिन् रयवाडी यदये अनार्थी मुनिनी	३५५
४	पिडञ्च पिडञ्च रे नाम, श्री नेम राणुननी	३५६
५	आडिणु तुटयाने सांधो डोनर्ही रे, आडिणानी	३५७
५	परचूरणु	
१	ज्ञान समो डोछ धन नर्ही	१६९
२	प्रभु दशन सुभ सपदा	१६९
३	हेपीरे अद्भूत ताई ३५	१६९
४	वाडी यपो मोरीयो	१७०
५	तु अकलडी ३५ सरेपी, पग्मानद पद तु दार्	१७०
६	आयु अष्टापद गिरनार	१७०
७	सिद्धायवना दुहा ९	१७०
८	अहोपश ञ्चन तु सदा दीवदार	१८७
९	रहो रहो रे नदरराय हो धडीया	१८७
१०	डीरभा करो रे गोडीपास छनेमर	१८८
११	जेर जेर नर्ही आवे अनमर जेर जेर नर्ही आवे	१८८

१२	हारे प्रभु भण ले मेरा दिव राञ्च	१८८
१३	मिरान्ने भगवेमे मिरान्ने मदिरेमे	१८८
१४	लागी तेरे लरमकी शुभारीया	१८८
१५	कीने हेभा हमेरा स्वामी	१८८
१६	राणुल पोकारे नेम	१८८
१७	भनाञ्च मेरो नेम यदये गीरना	१८९
१८	मेतो दाहागनदेकु दुडुय यलीया	१८९
१९	वेतामज्योरेसामलीयापीडी पाननकी	१८९
२०	णुज्यो मेरी सरीया दीपे गोडीया ञ्च देवा	१८९
२१	प्रभु पाम रीतामञ्च मेरो	१८९
२२	धन धन रे योनीडी भारे आ ननु रे	१८९
२३	राणुन भुे नाथगये साथ परहरी	१९०
२४	तु नगमाही दीवो प्रभुञ्च तु न गमाही दीवो	१९०
२५	पलीहारी नजि महावीर तारा सभोवसरखुकी	१९०
२६	कृपा करोने आदेश्वरयावा	१९०
२७	जैतन कायी मदीभ उरा	१९०
२८	प्रभुञ्चको हरिमन पायो	१९०
२९	पथीडा पथ यरेगो,	१९१
३०	गानीरे मेरे आनीरे,	१९१
३१	सभेतरीपर यायो नद्यजे मोरी मननी,	१९१
३२	आजे घेर नाथ पधारया, कीजे भ गय म्यार,	१९१
३३	नण भरी सपूटपत्रभा, युगलीक नर पूजत ( नर अग पूजना )	१९१
३४	आञ्चवरग वधामय्या,	१९१
३५	नयनय आरती आदि ञ्चुहा	१९२
३६	आरति कीजे पास कुमरकी	१९३
३७	अपछरा कर्ती आरति निन आगे	१९३
३८	आरो भगण यार	१९३
३९	पोमह लेनानी तथा पारनानी विधि	१९४
४०	गत पोमहनी विधि	१९५
४१	साजे नवो पोसह लेनानी विधि	१९५
४२	पोसहना अहार होय	१९६
४३	पोमहना योरीश भउय	१९६
४४	आनभनी अगीआर पडिभा	१९७
४५	यौद नियमनी निगत	१९८
४६	निनभुवननी योराशी आशातना	१९९

६-यतुर्विशति निन गायन-

मंगलायराजुना-	५	१७१
१ श्री सपथलजना	२	१७२
२ श्री अलतनाथना	४	१७३
३ श्री सभवनाथना	३	१७४
४ श्री अभिनवन जना	३	१७५
५ श्री सुभतीनाथना	२	१७६
६ श्री पत्रप्रभुना	२	१७६
७ श्री सुपार्थनाथना	२	१७७
८ श्री मद्रप्रभुना	२	१७७
८ श्री सुनिधिनथना	१	१७८
१० श्री वीतनाथना	२	१७८
११ श्री श्रेयासनाथना	१	१७
१२ श्री वासुप्रभुना	३	१७८
१३ श्री विभननाथना	२	१८०
१४ श्री अनतनाथना	२	१८०
१५ श्री धमनाथना	२	१८१
१६ श्री शातीनाथना	३	१८२
१७ श्री कुमुनाथना	२	१८२
१८ श्री अरनाथना	१	१८३
१९ श्री मधीनाथना	२	१८३
२ श्री सुनीसुवत जना	१	१८३
२१ श्री नमिनाथ जना	१	१८४
२२ श्री नेभनाथजना	३	१८४
२३ श्री पाथनाथजना	३	१८५
२४ श्री महावीरराभी जना	४	१८६
१०-कागना-हुकमभुनील महाराजने लजेना		
१ दादो नातरागी सुनामयलो २०१-२१७		
२ हुगोर्गो स वरमान कीरेना-		
	२३५-२४५	
११ श्रीमन् हुकमभुनील महाराजने गुतीओ		

तथा महाराजने प्रसो, आत्माने धनी		
पदेश-		
१ प० (८४)		
१ थी ६३ सुधी	२५३ थी ३००	
६४-६५-६६		४०६-४०८
६७ थी ८४ सुधी		४६८-४८०
१ जेधतारामना मनावेना	१-२-३३-४८-	
४६-५०		
२ केशरीना मनावेना-३ थी	१२-१६ थी	
१८-२५ थी २८-५२ थी	६६-७६ थी	
८४ कुल-४१		
३ हुगोर्गो सना	१३-१४-१५	
४ नाथामाधना	१६-२०-२१-२२-२३-२४	
७४-७५		
५ जगनना हलुधीना भारतरतु	३२	
६ शोभारामनु	३४	
७ त्रिविजय आमो० हाथ्यावारी-३८-३८		
४०-४१-४२-४३-४४-४५		
८ जेसग	६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३	
२ नागुओ-(२६)	४०८-४२८	
१ केशरीनी मनावेनी	४-५ तथा ८ थी	
२६ सुधी कुत	२१	
२ जेधतारामनी	१-२-३-६-७	
३ व थीओ (३३)	४२८-४५२	
१ केशरीनी मनावेनी	१ थी ४-६-७	
तथा १७ थी ३३		
२ ओक आविधानी मनावेनी	८	
४ सज्जान (१७)	४५२-४६८	
१ केशरीनी मनावेनी	६ थी १७	
१२- देवताओनो ओ०२०१		
१३- नाग वगाजना श्रीभरानी रीत-२४५-२५२		२०१

## प्रस्तावना.

श्री जैनदर्शनने विषे धर्म पामवाना साधन जूत चार अ नुयोग कहेला ठे. १ इव्यानुयोग, २ चरणकरणानुयोग, ३ गणितानुयोग अने ४ धर्मकथानुयोग. जे वडे जव्य जीवो धर्मसाधन ने विषे जोडाय, एवी कथानुसो समावेश धर्मकथानुयोगमां था य ठे, कारण के सत् पुरुषोना चरित्रोमांथी घणी तरेइनुं ज्ञान संपादन थइ शके ठे.

कल्पित कथानुमांथी पण प्रसंगोपात केटलुंक ज्ञान मले ठे, तो ज्ञान, दर्शन, अने चरित्रने विषे रमण करनार मुनिरा जनुं चरित्र अवश्य लाजकारी होय एमा शुं नवाई?

वली महात्मा हुकमचंदजीए जव्य जनोना कल्याणने माटे अनुपम ग्रंथो रचेला ठे. जेनुं रहस्य ग्रहण करवार्थी वर्तमान कालमा जव्य जनोने अत्यंत लाज थाय ठे, अने अनागत कालना लोकोने पण अत्यंत लाजकारी थइ पडशे. तो एवा महा पुरुष नु चरित्र जाणवानुं मन सर्व कोशने थया विना रहे नहीं. विगेरे केटलांक कारणोथी में ए संबंधी आ एक टूंक हकीकत लखी ठे.

ए चरित्र लखवामा जे कइ किंचित् हकीकत मने मली आवी ठे, अथवा मे जाणी ठे ते लखी ठे. परंतु म्हारावडे जूल चूकथी अथवा अज्ञानताथी वधारे उतुं लखायुं होय, ते सुइ पु रुपो कमा करशो एवी महारी विज्ञप्ति ठे.

आ विषय लखवानी प्रेरणा करनार सीनोरवाला शा. हर गोविंददास वर्द्धमानदासनो हुं उपकार मानुं तुं.

संवत् १९५१ ना चैत्र शुदि १२ } शा. धर्मचंद केवलदास पारखेत.  
चार शती



श्री

श्रीमन् महाराज हुकममुनिजी महाराजना  
चरित्रनो टूक सार.

॥ दोहरा ॥

नमु वीर जगवानने, जस वचनामृत आज,  
पान करता जव्य जन, लहे अमरपद राज १  
यथास्थित ते वचननु, पान करावे कोय,  
एवा मुनि आ जगतमा, विरल रत्न सम जोय, २  
उपकारी अरिहत सम, ते मुनिवर जग जाण,  
समकितदायक शाश्वता, नमता प्रगटे नाण ३  
हुकममुनि ज्ञानी गुरु, उपदेशक मुज तेह,  
शुद्ध प्ररूपक वीर जे, वाणी गुण गण मेह ४  
चरित्र तेहनु निर्मल, कोई न पामे पार,  
पण मुज मन इच्छा थई, लखुं काइ आ वार ५  
ठाप खरी मुज दिल विपे, तेनो कइ आजास,  
देखाहु दिश मात्र हु, मन धारी उच्चास ६

गृहवास्त-ए महात्मानो जन्म गूजरात प्रातना उत्तर जा  
गमा आवेला, महाराजा नवाब शेरखानजी साहेबनी राज्यधानी  
फरता सुदर कोटे रक्षित, अष्टदारे करी सहित, अने वेपारीजना  
वृदे करी सुशोभित एवा राधनपुर नगरमा थयो हतो एमना पित्ता  
नामे लालचद, ज्ञाते वीसाश्रीमाली वाणिया, स्वव्यापारे सदा  
चरणवेडे करी, आखा शेहेरमा प्रख्यात हता. तेमने अचरतवाई  
नामे जार्धा अति रूप गुण करी सपन्न पतिवृता हता बने दप  
तिनी शुज मनोवृत्तिए करी अचरतवाईनी कुक्षिथी विक्रमादित्य

संवत्सर १८७० ना वर्षमां, पंच परमेष्ठिमां जेनुं स्मरण निर्माण करेलुं ठे, एवा उत्तम पुरुषनो जन्म थयो ए महा पुरुषना नाम कर्मनो शुभ उदय तुरत जणावा लाग्यो, के जेवी सुंदर आकृति ए, विशाल कपोले, अने ज्ञव्य काति ए जोनारना मन मग्न कीया. शरीरनो पुष्ट बाधो, शोचनिक कुंचाई, अने स्फुट चक्षु, इत्यादि ज्ञज्ञकदार अवयवो ए करी राजकुमार सदृश दि सवा लाग्या; जेना दर्शनथी माता पिता सज्जन सहोदरादिकने घणो हर्ष थयो

माता पिता ए हुकमचंदजी नाम पाडयु. कहेवत ठे के “पुत्रनां लक्षण पारणामाथी.” तेज प्रमाणे केटलाक उत्तम गुणो नानपणथीज जणावा लाग्या. पाच वर्षनी उम्मेरे पहुँचता पहे ला बालचेष्टामा पण मनोहर वचनो बडे माता पिताने खुश क रता, अने कोइ कोइ बातोमां तो तेमनी जाणवानी जिज्ञासा, तथा तर्कशक्ति विगेरे उत्कृष्ट गुणो जोइ वृद्ध माणसो पण आश्चर्य पामता, जेथी माता पितादि सर्वेना मनमा एवी आशाञ्ज ए वास कर्यो के, आ बालक महापुरुष थरो

माता पिताना अपूर्व स्नेहबडे लाडन पालननु सुखसागर जोगवता पाच वर्षना थया, एटलामां संसारिक दु.खनु वादल च द्यु, पिताना स्नेहनी हृद आवी, तेमनो आयु संबंध पूरो थयो, जेथी पितानो काल थयो. संसारिक सुखमा सर्वोत्कृष्ट पितानु सुख ते पाच वर्षनी उम्मेरमा ि छेद थयु, परंतु अचरतवाई पो ते घणा धैर्यवान, स्वभावे शांत, अने समजु हता, माटे न गज राता घणी हौंशीश्रारीथी पुत्रनु पालन करवा लाग्या रमत ग मतमा पण एवो परिचय रखावता के जेथी पुत्रनी बुद्धिवृद्धि पामे अनुक्रमे वृद्धि पामता सात वर्षनी उम्मेरे पंढ्या पासं विद्याभ्यास करवा भूक्या. विद्याभ्यासमा पातानी कालजी, उ

धर्म, स्मरणशक्ति, तर्कज्ञान, इत्यादि शक्तिउबड़े थोड़ी मुदतमा पोते समयोचित विद्या प्राप्त करी ए दरम्यान पोताना मजताव डापणार्थी, तथा परोपकार बुद्धि विद्यामा मदद करवाश्री सर्वे विद्यार्थिन्तना स्नेहनु पात्र थया, विनयादि गुणोबड़े पंथाना प्रगं सनीय थया, अने सेवा जक्ति तथा मीठा मीठा तथा काला का ला वचनोबड़े माताना हृदय सतोपक थया

पुत्रनी आवी तीव्रबुद्धिबड़े माताने अजिनव ध्यानद प्र गट थयो पूर्वनु उखल गिसारे पड्युं, अने नवाज सुखनो ऊरो वहेवा लाग्यो.

पूर्वना पुण्यानुबंधी पुण्यना उदये वालवयथीज धर्म तरफ लक्ष्ण दोड्यु हरेक ठेकाणे धर्म सबधी बात थती होय तो त्यां पोते निश्चल चित्तधी साज्जता, स्वधर्मी पुरुषोनी अगीकार करेली क्रिया करवा तरफ मन थतु, जेथी पोतानी यथाशक्ति क्रिया करवा चूकता नहीं, अने बीजी वाजु दरेक ससारी घघा रिवाजमा पोतानी तीव्रबुद्धिना योगे ऊट माहिती मेजवता

अनुक्रमे तेर वर्षनी उम्मेरे माताए पोतानी शक्ति माफक सारा आम्बरे, सारा कुलवान धग्नी कन्या नामे लेरसीवाई साथे लग्न करी पाणिग्रहण कराव्यु

पोतानी पुख्त वये पोताना सदाचार, चपलता, माहिती, विनय, वाक्पटुता, समयानुसार वर्तणुक, इत्यादि सज्जुणोबड़े आखा शेहेरमा प्रख्यात थया, सरकारी कामकाजमा पण उच्चम बुद्धिबड़े प्रविणता मेलवी, राज्य तरफनु मान पाम्या, एवी रीते गृहस्थावासमा एक उच्चम पुरुष गणाय

आवा समयमा पोते ससारी कामकाजमा उद्यमवंत ठता चित्तवृत्ति धर्मना तत्वज्ञाननी खोजमाज उरती व्याखान साज्ज लवा दररोज उपाश्रये जाता, परंतु यथास्थित शुद्ध प्ररूपक विना

जिनराज ज्ञापित स्याद्वाद् ज्ञानमां चित्त मुञ्जातुं. पोते घेर पण फुरसदना वखतमा जैनधर्मना ग्रंथो वांचवानो अन्त्यास राखता तेमा श्री देवचंङ्गी महाराज कृत चोवीशी, आगमसार, अने न यचक्र वाचवामा आव्या, पोतानी तीक्ष्ण बुद्धिना योगे सहज साज गुरुगम अतां संपूर्ण समजाया. पठी वीजा पण यशोवि जयजी उपाध्यायकृत इव्यगुणपरजायनो रास विगेरे घणा ग्रंथो वांचवामां आव्या तेथी दिवसे दिवसे ज्ञाननी घणीज वृद्धि अवा माडी, अने पोतानु मन इव्यानुयोगमां लीन थयं. तत्व ज्ञान रूप समुझना मोजावडे पोतानु चित्त संसारमांथी मोलवा लाग्यु जेने जिनराज ज्ञापित स्याद्वाद् मार्गनुं ज्ञान थाय, तेनुं चित्त असार संसारमा केम ठरे ? परंतु पाच समवाय कारण मळया विना हरेक कार्य थतु नथी, तेमज दीक्षा जेवानो अव सर थता सुधी पोते संसारमा रह्या, पण चित्त तो वैराग्यमाज परोवाएलु इतुं

गृहस्थावासमां पोताने पत्निनुं सुख उत्तम मलेलुं इतुं, रूप तथा सज्जणानु पात्र अने पतिवृतावर्मे परिपूर्णा हता, स्वामीना सुखे सुखी अने स्वामीना दुःखे दुःखी थता, मीठा वाक्य अने नमृतावडे स्वामीने खुश करता. एवी रीते संसार सुख जोगवता अनुक्रमे रत नचद अने साकरचंद नामे वे पुत्र उत्पन्न थया. जे घणा बुद्धिशाली, अने सज्जणी निवड्या हता तेमाना वडील पुत्र रतनचंदे तो दी क्षा ग्रहण करी धर्म साधन कस्यो हतो, जेना अनेक सज्जणोवडे अमठावादमा पन्यास पद पाम्या हता. तेमनो काल थया ठतां पण हालमा रतनमुनिना नामथी वखाण थाय ठे. एवा सज्जण ना जमार पुत्ररत्नो दिन दिन वृद्धि पामता हता.

दीक्षाग्रहण—एक दिवसना समायोगे सबत १९०३ नी सा लमा कंङ् व्यापारना कारणाशर वहार गाम गया; अने कवाडा

गामे पोताना मित्रने त्यां कैटलाक दिवस रह्या ते वखतमा कोइ  
 एक ग्रथ वांचता वैराग्यरसथी नरपूर विषय वाचवामां 'आ  
 व्यो, पोताना चित्तने विषे तो वैराग्य वसी रहेलो हतोज, तेमां  
 दैवयोगे विशेष बधारो थवाथी सपूर्णाता थइ. वैराग्यना तरगोए  
 चित्तने व्याकूल कीधु आ संसार अस्थिर ठे, अने सर्व छःखनु  
 मूल एज ठे, कोइ पण प्रकारनुं सुख ससारने विषे रहेलु नथी,  
 अने जे छःखने सुख मानी लीधेलु ठे, ते मानी लीधेलु सुख पण  
 क्या सुधी जोगवीशु ? तेनो निश्चय नथी कारण के, जे सपत्ति ठे  
 ते चंचल ठे, ए संपत्ति फीटी विपत्ती पडता वार लागती नथी,  
 कदाचित् पुण्यना जोगे सपत्ति वर्तमाने कायम रही, तो पण ए  
 सपत्ति कैटलो वखत जोगवीशु ? एनो कइ नियम नथी. शा  
 माटे के रोगादिनी उत्पत्ति अगर आयुष्यादिना पूर्ण थता सबध  
 वडे ए सपत्ति जोगववानी एक पलमा रही जाय ठे, अने छःख  
 आवी पडे ठे, माटे ए मानी लीधेलु अनिश्चित अने क्षणिक  
 सुख जोगववामा लुब्ध थइ, अनतकाल सुधी जोगववानु अरुण्य  
 सुख गुमाववु, एना जेवी बीजी जूल कइ ठे ? आयुष्य समये स  
 मये घटतु जाय ठे, काल ग्रहण करवाने वाहु पसारी रह्यो ठे,  
 तेमा सपूर्णा सुख पामवानो रस्तो कयो ठे, ते जाणवा उता प्र  
 माद करी छःखमा पडी रहेवुं, एना जेवी बीजी अज्ञानता कइ  
 ठे ? पूर्वना पुण्योदये मनुष्य जन्मादि घणा उत्तम कारणो म  
 ल ना ठे, वली बीतराग जापित स्याद्वाद शैलीरूप जैनधर्म यथा  
 स्थित नासन थया उता मिथ्यासुखने सुख मानवु, एना जेवी  
 बीजी मूर्खता कइ ठे ? हवे आ ससारने वजगी रहेवु मने पटे  
 नहीं, ससार वोडवा गीज सुख ठे, ससारमा रही धर्म साधन क  
 रवो महा छुफर व आत्मानो धर्म सर्वथा प्रकारे ज्ञान, दर्शन  
 अत्र चारित्रमा रमणता करवी एज ठे ए धर्म आत्माने विषेज

रहेलो थे, उपाधि रूप अज्ञानता दूर जवाथी ए धर्म प्रत्यक्ष सिद्ध थे. तो इय उपाधिने त्याग कख्या विना जाव उपाधि वृद्ध वानी नथी, अने जाव उपाधि वृद्धा विना कार्य सिद्धि नथी, तो हवे संसार ठोडवाने विलंब शुं काम करवो ? संसारमां रही पर मार्थ सुखनो नाइ शा माटे करवो ? एवा अनेक इय जाव तरं गोवडे शरीरनां रुंवा कृजां थयां, अने शरीर कंपवा लाग्युं, गृह स्थावास अग्निनी ज्वाला समान लाग्यो. चित्त विन्निद् थयुं. एवामा कोइ देवाशी पुरुषे आवीने कह्युं के “मनमा जे धार्युं छ तं करो, एज तमने हितकारी थे.” एम कही ने ते पुरुष गयो.

तेवार पत्नी तुरतज पोताना मित्रने बोलावीने कह्युं के “आजे मारो दिहा लेवानो विचार थे.” आ वात सांजली ते गनरायो, कारण के अणधारेली वात, अने कोइने पूठया विना दीहाग्रहण करवानो विचार जाणी तेने आश्चर्य लाग्युं. परंतु ते घणो स मजु हतो तेथी पोतानी बुद्धि प्रमाणे तेमने शात पाडवानो उ पाय योज्यो तेणे हुकमचदजीने कह्युं के “आम एकदम बहेवा कला थइ आप संसार ठोडी द्यो ठो, ए योग्य नथी. शुं धर्मसा धन करवो होय तो गृहस्थावासमा नथी थतो ? माटे संसारमां रही श्रावकधर्म पाली धर्मसाधन करो, जे उन्नय लोके हित कारी थइ ” आ वचन सांजली, जेमने ज्ञानगर्जित वैराग्य उत्पन्न थएलो थे एवा हुकमचदजीए कह्युं के; “जेनुं वीर्य संसार ठोडी दे वाने टकतुं नथी, ते श्रावकधर्म अगीकार करे थे; परंतु सर्वथा धर्म तो चारित्रपणामाज रहेलो थे, गृहस्थावासने विषे तो धर्म घणोज अल्प थे. सरशव अने मेरुपर्वत जेटलुं अंतर श्रावक अने साधुधर्मने विषे रहेलुं थे आ संसार मने अग्निनी ज्वाला समान लागे थे, अग्निनी ज्वाला सहन करी शीतलता मानवी ए काम हवेहु एक घडीतर-पण योग्य धारतो नथी.”

श्रावो निश्चय विचार जोड़, मित्रे फरीधी कहुं के, "आपे धेर जइ माता तथा स्त्रीयादिकनी रजा लेइ चारित्र ग्रहण करवुं जोइए, परतु आम एकदम स्नेहनो त्याग करवो उचित नथी." वैराग्यरसमा लीन थएला हुकमचदजीए जवाव दीघो के, "स सारी कामकाजमा पण विलव करवो ए हानीकारक ठे, तो चारित्रधर्म जेवा श्रेष्ठ कर्तव्यमा विलव करी हानी पहोचाडवी, ए घणुं मूर्खाइ जरेलु काम ठे कारण के, कळ्याणिक कामने विपे घणा विघ्नो आवी पडे ठे. वली चारित्रधर्म श्रंगीकार करवामा ज्ञानना नंमार महोटा महात्मानुं गौतमस्वामी, आर्द्धकुमार, सनत्कुमार, इत्यादि असंख्यात पुरुपोए पोताना कुटुवनी रजा लीघा शिवाय पोताना स्वार्थनु साधन करेलु ठे, तो महारे रजा लेवा माटे शा शाहू धेर जवु जोइए? वली तमे जे स्नेहनो त्याग न करवा विपे कहो ठे, परतु जे स्नेह, तेज शोकनुं कारण ठे, अने छ.खनु मूल ठे ए स्नेहनो त्याग क रवाथीज परमसुख प्राप्त थाय ठे स्नेहना वधनथी महोटा पुरुपोने पण महा छ.ख वेठवुं पड्यु ठे, माटे हवे हु जलदीधी चारित्रधर्म श्रंगीकार करीश " एम कही मित्रनी रजा लेइ चाली नीकळ्या.

आ वखत हुकमचदजीना कुटुव तरफ नजर करीशु तो पोतानी मायालु वृद्ध माता अचरतवाई, सुशीलवती स्त्री लेरसी वार्ड, तथा गुणज्ञ बे पुत्रो नामे रतनचंद बार वर्षना अने साकर चंद सात वर्षना हता, ते सर्वनो स्नेह तजीने पोतानी ३३वर्षनी वये चारित्रधर्म श्रंगीकार करी पच महाव्रत उचरनी मोहजालथी मुक्त थया

विहार-सवत १९०३ मा  
निवृत्तिथी रात्री दिवस आत्म  
करवामां काल

शोभावे एवी निर्दलन क्रिया घणा यत्नथी करवा माडी, जेथी झा नती दिन प्रतिदिन वृद्धि थवा लागी.

अनुक्रमे ग्रामानुग्राम विचरता, जे तीर्थे अनंत प्राणी सिद्धि पद वखा ठे, जे तीर्थेने घणा तीर्थेकरो फरशा ठे, जे तीर्थेनी घणा उद्वारे करी अनेक रचनाउं थई गइठे, युगादि जिनवर तीर्थपति ठे, अने जेना वखाण एके अवाजे सर्व तीर्थेकरो, गणाघरो, आचार्यो, अने साधु आदि करता आव्या ठे, जे गिरीवर अनेक यथार्थ नामे सुशोन्नित ठे, एवा शत्रुंजय गिरिए गया जेना चित्ते विषे ए तीर्थयात्राना इव्य ज्ञाव स्वरूपनो विचार रमी रहेलो ठे, एवा ए मुनिए पोताना चित्तनुं स्वास्थ्य मेखववाने माटे, प्रथम चोमासु शत्रुंजय गीरीएज कखुं. चतुर्मास पोते पोताना ज्ञान ध्यानमां सावध रही काल निर्गमन कखो.

चोमासु पूरुं थया पठी काठियावाडना केटलाक शहेरो तरफ विहार कखो पोते ठ सात वर्ष सुधी काठियावाडना लीं वडी, वढवाण, धागडा, मोरवी विगेरे जूदा जूदा शहेरोमा चो मासा कखां महाराजना साधुपणाना उत्कृष्ट गुणो जोइ, सर्व कोइ प्रीतीमय थइ जता, ज्यां ज्या विहार करता त्यां त्याना लोको पोत पोताना आरुवर सहित घोडा पाखवी सीगरामादि लेशने वाजिंत्रना आनदकारी नाद थते सामैयुं लइ सामा आवता, मोटी मोटी प्रजावनाउं करता, अने एक चित्तथी ज्ञान सांजलता, स ज्ञाने विषे महोटा महोटा राजवंशीउं पण नमृतार्थी वादवा आवता; अने सर्व कोइ अमृतमय देशना सानली पोत पोताना पुण्योदय प्रमाणे लान मेखवता हता. पोते पण साधुपणाना छप्कर परिसहो समताज्ञावथी सहन करता, यथोचित विचरता, पोताना ज्ञान ध्याननी वृद्धि करता हता, अने ज्ञव्यजनोने हितकारी, जैनदर्शननी स्याद्वाद शैलीवडे आत्म उपयोगने



करनारी देशना सञ्जाजनोने देता हता

संवत् १९११-१२ मा गुजरातना मध्य विनागमां श्रमदा वाद विगरे शहेरोने विपे तथा संवत् १९१३-१४-१५ मां पादरा शीनोर, वेजलपूर, ज़रुच, सुरत विगरे स्थलोए विहार करी घणा ज्ञव्यजनोने प्रतिबोध आप्यो.

संवत् १९१५ नी सालमा विध्याचल पर्वत उपर रही ज़ारे तपश्चर्या करी हती ते जग्या घणीज नयकर अने त्या केवल वाघ वरु आदि प्राणीजनोज वास हतो, कोइ माणस नूले चू केज त्या जवा पामतु, वैर्यवान माणसनुं शरीर पण मोटी मोटी वाघनी गुफाज जोइ कपायमान थतु, हिंसक प्राणीजना शब्दोवडे तेनु हृदय ठीझिद थतु, विस्तीर्ण गगनगामिन वृ क्कोना सयोगोवडे सदाय अथकार रहेतो, जेथी कृणे कृणे पोता ना जीवितव्यनो सशय पडतो एवा नयकर वनमा महुडीना वृकनी ठाया नीचे एक गुफामा ध्यानारुढ थई निमरपणे रहे ता कोइ कोइ दिवस ठेटेना गामे जइ एकज पात्रमा आहार पाणी करी, गुफाए जइ पोताना कर्तव्यमा स्थिर थता आवा वखतमा अलौकिक ज्ञाननो अनुभव करता आ तपना प्रनाव वडे कोइ पण वाघ वरु आदि प्राणी महाराजने तो उपद्रव करी शकतुज नहीं, परतु त्या जबल्ले कोइ महा धैर्यवान माणस महाराजना दर्शन करवा जतो, तो ते पण तपना अनिश्यवडे निर्विघ्ने पाठो फरतो, ए वात एक आश्चर्य कारक हती. जे महुडी ना वृक नीचे पोते तप कखो हतो ते महुडीनु नाम आजे पण बावानी महुडी कहे ठे हालमा ते जग्याएथी घणु खरु वन क पाइ गयु ठे व्याघ्रादिकनो नय घणोज कमी थइ गयो ठे, तो पण काचा हृदयना माणसथी त्या जइ शकतु नथी, एवा न यंकर वनमा रही ध्यान करवु, ए धर्मनी दृढता सूचवे ठे; धर्मने

विषे पक्की दृढता विना एवे स्थले ध्यान थइ शके नहीं

संवत १९१६-१७ नी सालमा वनोदरा, मीआगाम, सी नोर, आमोद, जंबुसर, अने नरुच विगेरे शहेरोमां नव्यजनोने प्रतिबोध देइ सुरत पधास्था.

आ वखते अमठावादथी सुरत सुधीना प्रदेशमा तो जैन दर्शननी घणीज न्यूनता थएली हती, कारण के आगला जूल मी राज्याधिकारीतना जूलमो वडे लोकां धर्मथी चूकी पोतानी माल मिलकतोना रक्षणमां तथा पोताना जरण पोपणमांज म च्या रहेता. तेथी केटलाक माह्या पुरुषो धर्मना कारणेज धर्म मानीने वेठेला, अने केटलाक माह्यामा गणाता अज्ञानी जनो आचारनेज धर्म मानीने वेठेला, वली केटलाक तो जैन नाम घरावतां ठता पण धर्मथी तदन अजाण अने हीनाचारी हता तेवाने सत्यधर्मनी श्रद्धा कराववी ए काम कंइ सहेल नहोतुं. परंतु जेना हृदयमा परोपकार वृष्टि रमी रही ठे, एवा हुकुममु निजी महाराजे महा कष्ट सहन करी विहारमा ग्लानीपणुं न पाम ता ग्रामानुग्राम विचरी ज्ञान दान देवामा कचाइ राखी नहीं. परोपकार वृष्टिना प्रभाववडे नव्यजनोने हितकारक जैनधर्मनी स्याद्वाद शैलीए करी युक्त वीतराग परमात्माना वचनोनु यथार्थ अवलोकन रूप पूर्वाचार्योनी शैलीद्वारा क्रमानुगत धर्मदेशना देइ बोधनी वृद्धि करी, जेथी घणा नव्यजनोनुं अज्ञान दूर थयुं केटलाक महानिंदनीक आचारवालां पण प्रशस्त आचारवाला वन्या, केटलाकने धर्मनुं यथार्थ रहस्य समजायुं

संवत १९१७ नी सालमा सुरत शहेरना संघना आग्रहथी चोमासु सुरत शहेरमाज रह्या. त्या दररोज उपाश्रये व्याख्यानमा घणुं माणस जेगु थतुं. महाराजनी देशना साजली नव्यजनो शातरसथी इवित थइ जता, अमृतमय देशनाथी आखुं.

शहरे राजी राजी थइ रह्यु जाविक आवकोए अनहद नक्ति कर  
वा माडी, दररोज प्रजावनाउ थया लागी, एवी रीते सुरत शहे  
रमा जैनधर्मनी जयघोपना वागी रही, थने आनंदमय चोमा  
सु वीती गयु

त्याथी पाठा फरता नरुच थइ घणाक गामोमा विहार करी  
उपदेश रूपी दान देता आमोद पधाख्या संवत १९१९धी १९२५  
सुधीमा नरुच, आमोद, हणखी, जवुसर, सीनोर विगेरे शहेरो  
तथा घणाक गामडामा उग्रविहार करी घणोज प्रतिबोध कख्यो  
जेने अनेरु नयनुं जाणपणु थयुं ठे, इय गुण परजायने विपे  
जेनु चित्त रगाणु ठे, प्रमाण, निद्वेषा, सतजगी आदि अनेरु प्र  
कार जेना विचारमा समाया ठे, एवा निश्चय व्यवहार, इय जा  
वना ज्ञाता, हुकुममुजिजी महाराज नव्यजनो उपर करुणाना  
व लावी गुर्जरनापामा वालजीवोने समज पडे एवा सरल श  
ब्दो वापरी अध्यात्म ज्ञानथी नरपूर निश्चय व्यवहार रूप स्या  
छाद वाणीवडे ज्ञानना जंरार रूप ग्रथो रचता हता आ प्रवास  
मा पण सारा सारा ग्रथो वनाव्या हता, जेवा के ज्ञानविलास,  
ध्यानविलास, तत्वसारोद्धार, मिथ्यात्वविध्वसन, अध्यात्मसारो  
द्धार अने बोधदिनकर विगेरे

संवत १९२६ नी सालमा गोधरा, वेजलपूर तरफना मुग  
रमा रही तपस्या करी ए जग्या पण घणा जाडो तथा खीणोथी  
नरपूर ठे ज्या व्याघ्रादिक शिकारी पशुनुंनी गर्जनावडे आखुं  
वन गाजी रहेतु, एवा जयकर वनमा रही, पोते आहारनो त्याग  
करी ध्यानारुढ थता, आवा निर्जन जंगलमा उत्कृष्ट ज्ञानानु  
भव करवा महाकष्ट वेवता, अने ते कष्टनेज परम सुख मानता,  
त्या महाराजना दर्शनना अजिलापी पुरुषो वनवासीजनोनी स  
हाय्य लेइ दर्शन करवा जता, ते लोकोने व्याघ्रादिकनो जय लागतो



पण पोतानुं उपदेश रूपी दान अखंनित हतुं, लेनारनी योग्यता मुजव आपवा चूक्या नथी.

पोतानी आखी उम्मर परोपकारार्थे ( उपदेश देवामा तथा ग्रंथो रचवामा ) अने धर्मसाधनमा गाली उपदेश आपती व खते सर्व सजासदो तरफ पोते वरोवर लक्ष देता कोइने जे विषय वरोवर न समजायो होय, ते विषय तेने घणी तरेइथी समजावता, अने वारवार पूठता के, तमने वरोवर समज पडी ? ज्या सुधी तेना मनमा वरोवर रीत ना ठस्युं होय, त्या सुधी तेने घणा दाखजा दलीजो आपी समज पाडे, घणो वखत जवा ठता अने घणो परिश्रम पडश ठता पण कटाजे नहीं, तेना मनमा वरोवर ठसे त्यारेज पोताने जप बले

जैनधर्मना स्याद्वाद मार्गनी कुची महा विषम ठे, ते यथास्थित समजवुज मुश्केल ठे, तो समजाववु मुश्केल होय तेमा नवाइ शी ? हरेक वातमा पोत ना ज्ञान प्रमाणे मथन करवा चूकता नहीं. आवी रीते खुलासा सहित समज पडवाना कारणथी घणा घणा माणसो पोताना सदेहोना खुलासा करवा प्रश्नो करता, अने तेजना संतोपकारक जवाव मलवाथी सशयो नाश पामता जैनदर्शन शिवायना बीजा अन्यदर्शनीजना पण महोटा पमितो तथा सद्गृहस्थो वारवार महाराजना मुकामपर आवता, अने पोताना मनना सदेहो प्रमाणे प्रश्नो करता, तेजो कोने पण घणी सारी रीते तत्वज्ञाननी श्रद्धा करावता. जैन दर्शनना अद्भूतज्ञान साथे बीजा दर्शनोनु पण ज्ञान घणी सारी रीते होवाथी अन्यदर्शनना माणसोनी पण प्रीति घणीज मेळवी हती अन्यदर्शनीयोमाथी केटलाक तो वादविवाद करवा सारु पण आवता ए वाद विवादमा ए महात्मानु ज्ञान, दाखला दलीजो आपवानी अपूर्व शक्ति अने स्वपद मरुनता तथा परपद खरुनता

नुं बल, बली स्वपक्षनुं सिद्धपाणुं ते प्रतिपक्षिना मनमां उत्तारवानी  
 अन्नतशक्ति इत्यादिथी सन्नाजनो सानंदाश्चर्य पामता तेमा प्रथम  
 तेणे श्रंगीकार करेला धर्मनु तेज धर्मना प्रमाणो वडे विरुद्धता  
 दर्शावी खंमन करता, अने पठी जैनधर्मना तत्वज्ञाननी श्रद्धा  
 करानता जे प्रतिवादीनु निष्कपटपणे कबूल करता.

स्थिरवास—पोतानी ६७ वर्षनी उम्मर अतां सुधीमां मोटी  
 तपस्यानु करी, तथा उग्रविहार कस्यो, परंतु त्यार पठी जंघाबल  
 घणुज क्षीण थयुं, तथा घणा श्रमथी श्रमीत थएला, घणा उपसर्गो  
 सहन करेला, एवा मुनिने अपवादे स्थिरवास सेववो पढ्यो

सवत १९३७ थी सुरतमा गोपीपराने उपाश्रयेज रह्या  
 आ वखते जंघाबल क्षीण थयु हतुं खरुं, परंतु तेमना मुख क  
 मननी काति अने उपदेशदान क्षीण थया नहोता. हम्मेश  
 व्याख्यान वे वखत वाचता, परंतु आखो दिवस अने रात्रिना  
 दश वागता सुग्री ज्ञानचर्चा चाढ्या करती. देश परदेशना सं  
 ख्याबंध लोको स्वधर्मी तथा परधर्मीनु महाराजनी पासे उपदेश  
 दान लेवा आवता, तेमने पोते उदारचित्तथी धर्मलाज देता.  
 “धर्मलाज ” शब्द मोठे रुहीनेज बंध रहेता एम नहीं, परंतु ए  
 शब्दना तात्पर्यार्थ प्रमाणे धर्मनो लाज तेने उपदेशद्वारा थयो  
 के नहीं, तेनी वारीकीथी तपास करता अने पोताथी वनता  
 प्रयत्ने ते लाज खरेखर करवा चूकता नहीं.

केटलाएक परदेशी महाराजना आश्रित थावको महा  
 राजनी समीपे महाराजना मुखथी उपदेश साजलता, अने  
 पोते घेर जाता, त्या गुरुनी जोगवाइ न होवार्थी पूर्वाचार्यो कृत  
 ग्रंथो वाचता; तेमा जे जे स्थजे समज न पडे; तेवा वाक्योनुं  
 लिष्ट उत्तारी मूकता, अने फुरसदना वखते महाराजना समीपे  
 दश पंदर दिवस रही तेना बराबर खुलासा मेलवता. एवा पर

दृशी लोकोने महाराज वधारे विवेचन साथे समजावता, अने ते लोकोनी वरदाश सुरत शहेरना चाविक गृहस्थो घणी सारी रीते करता

घनवान अने निर्धन सर्वने समानजावथी जाता, अने उपदेश पण समानताथीज करता, कोइनो पक्षपात अथवा विपमजाव नहोतो व्याख्यान वखते दररोज सारी रीते माणसो जेगा थता, परंतु पर्व तीथीजए तो घणीज सजा जराती, जेथी महाराजना आगज अद्वतना साथीआ उपर श्रीफल, फोफल अने वदामोनो पार रहेतो नहीं वली वदाम, पतासा विगेरेनी परजावनाज पण वारवार थती, ते जोशने अन्यदर्शनीज पण चकीत थता ।

व्याख्यानमा वेसनार सजासदीनो दिनय, सज्यता अने वेसवानी रीतीज, घणीज वखाणवा लायक हती. केटलाक श्रावको तो उत्तम श्रोता पुरुषोना लक्षणे सयुक्त हता

महाराजनी वृषावस्थामा पण पोते उपवासादि तपो करता ज्ञानीना तपनी रीतीज पण विचित्र होयठे, कोई वखतना तपनो नियम पण रहेतो नहीं, पाच, दश, अगरे पंदर दिवसे ज्यारे नजरमा आवे त्यारे आहार लेता तपना वखतमां को ३ दिवस ग्लानीपण जणातु नहोतु, हम्मेशनी माफक उपदेश दाम देता

माणस मात्रने पोताना कर्मोदय प्रमाणे रोगनो जय रहे लो ठे, ते प्रमाणे एमनी उपर घणीवार रोगोए हुमलो करेलो, परंतु कोइ दिवस कोइ पण रोगनुं औपघ पोत कराव्युं नथी. घणी वखत श्रावको औपघोपचार करवानी प्रार्थनाज करे, परंतु पोते एवो जवाव आपता के " ए वेदनी कर्मनो उदय ठे, महारुं पूर्वकृत कर्म महारेज जोगववु पडशे, जोगव्या विनां

बूटवानुं नथी, एनी स्थिति पूरी अशे त्यारे औपधोपचार नहीं करी ए तो पण एनी मेलेज एरोग नाश पामशे. माटे औपध करवा नी कंइ जरूर नथी." ए प्रमाणे घणीज रीते समजावी कोई दिवसे औपधोपचार कस्यो नथी, अने थएला रोगो राग छेप रहित पणे प्रत्यक्ष जोगवता हुता एवी दृढता बीजे स्थले ज्ञान्येज जोवामां आवशे.

एमनुं ज्ञान तथा उत्कृष्ट प्रवर्तन जोई केटलाक जण क हेता के आपनुं ज्ञान अगाध ठे अने प्रवर्तन घणुंज छुप्कर ठे. तेजने पोते जवाब देता के "महारामा ज्ञान ठेक अल्प ठे, अने वीतराग परमात्माना जापेला सिहांतो प्रमाणे विचारतां महा रा प्रवर्तनमा प्रत्यक्ष घणा दूषणो जणाय ठे, जे कोई मुनिराज दूषण रहित वर्ते ठे तेमने धन्य ठे" इत्यादि स्वगुणनी लघुता प्रसंगोपात पोते देखाव्या विना रह्याज नथी.

महाराजनी पासे दीक्षा लेवानो विचार कोई सखस ज एावे, तो ते पुरुष शास्त्रोक्त रीते दीक्षाने योग्य ठेके नहीं? तेनी बारीक रीते तपास करे, बाह्यगुणे योग्य जणाय, तो पण तुरत तेने दीक्षा आपे नहीं. घणो वखत पोतानी पासे राखी, सुवर्ण परिक्षानी पेठे क्रिया रूप तापे तपावे, तेमांथी तेना परिणाम न टके तो दीक्षा आपे नहीं, परंतु महारे शिष्य रूप सपदा थशे एवो विचार मनमां जावता नहीं. कारण के शास्त्रमा वैराग्यना घणा नेद कहेला ठे, ते माहेला दुःखगर्जितादि अज्ञानदशानो वैरा ग्य घणो काल टकतो नथी, अने अते चारित्र्यी ब्रष्ट थाय ठे; तेथी आत्मगुणनी हानी अने परदर्शनमां पण हासी थवानो संभव रहेठे.

इत्यादि महाराज श्रीना गुण गणनु वर्णन कोइथी पण थइ शके नहीं. परोपकारार्थे उपदेश देवामा निरुर पणे कोइनी पण स्पृहा राखी सत्य वात ठूपावे नहीं, निस्पृहि, शूरवीर, अ



कंचनी इत्यादि सङ्गुणो तो बारवार दीपी धावता, अध्यात्म विषयनुं ज्ञान मदा अन्नूत हतु, अने अनुभव युक्त सनवतुं हतु.

घणा खरा वचनो महाराज सहजजावथी वोलैला, ते वचनो वचनसिद्धि मुजव साचाज पडैला, अने तेनो जान के टलाक रोगी माणसोए लीधेलो ठे, जे माणसो रोगमा बहुज ड खी हता, ते महाराजना वचन जानधी निरोगी थइ घेर ग एला, परंतु एवा वचन क्वचित्तज नीकलता इत्यादि महाराजनु यज्ञनामकर्म उत्कृष्ट माझम पडतुं हतु

शरीरनो मजबूत बाधो, साधारण मध्यम कटनुं उचपण, सुवर्णने मलतो शरीरनो वर्ण, पहोलु कपाल, अने विस्तीर्ण चकु इत्यादि सुंदर देखाव वडेज पुण्यशाली पुरुष ठे एम कल्पना थती हती शत्रुजाव राखवानी इच्छावाला पुरुषने पण सामुं जोता शत्रुजाव वीसरी जतो, एवी महाराजनी तेजोमय आकृति हती.

कोइ कोइ वखते महाराजश्रीनी समीपे बहु चमत्कारी वनावो वनता के जे वनावो देव सहाय्यमां होय तोज वनी शके एवा हता वली केटलाक जणनु कहेवुं पण एमज ठे के, महा राजनी सहाय्यमा केटलाक देवो हता

श्री हुकुममुनि महाराज कृत ग्रंथो-पोते सूत्र सिद्धतमाथी तत्वदोहन करी वादजीवोने समज पडे तेवी सरल जापामा ज्ञानना चमत्कारूप घणा ग्रंथो रचैला ठे जेने विपे स्याद्वाद शैलीधी निश्चय व्यवहारद्वारा जैनसिद्धतोनुं रहस्य दर्शाव्युं ठे, अने अध्यात्मज्ञानधी इद वाली ठे, तेमाथी केटलाक ग्रंथोनुं नाम तथा ते विपे टूक हकीकत नीचे प्रमाणे ठे.

(१) सम्यक्तारोक्षर-एना सारनी वलिपता देखाडी ठे (२) धारमा निन्दवतुं स्वरूप, जीवनी

वे, (३) द्वारमां समकितना अनेक जेद सरलताथी देखाळ्या ठे. तथा समकितना लिंग, विनय, शुद्धि, लक्षण, जतना, आगार, ज्ञावना, स्थानक, रुचि विगेरे घणो उपदेश आवेलो ठे (४) द्वारमां देवतत्वनी उजखाण, प्रतिमा तथा पूजाविधि, दश त्रिक, अजिगम, आशातना, देव वादवानी विधि विगेरे घणी वात ठे. (५) द्वारमां गुरुतत्वनी उजखाण, तेमां गुरुना गुण, तथा आचार विगेरे अनेक विचारथी नरपूर ठे. (६) द्वारमां धर्मतत्वनी उजखाण तेमां जीव तथा अजीवना जेद तथा तीर्थयात्रा विगेरे अनेक वार्ता वतावी ठे. (७) द्वारमा ए तत्वनी सद्ब्रह्माणु फल तथा आर्त रौद्र विगेरे ध्याननुं स्वरूप वताव्युं ठे, अने वैराग्यनुं स्वरूप पण कह्युं ठे. ए विगेरे अनेक वावतोथी नरपूर एग्रथ ठे. ए ग्रथनी श्लोक संख्या सुमारे २५०० ठे.

(८) ज्ञानविलास—ए ग्रंथ पद्यबंध ठे एने विपे पट्झव्यनी वार्ता तथा दरेक ड्यने नय, निकेपा, पक्ष, प्रमाण, कारक, सप्तजंगी, चौजंगी विगेरे लागु करी विस्तारे स्वरूप वताव्युं ठे. तथा पटदर्शननी चर्चा विगेरे अनेक रीते करीने ड्यनुं स्वरूप उजखाव्युं ठे, एने विपे ज्ञव्य, अज्ञव्य, ज्ञव्याज्ञव्यनुं स्वरूप तथा नयना जेद सारी रीते देखाळ्या ठे. श्लोक संख्या सुमारे २००० ठे.

(९) तत्वसारोक्षर—ए ग्रंथने विपे तत्वना घणा जेद देखाळ्याठे, तेना रूपी, अरूपी, विनाग कख्या ठे अजीव तत्वमां ए तत्वना ५६० जेद विगेरे वावतो ठे आश्रवतत्व तेमा मिथ्या त्वना जेद, तथा अव्रतना जेद, २५ कप्रायनुं स्वरूप, ५७ जेदे आश्रवनुं स्वरूप विगेर घणी सारी रीते वताव्युं ठे पुण्य तथा पापतत्वमां १२० प्रकृति, तथा २० स्थानकनी वात विगेरे पणु स्वरूप ठे. बधतत्वने विपे पण घणी हकीकतठे जीवतत्वमा तेना अनेक जेद तेने उपजवाना ठेकाणा, आनखुं विगेरे घणी

વાવતોનો સમાવેશ છે. સવરતત્વના જૂદા જૂદા વોલ વિગત સાથે જણાવ્યા છે. સયમના જેદ તથા વાર જાવનાનું ઘણી લંવાણથી સમજાવી છે, જે ઘણીજ અસરકારક છે નિર્જરા તત્વમા વાહ્ય તથા અન્યતર તપ વિગતવાર વતાવ્યા છે, તથા ઘણા પ્રકારના તપની રીતી વતાવી છે મોક્ષતત્વને વિષે ઘણી ચર્ચા છે એવી રીતે ઘણીજ વાવતોથી ઝરપૂર એ ગ્રંથ છે. શ્લોક સંખ્યા સુમારે ૩૭૦૦ છે

(૪) જ્ઞાનજૂપણ—એ ગ્રંથ પોતાનુજ રચેલુ ૨૧ ગાથાનું જ્ઞાનનું સ્તવન તેની ટીકા કરીને વનાવ્યો છે જેને વિષે જ્ઞાનના અનેક તરંગોનો સમાવેશ કસ્યો છે એના વિજ્ઞાગ તથા વર્ણન ધર શકે એમ નથી એ ગ્રંથની શ્લોક સંખ્યા સુમારે ૫૦૦૦ ની છે

(૫) હુકમવિલાસ—એ ગ્રંથ પદ્યવંધ છે જેને વિષે (૧) અધ્યાત્મચોવીશી, (૨) જ્ઞાનવિચારસાર ગ્રંથ, (૩) પચ કલ્પ્યાણ કની પૂજા, (૪) મૃગાપુત્રની સજ્ઞાય, તથા ઘણાક ચૈત્યવંદનો, સ્તવનો, ધ્યોયો, ગુહલીન, લાવણીન, પદ, ફાગ, હોલીન, રાગના પદો, વિગેરે રસીક અને અધ્યાત્મજ્ઞાની છે એ ગ્રંથ ઘણોજ જ્ઞાન મય છે, અને તે સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે કે એ ગ્રંથ મધ્યેનુ એક જ્ઞાનનુ સ્તવન જે ૨૧ જ ગાથાનુ છે, તે ઉપર ટીકા કરી ૫૦૦૦ શ્લોક સંખ્યાનો ગ્રંથ વનાવ્યો છે એવા ગૂઢ જાવાર્થો એ ગ્રંથને વિષે રહેલા છે, એ પદ્યવંધ ગ્રંથની શ્લોક સંખ્યા સુમારે ૧૭૦૦ છે

(૬) આત્મચિતામણી—શુદ્ધ અને અશુદ્ધ સ્વરૂપની ઝલ ઝાણ કરાવીને શુદ્ધને ગ્રહણ કરવાનો ઉપદેશ છે. તથા નયના વાવન જેદ વિગેરે ઘણી હકીકત વતાવી છે. શ્લોક સંખ્યા સુમારે ૧૩૦૦ છે

(૭) પ્રકૃતિપ્રકાશ—એ ગ્રંથને વિષે પરિણતીનો વિચાર ઘણો છે. રાગ દ્વેષથીજ કર્મ વધાય છે, વિગેરે ઘણી અજ્ઞૂત વાવતો છે શ્લોક સંખ્યા સુમારે ૧૦૦૦ છે.

(६) पदसंग्रह—ए ग्रंथ पद्यबंध ठे. एमां विविध पद तथा गहुंलीउ विगेरे ठे. श्लोक सख्या सुमारे ८०० ठे.

(७) ध्यानविज्ञास—एने विपे आर्त रौद्रिक चार ध्याननुं स्वरूप, पदस्थ प्रमुख बीजां चार ध्यान अने चार जावना विगेरे घणी विगतथी समजाव्युं ठे

(१०) मिथ्यात्वविध्वंसण—इत्य जाव निश्चय व्यवहारथी तथा नास्तिकना विवादमां जीवनुं स्थापन कखुं ठे. जीवना आठ स्वजाव, नयना १८ जेद, विगेर घणी सारी रीते दर्शाव्युं ठे.

(११) अजाव प्रकरण—चार अजावनुं स्वरूप विगेरे दर्शाव्युं ठे.

(१२) अनुभवप्रकाश—एमां शुद्ध स्वजाव बताव्यो ठे.

(१३) अध्यात्मसारोद्धार—निश्चय नय रीते आत्म स्वरूप पामवानो बोध कखो ठे

(१४) बोधदिनकर—एमां सप्तजंगीनुं स्वरूप, तथा यशो विजयजी महाराज कृत अध्यात्मसार ग्रंथ मध्येना योगाधिकार माथी ४२ श्लोकनी टीका विगेर ठे.

(१५) चिदानंदवत्रीशी—एमां चेतनने अनेक रीते शिखा मण दीधी ठे, ते विविध रागनां पद ३२ मां ठे.

(१६) रागमाला—जूदा जूदा रागमां गवातां ४७ पद ठे. एमां देवचंडी कृत नयचक्र ले जैनधर्मनुं स्याद्वाद रहस्य समजवानी एक कुंची रूप ठे. तेमांना इयानुयोगनी घणी खरी व्याख्या ए पदोमा करेली ठे

(१७) सिद्धनी पंढरढाल—सिद्धना पंढर जेद विगतथी बता वी स्त्री मोक्षे जवा संबंधी चर्चा करी ठे.

(१८) मित्रपरिक्षा—एमां सिद्ध परमात्मा तथा शुद्ध उपयो गनी मित्रता बतावी ठे. ते विगेरे बीजो पण उपदेश ठे.

(१९) सिद्धतसारोद्धार—निश्चय तथा व्यवहारनुं स्वरूप

जणावी निश्चयनी मुख्यता करी ठे

(१०) मनोरथजावना—श्रावक त्रण मनोरथ घारे ते विग  
तवार जणाव्युं ठे.

(११) वास्तुकपूजा—एमा वास्तुकना जेद, ब्राह्मणादिकनी  
क्रियानो त्याग, जिनराजनी पूजा विगेरे ठे

(१२) अध्यात्मउन्नुवी—उन्नु गाथाए करी अध्यात्म उपदेश ठे

(१३) अमरतेज मुनिनी सझाय, एमा कर्मनी विचित्र  
गति जणावी ठे

(१४) सतस्वरूप पंचाशी—पचाशी गाथाए करी, छव्या  
नुयोगनो तथा परचुरण उपदेश करेलो ठे

उपर लखेजा ग्रंथो नाविक श्रावकोना उदार आश्रय तले  
ठपाझे तैयार थएजा ठे जे वाचवापी जव्य जनोने अतुल्य लाभ  
धाय ठे अने थशे इत्यादि घणा ग्रंथो वनावी जव्य जनोने उप  
कार कख्यो ठे

आज तेमनुं उपदेशदाता प्रसन्न वदन क्याय गयुं ठे? ते  
जणातु नथी, परतु ग्रंथो रूपी वदन जव्य जनोने निरतर उपदेश  
दान दे ठे तेमज हमणा तेमनी वर्तमान ज्ञापा लय पामी ठे,  
परंतु अतित ज्ञापा जव्य जनोनी वर्तमान ज्ञापाने प्रवर्तवि ठे

स्वर्गवास—सवत १९४८ ना आसो महिनामा पोते उप  
वासनो आरज कख्यो, केटलाक उपवास थता मोढामा मुखपाक  
थयो, परतु पोते पारण कख्यु नहीं

धवा माड्युं, श्रावक लोकोए औ  
आग्रहथी कह्यु, परतु पोते

वजलनुं पोतुं पण मूकव  
ना कारतक वदि ? सुधी

पण वध थयु, पोते केटजा

दरद व  
घणा  
गला

गल कहेलुं नहोतु, परंतु मरण पर्यंत पारणुं कखुं नहीं.

आ मंदवाडना वखतमा पोते कोइनी पासे पण अग्रमाथुं सरखुं पण दवाववा देता नहीं. ज्यारथी पोते उपवास चालु कख्या त्यारथी उपदेश एकज वखत देता, अने वाकीनो वखत पोताना ज्ञान ध्यानमां गालता, ज्यारथी मुखपाकनुं दरद वध्युं, त्यारथी उपदेश देवो तदन बंध कख्यो. परंतु दरदनु छ ख थाय ठे के नहीं, ते कोइ जाणवा पामता नहीं. कारण के पोते इम्मेश मुजव वात चित करता, तेमज कोइ दिवस उंहकारो सरखो पण करता नहीं तात्पर्य ए के पोते वेदनीकर्ममा लेपाता नहीं.

बोलवु वध थया पठी म्हारी उपर एकपत्र मि० ताराचंद हेमचंदनो लखेलो आव्यो महाराजना मंदवाडनी खवरथी हुं तथा बीजा चार पाच धर्मस्नेहीउ श्रमे सुरत गया. त्यां जइ महाराजने वंदन करी एम सर्वे वेठा. बोलवुं बंध थएलुं, अने अतकाल नजीक ठे, एवा चिन्ह जणायाथी अमे सर्वे घणा दि लगीर थया. महाराज संबंधि खबर पूठवाथी जणायुं के आसो मद्दिनाथी महाराजे उपवासनो आरंभ कीघो ठे, अने ते हजु पण चालु ठे, केटलाकनुं कहेवुं एम पण हतुं के महाराजे अण सण कख्यु ठे, पठी तत्व तो केवलीगम्य, परंतु मरण पर्यंत पारणुं कखुं नहीं, ए वात तो नक्कीज ठे.

अमे गया पठी एक जणो मुखनी शीतलताने मोटे साक रनुं पाणी मुखमा रेडवानो विचार कख्यो, परंतु ते वात पोताना जाणवामा आव्याथी इशारत करी ना कही इत्यादि पोतानुं शारीरिक तथा मानसिक ज्ञान अत सुधी जेवुने तेवुंज अखंमित रहु इतुं, कारतक वदि १० जोमनी रातना ए वागतां श्वासनो उपाड विशेष जणावा लाग्यो, अने अतकालना चिन्होए संपर्ण देखाव दीघो, आ वखते उपाश्रयमा घणा माणसो जेगा थया

हता, श्री मोतीमुनि ए पण पोतानुं कर्तव्य समजी यथाशक्ति ज्ञानोपदेश कख्यो, त्यार पठी १० वागतां श्री श्री हुकममुनिजी महाराजना ज्ञानी आत्माए, ३९ वर्षनी वये ३३ वर्ष गृहस्था वासना सुख जोगवी, ४६ वर्ष दीक्षापर्यय पाली, आ वृद्ध देहनो त्याग कख्यो

आ त्रासदायक समाचार वायुवेगे आखा शैहेरमां प्रसख्यो, ओताजनोना हृदय धरथरवा लाग्या, भतःकरण ठिन्निद थयां, खवर साजलता वारने सर्व उपाश्रय तरफ दोड्या, केटलाके कां लने जंजंनो देवा माड्यो, थरे छष्ट काल तें आ शुं कख्युं। अमारा प्राणनो आघार, जव्यजनोना सुखनो दातार, धर्मनो धोरी स्तंज, स्याद्वाद शैलीनो जाण, शुद्ध प्ररूपक, नीरुखीर तें क्या गुम कख्यो। बीजो वोड्यो, रे। आपणने पूत्र समान गणी धर्मदेशना दे, वारवार पूठवार्थी पण न कंटाळे, घणो श्रम थवा ठता पण देशनामां न थाके, एवा वीर पुरुषनु वीरतत्व क्कणमा क्यां गयुं? परदेशीजमार्थी केटलाक वोड्या के, आपणे ज्ञानोपदेश साज लवा हरसाल सुरत आवता, केटलाक दिवस रही मनमा उ त्पन्न थएला प्रश्नो खुलासो मेलवी, यथायोग्य धर्मोपदेश सा जली शात चित्ते घेर जता; एवी रीतनो खुलासो हवे बीजेथी केम मलशे? एवी रीते घणा जनोना घणीज दिलगीरी उत्पन्न करे एवा अगणित पोकारो चारे दिशार्थी थवा मांड्या

आ वखते घोर अघारी रात्रि काल जेवी जयंकर लागती हती सूर्य, चडे पण आ मर्मछिद् घनाव जोवो न पडे, एम घारी अन्य स्थले वास कख्यो होय, एम जणातुं हतु सर्व कोशने उंघवा नो वखत हतो, परतु महाराजना वियोग रूप शोके आकूल व्या कूल कीघा, जेथी सर्वे जणे उंघनो तिरस्कार कख्यो आखा सुरत शैहेरमा का जैनधर्मीज के का अन्यदर्शनीज सर्वे कोइ महारा

जना स्वर्गवासना शोकधी लीन थया, परंतु कोई प्रकारनी रड कूट इया उंचे स्वरे रुदन संनलातुं नहीं. शोके ग्रहित हृदय इवीत थइ शात रीते चहु गलता.

एज समयने विषे केटलाक सुइजनोना चित्त गुरुज्जक्तिने विषे तत्पर थया, सारा हुंशिआर घणा सूतारने बोलावी, सारां सुगंधीदार काष्टना पाटीया लावी, सिंहासन रूपे शिविका तै यार कराववा मांडी; कापडीआनी डुकानेयी घणां मूळ्यवान खरा जरीना कापड खरीद करी, चतुर दरजीउने बोलावी, शि विकानी माफक शीववानुं काम शरु कराव्युं; सोनानां तथा रूपानां फूल तैयार करवा सोनीने सूचना करी, विगेरे पोत पो ताने अनुकूज कार्य करवा मंढी पढ्या. केटलाक जणे ए महा त्माना पवित्र देहने पवित्र जले स्नान करावी, केशर, चंदन, बरा स, अत्तर, कस्तूरी विगेरे सुगंधीदार इव्ये करी लेप कस्यो; पठी कास्मिरी शालजोटादि मूळ्यवान वस्त्रोवडे शरीरनी विचूपा करी.

बुधवारे बपोरना ११ वागतां तैयार करेली अत्युत्तम, खरा जरीना कपडे लपेट करेली, विद्युत् माफक चलकती, कलशोए करी संपूर्ण शोचनीक, अने बेसवानी गादीए करी सहित, शि विकाने विषे महाराजने पथराव्या. ते जगोए महाराजना स द्गुणोए करी आकर्षित थएलां ठे चित्त जेनां, तेवा हजारो माणसोनी जारे ठठ, शेठ, शाहुकार, ब्राह्मण, कृत्री, कारीगर, अने राज्याधिकारीउ विगेरे अढारे वर्णना लोकोनी मली हती. एवी रीते आ शोकस्वारी बजार मध्ये नीकली. उपाश्रयथी ते शेदेर बहार जतां सुधी बने बाजुए माणसो अखंम हारवंघ छ जेजां भाजम पडतां हतां. तेउ थकत पुष्पादि वडे वधावतां, प्रणाम करतां, शोक जणावतां हतां. नाविक श्रावकोनां पडा वेलां सोना रूपानां फूलो तथा



नाणा वडे तो वधाववानुं चालुज हतुं अने पैसा वदामोनो तो सुमारज नहोतो. पढवाडे केटलांक गाडां अनाजना जरेलां, अने केटलाक गाडा चणा, ममराना तथा लाडु वरफीवाला हता ए सर्वे दीन छुःखी लोकोने छूटथी दान देता हतां केटलाक जण गाडामा जरेली चादरो विंगेरे वस्त्रो छुःखी लोकोने थापता हता. अने केटलाक गाडामा घास जरेली ते ढोरोने नाखवामा केटला क जण रोकाएला दता. एवी रीते दान देती आ शोकस्वारी व जारमा चाली शिविका उपाडनार ववे मगलां पण स्कंधे लेवा पामता नहीं, कारण के गुरुजक्तिने विपे सर्वे कोशना चित्त हता.

शिविकामा विराजमान थएला महात्मानी तेजोमयमूर्तिं जाणे मौन धारण करी स्वध्यात्म अनुभव करता परने पण सूचना करती होय। के मौन धारण करी आत्म अनुभव वडेज सर्वथा सिद्धि वे, एवा उपदेशे करी सहित दीसवा जागी अनुक्रमे जय जय नंदा, जय जय नंदाना शब्दे करी आकाश गाजी रह्युं. अन्यदर्शनीठ पण आ जक्तिनाव जोइ सानदाश्चर्य पान्या आ वरघोडा रूपे शोकस्वारी पूरवासी जनोने आनंद तथा शोकमा गरक करती, शेहेर वहार विस्तामा स्थले आवी विश्राम कख्यो आ विश्राम स्थले कोइ पण साधुइआ बीजा कोइनी पण शिविकाना लपेट कपडाने घणा लोको मली चूरे चूरा करी हरण कख्या विना रह्या नथी, परंतु केटलाक घणा दाववाला आ वकोनी लावण्य तथा शरमवडे कोइ पण उचो हाथ करी शक्या नहीं जेथी ते घणा मूढ्यवान जरकसीना कपडानु उपजे लुङ्ग्य पाजरापोलमा परोपकारार्थे अपायु अनुक्रमे अश्वनिकुमार गया, ज्यां चंदनादि सुवासित काष्टनी चय तैयार करी मूकेली हती, त्या जइ अग्निसस्कार कख्यो, अहिया सर्व जणने शोकनी सीमा रद्दी नहीं पठी गलते लोचने सर्वे जण पोत पोताने घेर

गया. आ माग समाचार देशांतरमा फेलातां घणां गाम-तथा शेहेरो तरफधी अफशोशना तार तथा दिलासापत्रो आब्या. ज्यां ज्या खबर थइ त्या त्या दिलगीरीनी सीमा रही नहीं.

भावी रीते सर्वत्र शोक फेलायो, अने मरण क्रिया पढाडी शेहेरना नाविक श्रावकोए धणोज खर्च उदार दिलधी कस्यो, एनुं कारण ए के ए महात्माना सजुणे अने परोपकारी प्रेमे. सर्व सङ्गानोना अंतःकरणे विपे उंडां ऊतरी वास कस्यो हतो बीजुं कांइ नहोतुं. ए निःस्वार्थ प्रेम अद्यापि पण लोकोना अंतःकरणे विपेधी खसवा पाम्यो, नधी, अने खसशे पण नहींज, एम हुं धारुं वुं.

आ संसारनो संबंध एवोज ठे के, जे जनम्युं ते आयुष्य पूरुं करी मरवानुंज ठे; कोइ थोडा वरस जीवशे, अने कोइ घणां वरस जीवशे, परंतु आ संसारमां कोइ अमर रह्या नधी, अने र हेशे पण नहींज, तो गइ वस्तुनो शोक शा माटे करवो? परंतु जेणे घणां संकट वेठी तत्वज्ञान पामी, घणा जणने बोध करे लो, अने हम्मेश नव्यजनोने धर्मने विपे स्थिर करवानो उद्यम जारीज हतो वली सुजज्ञपणे बोध पामे, तत्वज्ञान जाणे, ज्ञानमा स्थिर थाय, तेवा उपर जणावेला अंधो ए महात्माए रची आपणा उपर अनहद उपकार करेलो ठे; एवुं एक उमदा उपदे शक रत्न गुम थाय, ए कंइ थोडुं शोक जनक नधी

अंधो रचवा, उपदेश देवा, बीजाठने धर्ममां जोडवा, ए प्रयत्न कंई शहेल नधी; संपूर्ण दयाज्ञाव विना ए कार्य बनतुं नधी. दया ए प्रेमनो सर्वोत्कृष्ट जेद ठे, निःस्वार्थ प्रेम एज दया ठे; पोताना स्वार्थनो जोग आपी, परने सुख करवुं, ए दयाधीज थाय ठे. प्रचुताना सर्वोत्कृष्ट गुणोमां दया मुख्य ठे. वीर प्रचुमां ए दयानो अंश न होत तो आपणने ज्ञान कोण आपत? आपणे

शुं करत ? अने आपणुं शुं थात ? ए कही शकातुं नथी आपणे जे पंच परमेष्ठिने सर्वोत्कृष्ट गणी वारंवार नमस्कार करीए ठीए, खरा प्रेमथी पूजीए ठीए, ए बरुं माहात्म्य दया सहित प्रभुता नुंज ठे. कारण के आपणे तेमने उपदेशक तरीके दयानिधि जाणीनेज पूजीए ठीए आपणी उपर तेमणे उपदेशक तरीके दया न बतावी होत तो हाल आपणे तेमने शा कारणथी पूजत ? को इने उपदेश आपीने धर्ममा जोडवो, ए गुण महा उत्कृष्ट ठे श्री यशोविजयजी महाराजे धर्मज्ञना पाच आशय देखाव्या ठे, तेमा पण विनियोग गुण मुख्य कह्यो ठे, अने ए गुण विना धर्मनी परंपरा न धाय एम बताव्युं ठे सीमधर जिनना ३५० गाथाना स्तवन मध्ये दशमी ढालनी अगीयारमी गाथामा कह्युं ठे के,

“ विण विनियोग न संजवे रे, परने धर्मे योग रे,

तेह विना जन्मातरे रे, नहि संतति सयोग रे प्र० मु० ११ ”

माटे बीजाने धर्म पमाडवो ए गुण सर्वोत्कृष्ट ठे.

एवा उत्कृष्ट गुणवाला पंचम पद प्रभुताना अधिकारी म हात्माना पडेली खोट केम विसरे ? परंतु गई वस्तुनो शोक करवो मूकी दइ, तेना तत्वज्ञाननो खप करशे, ते सुखी थशे. '

ए महात्माना स्वर्गवास थया पठी घोडी मुदते एज उपा श्रयने विषे एक आरस पाहाणनी देहेरी चणावी मद्दाराज श्रीना पगला पधराव्यां ठे. तेनो खरच श्री अमदावाद वाला शाह ह ठीसंध रायचवनाइए आप्यो ठे. जेथी श्रद्धावंत श्रावक श्रावि काठने गुरुज्ञकि तथा स्मरणनो जान थशे. तथास्तु !

( १९ )

॥ दोहरा ॥

सागरमांधी विंडु जेम, चरित्रमांहथी तेम; १  
अल्पबुद्धिथी में लखी; अल्प वात घरी प्रेम. १  
लख्युं घणुंखरुं जोझे, दृष्टीए साक्षात्; २  
वली वृद्धमुखथी सुणी, यथास्थित जे वात. २  
'प्रत्यक्षज्ञानी विण नहीं, जाणे मननी वात; ३  
तेह अनुमाने लखी, विवेकथी मुज घ्रात. ३  
सत्यज लखवा आ विषे, राख्यो ठे में स्नेह; ४  
तेम ठता रहे दोष मम, मिथ्याडुःष्कृत तेह. ४  
केवलि ज्ञापित ज्ञान विण, सर्वांगे नहीं गुरु, ५  
तो मुज दूषण सर्वथा, माफ करो जन बुद्ध. ५  
हरगोविंदनी प्रेरणा, धर्मचंद चित जेह; ६  
पारखेत माहे रही, लख्युं चित धरी नेह. ६  
संवत उंगणी शत वली, एकावननी साल, ७  
चैतर शुद्ध द्वादश शनी, पूर्ण कखुं धरि बहाल. ७



॥ श्री सद्गुरुभ्योनमः ॥

॥ श्री सद्गुरुभ्योनमः ॥

श्री

श्री

॥ ए० ॥ नै० नमः सिद्धं ॥ अ०

॥ ए० ॥ ओं नमः सिद्धं ॥ अ०

आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ

ओ औ अं अः ॥ इ ए उ ऋ

ओ औ औ अं अः ॥ इ ए उ ऋ

इ ॥ च ब ज ङ ञ ॥ ट ठ ड ढ ण

॥ अ इ उ ऋ ॠ ॥ ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न ॥ प फ ब् च म ॥

त थ द ध न ॥ प फ ब् च म ॥

त थ द ध न ॥ प फ ब् च म ॥

य र ल व ॥ श ष स ह । हं क

य र ल व ॥ श ष स ह । हं क

कः ॥ १ ॥ क र क ग ग घ ङ ॥

कः ॥ १ ॥ क र क ग ग घ ङ ॥

अ ष ज्ञ क ष प्र ज्ञ अ ॥ ह

अ ष ज्ञ क ष प्र ज्ञ अ ॥ ह

व ष रु ह ण ॥ त व ह ह न ॥ प

व ष रु ह ण ॥ त व ह ह न ॥ प

फ ष प्र म्म ॥ व्य र ह्न व ॥ श

फ ष प्र म्म ॥ व्य र ह्न व ॥ श

ष स ह ॥ २ ॥ क र व य घ ङ

ष स ह ॥ २ ॥ क र व य घ ङ

॥ च ष ज्ञ अ ॥ द् व रु ह ण ॥

॥ च ष ज्ञ अ ॥ द् व रु ह ण ॥

त्रयध्व ॥ प्रफवभ्रम ॥ य

त्र य न ध्र च ॥ प्रे ड्रे अ ल्र भ्र ॥ अ

रलव ॥ श्रषसफ ॥ ३ ॥ कुरव

र ल्र प्र ॥ श्र भे स्त्र फ ॥ ३ ॥ कृ भृ

गृषुह ॥ चवृजृफृ ॥ हृवृहृ

गृ षु हृ ॥ चृ षृ जृ फृ ॥ हृ वृ हृ

हृए ॥ चृषृहधनृ ॥ प्रफव-

हृ ए ॥ चृ षृ ह ध नृ ॥ प्र फ व

नृमृ ॥ युरुलृवृ ॥ शृषृसृलृ

नृ मृ ॥ यृ रु लृ वृ ॥ शृ षृ सृ लृ

॥ ४ ॥ क्य रव्य ग्य व्यङ्ग ॥ च्य

॥ ४ ॥ क्य रव्य ग्य व्य ङ्ग ॥ च्य

वृज्यज्यव्य ॥ वृगृन्यवृएय

वृ ज्य ज्य व्य ॥ वृ गृ न्य वृ ए य



॥त्यथ्यद्यन्य॥प्यफ्यव्य

॥त्यथ्यद्यन्य॥प्यफ्यव्य

न्यम्य॥य्यस्यव्य॥य्यथ्य

न्यम्य॥य्यस्यव्य॥य्यथ्य

स्यह्य॥ह्यं ह्यः॥५॥स्वस्ति

स्यह्य॥ह्यं ह्यः॥५॥स्वस्ति

श्रीकृष्णब्रह्मस्य॥शिव

श्रीकृष्णब्रह्मस्य॥शिव

न्याज्ञा॥सुश्रुत्करः॥

न्याज्ञा॥सुश्रुत्करः॥

पृथ्वीवृद्ध्युश्रेष्ठात्मा॥

पृथ्वीवृद्ध्युश्रेष्ठात्मा॥

वम्यास्तेल्लद्यज्ञसिदाः॥

वम्यास्तेल्लद्यज्ञसिदाः॥

१॥ कल्ल्यु ॥ कका किकी कु

१॥ कल्ल्यु ॥ क का कि की कु

कू के कौ कौ कंकः ॥ ख

कू के कौ कौ कंकः ॥ ख

खा खिखी खुखूखेखैखो

ख़ खै खौ खौ खंकः ॥ ख

खौखं खः ॥ गगा गिगी गुगू

गौ गं गः ॥ ग गी गि गी गु गु

गौ गौ गंगः ॥ घघा घिघी

गौ गौ गौ गौ गं गः ॥ घ घा घि घी

घुघूघेघैघोघौघंघः ॥ डडा

घु घू घे घै घो घौ घं घः ॥ ड ड

डि डी डु डू डे डै डो डौ डं डः ॥

डि डी डू डू डे डै डो डौ डं डः ॥

चचा चिची चुचूचे चैचोचौ

च चा चि ची चु चू चे चै चो चौ

चंचः। षषा षिषी षुषू षैषो षौ

चं चः ॥ छ छा छि छी छु छू छै छो छौ

चंचः। जजा जिजी जुजू जैजौ

चं चः ॥ ञ ञा ञि ञी ञु ञू ञै ञौ

जौजंजः फफा फिफी फुफू फैफौ

जौ जं नः ॥ ञ ञा ञि ञी ञु ञू ञै ञौ

जौजौंजः। ञजा ञिजी ञुजूं

जौ जौं ञ ञः ॥ ञ ञा ञि ञी ञु ञू ञै ञौ

जैजौंजंजः। टटा टिटी टु

जै जौ जौं जं जः ॥ ट टा टि टी टु

ट्टैटौटौंटः। ठठा ठिठी ठु

ट्टै टै ठौ ठौं ठं ठः ॥ ठ ठा ठि ठी ठु

रेरेगेगेवंतः॥ममामिमीमुमुमे

रे रे रे रे रे ॥ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७

मेमेमौमंमः॥हहाहिहीहुहुहं

हे हे हे हे हे ॥ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७

होहौहंहः॥णणाणिणीणुणूण

हो हो हं हः ॥ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७

णौणौणंणः॥तताति तीतु

णौ णौ णं णः ॥ त ता ति ती तु

ततैतौतौतंतः॥यथाथिथी

त त तौ तौ तंत तः ॥ थ था थि थी

थुथूथैथौथोथथः॥ददादि

थु थू थै थौ थो थं थः ॥ द द द

दीडुदूदेदौदौदंदः॥धधाधिधि

दी डु डू दे दौ दौ दंद दः ॥ ध धा धि धि

धुधूधेधैधोधौधंधः॥नना

धु धू धे धै धो धौ धंधः॥ न ना नि नी

बुबूबेबैबोबौबंबः॥पपापिपी

बु बू बे बै बो बौ बंबः॥ प पा पि पी

पुपूपैपोपोपपः॥फफाफि

पु पू पै पो पौ पंपः॥ फू फू फि

फीफूफैफौफौफंफः॥

फी फू फै फौ फौ फं फः॥

ववाबिबीबुबूबैबोबौबंबः

व वा बि बी बु बू बै बो बौ बंबः

ननानिनीबुबूबैबो

न ना नि नी बु बू बै बो लंल.

ममामिमीमुमूमेमैमोमौमंमः

म मा मि मी मु मू मे मै मो मौ मंमः॥

य या यि यी यु यू ये यै यो

य या यि यी यु यू ये यै यो

यौ यं यः ॥ र रा रि री रू

यौ यं यः ॥ र रा रि री रू-३

रू रे रै रो रौ रं रः ॥ ल ला

रू रे रै रो रौ रं रः ॥ ल ला

लि ली लु लू ले लै लो लौ

लि ली लु लू ले लै लो लौ

लं लः ॥ व वा वि वी वु वू

लं लः ॥ व वा वि वी वु वू

वे वै वो वौ वं वः ॥ श

वे वै वो वौ वं वः ॥ श

शा शि शी शु शू शे शै शो

शा शि शी शु शू शे शै शो

शौ शं शः ॥ ष षा षि षी षु षू

शौ शं शः ॥ ष षा षि षी षु षू

षे वै षो षौ षं षः ॥ ससा

षे वै षो षौ षं षः ॥ ससा

सि सी सु सू से सै सो सो

सि सी सु सू से सै सो सो

सं सः ॥ ह हा हि ही हु हू

सं सः ॥ ह हा हि ही हु हू

है है हो हो हं हः ॥ क्का

है है हो हो हं हः ॥ क्का

कि की कु कू के कै को कौ

खि क्षी खु खू खे खै खो खौ

कं कः ॥ क का कि की कु

खं खः ॥ ख खा खि खी खु

कू कू कै कौ कौ कं कः ॥

खू खू खै खौ खौ खं खः ॥

१।श।श।ष।पा।दी।वा।टी।णी।०

१।२।३।४।५।६।७।८।९।०

क क क क क क क क क

ख ख ख ख ख ख ख ख ख

ख ख ख ख ख ख ख ख ख

ख ख ख ख ख ख ख ख ख



त्र	न	ह	व	म	र	ह्य
त्	न्	ह्	व्	म्	र	ह्य
य	व	श	ध	स	स्य	म
य	व	श	ध	स	स्य	म
प्र	ह	व्य	ज	ल	ल्य	
प्र	ह	व्य	ज	ल	ल्य	
श्र	श्रम	श्र	श्र	श्र	श्र	श्र
श्र	श्र	श्र	श्र	श्र	श्र	श्र
श्र	श्र	श्र	श्र	श्र	श्र	श्र
श्र	श्र	श्र	श्र	श्र	श्र	श्र



## श्रीध्यानविलास.

श्रीगुरुभ्योनमः

॥ दूहा ॥ धुर नमुं परमात्मा चिदानंदज्ञगवंत तास पसाय  
रचना करुं देखी रीजे संत ॥ १ ॥ मूक्ति मारगने साधवा कहू  
ध्यान विचार शुजाशुजने त्यागवुं आदरवुं शुद्ध अनुसार ॥१॥मू  
क्ति मार्ग साधन तणा मार्ग दिशे अनेक पण मूक्ति ठे ध्यानमा  
जाखूवूं ते ठेक ॥ ३ ॥ तप जप क्रिया अनेक विध व्यवहार केहे  
वाय पण मूक्ति तेहमा नही पुन्य प्रकृती थाय ॥४॥ मूक्ति रही  
एक ध्यानमा ज्ञाने करो ते शुद्ध मूर्ख अर्थ पामे नही पामे पंडित  
बुद्ध ॥६॥ ते कारण इहा जाखशुं ध्यान तणो विचार जेद घणां  
इहां दाखशुं शास्त्र तणे अनूसार ॥६॥ ध्यान विलास ते जाणिये  
नाम ग्रंथनू एह ज्ञानीजन सूखी होशे वांची गूणनो गेह ॥ ७ ॥  
अत्र ज्ञापा लिख्य ते.

हवे ध्यान ते ज्ञाने कहीए जे चेतनना चपल पणाने थीर  
करवु. चेतनना अद्य विसाय थीर ज्ञाव राखीने ध्यावु तेने ध्यान  
योगी कह्यो तेना त्रण प्रकारठे एक ज्ञावना ॥१॥ अनुपेक्षा ॥१॥  
चित्तध्यान ॥३॥ ए त्रण प्रकारे ध्यान करीने चित्तने थीर करवुं  
तेने ध्यान कहीए. अंतर महुरत एकाग्रह चित्तनो उपयोग थीर  
रेहवो तेने ध्यान कहीए एटले एक अर्थने विपेज विचार करवो  
तीहां घणा अर्थ पडखेथी सक्रमण थाय तिहां स्थीरपणे रेहेवु  
तथा तीहा ध्यान दिर्घपणे ध्याननी परंपरा थएज जायठे तीहा  
कोइ अंतर महुरतनो नीयम ठे नही एटले उच्चस्थने एवी रीते  
ध्यान प्रवर्त्ते अने केवनीने जोगनु रोकवु तेज ध्यान कहीये ॥

॥उक्तंचा॥ अंतो मुहुत्तमित्तं चित्तावस्या मेगवत्त्वमि वो म  
त्वाणं जोग नीरोहो जिणाणंतु ॥१॥

हवे ते ध्यानना चार जेद ठे आर्त्तध्यान ॥१॥ रुद्धध्यान ॥२॥  
 धर्मध्यान ॥३॥ शुक्लध्यान ॥४॥ ते मध्ये प्रथमना वे ध्यान ते अ  
 शुद्ध ठे ते थकी अशुभ कर्म बधाय, अशुभ गती प्राप्त थाय, बाकि  
 वे ध्यान रखा ते मुक्तिना कारण वाच्य ठे ए उत्तम जिवनेज प्राप्त  
 थाय. हवे तीहां प्रथम जे आर्त्तध्यान ठे तेनुं स्वरूप कहिये गिये  
 तेना चार पाया ठे प्रथम ईष्ट विजोगनो विचार करवोके रखे म  
 ने ते वस्तुनो वीजोग थाय एटले ईष्ट केहेता जे वलज्ज पोताना  
 मनने गमे एवा पदार्थ मळ्या तेमा मगन अइने रेहेते कीयाकी  
 या जे माता पीता ज्ञाई मीत्र पुत्र कलत्र धन धान्य सजन कु  
 टव मेढी मेहेलावाडी आराम प्रमुखनो रखे मने वीजोग थाय  
 एम करता कदी विजोग थयो तो माहा चितामा पडे मोटो शोक  
 करे माहा वीलाप करे ते अभी लाख रुप एकत्वपणे जे परिणाम  
 ते इष्टवीजोग आर्त्तध्याननो पेहेलो पायो कहिए ॥१॥ हवे वीजो  
 अनिष्ट सयोग केहेता जे अनिष्ट वस्तुनी प्राप्ती थइ एटले मनने न  
 गमे तेवा शब्दादिक पदार्थनु मलबु थयुंठे तेनो विजोग थवानो  
 चितवे एटले अनीष्ट जे जुंडा डुखना कारण जे आ शत्रु अहींधी  
 क्यारे जाय अथवा आ दरिद्र अवस्था माहारी क्यारे जशे अ  
 थवा आ कुमाणसनो समागम थयो ते केम टले अथवा ए थकी  
 आपणो वुटको क्यारे थशे इत्यादिक वीचारबु ते अनिष्ट सयोग  
 वीजो पायो कहिये

हवे त्रीजो पायो रोगचिंता आर्त्तध्यान केहेता शरीरने वि  
 पे वायु गरमी पीत ज्वर इत्यादीक उपने अके दूख घणु करे, घ  
 णी चितामा प्रवर्ते, एना जंशड उपचार करवानी चिंतामा रहे  
 ते रोगचिंता आर्त्तध्यान त्रिजो पायो कहिए ए ध्यानने विज्ञे प  
 राए त्रण लेस्या होय क्रभलेस्या ॥१॥ निललेस्या ॥२॥ कापोत  
 लेस्या ए त्रण लेस्या सज्जवेठे.

हवे चोषो पापो अग्रशोच केहेतां जे मनमां आगलना का लनो शोच करे जे एणे वरसे ए काम करीशु अथवा आवते वर्षे आवी रीते काम करीशु एम चींतवे तथा दान शिष्यल तपनुं फल मागे जेमा एणे जव आ तप प्रमुख कीधा तेनु मने अमुक फल होजो एटले हूं आवते भव इंद्र तथा देव तथा चक्रवर्ती तथा वासु देव बलदेव शैठसाहूकार पुत्र कलत्र धन धानादीक हरकोई मागे ए आगलना नवनी वंछा एटले अग्र शोचना परीणाम उपजे अथवा नीआणानु करवुं तेपण ए अग्रशोच मधे ठे ॥

॥उक्तंचा॥ निदान चिंतनं पाप ॥ एटले ए आर्तध्याननो चो धो पापो अग्रशोचनामा कह्यो ॥

हवे ए ध्याननु लक्षण कहिए ठीए.ए जे आर्तध्यान ठे तेने विशे अतीशे संक्लिट भाव नथी एटले कुर प्रणाम डुरज यतीवन लाधे इहा ए कर्मनी प्रणती एवीज वीशठे. हवे इहा शुं लक्षण ला धेठे ते कहिए ठीए हाहा हूंशुं करीश इत्यादीक आक्रंठ करे उंचे स्वरे करीने रुदन करे घणो सोच करे नाम देइने रुवे अथवा ना म देइ देवने परचारीने कहे जेतें माहारुं आ शुं करथुं वली ठाती मस्तक ताडना तरजना करेकेश माथाना तोडे इत्यादीक ए सर्वे लक्षण आर्तध्याननां ठे अथवा अमे मादा ठीए हवे अमे शुं करीए इत्यादीक पोताना आत्माना निंधा करे इत्यादीक लक्षण ए सर्वे आर्तध्याननां जाणवां अथवा साधु अइने दूर्जननी रीते राखे तेनां लक्षण कहिए ठीए ज्ञाइउ अमे शुं पालीए आज पांचमो आरो दूदमकाल ठे ने मुक्तिमार्ग तो माहा मोटोठे पण आ काले पालवु घणु कठणठे पडते काले कोइक जेवलो लाधे वली पोते पर्मादी ठे ने वीपयमां लेलीन ठे व्रत नेम तप जप अकी उपरांठा धर्म मार्ग अकी चुक्या जिनवाणीने गोपावे एटले जथार्थ उपदेश करे नही अने लोको पासे जाचनाउ करता फरे ते घणी आर्तध्यान

माज प्रवर्ते तेने दूरिजन कहिए ॥

॥उक्तच॥ प्रसक्तश्चैत दुर्जना ॥ ए ध्यान ठग गुणगणा  
सुधी होय ते माटे आत्मार्थी मुनीश्वर होय तेने ए पर्मादनुं स्व  
रुप जाणीने अवश्य तजवु अने ए ध्यानवाजानी गती पराएत्री  
जच सुधी होय एवु जाणीने अवश्य ठाडवुं ॥

॥हवे रुद्रध्यान कहिये ठिये॥ रुद्र केहेता महाकगोर निर्दय  
दुष्ट परणाममा प्रवर्ते एवु जे मावु चितवण होय तेने रुद्रकहिये  
ते रुद्र ध्यानना चार पाया कहावे हिंसानुवधी १ मृखानुवधी २  
चोरानुवधी ३ परीग्रह रक्षानुवधी ४ ए च्यार पायानां नाम जा  
एवा हवे हिंसानुवधी रुद्रध्यान कहिये ठिये जे जिव हिंसा कर  
वानु चितवे अथवा जिव हिंसा करता हरख संतोप पामे तथा  
हिंसा करता देखीने खुशी आय तथा ज्याहा सग्रामनी वारताउ  
थती होय अथवा एवा शास्त्र वाचवानो घणो उमेद राखे अथवा  
एवा सुरविर पुरुषोना घणा वखाण करे अथवा ए वातनी अनु  
मोदना करे, ए सर्वे हिंसानुवधी रुद्रध्यान पेहेलो पायो जाणवो?  
हवे मृखानुवधी केहेता जे जुतु बोले मनमा हरख पामे जे हू  
केतु जुतु बोळ्यो तु ने मारा जुगानी कोझे खबर पडती नथी  
अथवा आवी रीते जुतु बोळीने अमुकने समजाविशु अथवा प  
ग्नी चाडि करे अथवा अन्योअन्य खोटा विवाद चलावे अथवा  
मिथ्यात्वना वचन उच्चारण करे अथवा कपट सहित वीचार करे  
ए सर्वे मृखानुवधी रुद्रध्याननो विजो पायो जाणवो २ हवे त्रि  
जो चोरानुवधी केहेता जे चोरी करवी अथवा ठगाइ करवी अ  
थवा गाठ ठोडी लेवी इत्यादिक कारज करी मनमा खशि थवु  
अथवा इत्यादिक काम करवानु मनमा चितववु अथवा मनमा  
एवी मोटाइनो हरख चितववो जे हू केवो जोरावर तु जे हू पार  
माल खाउतु मुज सरी

परीणाम ते चोरानु

बंधी रुद्रध्याननो तिजो पायो जाणवो ॥३॥

॥हवे परीग्रह रक्षण कहेतां॥ नव प्रकारना जे परीग्रह धन धान पुत्र कलत्र जानवर वाहन जमीन जग्या परमुख वधारवानी घणी इच्चा रहे ते परीग्रहने मेलववानी इच्चाए अनेक पापारंज करे अथवा परीग्रह घणो मढ्यो होय तो अज्ञीमान करी मगन धाय वली ते परीग्रह जोमी मध्ये डाटे अथवा वीजे अनेक धानके तेने गोपवे वली मनमां शंका रहे के रखे कोइए माहारुं मुकेलु दीवुतो नथी अथवा ए परीग्रह साचववा वास्ते चाकर नफर शिरबंधी राखे इत्यादिक माहा माठा परीणाम प्रवर्त्ते ए परीग्रह रक्षण रुद्रध्यान चोथो पायो जाणवो ॥४॥ ए रुद्रध्यानना चारे पाया एवी रीते करवे कराववे अथवा तेनी अनुमोदना एने विशेषीर परिणाम तेने रुद्रध्यान जाणवुं ते महादूखनु कारण ठे ने महा अशुभ ठे ए ध्यान पांचमा गुणगणा सुधी होय अथवा कोइक जीवने ठा गुणगणा सूधी पण होय एवु केटलाएक आचारजना मतठे हवे ए ध्यानवालाने लेस्या ॥३॥ त्रण होय क्रभले स्या ॥१॥ नीललेस्या ॥२॥ कापोतलेस्या ॥३॥ ए त्रण पराए संजवे ठे ए लेस्यावालाना प्रणाम अती संक्लिष्ट होय केहेतां महा कुरदूष्ट परणामी होय ए कर्मनी प्रकृती एम जणाय ठे ए लेस्या घणा दोपनुं कारण ठे नाना प्रकारना जीवने मरणाने दोपे करी हिंसादिकनी प्रवर्त्तीए करी पापे करीने खुश वरुतीपणु निर्दय पणु होय पश्चाताप होय नहि परना अपवादधी राजीपणु माने माहा विषयने विशेषे प्रवर्त्तनपणु धारे ए लक्षण सर्वे रुद्रध्यानना जाणवा ए ध्यानवालानी गती पराए नर्कनी होय माटे एने अवश्य ठांडवुं एटले ए आर्त्तव्यान तथा रुद्रध्यान वंने अशुभ ठे ने वंने माहा नवला ठे अने जेम जेम एनो परीचय विशेषे राखे तेम तेम एनो रस माहा कडवो थाय अने एनो वीपाक माहा कटुक

माज प्रवर्ते तेने दूरिजन कहिए ॥

॥उक्तचा॥ प्रसक्तश्वेत दुर्जना ॥ ए ध्यान ठगा गुणगणा सुधी होय ते माटे आत्मार्थी मुनीश्वर होय तेने ए पर्मादनुं स्व रूप जाणीने अवश्य तजवु अने ए ध्यानवालांनी गती पराएत्री जंच सुधी होय एवु जाणीने अवश्य ठाडवुं ॥

॥हवे रुद्रध्यान कहिये ठिये॥ रुद्र केहेता महाकठोर निर्दय डुष्ट परणाममा प्रवर्ते एवु जे मातु चितवण होय तेने रुद्रकहिये. ते रुद्र ध्यानना चार पाया कहाठे हिंसानुवधी १ मृखानुवधी २ चोरानुवधी ३ परीग्रह रक्षानुवधी ४ ए च्यार पायाना नाम जाणावा हवे हिंसानुवधी रुद्रध्यान कहीये ठिये जे जिव हिंसा करवानु चितवे अथवा जिव हिंसा करता हरख संतोप पामे तथा हिंसा करता देखीने खुशी आय तथा ज्यांहां संग्रामनी वारताठ थती होय अथवा एवा शास्त्र वाचवानो घणो उमेद राखे अथवा एवा सुरविर पुरुपोना घणा वखाण करे अथवा ए वातनी अनुमोदना करे, ए सर्वे हिंसानुवधी रुद्रध्यान पेहेलो पायो जाणवो? हवे मृखानुवधी केहेता जे जुतु बोले मनमा हरख पामे जे हूकेवुं जुतु बोळ्यो तु ने मारा जुगानी कोइने खबर पडती नथी अथवा आर्वा रीते जुतु बोलीने अमुकने समजाविशुं अथवा प रनी चाडि करे अथवा अन्योअन्य खोटा विवाद चलावे अथवा मिथ्यात्वना वचन उच्चारण करे अथवा कपट सहित वीचार करे ए सर्वे मृखानुवधी रुद्रध्याननो विजो पायो जाणवो २ हवे त्रिजो चोरानुवधी केहेता जे चोरी करवी अथवा ठगाइ करवी अथवा गाठ ठोडी लेवी इत्यादिक कारज करी मनमां खशि थवु अथवा इत्यादिक काम करवानु मनमा चितववु अथवा मनमा एवी मोटाइनो हरख चितववो जे हूकेवो जोरावरतु जे हूं पार को माल खाउवु मुज सरीखो कोणठे एवा परीणाम ते चोरानु

बंधी रुद्रध्याननो तिजो पायो जाणवो ॥३॥

॥हवे परीग्रह रक्षण कहेता॥ नव प्रकारना जे परीग्रह धन धान पुत्र कलत्र जानवर वाहन जमीन जग्गा परमुख वधारवानी घणी इच्छा रहे ते परीग्रहने मेलववानी इच्छाए अनेक पापारंज करे अथवा परीग्रह घणो मळयो होय तो अजीमान करी मगन धाय वली ते परीग्रह जोमी मध्ये डाटे अथवा वीजे अनेक धानके तेने गोपवे वली मनमा शंका रहे के रखे कोइए माहारुं मुकेलु दीवुतो नथी अथवा ए परीग्रह साचववा वास्ते चाकर नफर शिरबंधी राखे इत्यादिक माहा माठा परीणाम प्रवर्ते ए परीग्रह रक्षण रुद्रध्यान चोथो पायो जाणवो ॥४॥ ए रुद्रध्यानना चारे पाया एवी रीते करवे कराववे अथवा तेनी अनुमोदना एने विशेषीर परिणाम तेने रुद्रध्यान जाणवुं ते महादूखनु कारण ठे ने महा अशुभ ठे ए ध्यान पाचमा गुणठाणा सुधी होय अथवा कोइक जीवने ठा गुणठाणा सूधी पण होय एवु केटलाएक आचारजना मतठे हवे ए ध्यानवालाने लेस्या ॥३॥ त्रण होय ऋभले स्या ॥१॥ नीललेस्या ॥२॥ कापोतलेस्या ॥३॥ ए त्रण पराए संनवे ठे ए लेस्यावालाना प्रणाम अती संक्लिष्ट होय केहेता महा कुरदूष्ट परणामी होय ए कर्मनी प्रकृती एम जणाय ठे ए लेस्या घणा दोषनु कारण ठे नाना प्रकारना जीवने मरणाने दोषे करी हिंसादिकनी प्रवरतीए करी पापे करीने खुश वळ्तीपणु निर्दय पणु होय पश्चाताप होय नहि परना अपवादधी राजीपणु माने माहा विषयने विशेषे प्रवरतनपणु धारे ए लक्षण सर्वे रुद्रध्यानना जाणवा ए ध्यानवालानी गती पराए नर्कनी होय माटे एने अवश्य ठाडवुं एटले ए आर्त्तध्यान तथा रुद्रध्यान वने अशुभ ठे ने वने माहा नवला ठे अने जेम जेम एनो परीचय विशेषे राखे तेम तेम एनो रस माहा कडवो घाय अने एनो वीपाक माहा कटुक



प्रगटे माटे जे आत्मार्थी मुनिश्वर अथवा सर्वे जग्य जीवोने कहू  
 वुके ए थकी सदाए वेगलुं रेहेवुं ए ध्यान अने जे थकी आत्मा नि  
 र्मल थाय ने पोतानुं मुल स्वरुप प्रगटे एवु ध्यान करवु सपुर्ण नि  
 र्मल ध्यान न आवे तोपण इव्य क्षेत्र काल जाव जोडने शुभ जा  
 वना जाववी पण आत्मा निर्मल करवानी रुची होय तो पोता  
 नी सत्ताने आखंवन लेडने ध्यान करवु ने ते थकी निरपेक्षपणे  
 प्रवर्तवुंते शुभलेस्यानुं लक्षण ठे ॥

॥हवे धर्मध्यान कहिये ठिये॥ धर्मव्यवहार क्रियारुप तेनि  
 मित कारण ए बाहारनु ठे पण धर्म जे श्रुतज्ञान तथा चारीत्र  
 धर्म ते उपादान कारण ठे तेनु साधन धर्म तथा रत्नत्रयी चेदप  
 णे उपादान धर्म ठे तेने शुद्धव्यवहार उत्सर्गानु जायी ठे अथवा  
 अपवाद धर्म तथा ऽनेद रत्नत्रयीते ध्यान शुद्ध कहिए. निश्चय नये  
 ते उत्सर्ग धर्म ठे जे वस्तुनु सत्तागत शुद्ध परणाम स्वगुण प्रव  
 रती करतादिक अनंतानंदरुप सिद्ध अवस्थाए रह्योते एवञ्चुत उ  
 त्सर्ग उपादान शुद्ध धर्म ठे ते धर्मनु जापण रमण एक धिरता  
 पणे चेतन तन्मयपणानो उपयोग एकत्वनु चित्तववुंते धर्मध्या  
 न कहिये हवे ते धर्मध्यान एवु जाणीने पवी चार जावनाने ध्या  
 इये ज्ञान जावना ॥१॥ दर्शन जावना ॥२॥ चारीत्र जावना ॥३॥

वैराग्य जावना ॥४॥ हवे ए चारना लक्षण ज्ञान जा  
 वना थकी निश्चलपणु थाय वस्तुने नदि  
 पोताना स्वजावमा धिरता  
 थकी मुजाय  
 परमुख देखी साचु  
 वस्तु ठे ते सर्वे अस  
 सर्वे सत ठे, चारीत्र  
 अपारजे वैराग्य भाव

संग एटले ए पर वस्तुनो संग सुखे तजवुं थाय. संशय मात्र तेने नहोय ए चारे जावनानुं फल अनुक्रमे कहिने देखाड्यु हवे एवि रीतनी जे जावना भावे अथवा एवी भावनामां जेनु चित थीर थयुं होय ते घणी ध्यान करवामां थीरपणु पामे माटे तेवा प्राणी जेठेते ध्यान करवाने योग्यठे बीजा वाकी रह्या ते ध्यानने अयोग्यठे शा माटेके मनठेते अतिपे चंचलठेते चपलताने लीधे करीने जिताय नही शत्रुनुं शैन्य लाखो होयतो तेने जीतवाने पुरुष समर्थ थायठे पण तेवो पुरुष मननो नियग्रह करवा समर्थ थइ शके शा माटेके मनतो पवननी गोडे हाथमा आवे नहि तेथीम न जीतवुं घणुक डुर्धर ठे ए वातमां काइ संशय नहि पण आत्मार्थीएतो अवश्य एवा चपल मनने पण जीतवुं जोइए तें शीरीते जीताय ते नीरंतर एनो अज्यास राखे शब्दादिक कोइनो काने न पडे एवी वस्तीमां एकात ध्यान करे ने वैरागे करीने मन वश करे एम करतां करतां मन वश थाय अने जे घणीनुं मन वश्य नथी थयुं ते पुरुष कंइ ध्यान करवा समर्थ न थाय अने जेवारे ध्यान दशा न आवे ते वारे मुक्ति कपांठे एतो ध्याने करीने ठे माटे मनने वश्य करवानो उद्यम करतां थकां अज्यासे करीने ध्यान दशा पामवी सुलज्ज थाशे जे जे पदार्थ देखवामां आवे तेते सर्वे वाहाज पदार्थ कहिए तेनो विश्वास न राखे ते तृभा सरवनी ठोडे ते घणी अज्यास करवा जोग ठे ते शुद्ध जाववालाने वस्ती केवी जोइए ते कहिए ठिए के वस्ती केहेतां न पासराने विणे स्त्रीनो रेहेवास न जोइए पशु केहेतां ठोर न जोइए कलाव केहेतां नपुशक न जोइए बीजा माग आचारना कोइ न जोइए एवी वस्तीने विणे मुनिने रेहेवुं ध्यान बेलाए विशेषे करीने एवी वस्ती जोइए एवु आगममा परमात्माए कह्युंठे हवे जेनु चित थीर वेठेलुठे मन वचन कायाना जोग वश्यठे तेवा

नाकार ठे अमुर्ति ठे लोका लोक ज्ञायरु छे एवो शुद्ध चिदानंद मा  
 हारो आत्मा छे एवु जे एकाग्रतारुप तन्मयपणे रमण तेन ध्या  
 न कहिए ए अपायवीचय धर्मध्यांननो वीजो पायो जाणवो।१

हवे वीपाकविचय त्रिजो पायो कहिये छीये हेवो आपणो  
 आत्मावितराग परमात्मा सरीखो सिद्धनो साथमि छे ने आ स  
 सारमां केम खुस्यो ठे ते स्वरुप पिचारता एम नासन थयु जे प  
 रागो संग किधो तेमा राचीमाची रह्यो तेथि कर्मने वश पड्यो  
 भूमी भाइतुं ते कर्मनो विचार करे जे कारण ज्ञानगुण ते ज्ञाना  
 वरणी कर्म वाड्यो छे जावत विर्यगुण अंतराय कर्म दाव्यो ठे ए  
 म अथाव कर्मिणी जीवना अथावगुण दवाणा ठे तेथी आ ससारने  
 विंगे जीवंगे जग्ग भरण अनंता करवा पडे ठे ने सुख दूख पोते  
 पोताना किंभवा कर्मनां ठे ते सुख उपर राचवु नहि ए शुद्ध क  
 र्मना सदम भरी ठे दूरा चपन्ये शोच करवो नहि ए अशुद्ध क  
 र्मना सदमणी छे, ए धेसे पुण्यकीक नाव ठे हेमां आत्मीक नाव ठे  
 मति मती ए कर्मरु स्वरुप विचारयु ते कहिये छिये. प्रकृतीवव  
 १ विदित-वेध २ शरावेध ३ प्रवेडावेध ४ ए व्यास वधना धानक वि

शेपे छे शा माटे के अनताकालमां आपणे जिवे संसारमां जम  
 ता सर्व लोकमा जन्मरण करी फरशोठे हेवो जे लोक स्वरूप  
 तथा लोकने विज्ञे पंचास्तीकायनु अवस्थान तथा प्रणमन द्र  
 व्यगुण परजायनु अवस्थान त्यां पोताना कर्मनो कर्त्ता जोक्ता  
 आत्मा छे पण ते आत्मा केवोछे अरुपि अविनाशी उपयोग ल  
 क्षणे करी युक्त एवो मारो आत्मा ठे एवी रीते एकाग्रतापणे वि  
 चारवु तन्मयपणे प्रणमवु ते ध्यान ते संस्थानविचय धर्मध्यान  
 नो चोथो पायो जाणवो ॥४॥ हवे संक्षेप थकी धर्मध्याननु लक्ष  
 ण कहिये छिये हवे कर्मजनित समुड वखाणीए ठिये एटजे क  
 र्में करी प्राप्त थयो एवो जे समुड जन्म जरा मरणरूप जले करी  
 संपूर्ण जरेलोठे ने मोहरूप मोटा जमरा पडी रह्याछे ने कांम  
 रूप वडवानलनामाग्रनी रहीठे अने कखाय रूपीया चार पता  
 ल कलसा ठे ते मधे आशारूपीयो मोटो वायु तेणे करीने जरे  
 लोठे माठा वीकट्टपरुपीया जे कलोल मोटा उछली रह्याछे एवो  
 माहा मोहरूप उवतजव समुड कह्योछे हवे मनमाहे वीश्रांत  
 केहेता हरख शोकनु थानुं ते रूपणी बेल ते माहे पड्यो तेने नि  
 कजवु घणु कठण जाणवू वली त्या जाचनारूप शेवालनो समुह  
 घणो छे अने डुखे करीने पुर्ण थाय एवो जे विषय सुख ते समु  
 डनो मध्य जागठे अज्ञानरूपी वाढलानो अंधकार घणो व्यापी  
 रह्योठे आपदारुपणी वीजली पडवानो जय घणोठे कटाग्रहरूप  
 पवन अन्नत वाइ रह्योठे वली त्या विविध जातीना रोग तेनो जे  
 संबंध ते रूपीया मच्छक्यादीक जलजीव घणा उछली रह्या छे  
 वली त्या जे समुद्र माहे पर्वत ठे ते कहीए छीए चंचलतारूप  
 सुनपणारूप गर्वपणारूप जे जे दोष तेने पर्वत मोटा जीहां एवो  
 जवसमुद्र तेने विचारवु हवे तेवो जे जवसमुद्र तेने तरीने पार  
 पामवानो उपाय कहिए ठीए ज्यां समकीतरूप दृढवधन बाघेलु

अठारहजार शिलंग ते रुपीया पाटीया ज्यां जेटलां ठे त्या ज्ञान  
 रुपीया नीर्यामक ए जाऊना चलावनारा ठे सवररुपी कीच के  
 हेता तेले करीने पाटीयाना आश्रवरुप छीटने पूर्या छे जेहेनो  
 मनोगुप्तीरुप गुप्तसुकान तेणे समु चाले आचाररुपमढपे करी  
 दीपतुं ने उत्सर्गने श्रपवाद ए वे मार्ग छे जेहेने हेवुं जे वाहाण  
 तेने वीशे सुनटनू सेन्य चड्यु ते कोण जे शुद्ध श्रधवीसाय रुपी  
 या घणा बलवत हेवा शुनट छे बली ते वाहाणनो कुयो जला  
 जोग रुप श्रज छे ते श्रभ उपर आपेलो एवो जे शड वहाणने च  
 लावे एवो वेगे जवसमुद्रने पार पमाडे एवो उजल नीर्मल श्र  
 ध्यात्मरुपीयो शड ज्या चडावेलो छे हवे ए शडरुप श्रध्यात्म  
 थकी प्रगट थयो जे तपरुपीयो जे पवन अनुकुल वातो थको चा  
 लवाने वेगे करीने सवेगरुप तेणे करीने चालतुथकु वहाण वे  
 राग मारग माहे हेवु जे चारीत्ररुपीयु जाहाज महा वेगे करीने  
 चाड्यु जायछे तेनी माहेलीकोरे महामुनीराज वेठा छे महारी  
 धीना घणी ठे तेमनी अनित्यादिक जे भली ज्ञानाउते रुपणी  
 पेटी पोतानी ते मध्ये ज्ञानरुपीया रत्न जरेला छे ते पोतानी पा  
 से राखेली ठे हेवी रीते जे मुनीश्वर प्रवरते ठे ते घणी निर्विघ्न  
 पणे मुक्तिरुपीया नगरनु राज सुखे सुखे पामे हवे एवी रीते मो  
 क्करुप नगरे जाता थका एक ससारनी माहेलीकोरे मोटो एक प  
 छीपति ठे तेनु नाम मोहराजा कहेवाय ठे ते सर्व क्रोधादीक  
 नीज तेनो ए राजा छे ते माहा जोरावर ठे ईंद्र चंद्र नागेंद्र तेपण  
 एने जीतवा समरथ नथी एवो जोरावर तेने खबर पडी जे श्रा  
 चारित्र रुपीया जाहाजमा ज्ञानरुपिया ध्यानथी जरेला मुनी मा  
 हे वेठेला ते मोहनगरे जाय ठे तेवी खबर साजली घणोक उ  
 दाश थयो विचारवा लाग्योके आपणा ससाररुपीया नाटकनो  
 थाय ठे अने आपणी रिद्धिनो नाडा

शोकातुर अइने वेठो चिंतारूपीया कोठारमा पेठो त्यां एवो विचार उत्पन्न थयो जे कंगाल थडने वेशी रहे तो कंइ काम वनइ नही माटे उद्यम करु अने जइने युद्ध करीने ए रिद्धि ठे ते वधी ए बेश आबु अने ए जीवने लेइ आवीने पाठो संसारमां कवज करुं एम विचारी पोतानुं डुर ध्याननामा जाहाजनो जे टंडे ल तेने तेडावीने कहुं के आपणुं डुरबुद्धिनामा वाहाण संग्राम ने विशेषे वेशीने लेइ जवानू छे ते तैयार करो वीजा डुष्टाचार प्रमुख जाहाज छे ते सर्वे तइयार करो त्यार पछी पोताना जे यो राग बेश प्रमुखने कहुं के आप आपणी सेना लेइने तैयार आउं त्यारे ते सर्वे पोतपोताना सुजट सेनाउं सज करी वाहाणमा वेठा अवसमुझमां ते वाहाण चलवीने लडाइ उपर पोहो च्या तेचा समाने विशेषे धर्म राजाना सुजटो चारित्ररूपीआ जाहाजने विशेषे श्रीरत्ता रूपीआ मंडपने विशेषे वेठा हता तेणे मोहराजानु सैन्य आवतुं वीठुं देखीने तुरत उठी सज थइने रणमंडप चुमीए आवता हूवा तत्वचिंता प्रमुख जे वाहाण ते लेइने सर्वे सज थया पछी मोहराजा साथे मांहोमाहे युद्ध करवा लाग्या त्यारे सम्यक्दर्शन प्रधाने मिथ्यात्व प्रधाने अतदशाए पोहाचाड्यो केवो माहा जोरावर हतो मोहराजानो मोटो सुभट माहा वीखम कामनो करनारो तेचा प्रधानने शेजमां एक ली लाए करीने हणयो हवे मोहराजानो जे रणस्थंज तेने जइने रोकी लीधो हेवो जे उपसमनामा सुभट तेणे कपायादिक चोर टाउं सर्वने वश्य कस्या ने शीयल सुजटे कंइप चोरने जीत्यो अने वैराग सुजटे हास्यादिक खटने जीत्या हवे श्रुतज्ञान जो गादिक सुभट तेणे निद्रादिक सुजटोने हणया धर्मध्यान शुक्लध्यान वे सुजटे आर्त्त रुद्र ए वे सुजटोने हणया इंडी नीग्रह सुजटे असजम चोरने हणयो क्षय उपसम योदे दर्शनावरणी चोरने

हृण्णा वजी अशातारूप सैन्य मोहराजानु घणु हतु ते सर्वे पुन्य  
 उदय योक्षना प्राक्रम थकी नातूं हवे जे इव्यस्वरूप हाथी उपर  
 वेठो रागरूप सिद्धे करीने सहित हेवो जे मोहराजा पोताना राग  
 केसरी पुत्रने लश्ने लडाइ उपर पडे आव्यो त्यारे धर्मराजा श्र  
 णरूप अष्टापद वाहन उपर वेडीने साथे ज्ञानरूप पुत्र चारड  
 पक्षीरूप लश्ने पोते चट्यो त्या मोहराजाने हण्यो त्या सर्व मो  
 हराजाना सैन्यनो क्षय करी नीकदन करधु ते वारे ते मुनीराज  
 माहा आणदने प्राप्त थया धर्मराजाना पसाय थकी पोतानु इ  
 ष्टीत काज थयुं ते वारे ते साधु माहा व्यवहारीया थया चोर दे  
 शनो वेपार करवा लाग्या तेमने कोइ रीतनो हवे जय रद्यो नहि  
 एवी रीते पोताना मननी माहेलीकोरे वने सैन्यनु स्वरूप विचा  
 रवु इहा वाहारनो कोइ चोर नथी तेम राजाए कोइ नथी पो  
 ताना स्वरूपनी माहेलिकोरे विचारीने जुवे तो जासन थाय के  
 मके स्वरूपानुजायीपणे प्रवर्ते तो धर्मराजाना पक्षनी जीत स  
 मजवी ने परानुजायीपणे प्रवर्ते तो मोहराजाना पक्षनी जीत  
 जाणवी एम पोताने अतरमा वने स्वरूप विचारवाना ठे परअ  
 नुजायीए प्रवर्तवु ते वध ठे स्वअनुजायीए प्रवर्तवु तेथि मुक्ति  
 ठे माटे मुक्तिने वध सर्वे पोताना अतरमाहे ठे एवी रीते धर्म  
 ध्यानमा पेशवानु ए लक्षण थकी पामे एवा विजाए पण आग  
 मने प्रिंशे पदार्थना समुह केहेला ठे ते पोताने विचारी लेवा जे  
 मुनि इडीयोने तथा मनने जीतीने निर्विकार बुद्धिवालो थायते  
 धर्मध्यान ध्यावावालो ठे अने तेहनेज धर्मध्यानध्याता कहीए  
 बलि सतदत्त पण तेनेज कहिए ज्ञाननु लक्षण एमज ठे थिर भा  
 वे रहे तेने सर्व घटे सतोपी थश्ने प्रात्मात्मा थीर भावे ग्रहे तेने  
 रिझावत कहिए तेनेज ध्यानी कहिए ए धर्मध्याननु लक्षणक  
 १ ए धर्मध्यान छग गुणगणायी ते श्रावमा गुणगणा सुधी हो

य वलि केटलाक आचारज केहेठे के चोथा गुणठाणाथि ते आठ  
 मा गुणठाणा सुधी होय केटलाक आचारज केहेठे के चोथा गु  
 णठाणाथी ते सातमा गुणठाणा सुधी होय पठी तत्व तो केवली  
 गम्य ठे पण चोथे गुणठाणे जो धर्मध्यान नहोय तो समकीत  
 रहे नहि माटे एम समज्यामा आवेठे के चोथे गुणठाणेथीज ध  
 र्मध्यान ठे ते सातमा गुणठाणा मूधी ठे ने आठमे गुणठाणे तो  
 शुक्लध्यान आवे एवु जामनमां आवेठे पठी तो केवली जाणे ते  
 खरुं ठे एटले ए धर्मध्यान कह्युं हवे ए ठेकाणे बीजा पण चार  
 ध्यान केहेजा ठे ते कहिए ठिये पदस्थ ॥१॥ पिंडस्थ ॥७॥ रुप  
 स्थ ॥३॥ रुपातीत ॥४॥ हवे ए पदस्थध्यान केहेतां जे अरिहता  
 दीक पाच पद तेना जे गुण ते विचारी पोताना आत्मसरुपमां  
 मेलवी लेवा ते गुण सर्व पोताना आत्मामा लावे ते गुणनु ध्यान  
 करवुं शामाटे के अरिहतादिक पदमा ने मारा आत्मामां कश्यो  
 जेद ठे नहि माटे तेनु ध्यान करवु तेने पदस्थध्यान कहिए हवे  
 बीजु पिंडस्थध्यान कहिए छीए पिंड केहेतां जे शरीरनी मांह  
 लीकोरे असंख्यात परदेशे नीर्मल आपणो आत्मा अनंतगुणे  
 करी व्यापेजो एवो माहे रह्यो ठे ते सिद्ध परमात्मा सरखोज छे  
 श्त्यादिक विचारवु अथवा सिद्धनी वरोवर गुणने मेलववा ए  
 पिंडस्थध्यान कहिए हवे रुपस्थध्यान कहिए ठिये रुप केहेतां  
 जे आ शरिरादिकमाहे रह्यो ठे एवो माहारो चेतन पण पोतेतो  
 स्वजावे अरुपी ठे अनंतगुणी ठे वली रुप शब्द एवो जे केहेतां  
 वस्तुनु जे मुज स्वरुपसत्ताए ठे एवु तेने पणरुपी कहिए हवे  
 एवो आत्मस्वरुप तेने अवलवीने ध्यान करवु एटले आत्मानुं  
 रुप एकत्वतापणे एवुं जे ध्यान करवुं एटले मुज स्वरुपमाज र  
 मणता रहे एटले परजावनु त्यागीपणुं स्वजावनु जोगीपणुं ए  
 वी रीते एकत्वतापणे तन्मयपणे



नमां गवेख्यां ठे ए मुक्ति दातार नयी मुक्तिना कारणीक ए ठे  
 ए धर्मध्यानपराए देवलोकनी गती आपे हवे जे चोयु ध्यान  
 रुपातीत नामे ठे ते शुद्धध्यानना घरनु ठे पण इहा समुदाए  
 जेगु आव्यु ठे तेथी धर्मध्यान मजतु कहिये ठिये पण ए ध्यान  
 ने शुक्लध्यान जेगु समजवु हवे ते रुपातित ध्यान कहिये ठिये.  
 रुपातित कहेता जे रूप अकि अतित एटले पुज्जादिकरूप अकि  
 रहितपणु स्वस्वभाविक आत्मा कर्मरूप रजे करीने रहित निर्म  
 ल सकल्प विकल्प रहित अनेद एक शुद्ध सत्तारूप निर्मल चिदा  
 नद तत्वामृत असग अखड अनतगुण परजायरूप आत्म स्वरूप  
 नुं ध्यान ते रुपातित ध्यान जाणवुं इहा मार्गणा गुणगणा नय  
 प्रमाणा परमती आदिक ज्ञान क्षय उपसमजाव ए मर्वे ठाड  
 वा जोग थया ते ए ठेकाणे खपमा आवे नहि इहा तो गुणनु क  
 र्ता जे ध्यान ते लेवा जोग सिद्ध परमात्माना मुज गुण ते रूप  
 आत्म स्वरूपने ध्यावे इहा परपद कशोय न जाधे मुक्ति पामवा  
 नुं कारण एल ध्यान ठे माटे जेवु मुक्तिमा स्वरूप ठे तेवुज आ  
 त्मानु स्वरूप ध्याववु एटले ए रुपातीत ध्यान जाणवु हवे ए धर्म  
 ध्याननी जावनाज अ्यार ठे ते कहिए ठिए मैत्रिजावना १ प्रमो  
 द जावना २ मध्यस्थजावना ३ करुणाजावना ४ हवे ते मध्ये  
 प्रथम मैत्रिजावना कहिए ठिए मैत्रि केहेता मर्व जीव साथे मि  
 त्राइपणाना भावनी चितवणा करवी जेम पोताना मित्रनु जलु  
 चाहे ठे अने तेने रुडु करवाने तेने खुशबखती घणी रहे छे तेम  
 सर्वे जीवनु कड्याण थवानी चाहना करवी कोड जीवनु चुडु  
 चितववु नहि ए सर्व जीवनु हित थाय एवी चितवना करवि ए  
 टले सर्व जीव उपर हेतवुदि जे सर्वे जीव सुखी थाय सर्वे जी  
 वनु कड्याण थाय ने मुक्ते जाय अथवा सर्वे जीव धर्म पामे तो  
 सारुं एम सर्वे जीवना मित्रजावे करीने कड्याणनु चितववु पण

कोशु अकल्याण चितववु नहि एवि रितनी चितवणा होय ते वारे मैत्रिजावना जाणवी ? हवे विजी प्रमोद भावना कहिये त्रिये प्रमोद केहेतां महा हरखनु धानक पामवु ते शाशकी जे गुणवंतने देखीने अथवा ज्ञानादीक गुण उपर घणो राग रेहे. ह वे जे गुणवंत केहेतां जे पोताना धर्माचार्य अथवा वीजा पण ज्ञान जोगीश्वर महामुनि तेवाना मेलापथी महा आणंद प्रगटे. अहो महारां धनजाएग जे आज मूने महारा धर्माचार्य अथवा ज्ञानी पुरुषोनो समागम थयो आज मने तेमना दर्शन थयां अ हो हु तेमनी शेवा ज्ञक्ति करीश महारां सर्व पाप गयां आज महारे मोटो पुन्यनो उदय थयो वली ते गुरु केवा ठे के अनंत गुणाना धणि छे मोक्षना सुखना दातार ठे मोक्ष मारगनु कार ण एज ठे वली ते गुरु केवा ठे तत्व जोगी ठे तत्व वीलासी ठे त त्वाश्रीय छे स्वपरना जाण ठे परजाव त्यागी ठे हेवा जे कोश महारा जे धर्माचार्य साक्षात आ काले परमात्मारूप अहो एमनुं उपगारतापणुं जे अज्ञान जीव अजाण तेवाने वहु रीतथी उपदे श करीने धर्म पमाडे मार्गमा लावी मोक्ष पोचाडे दूरगतीथी प डता वारे एवा जे गुरुजीनो माहा मोटो उपगार ए उपगार वि जा थकि निपजे नहि हेवा उपगारीना गुण उर्गीगण थवानु को इ रितथी दिसतु नथि कोटानकोटि जव सुधि सर्व रिते करिने शेवा ज्ञक्ति आदे देइने करे तोपण गुण उर्गीगण न थाय माटे हेवा गुरुनो मने समागम मळयो ठे धन्य ठे महारा जाएग धन्य आजनो दहाडो धन्य घडी वन्यवेला अथवा स्यादवाद धर्मनो जोग मळयो ज्या आत्म स्वरूपनी चरचा वारता थइ रहिछे हेवो समागम ज्या मले त्यां पण घणो आणद माने एम गुरुवादीकना मलवा थकी एवु मनमां विचारे जे आज मने चिंतामणी रत्नको टाकोटि मळया आज महारा मनना मनोरथ सर्वे फळया एवो

घणौ आणंद पांमतो वली मनमा एवु विचारे जे आवां कारण  
 मुजने मलेला ठे तेनो विरहे पडे नहि मारे अहोनिश एवा कार  
 णनो समागम रहे तो घणु सारु एम आनदमय चिंतवतो वतें  
 तेने प्रमोद जावना कहिये १ हवे त्रिजी मध्यस्थ जावना कहि  
 ये ठिये एटले मध्यस्थ केहता सम परीणाम एटले धर्मवंत पुरुष  
 अथवा ज्ञानि पुरुष अथवा सरखी सग्धावाला एवा जीवोने दे  
 खीने ते उपर राग उपजे तथा मिथ्यादृष्टी कुमार्गीहिसक पुरुषो  
 ते उपर पण तेवान्त तेमना धणीने तेवा देखीने दया उपजे पण  
 तेना उपर छेप न उपजे हेवो मननी माहेलीकोरे विचार थाय  
 जे ए विचारा अज्ञान ठे तो हू एने उपदेश देइने हेतु युक्तिये क  
 रीने एने हू मार्गमा लावु ए धर्म पामे तो घणु सारु हू तेने मार्ग  
 मा लावी शकुतौ बहूज सारु थाय नहि तो ए वचारा अनाथ  
 जिव नर्कादिक चार गतिमा रखडशे एवी रीते विचारी तेने उ  
 पदेश प्रमुख देवो एम उपदेश देता कदापि मार्गमा न आवे तो  
 पण ए जीव उपर छेग करवो नहि एम चिंतववु के ए वचारा  
 अजाण ठे ने ससार बोहोळो वाकी जणायछे माठा कर्मना उ  
 दये करीने धर्म पामी सकतो नथी एम सम परिणाम राखवा  
 एवी रीतनी चिंतवणा तेने मध्यस्थ जावना कहिये ॥ ३ ॥ हवे  
 चोथी करूणा जावना कहिये ठिये करूणा केहता दया सर्व  
 जीव उपर राखवी सर्वे जीव आपणा सरखा जाणवा पण कोइ  
 जीवने इणवा नहि तथा कोइ जीव दुखी होय तेना उपर पण  
 करूणा करवी ते जीवनु दुख टालवानी जो पोतामा सामरथी  
 होय तो तेनु दुख टालवु पण बीजा जिवने बाधा पीडा नथाय  
 तो तथा धर्म हीण होय तो तेनी पण करूणा करवी जे अहो  
 आ वचारा धर्म पाम्या नहि ए संसारमा रखडशे ने महादुखी  
 थशे इत्यादिक चिंतवना तेने करूणा जावना कहिये एटले ए

चारे ज्ञावना धर्मध्यानना घरनी कहिते जाणवी.

हे शुक्लध्यान कहिये ठैये शुक्ल केहेतां निर्मल शुद्ध पर आ  
 लवंत विना आत्मस्वरूपने उलखीने तन्मयपणे ध्यावे एवुं ध्यान  
 ते शुक्लध्यान कहिये शा माटे जे स्यात द्यात होय पोताना आत्म  
 स्वरूपने वीशे रमे तेज शुक्लध्यान जोग छे केमके सिद्धो पण  
 एज स्वज्ञावठे तो साधकनो पण स्वज्ञाव एज जोश्ये विजे स्व  
 ज्ञावे ए वस्तू मले नहि हवे ते शुक्लध्यानना चार पायाठे ते क  
 हिये छैये प्रथक्त्ववित्तर्कसप्रविचार ॥१॥ एकत्ववित्तर्कप्रविचार  
 ॥२॥ सुद्धमक्रीयाप्रतिपाति ॥३॥ उच्छिन्नक्रियानीवृत्ति ॥४॥ ए  
 चार जेद माहे प्रथम प्रथक्त्ववित्तर्कसप्रविचार कहिये ठैये पण  
 त्या प्रथमना जेवे पायाठे ते अप्रमत्त ज्ञावे ध्यान थाय अने पा  
 ठलना वे पाया केवलने ध्यावाना ठे अने ए ध्यानना विश्रामने विशे  
 अनित्यादि ज्ञावनानो त्याग न थाय ब्रमणा रहितपणे ते ज्ञावनाठे  
 ते ध्यानना प्राण जाणवा हवे ए ध्यानने विशे लेस्या त्रण होय प्र  
 थम तेजु द्विजि पद्म त्रिजि शुक्लेस्या ए ध्यानने विशे वर्ततो  
 जिव जेदतो जजनार थाय तेनु चिन्ह एठे जे आगमनी सर्धा  
 करे ए ध्यान अकि उत्तम धर्म प्रगटे ए थकि स्वर्गना सुखनी प्राप्ती  
 थाय मोटु पुन्यानुबंधी पुन्य उपाजें पण ए थकि मुक्ति न थाय  
 हवे मुक्ति थवा सारु शुक्लध्यान ते कहिए ठैये त्या प्रथम सम प  
 रिणाम थाये कपट रहितपणे जिवने मुक्तपणुं धारण कर्तो शु  
 क्लध्यानने ध्यावे उदमस्थपणे आत्मामां मन धरिने रहे त्यारे राग  
 देशने जिते ते धणीनि मुक्ति थाय हवे ते पायानो विचार कहिये  
 छश्ये हवे प्रथक्त्व वित्तर्क सप्रविचार नामे पेहेलो पायो कहिये  
 ठैये एटले जिवथी अजिव जूदो करवा स्वज्ञावथी विज्ञाव जूदो  
 करवो प्रथक्त्त केहेता निन्न जिन्न जुदा वेहेची नाखवा स्वरूपने  
 विशे तथा इय तथा पर्जायिने विशे प्रथक्त्त प्रथक्त्तपणे ध्यान क

रवु पर्जाय ते गुणने विशे सक्रमण करवा गुणने पर्जायने विशे  
 संक्रमण करवा एवि रिते स्वधर्मने विशे धर्मातर जेद ते प्रथक्त्व  
 कहिये तेहनो जे वित्तर्क केहेता श्रुत ज्ञानादिक उपयोग एटले  
 त्या नाना प्रकारना नय निखेपा प्रमुख जागे करि विचारवु ए  
 टले ए विचाररुप श्रुतज्ञान ध्यावु थयु त्या अर्थ अक्षर जोग इ  
 त्यादिकनो जे विचार तेनु माहो मादे सक्रमण करवु अथवा  
 निन्न जूदू करवु अथवा ठ इत्य विना गुण पर्याय तेमां जेनि ग  
 ति केहेता रमणता थइ ठे एवि रिते प्रथक्त्व प्रथक्त्व नोखो नोखो  
 सप्रविचार केहेता आत्मइत्य निन्न काहाडि परइत्य पाच अप्रवि  
 चार जाणि दूर करे ते सविकल्प एटले पोतानो उपयोग एटले  
 एक विचास्या पठि विजो विचार थाये एवि रिते प्रथक्त्व केहेता  
 जे निर्मल ने वित्तर्क केहेता जे विचार स्वपरनो जे करवो एवि  
 रिते एकाग्रता पणे जे ध्यान ते प्रथक्त्व वित्तर्क सप्रविचार नामे  
 शुद्धध्याननो पेहेलो पायो जाणवो हेवि रीते पोताना सत्ता स्वरु  
 पमा ध्यावे प्रभावनो त्याग करे ए पदु सर्वे शुद्ध वेहेवार नयनो  
 ठे ज्ञान अकि जेद ज्ञान कहिये ध्यान थकि शुद्धध्याननो पेहेलो  
 पायो कहिये ए पायावालो स्वर्गगति पामे ए पायो आठमाथी  
 ते अगिआरमा गुणवाणा सूधि होय ए पाया वालाने त्रणे जोग  
 उत्कृष्टानु साधन थाय ए प्रथम पायो जाणवो हवे विजो पायो  
 एकत्व वित्तर्क अप्रविचार केहेता ते ठेकाणे पोहोच्यो अको जिव  
 जे वरजे पाचे द्रव्य धर्मास्ती कायादिक तेना गुण पर्याय ते काइ  
 इहा ध्यानमां आवे नहि तथा अनत्ताजिव रहा तेनो पण विचार  
 सावे नहि त्या एक पोताना आत्माना गुण पर्याय सहित एक  
 त्वपणे ध्यावे एटले आत्मइत्य ज्ञानादिक गुण पर्याय ए सर्वे म  
 लिने एक आत्मा थायठे माटे माहारो आत्मा गुण पर्याय क  
 रिते एक रुपठे जेम सिद्ध परमात्मानु रुपठे तदवत् माहारु स्व

रूप ठे हेतु ध्यान ते एकत्वपणे स्वरूप तन्मयपणे आत्मधर्म अनंतानो एकत्वपणे ध्यान ठें पण इहां वितर्क केहेता श्रुतज्ञाना वलंबिपणे अने अप्रविचार केहेतां विकल्प रहित दर्शन ज्ञाननो समयांतरे कारणाता विना रत्नत्रयीनु एक समयी कारण कार्यता पणे जे ध्यानने विर्ज उपयोगनि शक्ति ठे तेथी एकाग्रतापणे शा माटे जे ए स्थानकने विशे त्रणे जोग शुद्ध होय अने वितर्क के हेता विचार ते पण थोडो होय एटले मननु चंचलपणू थोडु होय जेम समुद्र पवन रहित श्रीर थाए तेम मन थीर थाय एटले हिर्यां विचार ठे पण सूक्ष्म ठे एटले ए ध्यान अवधीज्ञान मन पर्जव ज्ञाननो उपयोग देतां ए ध्यान बनि शके नहि शा माटे के अवधि मन पर्जव ज्ञान ठे ते परानु जायी ठे हेनो विषयरुपि द्रव्यने जाणवानो ठे अने आ ध्यान ठे ते स्वअनु जायी ठे अने हेनो विषय अरुपि इव्यने जाणवानो ठे माटे ए वेनो उपयोग अन्यो अन्य प्रतिपत्ती ठे ते माटे ए ध्यान ते श्रुतज्ञान वडेज नि पजे ए ध्यान थकि निर्मल केवलज्ञान पामे पण ए ध्यान थकि मुक्ति कोश पामे नहि शा माटे के ए पण जोगादिक आदिक ठे ते कारण माटे ए विरिते एकाग्रहपणे ए ध्यानने विषे प्रवर्ते तेने एकत्व वितर्क अप्रविचार नामे त्रिजो पायो जाणवो ने थीर परिणामी ए ध्यान ठे दीपक जेम पवन रहित थीर शिखा रेहे तेम संकल्प विकल्प रहित मन ए ध्यानमां रेहे ए ध्यान पर्याय रूप ठे वारमा गुणगणाना अंत्य सुधी ए ध्यान ठे हवे सुक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति त्रिजो पायो कहिये छिये एटले विजा पायाना अंते केवलज्ञान पामि तेरमा गुणगणामा वर्ते त्यां तो ध्यानात्रीकपणु होय ते वार पछि तेरमाने अंते चउदमे जतां त्रिजो पायो शुक्लध्याननो आवे एक कायजोग वाधर थकि रूंधे लोठे तथा मनजोग वचनजोग समस्त रूंधेला छे तथा केटलाक

आचारज केहेछे के बाधरज रोकेजा ठे एप्रि रीते बाधर जोग रो  
 किने तथा वचनकायाना सूक्ष्मजोग पण रोकीने अजोगी थयो त्या  
 अप्रतिपाति निर्मल विरज अचजतारुप परीणाम ते सूक्ष्मक्रिया  
 अप्रतिपाति ध्यान जाणवु इहा सत्ताये पच्यसि प्रकृति हती ते  
 मध्ये वोतेर प्रकृति खपावानी ने वाकिनी तेर रहि ए तिजो पा  
 यो जाणवो हवे चोथो उच्छिन्न क्रियानिवृत्ति नामे कहिये छिये जे  
 जोग कायानो सुक्ष्म रह्यो हतो तेपण रोक्यो एटले सर्वे जोग  
 रुध्या ने सर्वे क्रियानो इहा उठेद अइ गयो अने इहा शैलेशिकर्ण  
 करे एटले शैल केहेता जेवो पर्वत जेम कोइ पवन थकी कंणे  
 नहितेम अजोगी मुनीश्वर शैलेशिकर्ण पोचा थका निद्रकपपणे  
 रहे तेर प्रकृति जे रहि हूती तनो पण त्या क्य करीने अकर्मा  
 धाय सर्व क्रिया रहित थइने स्वस्वरुप प्रगट करे ए ध्याननु नाम  
 समुच्छिन्न क्रिया शुक्लध्यान विजु पण नाम ठे हवे ए ध्याननो चो  
 थो पायो ध्याता थका शरीर अवगाहना आवखु सर्व थकी थ  
 लगो थइने मोक्षमा जाय एटजे ए शुक्लध्याननो चोथो पायो क  
 ह्यो हवे ए शुक्लध्यानना च्यार पायानु फल कहिये छिये ते प्रथ  
 मना जे वे पाया ठे ते ध्यावावालो देवलोक जाय ने उपरनावे पा  
 यामा पेहेलो जे पायो ठे तेमा मरण ठे नहि अने चोथा पाया  
 वालो मोक्ष जाय ने त्रिजाने मरण ठे नहि पण चोथे पाये थइने  
 सिद्धी वरे ए कइ पाछा पडवाना ठे नहि माटे ए वने पाया अ  
 थय मोक्ष गतिज ठे हवे ए शुक्लध्यानवालो जथार्थ पदार्थ देखे  
 आश्रवनो नाश देखे ने ससार स्वरुप ए जवनी परपरानु कारण  
 देखे अन्य पदार्थ सर्व आत्मा थकि विपरितपणे जाणे ए शुक्  
 लध्यानना विसामामा एवि रीते जाणे देखे तथा शुक्लध्यानना त्रणे  
 पायामा धर्म उतकृष्टि शुक्लेस्वा जाणवि ने चोथो पायो जे ठे  
 तेतो लेस्याये करीने रहित कह्योछे एटले तेने वीठो लेस्या होय

नहिने शुद्धध्यानवालाना जोग पण सर्वे शुद्ध होय हवे ए शुद्ध  
 ध्याननु लक्षण कहिये त्रिये अहिंसक होय मोह रहित होय विवे  
 कि होय त्याग बुद्धि होय वली अवंध धयो ते माटे उपसर्ग परी  
 सहस्री कंफे नहि नीरज्यपणे वर्ते सुद्धम अर्थने विशेषे पण मुळा  
 य नही नीशंकपणे रहे मोह मायाना लक्षण अकि तथा सर्व सं  
 जोग थकि जुदो रहे ए सर्व विवेकनां लक्षण जाणवां देह तथा  
 उपगर्णानि त्याग बुद्धिये असंग अनुष्ठाने वर्ते एटले उपसर्ग अनु  
 ष्ठानरूप लक्षणे करी वर्ते हेवी रीत जे मुनी ए लक्षण ध्यानादी  
 कने विशेषे प्रवर्ते ते ज्ञानीपणु पामे ए रीते ध्याननो जे अनुक्रमने  
 शुध रीते जाणीने एज परमात्मानि आज्ञा ठे हेवी रीते ते आ  
 ज्ञानो अभ्यास करशे ते सपूर्ण अध्यात्म ज्ञानी अशे हवे ए ध्या  
 ननो महिमा कहिये त्रिये के ज्यां एवुं परिपक्व उत्कृष्ट ध्यान पा  
 मे थके इंद्र चंद्र नागिंद्रनी पदवी ते मुनिश्वर तरखला वरोवर  
 गणे ठे शा माटे के आत्माने प्रकाश सुखे सुखे करे एतु ज्ञान प्र  
 गटे ने बलि ज्वनो नाश करे एवुं ते माटे एज ध्यानने शैवो अने  
 जे कामातुरि होय ते पण कामदज्ञाने छोडे शा माटे के जड  
 स्वप्नाव जाणीने विषय सुखनो त्याग करे पण राग दशा  
 छांडवितो घणी डुकर ठे अने जे ध्यानवंत मुनिश्वरछे तेतो पर  
 मात्मारूपज साक्षात दर्सें ठे ते ध्यानमा तृप्ति पामिने फरीने ते  
 रागादिक न वछे अने विजा जे जिवो रह्या तेने रात्री सर्व नि  
 द्रामां जायठे अने ध्यानदशा वालाने रात्रि तो उठव मोछव ए  
 सर्वे सरखा आनंदमाज जायठे अने जे ससारि जीव विषयमा  
 लब्ध थका जे वेलाए जागे ठे ते वेजा ध्यानि पुषोने सयन कर  
 वानु ठे जेम अवड कुवानु पाशि जेम डोहोलायेलु वगडेलु होय  
 तेम ध्यान विनानु मन एवू जाणवू अने जे सर्व थकि सिद्ध फ  
 लनी इच्छा राखे तो त्यातो ध्यानरूपीया घटमां मनरूपी उज्ज्वल



अथ कस्यो एवि रीते जेनु प्रवर्तन होय अने जे ए शुक्लध्यान ध्यावे ते घणी मुक्तिनां सुख पामे एटले ए शुक्लध्यान कह्यु तथा ए च्यार ध्यान मध्येथी प्रथम जे वे ध्यान आर्चध्यान तथा रुद्रध्या न ठे ते अवश्य ठाडवा जोगठे अने धर्मध्यान जेठे ते आदरवा जोगठे पण ए थकी मुक्ति परावर्तनथी पण स्वर्गना सुख मले अने शुक्लध्यानछे ते मध्ये वे पायाठे तेतो स्वर्गना सुखना दा तार छे ते कोइक जिव आश्रीने ठे पण घणा जिवने तो ए मु क्तिनु कारण ठे शा माटे जे पेहेलो पायो आठमाथी ते दशमा गुणगणा सुधीठे एटले ए त्रण गुणगणाने विशेषे तो कइ मरण ठे नहि इहा जे स्वर्गादिक गति केहेवि ते उपरना गुणगणाने अथवा निचला गुणगणाने आश्रीने केहेवानु ठे शा माटे के जो मृत्यु पामवु होय तो पाठा पडे ने छठे सातमे आविने मृत्यु पा मे अथवा चमे तो अगिआमें गुणगणे जइने मरे तो सर्वारथ सिद्धे जाय अथवा अगिआरमे नज जाय ने पधारो वारमे जाय तो केवलज्ञान उपारजी अतघड केवलि थइ चउदमाने अंते का ल करि मोक्षे जाय पण शुक्लध्यानना पेहेला पायामा तो काइ जिव काल धर्म पामे नहि इहा कोइ केहेसे के जो काल गति न थि पामता तो स्वर्गगति केहेवानी शी जरुर ठे तेनो उत्तरके ए ध्याने वर्ते ठे जे आत्मा तेनो उपयोग सर्वकर्म नाश करवा जेवो नथी एटले जेटलि एना उपयोगनि रमणतानो सुमार जोइने स्वर्गगति कहिये गिये पण इहा मरण पामे नहिज हवे विजा पायाने जे स्वर्गगति कहि तेनो विचार कहू तु जे ए पण कोइक जिवआश्री ठे पण काइ सर्व जिवआश्री नथि शा माटे जे उप सम श्रेणी जे जीव आदरे ते जिव अगिआमें गुणगणे आव्यो थको मर्ण पामे तो सर्वारथ सिद्धे जाय ने पाछो पडे तो दशमे गुणगणे जाय तेनि तो कइ गति केहेवानी जरुर ठे नहि शामाटे

जे एम करतां फरिधी चडे तो मोक्षे पण जाय अथवा छे सा  
 तमे गुणगणे जतो रहे तो स्वर्गे पण जाय तेथि पण घणो निचो  
 उत्तरि जाय तो नर्कादीक गतिने विडो पण जाय माटे पडतानो  
 तो काइ नियम छे नहि हवे जे जिव उपसम श्रेणिए न चडे ने  
 क्षेपक श्रेणीए चडे ते जिव दशमा गुणगणाने अंते मोहनिकर्म  
 नो क्षय करे इहां सुधी पेहेलो पायो जाणवो हवे त्यां थकि दश  
 मानो उठयो वारमे गुणगणे जाय पण ते अगियारमे सर्व धान  
 ज जाय त्यातो उपसम श्रेणीवालो होय तेज जाय हवे जे वार  
 मे गुणगणे गएलो जिव क्षेपक श्रेणिवालो त्या शुक्लध्याननो वि  
 जो पायो ध्याय ते ए पायाना ध्यानने विडो वर्तते थके त्रण क  
 र्मनो नाश करे ज्ञानावरणी ॥१॥ दर्शनावरणी ॥२॥ अंतराय ॥  
 ३॥ अने एक मोहनि कर्मनो नाश प्रथम दशमे गुणगणे करेलो  
 हतो एटले ए चारे कर्मनो क्षय थयो ते कर्मने घातीकर्म कहिये  
 एटले घाती केहेता आत्माना गुणनि घात करता ठे ते कहिये  
 छिये ज्ञानावरणि कर्म ठे ते ज्ञानगुणाने हणे छे दर्शनावरणि कर्म  
 छे ते दर्शन गुणने हणे ठे मोहनिकर्म ठे ते चारोत्र धर्म तथा स  
 मकीत धर्म वंनेनो नाशकर्त्ता छे तथा विरजगुण अंतराय कर्म  
 दाव्या छे एटले ए चारे कर्म आत्माना जे चारे गुण मोटा ठे  
 तेने ए हणता ठे माटे एने घातिकर्म कहिये ने वाकीनां जे चार  
 कर्म ठे ते आत्माना गुणने हणता नथी तेतो शुजाशुज फलना  
 देखाडनारा ठे माटे एवा जे चार घातिकर्म ए विजा पायाना  
 ध्यान थकी हणाय ते घणी केवलज्ञान पामे पण इहां मुक्ति पां  
 मे नहि शा माटे के वारमु तेरमु गुणगणु पण अमरज ठे पण  
 मुक्तिनु कारण तादृश्य ठे हवे त्रिजो पायो ठे ते पण अजोगीप  
 णाने थापे पण मुक्ति न थाय पण ए मुक्तिनु कारण ठे पण  
 ति वीतेर सत्ताए वाकि छे ते

चोथो पायो ध्याता थका सर्व कर्मनो नाश करे ए पायाने अते मुक्ति पामे एटले ए ध्यान मोक्षनुज कारण छे एक मुक्तिरूप जाणवु मुक्ति रुपिया मालिया उपर जावु तेने ए शुद्धध्यान रुपाणि निसरणि जोइये ते शुद्धध्यानरुपणि निसरणीने च्यार पगथिया छे ते पगथीये पगथीये चडीने चोथा पगथीयाने अंते मुक्तिरुपिया मेहेलमा जवाय इहा कोइ ए च्यार पगथिया विना विजा पगथिया मुक्ति जवाना केहेछे अथवा पोते पण चड्या चाहे छे अथवा विजाने पण एवा पगथीया वतावे छे ते सर्वे मिष्ट्या छे ते मार्ग अज्ञानिनो जाणवो ए वचारा उलटा सत्तारमा च्यार गति रखडवु धारे छे जन्म मरणना फेरा तेना टले नहि ते घणी मोक्षे कोइ काले जाय नहि जे दहाडे आ शुद्धध्यान रुपणी निसरणीये चडशे ते दहाडेज मुक्तिनि आशा राखवि तो इहा कोइ केहेशे के धर्मध्यान पण विण खपनु थयु तेनो उतर के धर्मध्यान ठे ते शुद्धध्याननु कारण ठे माटे ते अकारण न थाय मुक्ति तो ज्ञान ध्यान वडेज ठे माटे ज्ञान ध्यान विना अपर जे रह्यु ते अकारण छे हवे जे ध्यान कह्या ते सर्वनु सार सक्षेपथी देखाडु छु परभावनो त्याग करवो मननि चलाचल सर्व टालवि अने स्वभावमा थीर थइ जवु एटजे सर्वे ध्यान थइ चुक्या इहाज मुक्ति थइ चुकी तेने इहा जिवता पण मुक्ति ठे ने मुवा पछी पण मोक्षे जाय

॥इहा॥ एह ग्रंथ पुरण हुवो बहु शास्त्र अनुमान, ध्यान जेद एम जाखिया तेइ सुणजो ज्ञान ॥ १ ॥ आर्त्त रुद्धध्यान ए पाया आठशु जोय, तजवा जाख्या ज्ञानिये ते जाख्या ए सोय ॥शाधर्मध्यान च्यार जेदथी जाख्यो तास विचार, पदस्थ पिडस्थ एम जाणिये रुपस्थ कह्यो निर्धार ॥३॥ जावना च्यार कहि तेहनी जाखी ग्रथ मोक्षार, लक्षणदि स्वरूप ते ज्ञानि मन सुख सार ॥

४॥ शुक्लध्यान तेम ज्ञाखीयु पाया च्यार समेत, तेम रुपातित  
 ज्ञाखीयु ए मुक्तिनु खेत ॥५॥ इत्यादिक बहु वारता ज्ञाखि ग्रंथ  
 मोऊार, वांची आणंठ पांमशे पडितजन निरधार ॥६॥ एह ग्रंथ  
 ज्ञणतां थका दुटे कर्मनी जाल, पामे सुख ते सास्वता मुक्ति तणा  
 तत्काल ॥७॥ एह ग्रंथ रुदये धरि ध्यान करे वलि जेह, ते नव अ  
 टवि नव नमे पामे शिव वधु गेह ॥८॥ धुपे रे अविचल रहो एह  
 ग्रंथ सुखकार, अर्क तेज जेम विस्तरे तेम विस्तरो उदार ॥९॥  
 पंडीतने मुख मुख वसे आत्म अर्थि तेम जोय, ए ग्रंथ सम अव  
 रजो नवि दिसे पण कोय ॥१०॥ मुक्ति दायक एग्रथ छे एहिज  
 मुक्ति स्वरुप, समजे ज्ञानी होय ते ज्ञाख्यु आत्म स्वरुप ॥११॥  
 एग्रंथ रुपछे ब्रह्म जलो पत्र समतारुप, कुशम तेहना जाणिये  
 नरसरग स्वरुप ॥१२॥ फल एनु अविचल ठे सुख पण अविचल  
 एह, धिति पण अविचल जलि शिव वधुने गेह ॥१३॥ जिनवर मु  
 नि तणो हूकम जे माथे चडाय, पामे सुख ते सास्वता वेगे पोचे  
 ध्याय ॥१४॥ उगणी सत संवछरे उपर बाविस जाण, वैशाख शुदि  
 पंचमि दिन वार गुरु प्रमाण ॥१५॥ आमोद गामे ए रच्यो निज  
 आनंद प्रमाण, संघ तणे आनंद घणो ध्यान रसे गुण खाण ॥१६॥  
 एग्रथ पुरण थयो पुरण आत्मीक सुख, मुनि हूकम कहे एह ध्या  
 वशे तेने नहि जव डुख ॥१७॥ जव डुख सेहेजे मटे ध्यान रसे  
 सुखकार, किरिया कष्ट न जोइए ए फोगट आल पंपाल ॥१८॥  
 खटपट सवि दूरे करो धीर करो निज चीत, आत्म गुण प्रगट हो  
 शे प्रगटे वोहोलु वित ॥१९॥ एग्रथ जे वाचे ज्ञणे ते थाये संत  
 रूप, राग द्वेष तेहना टले होय आत्म स्वरुप ॥२०॥ मुनि हूकम  
 कहे आत्मीक जेहने प्रगटी चाल शिव वधूना सुख जोगवे होवे  
 मंगल माल ॥२१॥

# अनुभवप्रकाश ग्रंथ.

## श्रीगुरुभ्योनम

अतर अनुभवके प्रकाशता जे अनुभव तेनो बोध थाय एवो आ ग्रथ छे एटले आ ग्रथने विषे अनुभवनो विचार कहूछु शा माटे जे मुक्ति मार्ग साधनना अनेक मार्ग छे पण अनुभव विना कोइ जीवनी मुक्ति थाय नही मुख्य राजमार्ग तो एजछे बीजा जे मार्ग छे ते सर्वे छिडियो ठे ते पण छिडियो अनुभवनो हृद सुधी तो पोचतीज नथी तो आगल शानीज चाले अने अ नुभव ठे ते केवो ठे साक्षात रत्न चिंतामणी जेवोछे जेम रत्न चिंतामणी मनोवंचित पुरे ते पण एक नवनु ने वणासीक सुख नो दातार ठे अने अनुभव ठे तेतो अविनाशी सुखनो दातार ठे शा माटे जे आ नवने विषे तो आत्म अनुभव करवाथी सतोप रुपी जे सुख उत्पन्न थाय ते मुख थकी तो केहेवाय नहि जेने केवली तथा अनुभवी जाणे केमके ए सुखने पढखे कोइ बीजा सुखनी उपमा देवा जोग छे नहि तो प्रत्यक्ष जोता अनुभव ठेते तो चिंतामणी रत्न छे अने परजवे सर्व कर्म थकी मुकावीने शुद्ध स्वरूप निरजन नीराकार अइ पोताना शुद्ध स्वभावने थीरताप णु पामीने सिद्ध क्षेत्रमा विराजमान थको अनतोकाज रहे एटले एने जनम जरा मरणना छुख टखे माटे अनुभव एज चिंतामणी रत्न छे एज सत्य छे पेलुं चिंतामणी रत्न छे तेतो पुदगलीक ठे ते तो जीवने वणो काल रखडावनार छे अने आतो मोक्ष दातार ठे अहीया कोइ केशे जे चिंतामणि रत्न नव वधारनार छे तो एनी उपमा केम दीधी

तेनो उत्तर जे ससारनी माहेलीकोर एथी बीजी वस्तु उ चम जोवामा आवती नथी माटे एनी उपमा दीधी माटे उपमा

ते कंइ वरावर गणवी नही हवे जे अनुभव ठे ते महा अमृतरस छे एटले अमृत केहेतां गुं के जेने खावे फरीधी मरवुं न पडे तेने अमृत कहीये अहीया अजाण लोक घणी जगाये वतलावे छे पण ते सर्वे असत छे केमके इंझादीक सर्वेने जनम मरण रह्यां छे माटे त्यां कंइ अमृतरस छे नहि अमृतरस तो एक अनुभव ज्ञानमांज छे जेने पीधे थकी जनमवु मरवु पने नहि इत्यादिक घणी उपमा जे सारमा सार होय ते अनुभव ज्ञानमांज लागु पने छे पण बीजाने सारी उपमा लागु पडती नथी शामाटे जे मुक्ति साधनेने विपे तप जप क्रिया कष्ट पूजा शेवा दानादिक ए सर्वे मिथ्या जाव छे ए थकी पण मुक्ति त्रण कालमां थाय नहि मुक्तिनो मार्ग तो ए अनुभव ज्ञानज छे एटले अनुभव छे ते शुद्ध स्वरुपनां पगथीया ठे अने शुद्ध स्वरुप ते मुक्तिनो दरवाजो छे ते कारण माटे धर्म अर्थी जीवोने आत्म अनुभवरुप पगथीये पगथीये चडवुं तो कोइ वखते शुद्ध स्वरुप रुप दरवाजामां पेसाशे तो मुक्तिना सुख पण पामशो अने ए अनुभव बिना बीजे आडे अबले पगथीये चरुशो तो धर्म कोइ दिन पामवाना नथी मुक्ति नां सुख तमने मलशे नहि चार गती संसारमा रखरुशो माटे आत्म अनुभव करो के तमारु कळयाण थाय ए इमारो हेतु उपदेश ठे. इति पीठिका.

हवे अनुभव पदार्थ ठे एटले अनुभव केतां जे बीचारण तेने अनुभव कहिये तेना वे जेद ठे एक शुद्ध १ बीजो अशुद्ध २ हवे जे अशुद्ध अनुभव ठे तेना वे जेद छे एक शुद्ध १ बीजो अशुद्ध २ ते मध्ये अशुद्धना वे जेद छे एक कृत्रिम १ एक सैजथी हवे जे कृत्रिम अशुद्ध अनुभव छे ते संसारनी माहेली कोरे अशुद्ध कृतवनो जेटलो विचार तथा केटलाकमां धर्म तथा पुण्य केहेछे जीवादीक ए सांप्रमुख सर्वे जाव रह्या छे तथा राग द्वेष मोह वि

पय कखायादिक उत्पन्न करवां तेने लोकीकने विषे धर्म तथा पुंन्य केटलाएक काममा माने ठे ते सवे कृत्रिम अशुभ अनुभव जाणवो हवे जे सेहेज अशुभ अनुभव तेनो विचार कहंनु एटले जीव मात्र अनादिकालना अज्ञानी छे अने मिथ्या ? अवृत्त ३ कखाय ३ जोग ४ प्रमुखने विषे कारण विना रमणता करी रह्यो ठे तव संग क्रिया रूप छे ते अनंता कर्म नवा अशुभ वाधे ठे एज वीचारणा तेने स्वजाविक अशुभ अनुभव कहीये ए वीजो जेदश हवे जे शुभ कृत्रिम अनुभव तेनो वीचार कहंनु एटले शुभ केहे ता जे रुना पुदगलनु मेलववु अशुभ केहेता जे माठा पुदगलनु मे लववुं माठा पुदगल ते पापरूप रुडा पुदगल ते पुन्यरूप हवे अही या शुभ जे कृत्रिम ते पुन्यरूप छे ते अहीया शु विचार करे ते कहंनु हंशा मृखा अदत मैथुन ने परिग्रह इत्यादिक तजवानो जे विचार तेने विषे एकाग्र चीत्त तलालीनपणुं तेने अनुभव कहिये ते कृत्रिम अनुभव थयो पण कइ स्वजाव थकी कय उपसम जाव आवे नही तो एयी काइ आत्मानु कळ्याण थयुं नहि विशेष पु न्यवध पण धाय नहि ए सामान्य प्रकार शुभ कृत्रिम अनुभव क हिये ठीये पण एयी कइ आगल कारज सिद्धि नथी हवे जे आग ल अकतम स्वजाविक जे शुभ अनुभव तेना अनेक जेदठे कोइक तो वेहेवार समकीतनो वीचार करे कोइ देशवीर्ती कोइक सर्व वीर्तीपणानो विचार करे पण ते शुद्ध नथी शा माटे जे ते ते धानकनी प्रकतीवोनो नाश थया नथी माटे ते अशुद्ध जे

शिष्य वाक्य.—स्वामी एने स्वजाविक तो कहो छो अने अशुद्धकेम कहोछो तेनो उत्तर जे स्वजाविक कहिये छिये तेनु कारण साजल—जे एने स्वजावेज ससार उपरथी रागादिक म द पड्यो ठे अने जव जयथी करिने उद्वेगपणुं ठे तेथी स्वजावेज शुभ रमणता रहे ठे ते मध्ये कोइक जिव जथा प्रवर्ति कारणे

गयो अने कोइक न गयो ए माटे एने स्वभाविक शुद्ध कहिये  
 पण शुद्ध तो एताथी घणुं डुरछे अने ए शुभ अनुभवथी पुन्य  
 किंचितसार उपाजें माटे एने स्वभाविक शुभ अनुभव कहिये.  
 हवे जे शुद्ध अनुभवनुं स्वरूप कहुछुं ते ए श्रोताजनो एकाग्रचि  
 त अइने धारजो एथी तमारा आत्मानु कळ्याण अशे हवे शुद्ध  
 अनुभव ते विचित्र प्रकारनो ठे परंतु समुदाये तेना वे जेद १ ए  
 ककृतम अशुद्ध अनुभव १ वीजो कृत्रिम शुद्ध अनुभव हवे जे  
 कृत्रिम शुद्ध अनुभव ठे ते आत्माने देव तत्व करी विचार अथवा  
 इव्य गुण प्रजायनो विचार करे अथवा ज्ञानदर्शन चारीत्रनो वि  
 चार करे तेने कृत्रिम शुद्ध अनुभव कहिये.

शिष्यवाक्यः—स्वामि एतो प्रथम अशुद्ध वालाने धेर वि  
 चार हतो ज तो अर्हिया विशेष शुं धयुं ने शुद्ध ज्ञा थकी कहो ठो  
 ॥तेनो उत्तरा॥ हवे गुरुजी माहाराज शिष्यने समजावे ठे देवाणुं  
 प्रिय त्यां तो सम्यक गुण प्रगट थयो माटे एने शुद्ध कहिये ठिये  
 एटले जेने सम्यक गुण प्रगट्यो तेने ज्ञानी कहिये जेने सम्यक  
 गुण न प्रगट्यो तेने अज्ञानी कहिये अज्ञान ते अशुद्धने ज्ञान ते  
 शुद्ध ते माटे तेने शुद्ध अनुभव कहिये ठिये.

शिष्यवाक्यः—स्वामिसम्यकज्ञावतेशुं ॥तेनो उत्तरा॥ जे स  
 म्यक केहेतां जे जेले प्रकारे आत्मस्वरूपनु जाणवु तेने सम्यक  
 ज्ञाव कहिये हवे ते सम्यकज्ञावनुं जे प्रगटवुं तेना वे जेद ठे एक  
 व्यवहार थकी १ वीजो निश्चे थकी त्यां व्यवहार थकी जे देव  
 अरिहत १ गुरु सुसाधु निग्रंथ शुद्ध परुपक शुद्ध ज्ञावमां रमण  
 ता वाला १ धर्म जे केवली भाखीत खट इव्य पंचास्तिकाय ते  
 मध्येथी एक आत्म द्रव्य जिवास्तिकाय ते आदरवा जोग छे वा  
 की धर्मास्ति १ अधर्मास्ति १ आकास्ति ३ ए त्रण इव्य आश  
 वा जोग ठे पुजलास्तिक छांबबा जोग ए त्रणो तत्व ३





जनुं धाय छे शा माटे जे आत्मा ठे तेतो अरूपी ठे अने रूपीने विषे दवाणो ठे हवे तुं अरूपीने शी रीते जाणीश अने तेनो अ नुभव शी रीते करीश माटे द्रव्यना लक्षण नलखवा जोश्ये ल क्कण वडे करीने सर्वे जूदा पडे पठी ते माहीथी आपणो द्रव्य ठे ते आपणे ग्रही लश्ये ने वाकीना ड्य ठे तेने पढ्या मुकीये अ ने आपणे आपणा आत्मानो पठे अनुभव करीये ते माटे प्रथम सर्व ड्यने जाणवा जोश्ये अने तेना लक्षण गुण प्रजाय सर्वे जाणवा जोश्ये त्यारे सत अनुभव थाय ते माटे प्रथम ड्यनानाम कहुवुं धर्मास्तीकाय १ अधर्मास्तीकाय २ आकास्तीकाय ३ पु ऋजास्तीकाय ४ जिवास्तीकाय ५ ने ठो काल द्रव्य ६ हवे तेनुं लक्षण उत्पात वयने ध्रुवे ते उपजवुं ने वणसवु ते प्रजाय नय नी अपेक्षाये ठे अने ध्रुवतापणु ते द्रव्यार्थक नयनी अपेक्षाये ठे ए जे कळ उत्पातने वय संजुक्त ए सत लक्षण ड्यनां ठे.

हवे ते जे प्रजायनो जे समुदाये तेने गुण कहिये ठिये ए टले एक एक ड्यमा अनंता गुणा रह्या ठे ने एक एक गुणमा अनंता प्रजाय रह्या ठे इत्यादिक अनेक विचार छे पण गुण प्रजाय वत ते ड्य हवे जे अर्थ क्रिया करे तेने ड्य कहुवाछे त्यांतो पोत पोतानी अर्थ साये तेने ड्य कहिये ते मध्ये धर्मास्तीकाय चलण साह्यने अधर्मास्तीकाय थीर साह्य करे आकाश अणुगाहना आ पे अने काल वर्तनापणु करे ए सर्वे आप आपणी क्रीया करेछे अने पुढगलास्तिक ठे ते पण मलवु ने वीखरवु पुरण थवुंने वेरा इ जवुं ए पण पोत पोतानी शक्तीये पोत पोतानी अर्थक्रीया करे पण ए तन एज महा अज्ञानमा पड्यो थको पो ते पराक्रिया करेछे ए मोटु ड.ख थायछे लक्षण छे तेतुं तारो धर्म छोमीने परथ रे तने अनादिकालनु अज्ञान सगी

वीर्ग्वेडी कहिये छिये तेने विषे वक्तव्यपणु ठे शा माटे के सुख  
 दुःखने वेदे ठे तेने विषे पण मती अज्ञाननो क्षय उपसम ठे इहां  
 कोइ केहेसो जे मती अज्ञान ने सुत अज्ञान पण सिद्धातमा कहा  
 ठे तेनो उत्तर के ए वात सिद्धातमा कहिछे ते सत्य ठे शा माटे  
 के एक उपजती वखत अप्रजात अवस्थामा लाधे शा माटे केजे  
 कोइक जीव सास्वादन गुणठाणे रह्यो थको मरण पामे ठे अने  
 वीर्ग्वेडी उपजे ठे ते जीवने उपजती वखत लाधे पण काइ सर्व  
 जीव आसरीने कह्यु नथी माटे ए गती आशरीने तो मती अ  
 ज्ञान ने सूत अज्ञान ए वेनो क्षय उपसम लाधे छे तथा असेनि  
 या पचद्रीने मती अज्ञान ने सूत अज्ञान ए वेनोज क्षय उपसम  
 लाधे ठे तथा सेनिया पचंडीने त्रण क्षय उपसम लाधे मती अ  
 ज्ञान श्रूत अज्ञान ने विन्नग अज्ञान ते मध्ये विभंग अज्ञान ठे ते  
 नारकीने तथा देवने भव प्रत्ये ठे अने त्रीजच तथा मनुप पच  
 द्री ए बने गुण प्रत्ये छे ते पण त्रणे अज्ञानना अनता भेद ठे इहा  
 कोइ केहेसो के अवधीना असख्याता तथा मती श्रूतना सख्या  
 ता भेद ठे तेनो उत्तर के सख्याता तथा असख्याता भेद कहा ते  
 तो उपजवा आशरी ठे पण ए ज्ञानना विषेना अनता भेद ठे ए  
 अज्ञानना क्षय उपसमनो सक्षेपे विचार कह्यो हवे ज्ञानना क्षय  
 उपसमनो विचार कह्यु पण ते ज्ञाननो विचार तो विस्तारे छे  
 ते केहेता तो ग्रथ गोरव थइ जायने अहिया तो अनुभवनो वि  
 चार केहेवो ठे माटे अनुभव जेटलो सक्षेपे कहिशु हवे जे अनु  
 भव करवो तेतो सस्वरुपनो करवो फायदो तो तेमाज ठे परस्व  
 रुपना अनुभवमा काइ फायदो छे नही हवे त्या स्वस्वरुपनु जा  
 णवु ते परस्वरुपनु जाण्या विना स्वस्वरुप उलखाय नही अही  
 या कोइ केहेसो जे परस्वरुपने जाणावानु शु काम ठे एक आत्मा  
 नो अनुभव करीये तेने कहीये के भाइ तारु बोलवु काची सम

जनुं थाय छे शा माटे जे आत्मा ठे तेतो अरूपी ठे अने रूपीने विषे दवाणो ठे हवे तुं अरूपीने शी रीते जाणीश अने तेनो अनुभव शी रीते करीश माटे द्रव्यना लक्षण उलखवा जोइये लक्षण वडे करीने सर्वे जूदा पडे पठी ते माहीधी आपणो द्रव्य ठे ते आपणे ग्रही लइये ने वाकीना डव्य ठे तेने पड्या मुकीये अने आपणे आपणा आत्मानो पठे अनुभव करीये ते माटे प्रथम सर्वे डव्यने जाणवा जोइये अने तेना लक्षण गुण प्रजाय सर्वे जाणवा जोइये त्वारे सत अनुभव थाय ते माटे प्रथम डव्यनानाम कहवुं धर्मास्तीकाय १ अधर्मास्तीकाय २ आकास्तीकाय ३ पुजलास्तीकाय ४ जिवास्तीकाय ५ ने ठगे काल द्रव्य ६ हवे तेनुं लक्षण उत्पात वयने ध्रुवे ते उपजवुं ने वणसवुं ते प्रजाय नयनी अपेक्षाये ठे अने ध्रुवतापणु ते द्रव्यार्थक नयनी अपेक्षाये ठे ए जे कइ उत्पातने वय सजुक्त ए सत लक्षण डव्यना ठे

हवे ते जे प्रजायनो जे समुदाये तेने गुण कहिये ठिये ए टले एक एक डव्यमा अनंता गुण रह्या ठे ने एक एक गुणमां अ नता प्रजाय रह्या ठे इत्यादिक अनेक विचार छे पणा गुण प्रजाय वंत ते डव्य हवे जे अर्थ क्रिया करे तेने डव्य कह्याछे त्यांतो पोत पोतानो अर्थ साथे तेने डव्य कहिये ते मथे धर्मास्तिकाय चलण साह्यने अधर्मास्तिकाय थीर साह्य करे आकाश अणुगाहना आ पे अने काल वर्तनापणु करे ए सर्वे आप आपणी क्रीया करेछे अने पुदगलास्तिक ठे ते पण मलवुं ने वीखरवुं पुरण थवुं ने वेरा २ जवुं ए पण पोत पोतानी शक्तीये पोत पोतानी अर्थक्रीया करे छे पण आपणो जे चेतन एज महा अज्ञानमां पड्यो थको पोतानी अर्थक्रीया छोमीने परक्रिया करेछे ए मोटुं डुःख थायछे शा माटे के तुंतो चेतना लक्षण छे ते तुं तारो धर्म छोमीने परध में केम पेसे छे पण तुं गुं करे तने अनादिकालनु अज्ञान सगी

नमां दूर्गंध वस्तु जरीने भाजनमां दुर्गंधनी वासना वेठी  
 छे ते दुर्गंधनी वासना गया विना ए जाजनने सुगंध वासीये तो  
 सुगंधवासीत थाय नहि माटे अहियां आत्माने विजावनो सग  
 न छूटे त्या सुधी स्वभाविक अनुभव केम करीने थाय अहिया  
 कोइ कहेशे के विजावनो नाश थशे त्यारे तो ए वितराग थशे  
 त्यारे पछी हेने शेनो अनुभव करवो छे तेनो उत्तर जेने ज्ञानाव  
 र्णो नो क्य उपसम थयोठे अने ज्ञान जाव प्रगटयो ठे ते पुरुष  
 ने जेटलो जेटलो विजावना अंगनो नाश थाय तेटलो तेटलो  
 स्वभावीक अनुभव प्रगटे ने सपूर्ण विजावना नाश थाय तो जा  
 एवा रूप अनुभव प्रगटे करवारुप अनुभव त्या नहि हवे जे अशे  
 प्रगटे तेने विवरो करीने देखाडु हुं ते प्रथम द्रष्टात कहलु ते सम  
 जजो के जेम सुरज ठे ते सपूर्ण वादलाये करीने घेरी लीधो अने  
 एना ताप तडकानो नाश थइ गयो अने अजवालु पण न्छु थइ  
 गयो अधकार विशेषे वाप्यो ठे ते मध्येथी एक वादलु खसे तेट  
 लो अजवास वधे अने अंधकारनो नाश थाय तेम अहिया जीव  
 द्रव्यने अनादि कालनो मिथ्यात्वी अज्ञानरुप वादला फरी व  
 ल्यां हतां ते मध्येथी कोइक जिव काल लब्ध पामी सदगुरुना स  
 मागमथी कोइने स्वस्वभावथी त्रण कर्ण करीने समकितरुप री  
 द्वि पाम्यो त्या मिथ्यात तथा अननुवथी चोकमीनो क्य उपस  
 मादि थयो त्यारे ए प्रकृतियोना प्रवेश हता ते आत्माना प्रदेश  
 थकी अजगा टल्या त्यारे आत्माना प्रदेशनो अजवास जेटलो  
 खुलो थयो एटली स्वभावीक रमणता थाय एटले जे अशे खुल्यो  
 एटलो स्वभावीक अनुभव ज्ञाननो थयो एम सातमा गुणठाणा  
 सुधी लइये शा माटे जे अहिया सुधी मोहनु जोर घणु ठे त्यासु  
 धी अशे विभावनो नाश थायज अने सेणीग ते मोहनु जोर न  
 रम पमी गर्यं त्यारे विजाव रहो ते जावत दशमाने अते विजाव

नो ने मोहनो सर्वेनो नाश थायछे त्या सुय स्वभाविक अनुभव करवामा आवे ठे पण अहिया क्रात्रिम नथी जे आ अथवा अव्य गुण प्रजाय इत्यादिकनो विचार अहिया करवो नथी अने स्वभाविक गुण गुणी नेद अथवा गुण प्रजाय नेद अथवा सकर मरण ए पोतानो स्वभावेज विचारमां चाट्यो आवे पण पोते जाणे नहि के हुं आ विचारमां हुं एवो तदरूप एकाकारपणे प्रणमेलो ए जे अनुभव तेने स्वभाविक अनुभव कहिये तेना वे प्रकार ठे एक समल १ विजो विमल २ एटले जे कृपक सेणीवालानो जे अनुभव ठे ते निर्मल ठे अने उपसम सेणीवालानो जे अनुभव ठे ते समल ठे शमाटे जे उपसम सेणीवालो ए सर्वे मोहनीक कर्मनी प्रकृतियोने उपसमावता कहेतां दावतो जायठे ते धणी अगीयारमे गुणठाणे जाय ए उपसम वितराग कहेवाय पण आत्म प्रदेशयी मोहनी कर्मनो नाश थयो नहि अने पोतानी विभावदशा जे अशुद्ध प्रणती तेनो पण नाश थयो नहि सत्ताये ए सर्वे रह्या ठे माटे जे स्थानक विषे ए धणीनो काल आधी पहुँच्यो तो ए चोथे गुणठाणे जाय एटले अगियारमानो उठ्यो चोथे गुणठाणे आवे त्यारे मोहनी कर्मनी प्रकृती ७ सातप्रकृती विभावधी प्रकृतीयोनो उदे थइ जाय पण एकावतारी ठे सर्वार्थ सिध्दे जाय अने जेनो ए गुणठाणे काल नजिक नहि होय तो प्रकृती उदेश थइने पाछो पमे तो ते जिव जावत निगोद सुधी पण जाय कोइक जिव तदभाव मोक्षे पण जाय कोइक जिव उपसम सेणी करे तो एक नवमां वे वार करे अने आखी नव स्थितिमां पांचवार करे माटे ए स्वभाविक अनुभव ए उपसम सेणीवालानो समल कहेतां मल सहीत ठे.

हवे जे वीमल स्वभाविक अनुभव ठे तेतो मोहनी कर्मनो नाश करतो चाट्यो आवे ठे ते दशमाने अंते संपूर्ण मोहनी कर्म

नो नाश करे अर्हीया अशुद्ध परणतीनो तथा विजावनो पण ना  
 श थयो ते वारे शुद्ध स्वभाव जेवो सत्ताये हतो एवोज जाण प्रणा  
 रुप अनुभव थाय एटले ए वारमे गूणठाणे ऋायक ज्ञावनो ती  
 तराग थयो अर्हीया गूणगुणी नेद हतो ते गयो ते एक जाव धउ  
 ने प्रणम्यो अहि शुद्ध नीश्रे नय जाणवारुप अनुभव थयो एटले  
 ए अनुभव ठे तेमनो वांचित दातार ठे अने हवे जन्म मरण कर  
 वो पढे नही माटे एवा एवा अनुभवनी खप करो. ए ज्ञव्य जीवो  
 शा माटे जे ए शुद्ध स्वभाव रुपी आ दरवाजामां पेठो ए एकद  
 एनी अदर केवलज्ञान पामीने मोक्ष जाय कोइकने आवखु व  
 धारे होय तो आवखु नोगवीने मोक्षे जाय पण फरीथी तो हवे  
 कोइने जन्म मरण करवुं नथी ए सदाय मीदमां वीरालमान अन  
 तु सुख नोगवता विचारशे ते माटे ए ज्ञव्य जीवो शुद्ध स्वभावनो  
 अनुभव करो एज हमारो हेतु उपदेश ठे.

॥ दूहा ॥ शुद्ध स्वभाव ए वर्णव्यो शुद्ध अनुभव जोग ॥

अशुद्ध स्वभाव छरे टले टल्यो मोहनी रोग ॥ १ ॥ शुद्ध अनुभव  
 प्रत्यक्ष ठे शुद्ध ज्ञान ए जाणो ॥ शुद्ध स्वरुपनु देखवुं नीश्रे चित  
 ज आणो ॥ २ ॥ ए अनुभव मुज चीतवश्यो जेम मधुकरने कमल ॥  
 एथी सवी सुख पामीये होय आत्म नीरमल ॥ ३ ॥ निरधनने मन  
 देव रीध जेम वलन जागे ॥ तेम ज्ञानीने अनुभव शुद्ध चित लगे  
 ॥ ४ ॥ ए जावमे वर्णव्यो स्वपर हेतकारी ॥ तारा चंद्रनी जावना  
 तेमे दीलधारी ॥ ५ ॥ एह ग्रथ रचना करी बहुन्याय साये ॥ हेतु  
 जुक्ती पण ठे षणी नीज रीधि हाथे ॥ ५ ॥ ज्ञानीकु ए ग्रंथ ठे अनु  
 भवीकु रसलीन ॥ ग्रथ हाथ शुं ठोमे नही अमरीत घटघट पीन  
 ॥ ७ ॥ अज्ञानी समजे नही एह शब्द विचार ॥ तेमां मुज कोइ दोष  
 नही क्षय उपसम विचार ॥ ८ ॥ सवत १९३३ शमें प्रथम जेष्ठश्र  
 पक्ष ॥ स्वतुर्दी शुरुवार ए पूरण थयो दह ॥ ९ ॥ हूकममुनीनो मा

( ५५ )

नजो बहु श्रुतनीस्र्प्रही जौइ ॥ ते पासै ग्रंथ देख जो अर्थ पांमशो  
सोइ ॥ १०॥ एह अर्थे पान्यो यकी पांमशो अनुभव सार ॥ मुनीहु  
कर्म ते प्राप्ती सीवि वंधु घर धार ॥ ११ ॥ सीव वंधुसे सुख जोगवो  
जो कॅरो अनुजव एह ॥ हूकममुनीनो माथे लइ पांमो रिधि तेह  
॥ १२ ॥ मुनी हूकम अनुजव ग्रहे सुधानद स्वरूप ॥ शुद्ध थीरता  
प्रगटसे पामे शीवि स्वरूप ॥ १३ ॥

॥ इति अनुजवप्रकाश ग्रथ संपूर्णः ॥

---



## श्री चिदानन्द वत्रीशी.

नाथ केने परघर रमण सोहायो, ए अचरिजमोये आयो  
 ॥ नाथ० १ ॥ मिथ्या अव्रतकपाये करीने जोग अशुद्ध मिलाये॥  
 वध उदे उदिरणा करीने श्रद्धा शुद्ध न पायो ॥ ना० १ ॥ अचली  
 प्रणती राग छेपनि वली अचरण मन जायो ॥ तेथी परघर र  
 मण करीने निजस्वरूप न पायो ॥ ना० ७ ॥ बहु विध मरण अ  
 नत करीने असथावर जमायो ॥ अव श्रद्धा आगमसु लहीने  
 हुकम निजघर आयो ॥ ना० ३ ॥ पद पेहेलु संपूर्ण ॥ १ ॥ नाथ  
 केसे निजघर रमण सोहायो ए अचरीज मन जायो ॥ नाथ० ॥  
 सद बुध मीत्र मळयो जव आई तेहने स्वरूप सूणायो ॥ तव वृ  
 त्त मूलथी ते जाणी चीत चमत्कार पायो ॥ ना० १ ६ निज्ञ  
 परमाद डर करीने आपसु आप जगायो ॥ निज ज्ञान दशा ली  
 धी सजारी तव मिथ्यात डरे जायो ॥ ना० ७ ॥ उज्जी प्रणतिसो  
 सव अई प्रणमी श्रद्धा सेहेज सोहायो ॥ तम हूकम शु शीव  
 सुख लहिये सेहेजे निजघर पायो ॥ ना० ३ पद ७ संपूर्ण ॥ तुही  
 हेतु हमारो अनूनव ॥ चाल ॥ अवधूएही ज्ञान हमारो जासुअ  
 नूनव हे प्यारो ॥ अवधु० ॥ वस्तुगते रह्यो जे धर्म सोही धर्म  
 हमारो ॥ ओर काज गोडी करीरे उनमें खेले प्यारो ॥ अ० १ ॥  
 वहिर अंतरने वली पर्म आत्मपर नित्ती तीन ॥ देहादीकको न  
 रम रह्यो जिहा सोवहीरा तम दीनेरे ॥ अ० ७ ॥ अतर आत्म खे  
 ले न्यारो ज्युजल कमल इष्टाते ॥ मुनीहूकम कोहे नही कर्म व  
 धन सोपरमात्म वृत्तरे ॥ अ० ३ ॥ संपूर्ण ३ ॥ राग आशावरी ॥  
 मैतो मेरीरे जोजाइकु समरु ओर सूनहीमोये काज ॥ ओर सू  
 कचू गरज सरे नहीरे धरके माथे लाज ॥ अवधू ओरकु कुण  
 सजारे ॥ १ ॥ मेरी जोजाइ मेरी पासे सोतो रहीठे मुन ॥ अहो  
 निज्ञ स्मरण करती मोरी वाकु गोडे कुण ॥ अव० १ ॥ नीज जा

नीकैरे पासे रेहेगु करगु आत्मकाज ॥ मुनी हुकम कहे साज्जलो  
रे जेगुं शीवपुर राजरे पद ४ संपूर्ण ॥

॥ पद ५ राग कट्याण ॥ चेतन क्युं खेले तुं परमे जो खे  
लेतो खेले घरमे ॥ चेतन० ॥ तुं जाणे परबुजबुरे सोनेही तुज गुण  
जाग ॥ परन्नपदेश परजोगधीरे परग्रहणेतुं लागरे ॥ चेतन० १ ॥  
सकल मनोरथ पुरवेरे चीदानंद महाराज ॥ जेश्री नव व्रमण म  
टेर आपे शीवपूरगज ॥ चेतन० २ ॥ ते माटे चेतन नजोरें का  
ढी नरवलाय ॥ हुकम कहे तुमे खेलोसहीरे निजघेर सेहेज स  
मायरे ॥ चेतन० ३ ॥ पद ५ संपूर्ण ॥

॥ पद ६ राग प्रजाती ॥ अहीने डध पावे जे माणस डणु  
विख बघोरें ॥ तेनेते खावे सहीरे नवटो गुण ते जारेरे १ चे  
तन क्या तुं पर समजावे निजघर नहीं तुं पावेरे ॥ चेतन० १ ॥  
परसम जावत आपकु खोवत निज चेतन आप संजारेरे ॥ आ  
प समजावत होव वर्धी जेहसु होवे सुखकारेरे ॥ चेतन० २ ॥  
परमां पेसत सुख नही पावत जेहथी बहु जंजाल ॥ आप संजा  
लत वीसे वीरजा मुनी हुकम कहे ते धार ॥ चेतन० ३ ॥ संपूर्ण ॥

॥ पद ७ राग वेलावल ॥ क्या सुवेतुं जाग वावरा जडता  
क्यु कहावेरे ॥ चेतन कहावत धरत उमेद तो सरग शुद्ध सोदावेरे  
॥ क्या० १ ॥ पंचज्ञान खटङ्क्यकु जाणे गुण पर्याये मन आणेरें  
॥ स्यादवाद इष्टि सु देखत नयनिकेप प्रमाणेरें ॥ क्या० २ ॥ पद  
प्रमाण खट कारक उनमां एम अनेक जंग तुरंगरे ॥ मुनीहुकम  
कहे जे ए जाणत सोही सरग सुरंगरे ॥ क्या० ३ ॥ पद ७ संपूर्ण ॥

॥ पद ८ ॥ राग विलास ॥ आज गइति समोवसरणमां  
॥ राग ॥ चेतन क्या तुं पर संजारे निज इयकुं सजालोरे ॥ आंक  
णी ॥ निजघर वहेसो सजाति जाणो अनत गुणे ते नरीयोरे ॥  
स्यादवाद इष्टि ते जोतां संजु रमण ते ॥ चेत

५ ॥ इत्यज्ञातं निश्चे व्यवहारो एमं अनेकं जेद ज्याहुंतरे ॥ मुनि  
 हुकम कहे जो ए जाणत तेलहे परमपद संतरे ॥ चेतनपे ३ ॥ पद  
 ८ संपूर्ण ॥ ॥ पद ए राग जेरव ॥ अज्ञेतो वधाइ ॥ ए चांला ॥  
 चेतन क्या तु करे परे आशां ठोमी दे एहवीपासारि ॥ चे ० ॥ पर  
 आंशसि पुंजल पेसत देखत लोक तमासा ॥ निज धणीका नाम  
 न जाणत एही बडा उदासा ॥ चे ० १ ॥ विजाति तु क्यारि वि  
 चारत एही पुंजल पासा ॥ निजस्वरूप रमता चेतनमां सेहेजे  
 होत खुलासा ॥ चे ० ५ ॥ निज धणीके पासे रहीके उर सु कहा  
 करना वाता ॥ मन उलास प्रगथो जे अनुभव सोतो नहि रहे  
 गता ॥ चेतनपे ३ ॥ चिदानंदकी मोज मची जब उरकी कुन  
 करे आशां ॥ मुनि हुकम कहे निजंघर आपहि चिदानंद करतु  
 हे वासां ॥ चे ० ४ ॥ पद ए संपूर्ण ॥ पद १० मुं ॥ राग प्रभाति ॥  
 चेतन क्या तु परमे पेसे अल्पकाल जाणत हे आपको ॥ उर  
 सुख कुण लेशे ॥ चे ० १ ॥ जो चेततो करले सजाइ प्राश्रित आ  
 लोयण पेली ॥ पत्नी संजाय ध्यानते करिये कानसगरसे सेहेली  
 ॥ चे ० ५ ॥ जो चेततो एणी विध करले उरसे नहि हे तुज का  
 जे ॥ मुनि हुकम कहे ते जन पामत सेहेजे शिव सुख राजरे ॥  
 ॥ चे ० ३ ॥ पद १० संपूर्ण ॥ पद ११ मुं ॥ दूहो ॥ एही गुरु एही  
 चेला एही देवनका देव ॥ उर काज ठोमी करी कीजे ननेकी  
 सेव ॥ १ ॥ राग आशावरी ॥ अंधक्यांतु अनुभव पुढे निज चि  
 दानंद नहि बुजे ॥ अ ० ॥ चिदानंदकी बात न जाणत उरकी क  
 रत हे आशां ॥ उर तेरेकु क्या बतलावु एही बडा हे पासा ॥  
 अ ० १ ॥ निज घटम चिदानंद दीसे सर्व गुणे ते नरीयो ॥ जेद  
 ज्ञानकी करे विविधा सेहेजे नवजल तरीयो ॥ अ ० ४ ॥ कथ ४  
 परम वना नहि जेहकु पण जो एहने नजशे ॥ मुनि हुकम कहे  
 तेहने सेहेजे नवजल तरीयो ॥ अ ० ३ ॥ पद ५३ संपूर्ण ॥

॥ प्र० १२ मुं ॥ वादलसे सूरजकुं टंकत ॥ राग ॥ हरे ॥ हरे ॥  
 सत्रहि आहारकु ध्यावे सोन्नव पार न आवे ॥ हण ॥ सत्रहि आहार  
 रक्ति गाता पुढे मोडे वसमन जेहनुं ॥ निज चिदानंद अंतर खेले  
 तिहा आहार नचिनुं ॥ ह० १ ॥ वाहाज आहार ते पुञ्ज लेवे सो  
 तो पुञ्ज उपासी ॥ अंतर आहार चेतन लेवे सजायध्यान मन  
 वासी ॥ अ० २ ॥ साविधि आहार विधीका करे जे लेगे ए आहार  
 मुनिहुकम कहे तेहेतेरे सेजे जवजलपार ॥ अ० ३ ॥ पद १३ मुं ॥  
 ॥ प्र० १३ मुं ॥ वादलसे सूरजकुं टंकत ज्युं कर्म चेतनकुं ॥ तेम  
 तरिया जोगकु खंडत नर लोके ध्यान मनकुं ॥ १ ॥ जं झोडनते  
 ध्यान न होवे ध्यान एकाते कहियुं ॥ ध्याततपि जो कोरे वि  
 वीका तो जोगी मतकर सत्रयुं ॥ वा० ३ ॥ कवि पक्ष एकांत गहि  
 ने करे कविता रुडीरे ॥ मुनि हुकम कहे सुखे जंर तंतो ए मन  
 नहिठे कुंरीरे ॥ वा० ३ ॥ पद १३ मुं ॥ राग  
 गोमी चेतन क्या तुम न बोवावे स्तु हुकमि पावे विणे ॥ एम  
 नठे पुञ्जका घरको सोदि विजानी कुरो ॥ विजातीको संग क  
 रणसु काल अनादि गमाखे ॥ वे० १ ॥ तेहेतेरे कुं जालन आव  
 त हजि मन न समारो ॥ अ० ३ ॥ हुकमि केरहि चेतन जंठ मंता  
 र जमारो ॥ चे० २ ॥ ते नठे नद बंधकर स्वतो ज्युं आविलुख  
 फल चाखो ॥ मुनि हुकम कहे सुखे जाइ तंतो ए उपदेशमें हा  
 खो ॥ चे० ३ ॥ पद १३ मुं ॥ राग मोडी चेतन  
 क्या तुं मन बोवावे जेहेते अनाज पवे ॥ वे० ॥ ज्युं सुख  
 धायिकु जाएत तेहेतेरे जंठ ॥ नयन स्त्रेप प्रनाख तुं जंठ  
 बलि स्यादवाद संवद जंठे ॥ पद १३ मुं ॥ कवि कहे नहिठे को  
 निजबुद्धि अनुतारे अनेक पक्ष अनाज कदिअने नहिठे को  
 केस न वारे अनेक अनाज अनाज विदानुं अनेक अनाज  
 य वीको ॥ मुनि हुकम कहे सुखो नाज

वो ॥चे०३॥ १५ संपूर्ण ॥ पद १६ मुं ॥ राग केरवो ॥ पियारिन  
 केसे रहुमें श्रवला एकलडी नार ॥ पिया तुम जिसदिन गया वि  
 देसे फेर खबर नहि पाये ॥पी०१॥ जुरत जुरत बहु कालवितो  
 धीरज नहिरत कोइ ॥पी० २॥ सखि हमारी हासि करति पीउ  
 तुम केम न बोलाय ॥ पी० ३ ॥ श्रव तुम नाम समरण हुवो  
 मोये ठतिया फीट फीट जाय ॥पी० ४॥ सासरीये मोये साजन  
 किधि पिउ पण मनसु जुलाये ॥ पी०५॥ मुनिदूकम कहे धीरज  
 राखे श्रव तेरेकुं बोलाये ॥पी०६॥ संपूर्ण ॥ पद १७ मुं ॥ पीउसे  
 में केसे करुने नर घरमें जे जाय ॥ एकलडी में घरमे रहेति तरुण  
 अवस्था पाय ॥पी०१॥ वेरीरे देखी ठीदर देखे ॥ रखे कुलमें  
 कअंक लगाय ॥पी०२॥ मोये कंडपकामें पीडी ॥ विन अग्नि त  
 नमें दाह्य ॥पी० ३॥ रुपरग चतुराइ ते खोइ ॥ नर सुवात केम  
 थाय ॥पी०४॥ सुणो सखी ए श्ररज हमारी ॥ जइ मोये पीउकु  
 जनाय ॥पी०५॥ मुनिदूकम सुं जाइ कहुरे ॥ चेतन घर अणाय  
 ॥पी०६॥ संपूर्ण ॥ पद १८ मु ॥ जोवन माती राग जेजेवंती सुण  
 ए नमरवात ॥ कुण ठे तेरी जात कुण तेरो मात तात तु नहि  
 जाणोसोहिरे ॥सु०१॥ तुतो वेवो परघरमे पररमणि तेरे दलमे ॥ सो  
 हि मानत सुख मनमे एम समजनतोहिरे सु०२॥ तेरो घरहे सो  
 वूजो श्रव तेरी नारकवुजो ॥ मुनिदूकम कहे श्रव सुजो सोहि पुवु  
 तोहिरे ॥सु०३॥ पद १९ संपूर्ण ॥ पद १९ मुं ॥ राग नृपाडी ॥  
 नमर कहे सुण सखी हमारी वातरे तुम कहे घर डुजो सोतो  
 कुण जातरे ॥ सखी कहे सुण नमर एतो विजि जातरे ॥न०१॥  
 तुठे चिदानदमइ तेरो रुप नरजातरे ॥ नारि तेरि प्रतिव्रता सोतो  
 जुवे वाटरे ॥न०२॥ एतो नारि हे डुखदाइ तेरी करे घातरे ॥मुं  
 निदूकम कहे श्रव जाणो ऐसोये श्रवदातरे ॥ न०३॥ पद १९  
 संपूर्ण ॥ पद २० मु ॥ चेतन तु का फरे नृना चेतन क्युं का तुं न

रमाये ॥ तेरा रूप जाण लह्याजोराये ॥चे०॥ तेरी गत जाण लइ  
घटमें जमियो हुं गति पटमे ॥ चे०? ॥ राग छेप बंधव हे तेरा  
ए परिवार नहि मेरा ॥चे०॥ तेरि संगसे मे कहियो नाना रूप  
गतिमें लहियो ॥चे०१॥ नर्कादिक छुख में सहियो सोतो मे जा  
ए अब लहियो ॥चे०॥ मुनिहुकम कहे सुण जाइयो एहसुं अल  
गानित रहियो ॥चे०३॥ पद १० सपुर्ण ॥

॥पद ११ मुं ॥ राग काफि ॥ मोहे नहि गमत ए वात ॥  
अब तो तुं मेरे पास न आविइ आविइतो खाइइ गाल ॥ मे  
रेकुं ते छुख बहु दिनो मेरे कुलकुं नरो तें ठार ॥ मो० १ ॥ बहु  
गति अब भ्रमण करायो जन्म मर्ण जंजाल ॥ कोडि जाग अनंत  
वेकायो क्या कहुं वारवार ॥ मो०१॥ अब में तेरि संग कवहु न  
करसुं जो हसे मोहे लाज ॥ मेरे घेरहे रमणि सुंदर हुकमने ए  
हि सुखकाज ॥मो०३॥ पद ११ सपुर्ण॥पद ११ मुं॥ रागकाफी  
अब जमरसो घेर आए ॥ एहि वात हुइ सब खोटि परघर रह्या  
ए जूलाये ॥ निजघरकितो खबर नहि लिनि रह्यो मोये अरूजा  
ये ॥अ० १ ॥ एते दिन घर नाहि पीठानो परपोताको ठराये ॥  
अवतो एहि विध करिने निजघर जइ खराये ॥ अ० १ ॥ एतो  
विचार करत हे जमर देखे जावनदाव ॥ मुनि हुकम चिदानंद  
मये विचारत सुख पावे ॥ अ०३॥ पद ११ संपूर्ण ॥ पद १३मुं  
राग मारुसरणा ॥ चेतन चेतोरे ए चाल जमर एम चेतोरे निज  
घटमा कर विचार ॥ज०॥ तव वैराग्य तिहां प्रगढ्यो मनसुअधिर  
संसार ॥ उदासिनता घर हि पाचत तवधिरवरतिघार ॥ज० १॥  
उगणिस उगणत्रिस अगनोतेर खपावत हे तेणिवार ॥ एकको  
माकोड सागर रहि येहा सलतकर्म ततकाल ॥ ज० १ ॥ आगे  
कष्टि हे असंख्याता चढता मुस्तखपाये ॥मुनि हुकम कहे चिदा  
नंदमये अपूर्वकर्ण ते थाये ॥ज०३॥ पद १३ संपूर्ण ॥ पद १४...

मुं राग मायसयणि ॥ चेतन एम चेतोरे आई मन उलास सखि  
 इम वोलेरे ॥ सुण वेहेनि कहे सखिरे वधाई मोये देराये तुम पी  
 उकु मे जाइ बोलावु संवध सवहि ए सूणाये ॥स०१॥ सोयपण  
 ततकाल समजत उनकुं डुरनिवार ॥ उन परिवार सबकु धाये  
 अब आवणकि तइयार ॥ स०२ ॥ इतविदवात कहितवहरखित  
 रोमरोम उलासाये ॥ मुनिहुकम कहे ते विपवधाइ बहोत मोज  
 एवकाये ॥स०३ ॥ पद २४ सपूर्ण ॥ पद २५ मु राग नायका ॥  
 अब जमर चेतनकुरे धायो ए आकणी अपुरवमोगर हस्त धरत  
 हे लइगठीकु धाउं अपुरव वीरजकरत उदेरी थति मूर्तफेर धाउ  
 ॥अ०१॥ सप्त प्रकृति तिहां उपसमाइ त्रितय करण तव जाये ॥  
 असख कष्टि करि तिहा आयो निज अंश स्वरुप देखायो ॥अ०१॥  
 ॥२॥तव समकित प्रगव्यो उपसम अति मुरत सोहाये ॥ मुनि हुकम  
 कहे निजघर आयो सुदरि मोतिडे वधायो ॥अ०३ ॥पद २५संपूर्ण ॥

॥ पद २६ मु राग रेखतो ॥ सुदरि कहे सुण, पिया एति  
 क्या करी हमकु वोम डुर रहे खवर न लहि ॥ आकणि ॥ पिया  
 कहे सुण प्रीय खवर न पडी ॥ नित्य अनित्य नहि जाणि तिन  
 सें एठरी ॥सु०१॥ तुम सखीये आय कह्यो तवहि सब लहि ॥  
 अस्ति नास्ति जाणि मोये स्वपरसहि ॥सु०२॥ एम स्वरुप जा  
 एयोजव उनकुं डुरकरि ॥ मुनिहुकम कहे नारि आयो घरवरी ॥  
 ॥सु०३॥ पद २६ मु सपूर्ण ॥ पद २७ मुं ॥ राग जेरवि ॥ आग  
 ऐ कजपफलोरी जब मुख देखो पीठकेरो ॥ डुगधा, डुरे गयोरी  
 चेतन सुमता दोउ खेले ॥ वस्तु स्वजाव लहोरि इव्य गुणपर्जा  
 य विचारत ॥ जेदाजेदकि होरी अनुजव रसकुं ए चाखत है र  
 मत सुमता घेरी ॥ मुनिहुकम कहे सहि ए पाम्यो सहेजे सीव  
 पुरशेरी ॥आ०३ ॥ पद २७ सपूर्ण ॥ पद २८ मुं राग कानुडो ॥  
 माधु तु नाम धरावेठे पचडि मन बडा नहि तेरो ॥ विषय घेरो

ते देवेते ॥ सा० ॥ अहो तुं स्मरण कर विपेको साधु क्यु नाम  
 कहावेते ॥सा०१॥ अत्रहचारी यज्ञे तुंतो ब्रह्मचारी पाय लगावे  
 ते ॥सा०॥ याविपरीत दिसेते खोटुं जेहथी डुरगति जावेते ॥सा०॥  
 ॥१॥ ते जाणि विषय दूरनिवारो साधुपणुं जो चाहेव ॥ मुनिहू  
 कम कहे सुणो जाइ सतो ए काढे सुख साहेते ॥ सा०३ ॥ पद  
 १० मुं संपूर्ण ॥ पद १ए मुं ॥ जव लगे मोह न निवाखोते तव  
 लगे संजम किरिया जुठी ॥ क्युं तुं तनकुं तपावेते ॥ज०॥ पुत्र  
 कलत्र मन शुं सजावत सत्रु मित्रु चित लावेते ॥ज०१॥ जव  
 लगे मनशुं मोह न निवाखो तो चारित्र शुधी नहि पावेते ॥ ए  
 मोह ठे बहु डुखदाइ चिहुं गति त्रमण करावेव ॥ज०१॥ ते माटे  
 ए मोहकुं निवारो जेहथि संजम खोवेते ॥ मुनि हुकम कहे चि  
 दानद जजता मोहते दूरे जावेते ॥ज०३॥ पद १ए मु ॥संपूर्ण॥  
 ॥पद ३० मुं ॥ राग मलार ॥ ए अनुजव हे प्यारो आपे ध्यान  
 रसालोहे ॥ ए० ॥ निजघर खेलत चिदानंद महि पुज्जल खधन  
 जाचो ॥ नाणदरसणा चारित्र अनतो एक परदेशे वाचो ॥ए०  
 ॥१॥ नाणादि परदेश अनंतो लोकालोक प्रकाशो ॥ ज्ञेय प्रमाणे  
 ज्ञान ते जाणो स्यादवाद पदथी बहु रासो ॥ए०१॥ नयनिक्षेप प्र  
 माण विचारत जेदाजेद तिहा आयो ॥ मुनिहूकम कहे ए ध्यान ठे  
 शुं कज ध्याननो पायो ॥ए०१॥ पद ३० मुं संपूर्ण ॥ पद ३१ मुं राग  
 धनाश्री ॥ जटकत कुन फरेरे ॥ ए देशि ॥ सुणरे सैया ध्यान एठे  
 साचो आपे शीवसुख जाचोरे ॥ सु० ॥ एकत्ववित्रक विजे पाये  
 अनेद ज्ञातने साचो ॥ करमचार ए घाति हणने नीज चतुष्टी पदमा  
 चोरे ॥सु०१॥ वादर सुकम जोगकु रोकने हुवा अजोगिताही ॥  
 प्रकति पंचासि सतानि दणने जिहा नहिठे वंघडाहिरे ॥ सु० १॥  
 पंचलघु अकररे कारण कारज करी लोक अंत पेठो ॥ मुनिहुकम  
 कहे हे चिदानंदमय आपे अज्ञे वेठोरे सु०३ पद ३१



# श्रीरागमाला.

## श्रीगुरुभ्योनम

उसका नामद्वर्ष विलासः॥ या ग्रंथमै रागवालाकु तो राग  
है उर कविजना कैलीया उर पंक्तिजना कैलिया दर्वाणु जोग  
मै चिदानंद लीया अनुलोको स्वरूप है सोगयातापुर साका बीचा  
रवा जोग है, प्रथम राग जैरवै ॥ चिदानंद जजो रे जाइ चिदा०  
॥आकणी ॥ सहैज स्वभावमें सदा जो रहैवे राग जैरवमे गोवे  
वोही परीब्रह्म वोहि परमेश्वरै वोहि चिदानंदकाहावे रे भाइ ॥  
चिदा०॥ उनकि किरपा वनेये होवे, मेरी इछा पुरी ॥ राग मा  
ला में करत हू नहि कोइ बात अधुरी रे जाइ ॥चिदा०॥ दरवा  
णु परजाय लहिने, ये सब रागमे गाउ ॥ मुनिहुकम चिदानंद  
मुरति, शुद्ध स्वरूपमें पाउ ॥इति प्रथम पद सपूर्ण ॥

रागनिभैरवी ॥ चेतन दरव जाणैरी, दरव गुण परजाय उ  
नकु, लक्ष्मै ते समजेरी ॥ नए निपप तत्वैकु जाणो, जेद संक  
करेरी ॥१॥ श्रीजीनवैरने ऐसा ज्ञाख्या, परजायने ए ग्रहेरी ॥  
सुद्ध समकीत उनसे होवै, या बीन चित ठरेरी ॥श्री०॥२॥ चार  
अनुजोग्यमे एक ज्ञाख्या, दरवाणु जोग कहेरी ॥ मुनि हुकमए  
नीधे अनुजोग, राग नीजैर्वी बोहोरी ॥ श्री०॥३॥ इति उत्तये  
पद सपूर्ण ॥

राग नीविभास ॥ जीवादी वस्तु दरवकु भाव स्वैरुपी ते  
कहिये रे, जीदरवै दरव प्रैते कैते जाणो विरोध अपने मेना लहि  
ये रे ॥जी०॥१॥ जयारथ स्वरूप हैयाका, व्याप व्यापके कहिये  
रे ॥ लच्छणये है वस्तु स्वरूपका, सचा चीतमे लहीये रे ॥ जी०  
॥२॥ जीव दरव अनता भाष्य, कारज जेदे जाणो रे ॥ नावने  
दे तो एकज कहिये, खेत्रकाद नाव बखाण्यो रे ॥जी०॥३॥ समु

दाय ए ननका नाख्या, दरवादी चतुष्टी लहिये रे ॥ मुनी हुक  
म चिदानंद नजता, राग नीवीनास ए कहिये रे ॥ जी० ॥ ४ ॥  
इति त्रीतीये सपूर्ण ॥

रागनीललत ॥ दरव प्रैते समजेने जीया प्रवेश प्रदेशे जा  
णो ॥ स्वैस्वै कारज कारन ननका, साम्रथ रूप बखाणो ॥ दर०  
॥१॥ अनंता अविनाग परजायका, तीनके समुदाय रूप ॥ ताको  
गुण कहै हैग्यानि, याको समजो सवैरूप ॥द०॥१॥ कारज कार  
ण चित्रति ठै, तिहां साम्रथरूप लहिए ॥ गुणपरजाय चित्र चि  
न्यैये, गुण पण अनंता कहिये ॥द०॥३॥ गुणगुणपर तैपर जाय,  
अवी ज्ञागरूप लहिए ॥ अनंता पण सरखा नाख्या, वरजाय  
आस्तीरूप कहिये ॥द०॥४॥ प्रतिकेश्वस्तु अनती तेथि अनंतगु  
ण जाणो ॥ मुनिहुकम साम्रथ परजाय रागनिललता गवाणो  
॥दरव०॥ इति चतुर्थय संपूर्ण ॥

रागनिपटमंजरी ॥ उठ तेरो रूप देखो चीदानंदराया दर्ब  
के लक्षण जाणो तीनुका जेद काहाया ॥ उत पात वयै डुव जु  
क्त संतल ठ गाहाया ॥ १ ॥ दरवास्त्रिक परथमनेय भाख्यौ पर  
जाये नयै दूजो ॥ उचयैनय अपिण्या विजंठन जाणे ननमै मो  
हो धुजो ॥१॥ गुण परजाय सहित ते दर्बे जाण गवक्ता साचो ॥  
मुनिहुकमये पट मंजरी रागनिगायराचो ॥३॥ इतिपद५संपूर्ण॥

रागनीपट ॥ परजाय नय विचारत चेतन, संत धर्म सो क  
हिये रे ॥ परः अर्थ क्रीया करे जो दर्बे परजाय अपिण्या लहिये  
रे ॥१॥ पर. आप आपणी सक्ती सारु, धर्म अपीण्या कहिये  
रे ॥ धर्म अधर्म आकाश जाणो, पुजल जीते लहिये रे ॥१॥ ठ  
गे काल दरवते नाख्यो, आप आप केलण्या लहिये रे ॥ मुनी  
हुकमये दरव स्वजाव ठै, रागनिपटये कहिये रे ॥ ३ ॥ इति पद  
ठो संपूर्ण ॥

परजायकु ते हे मानो ॥१॥ उपीयोगवंत ते चेतना जानीये, बी  
न्य उपीयोग जे मै जानो ॥ मुनीहुकम राग हिंडो गावा थकी,  
शुद्ध उपीयोगथी शीव सुख वखानो ॥ इति पद १३ संपुर्ण ॥

राग सारंग ॥ पचास्तीकायके मानमे, नीजरूप पीठाना  
तानमे ॥ अरुपी चिदानद स्वामी, जीव एक वखानमे ॥पं॥१॥  
ओर चारौ आस्तीकाय ए, अजीव दरवते जाणीये ॥ वाके पराव  
र्तन नोमीतै, काल दर्व वखाणीतै ॥पं॥२॥ प्रत्वा प्रत्वै वै के का  
रण माटे, ठटोदर्व चित आणीये ॥ ए दर्वने परदेश नहीठै, ते  
थी आस्तीकाय न जाणीये ॥पं॥३॥ व्यवहार नय अपीक्ष्याय  
दर्वै, समीये खेत्र दाखीये ॥ आदित परीठेद परीमाणे ॥ समी  
ये आवैली वखाणीये ॥पं॥४॥ ते माटे आस्तीका नहि आस्ति  
काय पच धारीये ॥ मुनीहुकम कहै आगत कहैशुं, रागनी सारं  
ग विचारीये ॥ इति पद १४ संपुर्ण ॥

राग नीगोरु ॥ अपना रूप जबहम नीरख्या, पंचास्तिका  
य माहि ते परख्या ॥ आकणी ॥ जीव स्वरूप असख्य परदेशी  
लोक परमाणे परदेश ते धारो ॥ तेमज धर्म अयर्म कहिये, प्रते  
के प्रतेकै परदेश विचारो ॥ १ ॥ लोक अलोक मलीने कहिये,  
आकास्तिकाय एक काहाणो ॥ परदेश अनताये ना कहिये, चो

१॥ दर्व गुण परजाय व्यापक, परणामीक लक्षण स्वभावो ॥ ए  
कपणु ने नित्य प्रतीहा, अवि अवर हित पद ध्यावो ॥ २ ॥ की  
रीया रहित सरव गत जाणो, एसा मानधर्म काहाणो ॥ पंचा  
स्तिकाय माहिते कहियै, सदा स्वभाव चित आणो ॥३॥ विशेष  
धर्म हवे ते केरो, आगे अमे ते कहिशुं ॥ मुनिहुकम शुद्ध सारं  
गावतां चित्त हरखीशुं ॥४॥ इति पद १६ संपूर्ण ॥

राग नीमालसीरी ॥ अपना धर्म धावो आतम, वसे सजा  
व चित जावो ॥ आंकणी ॥ वैसे सधर्म पंचास्तीकायमे, इव्य  
गुण परजाय जाणो ॥ व्यापकत्वै स्वरूप ते कहिये, गरु गमथी  
चित्त आणो ॥१॥ परमाणीक लक्षण स्वभाव जे, एम अनेक चि  
त्त धारो ॥ एक अनेकने नित्यय अनित्य ए, नीर अवि ए वस्वै अ  
वि एव विचारो ॥२॥ संक्रीये पद एह मै जाणो, देशगत सर्वगत  
परवेस ॥ वसेप पदारथ गुण परवरती, कारण पण होय बीशेप  
॥३॥ नहि सामान वसेप विठै, विशेष सामान विनताही ॥ दोय  
धरम सदा रहे जीहा, आस्तीकाय कहिये त्याही ॥४॥ मुनीहुकम  
एह धर्म ठे, स्यादवाद स्वरूपे ॥ राग नीमालसीरीए गाइ चिदा  
नंद अनुपे ॥५॥ इति पद १७ संपूर्ण ॥

राग नीमुलताइ ॥ चेतन सामान स्वभाव समजा, नर स  
मजा सै कौनमजा ॥ आकणी ॥ मुल सामान स्वभाव कहियै  
खट जेद उनका लीया ॥ आस्तीत्वैने वस्तुत्वै जेद, दरवत्वै ती  
जा कीया ॥ १ ॥ परमेत्वैने सतत्वैये, अगर लघु ठटा थया ॥ ये  
सामान सुजाव के जेद है, खट विध ए रचना कहा ॥ २ ॥ सा  
मात्र ते सर्व दरवमे लाधे, सरखा धम होय खरा ॥ मुनीहुकम  
अर्थ आगै राग नीमुलताइ वरा ॥३॥ इति पद १८ संपूर्ण ॥

राग मलार ॥ आतम आस्ती स्वभाव जाखी, सुधै धर्मते  
वाखे ॥ आकणी ॥ वसे सधर्म के आधार नुत जो, सोही आस्ती

तै कहिये ॥ गुण परजाय धरियाकु, वस्तुत्व स्वैजाव लहिये ॥  
 १॥ अर्थ क्रीया करे सोद्वर्ष, अथवा उत्तपात वैय जाणो ॥ उत्त  
 पत्ती परजाय पुत्र पीता जीम, आविरजाव वखाणो ॥२॥ प्रैस  
 वैसम लक्षण विरजतुत, परजाय तीरो जाव कहिये ॥ जावरुप  
 सक्ती आराधे दरवत्व चौथो लहिये ॥ ३ ॥ सपरव विद्वया ग्यान  
 प्रमाण, नीति प्रमाण ते कहिये ॥ स्वगुणमे प्रणमे जो चेतन सु  
 ध परमेत्वै लहिये ॥ ४ ॥ उत्तपात वैय दूवे जुक्त, तेहने सत्वै ते  
 जाणो ॥ हाण ब्रही खट गुणी जीहा वै, अग्ररु लघु वखाणो ॥५॥  
 एसा मान स्वजाव सटनो, अर्थ सक्षेपे जाख्यो ॥ मुनीहुकम ए  
 राग मलारे, नीज स्वरुप कहिने दाख्यो ॥६॥ इतिपद ए संपुर्ण ॥

राग नीमलार ॥ सामान सुजावके उत्तर जाखु, आस्ति  
 स्वजावके जाणो ॥ अनत जेदया के जाखे, पण त्रियदश वखा  
 णो ॥७॥ सामान सूजावके उत्तर जाखु, आस्ति नास्ती नीतसु  
 जावै ॥ अनित एक सुजावै, अनेक जेद अनेद कहिए ॥ ८ ॥ न  
 व्यै अजव्यै ते लावो, वकैतव्यै अवकतव्यै जाणो ॥ परम स्वजा  
 व तेरमो लहिए, उत्तर सामानै वखाणो ॥३॥ उत्तर सामानै स  
 र्व दग्धैमें, सरखे जावै लावे ॥ मुनीहुकम ए मलाररागनी, गा  
 तो मनुमो वावे ॥४॥ इति पद ५ ॥

य, जीहां नास्ति तिहा आस्ती जोय ॥ दरवादिक चतुष्टि धार,  
 आप आपणी लहो विचार ॥१॥ दरवादिक चतुष्टि जेह, स्वैग्रहै  
 आस्ती पढ तेह ॥ पर दरवादिक चेतनमे नहि, जे ग्रहा ते ना  
 स्ती सहि ॥२॥ ग्यान दरशनादि जे गुण, दरव खेत्रकाल जावथी  
 सूण ॥ आस्ती जाव चेतन मैलयो, परचारे नास्ती मैकयो ॥३॥  
 एम स्वरूप सजे जे आप, तेहिज साद वाद नेय थाप ॥ मुनीहुक  
 म ए धर्म अनुसार, गुजरी रागनी ठै मनुहार ॥ ४ ॥ इति पद  
 २२ संपुर्ण ॥

रागनीवाहार ॥ नमरतु करत जाण पणाकी वात, ॥टेका॥  
 संदैन्याव असदजाव ते जाणो, आरपित्त अणारपीत विचार ॥स  
 पर परजाए सहि, ए जंग मनुहार ॥ १ ॥ वसे खपणेग विखीये  
 तो, वक्तव्य अवक्त व्यधार ॥ उनैय जेद लाधै ठै येहमै, सैम  
 जैता सुखकार ॥ २॥ तेह स्वरूप सप्तजंगी माहि, जाखु आगै  
 विचार ॥ मुनीहुकम ए चिदानद मयै, गाइ रागनी वाहार ॥३॥  
 इति पद २३ संपुर्ण ॥

रागनीसुवा ॥ प्रथम जग ते आस्ती कहिए, सर्व दरवमे  
 धार ॥आकणी ॥ दरव गुण परजाय माहि, आस्तीपणो ते जा  
 ण ॥ प्रेते कैर दरवमें लहिए, गुण परजायै वखाण ॥१॥ सदजा  
 वै आप आपणो गुण परजाय ते होय ॥ आप आपणा दरवमै  
 लाधे आस्तीपणो तिहा जोय ॥२॥ अरपीत पणो ते वस्तुनु होवै,  
 सोइ वस्तु धर्म ॥ एक समे ते सरवे ज्ञासे, सोइ ग्यानीमर्म ॥३॥  
 वदमस्तने तो अनुक्रमै ज्ञासै, सरधा एक समयीये होय ॥ मुनी  
 हुकम ए प्रथम ज्ञागो, रागनी सुवामै जो जोय ॥ ४ ॥ इति पद  
 २४ संपुर्ण ॥

रागश्री ॥ अपनारूप रचै के देखो, नही परगुण स्वजावै ॥  
 आकणी ॥ आप स्वरूपमै लाधै नाही, परदरब परजाय ॥ गुण

लक्षण शु ज्ञावतै लाधै, तेथी नास्तिपणो थाय ॥१॥ नास्ति स्वै  
 ज्ञाव ए है थापको आस्तिपणे ते जाणो ॥ दोउ जेद ए जीवका  
 कहिये, इम सर्व दरवै वखाणो ॥७॥ वीजो जग ए वखाणो, ना  
 स्ति स्वज्ञावने जाण ॥ मुनिहुकम ए चिदानंद मेय, श्रीराग वखां  
 ण ॥३॥ इति पद २५ सपुर्ण ॥

रागनी धनासरी ॥ क्या कहू चिदानंद धनकी, मुख शु क  
 ही न जाय ॥ आकणी ॥ स्वपर परजाय दोउ लाधै, सद ज्ञावा  
 सद ज्ञाव ॥ सत्वा सत्वपणे ये कहिये, अपित अण अपित लाव  
 ॥१॥ एम अनेक जंग तिहा लाधै, दो दो जंग ते कहिये ॥ सकेत  
 सवदनो रहो ठे इहा, तेथी आस्ति नास्ति न लहिये ॥ ७ ॥ तेथी  
 अवैक्तव्य ए नाख्यो, वीजो जागो ए लहिये ॥ गुण परजाय ए  
 आत्म दरवना, अनत जेद ते कहिये ॥३॥ तेथी एक संमन कहै  
 वाये, आत्म स्वज्ञाव एम धावो ॥ मुनिहुकम ए रागनी धनासरी  
 शु स्वरूपमै गावो ॥४॥ इति पद २६ सपुर्ण ॥

रागनीकाफी ॥ अपनारूप निहारा जब हमनै, अपनारूप  
 निहारा ॥ आकणी ॥ स्वपरजाय आस्ति कहीयै, सोतो सत का  
 हावै ॥ नास्तिपणो ठे परपर जायै, सोतो अस्त्वै यावै ॥१॥ दोउ  
 ज्ञाव एक समीये, चैतनमाइ लहीये ॥ तेथी जागो ए चोथो जा  
 खो, मीश्र ज्ञाव ते कहीये ॥

वचने अवक्तव्यै जाणो ॥ तेश्री ज्ञांगो पाचमो कहिये, आस्ति अवक्तव्यै वखाणो ॥ ३ ॥ सरवै दरवमे भंग ये ठै, जेम जीव मै जाखो ॥ मुनीहुकम जाण पणो साचो, रागनी सूगराइ दाखो ॥ ४ ॥ इति पद २८ संपुर्ण ॥



रागनीपर्ज ॥ अपने रुपमै ज्ञांगो ठांगो, नास्ति अवैत्वव्यै जाण ॥ परस्वभाव अपने रुप जे, नास्ति ज्ञावै चीत वाण ॥ १ ॥ अज्ञजुग पत इहा कनै भाखु, आस्ति नास्ति अवक्तव्यै सोय ॥ एक देशे सै परजायै, अपित ज्ञावै जोय ॥ २ ॥ अत एक देशे परजायै, अण अपित ज्ञाव वरीयै ॥ सदज्ञाव असद ज्ञावै, सत्य असत्य करीयै ॥ ३ ॥ ए सर्वे अवक्तव्यै जाणो, ज्ञांगो सातमो कहिये ॥ स्याद आस्ति स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्यै लहीये ॥ ४ ॥ ए सप्तज्ञंगी वीशेपा विशेषै, यहै स्वैरुप काहाणो ॥ जिन स्वरुप सप्तज्ञंगी केरो, रतनाकर अवतार्काय जाणो ॥ ५ ॥ ए सप्तभगी सर्व दरवमै, नित्यादिक निवखाणो ॥ मुनीहुकम स्याद वाद ए, रागनीपर्ज लखाणो ॥ ६ ॥ इति पद २९ संपुर्ण ॥

होजीया स्याद वाद वीचार ॥ टेका ॥ सप्तज्ञंगीमै मुख पणै ए ज्ञंगती न वीचार ॥ स्याद आस्ति स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्यधार ॥ १ ॥ आस्तिपणै आस्तिधर्म ठै, नास्तिपणै नास्तिधर्म ॥ जुग पदे ज्ञानीये धर्म ठै, ए स्याद वाद मरम ॥ २ ॥ सामान विशेषे धर्ममे लावे, गुण परजाय मै जाण ॥ प्रतेके प्रतेके सप्तज्ञंगी जाणो, नित्यादीक वखाण ॥ ३ ॥ स्यात पद ग्रीहीनै कहैता, दो शेषाने आवे एक ॥ एम स्वरुप स्याद वादनो, साची ग्यानेनी टेक ॥ ४ ॥ ए जाणो तेने सरवे जाणो, बीजा तो विदा अज्यास ॥ मुनीहुकम चिदानद मये, राग नीमारे वेण प्रकास ॥ ५ ॥ इति पद ३० संपुर्ण ॥

राग नीगोमी ॥ स्वजातीमै आस्ति नास्तिपणो, तीहां क



प्रणति गराय ॥ ए वचैन नहि गणधर मिलतो, काल तो इवप  
 रजाय ॥ हो० १ ॥ स्वैधरम दरवनो जे ठै, प्रणति वस्तु रूप ॥ ते  
 माटे काल जेद ते जाणो, ए सरधा ठे अनुप ॥ हो० २ ॥ अथवा  
 काल जिन इवै कहिए, तो काल ते कारणरूप ॥ अतीत अना  
 गत वर्तमान प्रणेत, तेतो जिवादि धरम स्वरूप ॥ हो० ३ ॥ ते मा  
 टे काल जिन न जाणो, सर्व दरवनो परजाये ॥ उत्तपात वयेरूप  
 ए ठे, तेतो परजाय काहायै ॥ हो० ४ ॥ प्रैजाय व्याख्या तिजि मा  
 हि, ए जाणजो स्वैरूप ॥ मुनीहुकम ए सीधीभरवी, परजाय  
 व्याख्या अनुप ॥ इति पद ३७ संपुर्ण ॥

रागनी टोमिमियाकी ॥ सफल दिन आज, केवैल ग्यानमे  
 गात्र ॥ आकणी ॥ गेहे वस्तुनो स्वैरूप जे जाणै, तेहि केवल ज्ञान  
 ॥ मतीयादिकथी वोठो जाणै, प्रतकै परोकै परमाण ॥ स० ॥ १ ॥  
 घट पटादि रूपन प्रणमै, ते समघट ज्ञान ॥ समीये अंतर घटवी  
 णसै, तव केवल ग्यान ॥ स० २ ॥ घट वणसै ज्ञान न विनसै, के  
 वलनो आय उत्तपात ॥ इहा गने परजाय उत्तपात ॥ स० ॥ ३ ॥ प्र  
 थम समे ऐ धरमास्तिकाय जे, सख्याता परमानणै साज ॥ वि  
 तिये सैमै असख्यातानै, पुर्व सखीयै वैयैनो काज ॥ स० ॥ ४ ॥ अस  
 खती अनता कहिए, एम उत्तपात वैयै बखाण ॥ एम चलेण स  
 कारी जाख्यो, डुवैताइवै ते जाण ॥ स० ॥ ५ ॥ एम सर्व दरव गुणमै  
 जाणो, चतुर्थि व्याख्या थाय  जाणे केवली, राग  
 नी मियाटोडी काहाय  संपुर्ण ॥

मुनीहुकम बलहारी गुरुनी, अली विलावल रागनी कहि ॥ ३ ॥  
इति पद ३ए संपुर्ण ॥

रागनी वीलावल सुवा ॥ चेतन अगुरु लघु परजाय ते जा  
णो ॥चेतन०॥ हांण ब्रधि खट गुण ज्ञाखी, सरवै दरवैमे प्रणमे  
॥हाणी तेतो वयै काहावे, ब्रधि उत्तपात तेरमे ॥चे०॥ १॥ ब्रधि  
वैये हाणी उत्तपात, अगुरु लघु दरवै ते जाणो ॥ सरवै दरवैमे  
इमज कहिये, एम परजाय वखाणो ॥चे०॥ २॥ अलोक्रमे पण अ  
गुरु लघु है, नीचसे जावे लहीये ॥ मुनीहुकम ए ठटी व्याख्या,  
सुवा वीलावल कहिये ॥इति पद ४० संपुर्ण ॥

रागनी सारंग ॥ बंधावनी आस्ति परजाय सांघ्रैथ रूप ए,  
एम चीतमें समजीए ॥आंकणी॥ सरवै दरवैना आस्ती स्वजा  
वे, अनंत गुणो ते लहिये ॥ वशेप रूप ते सांघ्रैथ पणो ठे, सांघ्रै  
थ प्रैजाय ते कहिये ॥१॥ प्रवर्ति रूप ते नमीत नेद ठे, तेथी उत्त  
पात वैये लहिए ॥ पुर्व वशेप परजायने वैये, अनिनवै वशेप ते  
कहिये ॥ २ ॥ सः इम परजायनो प्रैणामवो जाखुं, डुवै ते वशेप  
परजाये ॥ मुनीहुकम ते रागति ज्ञाखि, बंधावन सागर थाय ॥  
३॥ इति पद ४१ संपुर्ण ॥

रागनी पिलु ॥ चेतन निज गुजावकु जाणे, नित्या नित्य  
काहाणा रे ॥ आंकणी ॥ नित्यै स्वजाव जाहा नहि बाधे, जाहा  
कारज नवि होवे रे ॥ कारण पणो पण तिहा न दिसे, कारिये  
शिधिने जोवे रे ॥चे०॥ १॥ अनित्यै पणानो जाहां अजाव ठे, गा  
यक शक्ति थाकि रे ॥ अरथ क्रिया ते नर करे, गरु गमधि बुध  
पाकि रे ॥चे०॥ २॥ शरव गुजाव परजाय धारो, आधार चतुत निजे  
पेत्र लहिये रे ॥ मुनिहुकम रागनिविलु, ए अंधकार आगे कहिये  
रे ॥चे०॥ ३॥ इति पद ४२ संपुर्ण ॥

राग वरवा ॥ सुन जिया रे तेरे मुजावे कुलै के, बस भसत

सुज्ञाव ते जाणो रे ॥ आप आपणा पेत्र प्रदेशे, आधार चुत व  
खाणो रे सुनण ॥ १ ॥ सामान्ये ज्ञावे एक सूज्ञाव ठे, वशेष ज्ञाव  
अनेक सुज्ञावी रे ॥ एतो परे वरणतिमे रमवो, हवे कडू दरवै  
सूज्ञाव रे ॥ २ ॥ आस्तित्वादि सर्व सूज्ञाव ते, गुण परजाये कहिये  
रे ॥ शर्वे एक परदेशे जाख्या, आप आपणो एत्रनेद कहिये रे  
॥ ३ ॥ शर्व परदेश ते जिन्न न भाख्या, पक्षित रूप ते लहिये रे ॥  
परदेश प्रते अतर नवि होवे, दरवे एक स्वज्ञाव कहिये रे ॥ ४ ॥  
एम शरैव सुज्ञुव परजाय जेदे, दरवमे अनेक ते लाधे रे ॥ मुनि  
हुकम रागनि वरवो, स्वज्ञाव जाणे गण वाधे रे ॥ ५ ॥ इति पद  
४३ संपुर्ण ॥

रागनीजजोटी ॥ जेद ज्ञान ए चिदानदको, मे ठनकु पीठा  
णु ॥ आंकणी ॥ आप आपणो कारज जेद ए, सज्ञावे जेद ए क  
हिये अगुरु लघु परजाय जेद तेम, जेद सज्ञाव ते लहिये ॥ १ ॥  
जीम २ अवस्ता पलटे, जेद स्वैभाव तीहा जाणो ॥ अजेद सु  
ज्ञाव ग्रहेण करीने, जेद स्वैज्ञाव जौने वखाणो ॥ २ ॥ तो गुण  
गुणी सुज्ञावने मांही, शकरे वदोपेणें लागें ॥ गुण परजायने  
कारण कारज लक्ष्मण लक्ष्मै जागें ॥ ३ ॥ ते कारैणये जेद ग्यान  
वै, सुध परणें तीयै ग्रहीये ॥ मुनिहुकम ए कारण अजेदनो, रा  
गनी जेजोटी लहीये ०४ ॥ इति पद ४४ संपुर्ण ॥

रागनी जगला ॥ अपना रूप प्रणामीक जोइ, अती अन्नद  
मै पाया ॥ उत्रोतर परजाय प्रैणें मन, नीज स्वभावमै आया ॥  
गाथा ॥ १ ॥ नीज स्वरूपमै दोय भावठे, नव्यै अन्नव्यै सुज्ञावै ॥  
ताको वीचार वेवरी दाखु, समजु चित्तमै धावै ॥ २ ॥ उपीयोग  
धीर करीने धारो, वीचार आगे कहीशु ॥ मुनीहुकम ये रागनी  
जगलो, शुद्ध उपीयोगे लहीशु ॥ ३ ॥ इति पद ४५ संपुर्ण ॥

रागनी स्याम कलाण ॥ नव्यै सुभावै ते जाणो ॥ टेका ॥ शु

( ७९ )

ॐ स्वैरुप वखाणु, भाव धरम तो जीव स्वैरुपनो, तीहां जवानं  
धर्म कहीये ॥ गुण परजाय परावरतैन जे, तथा आस्तित्वै लही  
ये ॥ १ ॥ जाव नवो उत्तपैन धाय जे, नवीन परजायमै परवरते  
॥ पूरव जाव ते नाश करीने, नवै स्वैजाव येम पलटै ॥ ३ ॥ पल  
टणै गुजाते जव्य कही जै, तहे मै जवान धरम दाखु ॥ मुनीहु  
कम ते आगल कहीशुं, रागनी स्याम कळयाण आखु, ॥ ३ ॥ इ  
ति पद ४६ संपूर्ण ॥

रागनी ऐमने कळयाण ॥ जव्यैत धर्म ठै भव्यै गुजावमै,  
ग्यानी तेह वखाणै ॥ आकणी ॥ गुण परजाये जे वस्तुना, तेहि  
जवैन धर्म कही जे ॥ नवुं श्रवुं सम अइपंथाने, उत्तर नेद लही  
जे ॥ १ ॥ परवरतैनमै वक्ति रूप ठे, जे वरतीनु आस्तित्तावै ॥ रु  
प्रंत रे जे प्रणमेवुं, ते जवैन धरम काहावे ॥ ७ ॥ डग्धनो दधिप  
णो थावु, वीकार अतरे प्रणमवु ॥ ग्यान मही जे मगीने ते फ  
रतो, तेम ग्याननु प्रणमैवु ॥ २ ॥ वर्धि हाणी स्वजावे, कारज  
कारण लहीये ॥ आवीर जाव तीरो भाव कीये, येम जवान ध  
र्म लहीये ॥ ४ ॥ इनो अरथ गुरु गमती लीजो, हवे कहु आस्ति  
भाव ॥ मुनीहुकम ए भव्ये सुभावमै, ऐ मन कळयाण रागनी  
गावा ॥ ५ ॥ इति पद ४७ संपूर्ण ॥

॥ પારસનાથનુ ચૈત્યવદન ॥ પુરસાદાણી પાસજી ત્રેવીસમો જીનરાય છેદ બેદ કરી  
 પામિયો નિજ સ્વરૂપ સુખદાય ॥ ૧ ॥ પરદ્રવ્ય પરપર જાય તજી કીધો પરચુષુનાશ સ્વચુ  
 શુપર જાએ સહી કરતા નીલ વીનાસ ॥ ૨ ॥ તેદીજ અમવર માંદીછે આપો અમને તાથ  
 ઘાતા પદ તેદનો ખરો શેવક જાલે હાય ॥ ૩ ॥ તેને તેનું આપતાં કેમ દુમશ્યા યાઓ તો  
 તુમારુ શુ દીઓ જાણ્યો તુમયો ભાવ ॥ ૪ ॥ આપ શક્તી વિકાશમે નીજ સ્વભાવીક જેદ  
 મુની દુમ્મ તે પામશે તેમાં નહિ સદેદ ઈતિ ॥ મદીર સ્વામીનુ ચૈત્યવદન ॥ વસ્તુ સ્વભાવ  
 સ્વભાવમા શમ્તીપણુ દેખી ઉમગ મુઝ મન જે બજો તુજ ચુથને પેખી ॥ ૧ ॥ શક્તી તે  
 વ્યક્તી થયા આરતીકતા ભાવે છેદ બેદ તેને કરી નીજ ચુથુ સ્વભાવે ॥ ૨ ॥ તેદ ચુથુ  
 પેખી ભાખીઆ મુજ પશુ મજા તેદ નિમીત કારણુ તુમને ટરી ઉપાવાન ચુથુ જેદ ॥ ૩ ॥  
 ઉપાવાનતા આદરુ નિમીત વિના નવી થાય તે મારણુ શ્રીમદીરા વનમાન કહેવાય ॥ ૪ ॥  
 અવલબન બાહરે ટરી ઉપાદેય નીજ થાય મુનીદુકમ જિન શેવતાં મન વાંછીત પાય ॥ ૫ ॥  
 ઈતિ ચલવદન સ પૂણુ ॥ ॥ ખટ કારકના ચૈત્યવદન ॥ સિદ્ધારથ સુત વદીએ નીશતા  
 દેવીમાત કરતા ચેતન ધમનો નીરમય સુદર ગાત ॥ ૧ ॥ કારણુ નીજ સ્વભાવ છે શુભાશુભ  
 ઠાણી શુદ્ધ ભાવ તે આદરે અનુભવ ચીત ધારી ॥ ૨ ॥ કારણુ સાદા આતમતલુએ કીધો  
 શુદ્ધ બાવ મુનીદુકમ કહે દીજીએ શેવકને એદ લાવ ॥ ઈતિ ॥ સાસનપતી તે શેાબનો તે  
 પાસે માયુ નિમીત અવલબન કરી નીજ સ્વરૂપ જાય ॥ ૧ ॥ બેદ ગ્વાન સ્વાદ અહે જડ  
 ચેતન વેહેયે સ પ્રદાન તેને કહીએ નીજ ચુજે સંચે ॥ ૨ ॥ શુભલ ધ્યાન અએ કરી હથુતો  
 કરમતી રાશ મુનીદુકમ કેવળ સહી અધીકરણુ શુ વીલાસ ॥ ઈતિ ॥ ચોથો ॥ ॥ માહુાનીર  
 સ્વામીની ધીયો ॥ શાવણુ શુદ્ધ દીન પચમીએ ॥ એ દેરી ॥ વીર જીનેશ્વર વદીએએ પ્રમટવો  
 વીર ચુથુ જાસનો મોહાદીક રાતુસવાએ હણી તેદ નીરાસનો અનત ચતુષ્ઠીની જલહીએ  
 પ્રતીબોધી જગ સારતો શેષ કમ દૂરે કરીએ અક્ષય પ અવતારતો ॥ ૧ ॥ લોકાકાશ પ્રમાણુ  
 છેએ પ્રદેશ આત્મના જાણુતો પ્રદેશ એદે માન કહ્યુ એ અનતાઅનત વખાણુ તો ॥  
 દરશન ચરણુ વીરજ સહીએ ઇત્યાદીક ચુથુ અનતતો નીરાવરણુ જેદ ના થયાએ તે પ્ર  
 યુમુ સવી સતતો ॥ ૨ ॥ ધાતી કરમના ક્ષય થકીએ નીરમજ પ્રદેશ અસ ખતો શુષ ઉપદેશ  
 સાદા કને એ દેતા બધને પખનો ॥ સદાગમ સારથી બનોએ માન દરશન તુરગતો  
 ચરણુ રમ સાદા કરીએ બેસો બવી ઉમગતો ॥ ૩ ॥ શુષ દેવ એહી કહ્યાએ ચુરુની ત્રય  
 સુખ કારતો ધરમ તેદનું બાપ્યુ સહીએ સમકીત એદ વીચારતો ॥ એવી સરધા જે કરેએ  
 તસ ચરણુ સેવે દેવતો મુનીદુકમ સીધાઈ સહીએ પુરે મન ઉમેદનો ॥ ૪ ॥ ઈતિ ॥

॥ અથગ્રી અજીતનાથનુ ચૈત્યવદન ॥ અજીતનાથ ખીજ પ્રખુ જીતા મોહરાય ॥ રાગ  
 દેશ દૂરે કરી વિતરાગ કહેવાય ॥ ૧ ॥ માનાવરણી પ્રમુખ ત્રણુકરી કર્મનો નાશ ॥ અનત  
 ચતુષ્ઠી પામીયા અરીદત પઠે ઉવાસ ॥ ૨ ॥ અધાતી ચારે અર્હણી સને શીકરણે ॥ મુની  
 દુકમ તે પામીયા અબાધીત અવરણુ ॥ ૩ ॥ સ પૂણુ ॥

॥ શ્રીસલ્વનાથજીનુ ચૈત્યવદન ॥ સભવ સભવનાથજી સેનસ્વભાવે હોય ॥ તીજ  
 જનને સતતુનીજ સ્વરૂપ પશુ હોય ॥ ૧ ॥ વીધય વાપતા દુરે કરી કીધી ત્રખ્યા દુરે ॥ પરમાદ  
 ભાવ દૂરે કરી કીએ અનુભવ પુર ॥ ૨ ॥ અનુભવવત એ ચેતના સદજ સ્વરૂપે ધ્યાવો ॥  
 દુકમ નીજ માનથી અમલ વીમવ ચુથુ પાવો ॥ ૩ ॥ સ પૂણુ ॥

॥ अथ अनीन इत नाथलु जैतनदन ॥ सिद्ध गति सुरलु नाथलु अनीनदन  
स्वामी ॥ अनीनव इप ओलभी यथा शिवगामी ॥१॥ ओदीन इपछे आपर्णु हेयो अतर  
द्रष्ट ॥ सकल विकल्प दुरे करी होय अमरीत वृष्ट ॥ २ ॥ तेद स्वइपने ध्यावता प्रगटे अनु-  
पम जेत ॥ मुनी दुकम सुभ सपत पात्रे अनुभव होत ॥ ३ ॥ सपूर्ण ॥

॥ अथ सुभतीनाथलु जैतनदन ॥ सुभतीनाथलुने सगरीओ भगवा सुन साओ ॥  
नेने कुमती दुरे करी, अवर भत राओ ॥ १ ॥ सुभती सेडेन स्वभावमा सहउथी जलो  
॥ पठे तेने ध्याओ सुभ अनुभव आओ ॥ २ ॥ कपाय यारे दुरे करे करे कुलुद्धि दूर ॥  
सुधुधी घेर तेडीने ते शु रमे भरपूर ॥ ३ ॥ सुभती पटराणी होवे जेद पुइपने घेर ॥  
तेदने दु भ होवे नदी होरे सुभनी वेहेर ॥ ४ ॥ सतोप प्रगटे तेदने ओकत्व भाव ते  
होय ॥ मुनी दुकम सुभ सावता तेद पुइपने जेय ॥ ५ ॥ सपूर्ण ॥

॥ अथ पद्मप्रभुलु जैतनदन ॥ पद्मप्रभव रग जेदने पद्मप्रभु रगामी ॥ प्रगटे  
रगनीन स्वइपने तेद होवे शिवगामी ॥१॥ जनमे कमन रहेवे सदा न वीनेपात्रे तेद ॥  
तेम पुदगनभाडे वसो अलओ रहे शुभु गेद ॥ २ ॥ ओम अतर आतम धध के करे शुभ  
गेद ॥ परमातम पद आशेपिये तो परमातम तेद ॥३॥ ओओ विध आतमदशा अदी करे  
अनुभव सार ॥ मुनी दुकम गान ते अइ तस घेर शिववृ नार ॥ ४ ॥ सपुणु ॥

॥ अथ सुपारसननाथलु जैतनदन ॥ सभेओ करी दीपतो सुवास अनराय ॥ सात  
भय दुरे करी प्रभुमु तेदना पाय ॥१॥ ओम बे साते तणे सभने यु सात ॥ अनरथ सवि  
दुरे करी शुभु अहे विष्णाय ॥ २ ॥ ओवसु तनेओ रमे नीन स्वइप जेदनु ॥ ते समकीता  
आवका साधु डेवणी तेदनु ॥ ३ ॥ सुख स्वइपे के अहे ओवलुतनेये ॥ ते शीवपद पाभीया  
नीन स्वइपे होय ॥ ४ ॥ ओम स्वइप वीथारीने के रभगे ओक यित ॥ मुनी दुकम शुभु  
ते अहे ते पात्रे सुभ नीत ॥ ५ ॥ सपूर्ण ॥

### पारसनाथनी थियो.

जातम ओसे अथ सभाणी ॥ ओ हेती ॥ पासलु ओसर प्रभुमु रगे पारस इप प्रगटे  
हमगे लोहक नक तस सजे लोह करीने ते नवी थाय लुषु सगे ते लुषु पद पाय शीवक  
पारस डेहेवाय अवरन धडा ओक मोदु दीदु मुन भनते अती लागे भीदु सुरभ मन ओ  
भीदु शीवक आपे शकती वीकागे द्रव्य स्वइप त्याडा प्रकाशे करम सवी तव नासे ॥ १ ॥  
भट द्रव्य त्याडा ते जले धरम प्रभुभ पय वभाओे जड इप ते सवी भाओे लुव स्वइप  
ओक नीते कीने ताम स्वइप लक्षुथी लीने गान उपयोग त्याडा दीने सता हेपी दरभ्या  
तेद रीधी अनती त्याडा अदु नेद ससारीया केम ओह ओम वीथारी शकती प्रकाशी शुभ  
हपयोगे इरम वीनासी सरव जलु यथा सीनवासी ॥ २ ॥ द्रव्याय दश जेद ते जले प्र  
ज यार्थक छ जेद वभाओे निचे नये ते कडाओे निगम सगे वेहेवार कीने रनु सुन जोथी  
त्याडा लीने त्याडा सुधी समकीत न कीने शब्द सभा इद के पात्रे समगीती सावक साधु  
नामे डेवणी पषु ते हात्रे ओवसु ते सीध लक्ष के लुव स्वइप ओम समलुने तेदने धम  
अदीने ॥ ३ ॥ दुकन ध्यान धानतो रगे मोह भरोड त्याडा कने जगे प्रथम पदनी जगे पीने  
पात्रे अनेद लहीने त्रषु इरम त्याडा न श करीने डेवणी गान त्याडा लीने जेग इधीने

॥ પારસનાથનુ ચૈત્યનદન ॥ પુરસાદાણી પાસજી વેવીસમો જીનરાવ છેદ બેદ કરી  
 પામિયો નિજ સ્વરૂપ સુખદાય ॥ ૧ ॥ પરદ્રવ્ય પરપર જાપ તજી કીધો પરગુણનાશ સ્વચુ  
 શુપર જાએ સદી મરતા નીલ વીતાસ ॥ ૨ ॥ તેહીજ અમધર માહીએ આપો અમને નાથ  
 દાના પદ તેહનો ખરો શેવક જાને હાય ॥ ૩ ॥ તેને તેનું આપતા કેમ દુમણા ચાએ તો  
 તુમારુ શુ દીએ જણ્યો તુંમયો ભાવ ॥ ૪ ॥ આપ શક્તી વિકાસશે નીજ સ્વભાવીક જેહ  
 મુની દુકમ તે પામશે તેમા નહિ સદેહ ઈતિ ॥ મદીર સ્નામીનુ ચૈત્યવદન ॥ વરતુ સ્વભાવ  
 સ્વભાવમા શક્તીપત્તું દેખી ઉમગ મુઠ મન જે ધણો તુજ ગુણને પેખી ॥ ૧ ॥ શક્તી તે  
 વ્યક્તી થયા આરતીકતા ભાવે છેદ બેદ તેરે કરી નીજ ગુણુ સ્વભાવે ॥ ૨ ॥ તેહ ગુણુ  
 પેખી ભાખીઆ મુજ પશુ ઇચ્છા તેહ નિમીત કારણુ તુજરે અહી ઉપા ન ગુણુ જેહ ॥ ૩ ॥  
 ઉપાતનતા આદરુ નિમીત વિના નવી થાય તે મરણુ શીમદીરા વર્તમાન કેહેવાય ॥ ૪ ॥  
 અવનખન બાહેર અહી ઉપદેશ નીજ થાય મુનીદુકમ જિન શેવતા મન વાળીત પાય ॥ ૫ ॥  
 ઈતિ અલ્પવદન સ પૂણુ ॥ ॥ ખઠ કારમ્ના ચૈત્યનદન ॥ સિદ્ધારથ મુત વદીએ ત્રીમતા  
 દેવીમાત કરતા ચેતન ધમનો નીરમત મુદર માત ॥ ૧ ॥ કારણુ નીજ સ્વભાવ છે શુભાશુભ  
 ઠાળો શુદ્ધ ભાવ તે આદરે અનુભવ ચીત ધારી ॥ ૨ ॥ કારજ સાદા આતમનર્ણએ કીધો  
 શુદ્ધ ભાવ મુનીદુકમ કહે દીજએ શેવકને એહ લાવ ॥ ઈતિ ॥ સાસનપતી તે શોભનો તે  
 પાસે માયુ નિમીન અવલ મન કરી નીજ સ્વરૂપ જાણુ ॥ ૧ ॥ બેદ ગ્વાન સાંદા અહે જડ  
 ચેતન વેહએ સ પ્રદાન તેને કહીએ ઠીજ ગુણે સંચે ॥ ૨ ॥ શુકવ ધ્યાન અએ કરી દણુતો  
 કરમની રાશ મુનીદુકમ કેવળ લલ્લી અધીકરણુ શુ વીતાસ મ ઈતિ ॥ થયો ॥ ॥ માહુનીર  
 સ્નામીની ઘોષો ॥ શાપણુ શુ દીન પ ચમીએ ॥ એ ટશી ॥ વીર જીનેશ્વર વદીએએ પ્રમટયો  
 વીર ગુણુ જાસતો મોહાદીક વાનુસવીએ દણુ તેહ નીરાસનો અનત અતુટીની જાસદીએ  
 પ્રતીમોધી જગ સારનો શેવ કમ દૂરે કરીએ અક્ષય પદ અવનારનો ॥ ૧ ॥ લોકાકાશ પ્રમાણુ  
 છેએ પ્રદેશ આતમા જાણનો પ્રદેશ એકે જાન કહ્યુ એ અનતાઅનત વખાણુ તો ॥  
 દરશન ચરણુ વીરજ સદીએ ઇયાદીક ગુણુ અનતતો નીરાવરણુ જેહ ના થયાએ તે પ્ર  
 શુમુ સની સતતો ॥ ૨ ॥ ધારી કરમના ક્ષય થયએ નીરમજ પ્રદેશ અસ ખતો શુધ ઉપદેશ  
 સાદા કને એ દેતા બલને પખનો ॥ સનામ સારથી બતોએ જાન દરશન તુરંગતો  
 ચરણુ રથ સાદા કરીએ બેસો બવી ઉમગતો ॥ ૩ ॥ શુધ દેવ એહી કલાએ ગુરુની અંધ  
 મુખ કારતો ધરમ તેહનું ભાખ્યુ સદીએ સમકીત એહ વીચારતો ॥ એવી સરથા જે કરેએ  
 તમ ચરણુ સેવે દેવતો મુનીદુકમ સીધાઈ સદીએ પુરે મન ઉમેદતો ॥ ૪ ॥ ઈતિ ॥

॥ અધકી અજીતનાથનુ ચૈત્યવદન ॥ અજીતનાથ ખીજ પ્રભુ જીતા મોહરાય ॥ રાગ  
 દેશ દૂરે કરી વિતરણ કહેવાય ॥ ૧ ॥ ગાનાવરણી પ્રમુખ તણુકરી કર્મનો નાશ ॥ અનત  
 અનુલી પામીયા અરીદત પદ ઉવાસ ॥ ૨ ॥ અધાતી ચારે અણુ સતે શ્રીકરણે ॥ મુની  
 દુકમ તે પામીયા અધાધીત અવરણે ॥ ૩ ॥ સ પૂણુ ॥

॥ શ્રીસલાવનાથજીનુ ચૈત્યવદન ॥ સભવ સભવનાથજી સેજરવભાવે હોય ॥ તીજ  
 જનને સનતુનીજ સ્વરૂપ પશુ હોય ॥ ૧ ॥ વીપવ વાપના દૂરે કરીકીધી તખ્યા દૂરે ॥ પરમાદ  
 ભાવ દૂરે કરી કીજે અનુભવ પુર ॥ ૨ ॥ અનુભવવત એ ચેતના સદંજ સ્વરૂપે ધ્યાવો ॥  
 મુની દુકમ નીજ જાનથી અમસ વીમન ગુણુ પાવો ॥ ૩ ॥ સ પૂણુ ॥

॥ અથ અબીનદન નાથજીતુ ચૈતવદન ॥ ચિદ્ ગતિ ચુરણુ નાથજી અબીનદન  
સ્વામી ॥ અબીનવ રૂપ ઝોલખી યયા શિવગામી ॥૧॥ ઝેદીજી રૂપજી આપણું દેખો અતર  
દ્રષ્ટ ॥ સકલ વિકલ્પ દુરે કરી હોય અમરીત વૃષ્ટ ॥ ૨ ॥ તેહ સ્વરૂપને ધ્યાનતા પ્રગટે અનુ-  
પમ જ્ઞેત ॥ મુની હુકમ સુખ સ પદા પામે અનુભવ હોત ॥ ૩ ॥ સપૂર્ણ ॥

॥ અથ સુમતીનાથજી ચૈતવદન ॥ સુમતીનાથજીને મમરીએ મગના સુતસાયો ॥  
જીને કુમતી દુરે કરી, અવર મત રાયો ॥ ૧ ॥ સુમતી સેહેજી સ્વમાનર્મા સદ્ગુરૂથી જલો  
॥ પછે તેને ધ્યાનએ શુધ અનુભવ આણો ॥ ૨ ॥ કપાય ચારે દુરે કરો કરો કુપુષ્ટિ દૂર ॥  
સુપુષ્ટી ઘેર તેડીને તે શુ રમે ભરપૂર ॥ ૩ ॥ સુમતી પટરાણી હોવે જીવ પુરૂપને ઘેર ॥  
તેહને દુ ખ હોવે નહીં હોને સુખની લેહેર ॥ ૪ ॥ મતોપ પ્રગટે તેહને એકત્વ જ્ઞાન તે  
હોય ॥ મુની હુકમ સુખ સારવતા તેહ પુરૂપને જ્યે ॥ ૬ ॥ સપૂર્ણ ॥

॥ અથ પદ્મપ્રભુજીતુ ચૈતવદન ॥ પદ્મકમલ રગ જીવને પદ્મપ્રભુ સ્વામી ॥ પ્રગટે  
રમીજી સ્વરૂપમે તેહ હોવે શિવગામી ॥૧॥ જીવમે કમન રહેવે સદા ન વીનેપાયે તેહ ॥  
તેમ પુદ્ગલમાહે વસો અવગો રહે ગુણુ ગેદ ॥ ૨ ॥ એમ અતર આતમ યજી જે કરો ગુણુ  
ગેદ ॥ પરમાતમ પદ આરોપિયે તો પરમાતમ તેહ ॥૩ ॥ એણે વિધ આતમદશા ગ્રહી કરે  
અનુભવ સાર ॥ મુની હુકમ જ્ઞાન તે ખરૂ તમ ઘેર શિવવધુ નાર ॥ ૪ ॥ સપૂર્ણ ॥

॥ અથ મુપારસનાથજી ચૈતવદન ॥ સમરૂણે કરી દીપતો સુપાસ જીનરાય ॥ સાત  
ભય દુરે કરી પ્રણુમુ તેહના પાય ॥૧॥ એમ જે સાતે તજી સમજીને યુ માત ॥ અનરથ સવિ  
દુરે કરી ગુણુ ગ્રહે વિખ્યાત ॥ ૨ ॥ એવજી તનેએ રમે નીજ સ્વરૂપ જીવતુ ॥ તે સમકીતા  
શ્રાવકા સાધુ કેવળી તેહનુ ॥ ૩ ॥ મુત સ્વરૂપે જે ગ્રહે એવલુતનેયે ॥ તે શીવપદ પામીયા  
નીજ સ્વરૂપે લેય ॥ ૪ ॥ એમ સ્વરૂપ વીચારીને જે રમશે એક ચિત ॥ મુની હુકમ ગુણુ  
તે ગ્રહે તે પામે સુખ નીત ॥ ૫ ॥ સપૂર્ણ ॥

### પારસનાથની થોયો

જ્ઞાતમ જોલે અથ સભાળી ॥ એ દેવી ॥ પાસજી એસર પ્રણુમુ રગે પારસ રૂપ પ્રગટે  
હમગે લોહક નક તસ સગે લોહ કરીને તે નવી ધાય જીણુ સગે તે જીણુ પદ પાય શેવક  
પારસ કેહેવાય અચરજ છઠા એક મોહુ દીહુ મુજ મનતો અતી લાગે મીહુ મુરખ મન એ  
ચીહુ શેવક આપે શકતી વીકારો દ્રવ્ય સ્વરૂપ ત્યાહાં પ્રકાશે કરમ સર્વી તવ નાસે ॥ ૧ ॥  
ખટ દ્રવ્ય ત્યાહા તે જીવે ધરમ પ્રમુખ પચ વખાણુ જડ રૂપ તે સર્વી માણે જીવ સ્વરૂપ  
એક ચીતે કીજે તાસ સ્વરૂપ લક્ષણથી લીજે જ્ઞાન ઉપયોગ ત્યાહા દીજે સતા દેખી દરખ્યા  
તેદ રીધી અનતી ત્યાહા બહુ નેહ સસારીયા કેમ એહ એમ વીચારી શકતી પ્રકાશી શુધ  
ઉપયોગે કરમ વીનાસી સરવ જીણુ યયા સીવવાસી ॥ ૨ ॥ દ્રવ્યાર્યે દશ બેદ તે જીણુ પ્ર  
ન યાપક છ બેદ વખાણુ નિચે નયે તે કહાણુ નિગમ સગે વેહેવાર કીજે રજુ સુત્ર મોથી  
ત્યાહા લીજે ત્યાહાં સુધી સમકીત ન કીજે શબ્દ સભી રૂઠ જે પામે સમકીતી સાવક સાધુ  
નામે કેવળી પથુ તે ઠામે એવજી તે સીધ લખ જે જીવ સ્વરૂપ એમ સમજીને તેહને ધર્મ  
કહીજે ॥ ૩ ॥ રૂકન ધ્યાન ધાવતો રગે મોહ મરોડ ત્યાહા કને ભગે પ્રથમ પદની સગે થીજે  
પામે અબેદ લહીજે ત્રણુ કરમ ત્યાહાં ન શ કરીજે કેવળી જ્ઞાન ત્યાહા લીજે જોગ રૂધીને



સીવ પુર જાવે એક સમેની થીતી કહાવે દેવ દેવી ત્યાહા આવે નિરવાંજી મોહવ ત્યાહાં તે કરતા મુની દુકમ જિજ્ઞ સેવા વરતા તે સીવપુરમાં બરતા ॥ છતિ ॥

॥ દેશી ધીરાના પદની ॥

૫૬. ૧ ॥

ગર મજે યાનીરે રાગ્નેો અરથ કરે જાતી મન ઠી બાગેરે વધીત કારજ સરે ॥ એ આંકણી ॥ ક્ષે કરી ધટી પીમાએ જાઝ ઉપર સમુદ્ર જ્ય મુપકેતો મઝારી મારી એ જોવાનોછે દાય વાનનો વીચારયા જે ધીરે મમજુતો મીતમા ધરે ॥ ગર૦ ૧ ॥ સસાઠી તો મિહજ નાઠો કીડી દર કુજર જ્ય પાહાડ તરતો જળમા પેખ્યો બેટીખાન જણ્યાં જમાઈ તેજે જાગેરે સગપણુ સાચો કરે ॥ ગર૦ ૨ ॥ તારાના જોતમા અદર ઢકાયો ખુદો તે સુ રજ છપાય નકડે પન મને ગમીએ મીન વેણુમા જ્ય વેણુમા નાવા ચાલીરે અતીરે બાર બરે ॥ ગર૦ ૩ ॥ એક નર તો એવો દીઠો સરવ સીધી તે માઢે સ્વગ પાતાળ તસ ઢા યમા જોવાની જુગતી છે ત્યાહે તેવો નર દેખીરે ચીત્તુ અતીય દરે ॥ ગર૦ ૪ ॥ એ અરથને જાણે જે પ્રાઇ ગુર ઢમારો તેહ એવા સતની પાસે રહેતા હોવે ભવ દુખ છેહ મુની દુકમ બાખેર ગુર મનાની તે ખરે ॥ ગર૦ ૫ ॥

૫૬. ૨ જી

એ દેશી ॥ રોવો હુમે પ્રાણિરે સત ગુથ દેખિને ॥ જ્યથી ભવ દુખ જયરે આતમ કારજ લેખીને ॥ સત દુનીઆથી અવજા આવે સવળા જલજી કામ જેને ગુરના આનખા વાગ્યા તે સમજે ગુણુ મેાય યાની ગુર મગતારે સના સ્વરૂપ પેખીને ॥ સેવો ૧ ॥ મહિ માથી માખજુ કાઢે તલમાથી કાઢે તેલ એ કસખતો સદુને આનડે આળ જોપાળને મેળ ॥ એતો વાતો જુદીરે નમ કુસમ જોખીને ॥ સેવો ૨ ॥ તેલ કાપુ વેણુ માહ્યેથી પાણીમા માખજુ જોય દૂધ લેહુ આદાશ દેખી અત ગુથુ તે સોય સત વિના ન જામિરે અવર જગા દેખીને ॥ સેવો ૩ ॥ વરસે કાંબળ ને બીજે મેહ કાગી કાબળ ધોળી હોય જેહ ડાળ ઉપર હજુ છે જાહાડ જુ નિચેદિસ છે માળ સત હોય તે જાણીરે અનુભવ યાન દેખીને ॥ સેવો ૪ ॥ તે કારણુ યાની ગુરને સેવો સોધી સાર માતો તેની જે નર ખાવે પામે અનુભવ હદાર મુની દુકમ બાખેરે રૂડીએ યાન પેખીને ॥ સેવો ૫ ॥ સ પૂરથુ ॥

॥ ૫૬. ૩ જી ॥

આતમ વિના નહિ બીજોરે પદારથ જગમાં પ્રાઇ ॥ જેને નજરે આવેરે તે તો જડના છે સહી વરણાદિક જેહ પતારથ તેથી રૂપી રૂહવાય વગી સ્વરથાતના જોગથી ચૂરતીપણ્ણે પથુ યાય તે તો વિનામીરે ચેતનપણ્ણે તેમાં નહિ ॥ આતમ ૧ ॥ આતમ ગુથુ મજ્જોતો કરો પુદગલકો વયાગ કુનિમ વસ્તુ દુરે કરી એ સાધનનો લાગ ॥ અકુનિમ શેવેરે પદ અ પનાસી સહી ॥ આતમ ૨ ॥ વસ્તુ ગને જો દેખિએ તો નહિ પુદગલનો લેખ પર ભાવ વસ્તુ અપીને કરો તજવાનો ખેપ તો સુખ સાચુરે ॥ પામે તે વહી આતમ ॥ જાને સુખ છે સીખમાં તે સુખ દેખો અહીં સમ ભાવે ચેતન રમે તો દુખ દીસે નહિ આતમ ॥ ૩ ॥ તે કારણુ સાધો તમે જ્યથી સુખ અનત જિવન મુકત તેહને કહીએ સાચો તેહીજ સત મુની દુકમ કહેછેરે પદ તેવો જોષ ॥ આતમ ૪ ॥ ૫૦. સ પૂરથુ ॥

॥ ૫૬. ૪ યુ. ॥

વિચારો તુમે વિચારીરે મનુશ ભવ સેહેજ નહિ ॥ દશ દ્રષ્ટાંતે જ્ઞેતારે વિકટ કામ  
એછે સહી ॥ એવો ભવ પામિ કરી પૂરણુ પચ્ચિ જાણુ નીરાગી કાયા લહીને ધરમ ચીતમાં  
નની આણુ ॥ જાઈશ હાથ ધસતોરે પછે પસતાવો સહી ॥ વિચારો ૧ ॥ ઇંદ્ર ચલે નાગે  
દ્ર ચલે ચલે દેવકોટા ન કોટી તીર્યકર ચયે ગણુધર ચલે જાકી પદવીછે મોટી ચક્રી ચલે  
ચલે હરી ચલેરે જાળદેવ તેમ વહી ॥ વિચારો ૨ ॥ મોટા મોટા મુની સ્વર ચલે ચલે  
રાજા પતીરાવ તુમ દીલમે વિચારો નહીં મરવાનો ભય નહિ લાવ ચાતે જાણી સાચુરે  
રહેલુ અદિયા તે નહિ ॥ વિચારો ૩ ॥ માત પિતા સુત કામની બાઇ ભગની તે  
જાણુ સજન કુડુજ તે કારમુ સાચુ દિલમા ન આણુ એતો સ્વારથે મળિયુરે તારણુમા કોઈ  
નહિ ॥ વિચારો ૪ ॥ તે કારણુ રૂદિએ ધરો ઉપદેશ એછે સાર ધરમ એક જિન રાજનો  
સત્ય કરી ચિત ધાર મુની હુકમ બાખેરે તે વિના સુખ બીજેનહિ ॥ વિચારો ૫ ॥ મ પૂર્ણુ ॥

॥ ૫૬. ૫ મુ. ॥

ગાની તુમે સમજેરે વસ્તુ તે છે ખરી ગુરુગમથી લઇએરે વિનય ગુણુ બહુ ધરી ॥  
મેઠ પુરાણુ લાધે નહિ નહિ કીતાળુ કુરાણુ વસ્તુનો નોખી રહી પરભાવ ચિત ન આણુ વ-  
સ્તુનો અરૂપીરે સમજે વિરલાવરી ॥ ગાનિ ૧ ॥ કથની કથી બહુ બહુ ધાંચા પઠી પઠી  
માયા પડિત ગાઇ ગાઇ ગુણી જન કહેવાણુ ગાન ન પ્રગટુ મિત એતો વાતો જુ  
ગેરે ઉનડી સસારીથી કરી ॥ ગાનિ ૨ ॥ ખટ દરશન છે જુજુવાં જુજુવા તત્વવખાણુ  
મુગતી માને જુજુવી કરમ જુદા તે જાણુ ધરમ નહિ તેહ માંરે મતમા પડયા તે કરી ॥  
ગાનિ ૩ ॥ મનતર સવિ દુરે કરી તજી રાગને દેશ મમત ભાવ સધજો તજી નિરપક્ષ રહે  
કમેશ ગાન દ્રષ્ટીએ દેખેરે અવર પક્ષ દુરે કરી ॥ ગાનિ ૪ ॥ તિહા નિરવિમ્બપ૩પછે જ્ઞેત  
મનતી જાસ બાખે લોકાનોક સવિ પ્રગટી ગુણુ નીરાશ મુનિ હુકમ ધ્યાવેરે અનુભવ તેહ  
રી ॥ ગાનિ ૫ ॥ સપૂર્ણુ ॥

## ॥ શ્રી મુનએકાદશી દેવવ દન વિધિ ॥

॥ અપશ્રી દેવવદન વિધિ ॥ સકલ મનોરથ પૂરવે સકેસર મહારાજ ॥ દેવ કહું મુન  
એકાદશી ભવિક છવને કાજ ૧ ॥ માગશર શુદ્ધ એકાદશી દિક્ષા શ્રીઅરનાથ મની જનમ  
કેક્ષા કેવરી નાણુપમા નેમનાથ ॥ ૨ ॥ ત્રણુ તિર્યકર ભરમના અતિત અનાગત યજ્ઞ નવ  
કલાણી કપનર યાયા અમ લેવાસરવ ॥ ૩ ॥ દશ ખેને યર્ષને ઉજન દોદશો કલાણીક થીઆ  
પોષીસચારો પોસો કરો ॥ અપવાસ મુન લીયા ॥ ૪ ॥ દેવ વાદી ગરણુ ગણો ધરમ કાળે  
જાખવુ સાર ॥ મુની હુકમ તે આરાધતા પામે જે ભવ પાર ॥ ૫ ॥ અતિ સાધારણુ ચઘત  
દન નમોયાણુ કષ્ટ અરથ ॥ જેવી રાકેવા અરનાથ આરાધન અરથે મૈત્યવદન કર્મ ॥  
અથશ્રી અરનાથનુ બીજુ મૈત્યવદન લીખ્યતે ॥ પેહેલું અરનાથનું ચઘતવદન કહીને  
પછી નમો મુણુ કહેધા લાર પછી અરધા જે વીર કહેવા લાર પછી આ બીજું અર્ધત  
વદન કહેવું ॥ કનક વરણુનું શોભનું ત્રીસ ધનુષ કાયા ॥ ચોરાશી સેદઅ વરસ તણુ જરા  
માઈપાયા ॥ ૧ ॥ અરથ જનેસર આટારમાં સાતમા ચક્રી જેદ દો પદમી પામ્યા પ્રભૂ વદ  
ણુ જેક ॥ ૨ ॥ અવર દેવ છડી કરી સમરણુ એહનું કાળે ॥ મુની હુકમ તે શેવતાં મન  
ચાહિત લીજે ૩ ॥ અથ ચઘતવદન ॥ સવારથ સીધવે માનવી ભોગવી આયુપુરે ॥ નાગપૂરનગરે  
સરી સુદરમન માતા દેવી ઉરે ॥ ૧ ॥ લખન નાન વરતનું દોપદવી સોદે ॥ ૫૬૫૭ગજ

७० श्री आरीत्र मन मोहे ॥ २ ॥ पय म्हा वगत आदरा दधधननी कोडी ॥ मुनी दुकम  
 सीव सहे आठ करम तोडी ॥ ३ ॥ ॥ नभोयाधु कडी आर योये देव वंवा ॥ पर उी  
 वदु अे हेथी ॥ श्री अरजन सेवे देवि माता नद ॥ सुद्रीसन पिता सेवे सुरीनर परद ॥  
 सं. अगिधारस भागशरनी तिते नधु आरित्र लीधु पोला सीरपुर थान ॥ १ ॥ अरमनी  
 जन नेमी जनना सार पाय कल्याणीक तदुमनना धार ॥ दश जनरे यधने जनन निदाव  
 दोग्गो कल्याणीक गरधुाथी सभान ॥ २ ॥ सभवाध गया जोग्गे जेजे उदार आराधो भवीअधु  
 नेदधी भवने पार ॥ सीधत मुधुता लाधि सरवे जे. ते कारधु सुधुी टाणी मननो जे. ॥ ग्गा अ  
 पशदज अस सेवे प्रथु पाय धारणीदेवी दधडे धरीयु छाय ॥ जे अतवर सेवे तेदनी करे  
 सार मुनी दुकम वदी जे पागी जे भव पार ॥ ४ ॥ ॥ सार पधी हेका जेसी नभोयुधु  
 कहेतु नवनी कडीने तवन कहेतु ॥ तवना हेथी मुमभजानी ॥ नागर पुरीनो राजभारे भठ  
 भठ जोगता सार जनेसर वदीये ॥ जेक बाप जालु सेहेरतरे गते उर उदार ॥ जते  
 सर. १ ॥ जुकोड गाम जेदनेरे जनीस सेदअ जोगपाल जते. ॥ पचीस सेदअज थसछेरे  
 जन अरजे तस बाप जते. ॥ २ ॥ ते रीधी सवी छाडीनेरे आरित्र रगे लीध ॥ जते. जेक  
 सदअ परीवार शुदे आतम कारज कीध जते. ॥ ३ ॥ मुन जेकांशी नधुीधेरे ते इनधी  
 परसीध ॥ जते. ॥ ते तथी जे आराधगेरे ते देशी वधीन गीध जते. ॥ ४ ॥ डवल लध  
 मुम ते पोतारे जेक सेहेअ परिवार ॥ जते ॥ मुनी दुकम तस सेवतारे व छन थाय नि-  
 धार जते. ५ ॥

ते पधी अरध जे वीरा कहेवा ॥ श्री जैल वदन लधुमुछे ॥ दसती नागपुरे उप यु  
 डवल नाधु उगर ॥ मधुधर पानीश थापीया साहु आठ दगर ॥ १ ॥ आठ दगरने छसे  
 साधनीनो परीवार ॥ जेक बाप जोगणीश दगर थावक सोहे वरतधार ॥ २ ॥ त्रधु बाप  
 जेकांवी दगर थावीका सुंदीर मोहे समन सीपरे सीधावरा जन दुकम मन मोहे ॥ ३ ॥  
 छतिश्री जैल वदन सपूर्ण ॥ नभोयुधु कडीने सपूरधु जेवीरा कहेवा ॥ छतिश्री अरनाथ  
 देव वदन मभासा ॥

॥ अथश्री मधीनाथ देव वदन प्रारसा ॥ अथत देवतोडेथी सवि आलु जोग विशाला ॥  
 आपवन लखे प्रथम वति ननी निदाव ॥ १ ॥ मधुरा नगरी उपना परभावतीनी कुभा ॥  
 कुमरा आ कुल मदनो नरु ते पधु शुभ ॥ २ ॥ जेक सकर रतव करे जन कुजे नरभी ॥  
 मुनी दुकम ते सेविजे देव निरजन परभी ॥ ३ ॥ नभोयुधु कडीने अरधानेवीरा कहेवा ॥

॥ श्रीचैत्यवदन प्रारस ॥ भागमर शुद्ध अकारसे ॥ जनभाजग आधार ॥ नित  
 वरधु तनु शोभनु सरव नवा सुभकार ॥ १ ॥ पचीस धनुपनु देदमान आलु पासठ दगर  
 ॥ जोसठ छद मनी तीहा अनिके करे सुभकार ॥ २ ॥ मली जनेसर वदना  
 पानिक भवनु नव ॥ मली जनेसर वदना मुनी दुकम ते सभरती मन वांधीत  
 १७ धाय ॥ ३ ॥ नभोयुधु कडी आर योय कहेती ॥ ॥ योध लधी छे ॥ सजेसर  
 पासठ पूठवे ॥ जे हेथी ॥ श्री मधीनाथ जनेसर पूठजे नरभवने लावे विछये ॥  
 मन वधीत पूरधु सुरतरे आतम कारज जेजे कर्मु ॥ १ ॥ आपरधु आठे नाराधी  
 दधु प्रभा आठे विमयी जेवाजन जेजे पूठजे ॥ जेक सुधीवपूर वेळ लीछये ॥ २ ॥ स  
 वनाजे बापियु जनम अनियेक मपियु ॥ पूरव नव निदाकडु आठजे अघेनेलदु ॥ ३ ॥

कुंभेर ज्वस धारणी प्रिया जेने प्रभु अरधु अनुसखा ॥ मुनी हुकम सेवा मारे श्री सधन  
 सुभकर ॥ ४ ॥ त्सार पछी नमोयाणु ज्वती तवन कहेवु ॥ ॥ सुरत जलने मारा लाव  
 मोती लावने मारा लाव ॥ ऐ देशी ॥ तेनीश सागरनुं हो आयु भोगवी मारा लाव ॥  
 जेह तवे भनथी हो अनुकमे सविधा मारा लाव ॥ भवीजन वदो हो जव हूप जवे मारा  
 लाव ॥ आकषी १ ॥ भयुरा नगरी हो कुभराज मारा लाव ॥ परभावति परिधाहो तस  
 कुभे भिराज्या मारा लाव ॥ भवीजन ० २ ॥ प्रभुछ जनम्या हो छपन कुमरी आवे मारा  
 लाव ॥ सुखी करम करीने हो निज यानक जवे मारा लाव ॥ भूनी ० ३ ॥ योसठ सुरपती  
 हो सुरभिरि गावे मारा लान ॥ जन्म अभियेक हो प्रभुछने लावे मारा लाव ॥ भवी ०  
 ४ ॥ अनेक रूपे हो नाटक करता मारा लाव ॥ प्रभुछ जेवे हो नेषा धरता मारा लाव ॥  
 भवी ० ५ ॥ जन्मा धरे मेवे हो सकरी आवी मारा लान ॥ सङ्घम मोछव करता हे  
 नदीसर ज्वी मारा लान ॥ ६ ॥ जन्म कताणी कहे प्रभुछनुं कीधु मारा लाव ॥ मुनी  
 हुकम ईद्र हो समक्रीत कृण लीधु मारा लाव ॥ मुनीजन ० ७ ॥ त्सार पछे जेवीरा अरधा  
 कहेवा ॥ ॥ पछी अद्यत वदन कहेवु ॥ भवी जिनिसर जनभीया कुमती भद्रगणीया ॥ अट  
 दरानना जेहुता सरवे थर हरीया ॥ १ ॥ अज्ञानत भीर सवि नासिया थयु गान उदेंत ॥  
 सुरनर केनर केनरी सेवे सम होत ॥ २ ॥ प्रभुछ देशना आफरी, ताररी नरने नार ॥ मुनी  
 हुकम ते सेनिये पाभिये भवपार ॥ ३ ॥ थी भवीनाथ जन्म देव कथाणीक देव वदन पूर्यु ॥

जेवनवे प्रभु पाभिया विधे भद्र छती ॥ आरित्र लेवा उम गा मोह सरदधपीती ॥ १ ॥  
 अट भित्र प्रतिभोधिवा पूरव भवना जेह ॥ ते पथु सरवे सज थया, आरित्र लेवा शुथु जेह  
 ॥ २ ॥ मात पिता अनुभन लध आरित्र लीधु मुनी हुकम ते सेवता ॥ मनवाछित सीधु  
 ॥ ३ ॥ पछे नमोयुणु कही अरधा जेवीरा कहेवा ॥ मन वेराग वमो ज्य लोकतीक सुर  
 आवे ॥ धरम तीरथ वरतावे स्वामी जुओ जुओ कहेवे ॥ १ ॥ ऐक कोडने आठ लाप  
 सोवरथु नीत देवे ॥ तथुसे कोड अठयासी करोड ऐसी लाप जेवे ॥ २ ॥ ऐ सवजरी दाने  
 दई दीनदुभी सुभीया कीध ॥ मुनी हुकम सजम लध मन वाछित कीध ॥ ३ ॥ धति  
 स पूर्यु ॥ नमोयुणु कही थोछ आर कहेवी ॥

॥ पर उठी वदु ॥ ऐ माल ॥ भक्षी जिन वदो निज वरथु मेकाय ॥ कुभराज पिता  
 परभननी माय पयास धनुष देध मान ॥ प आवन सेहसर आय अष्ट करम दधुनि ॥ शिव-  
 पुरीमा जय ॥ १ ॥ आठ जतना कलशा प्रत्येके प्रत्येके जथु ॥ ऐक हज्जरने आठ देवकत यित  
 आणु ॥ योसठ सुरपतिय अभियेक अटीसे कीध ॥ योनिसे जन्मा मनवधीत कृण लीध  
 ॥ २ ॥ कलपसूत्रे भाषे आरित्र मोछव ऐह ॥ तीम जयुद्रीप पनतीजे जवम मोछव  
 तेह ॥ ते भाटे करीये समक्रीत निरभन थाय ॥ नहि माने पापी ते भाडी गतीये जय  
 ॥ ३ ॥ दिक्षा कथाणीक अति हरणे ते गाय ॥ ज्ञाता देपी यित अनुभव सोहाय कुभेर  
 धारणी परीया ॥ सधना सकट दुर मुनी हुकम ऐ भयुता मन वाछित सविपूर ॥ ४ ॥ त्सार  
 पछे नमोयुणु कही तवन भयुनु ॥ ॥ सोणमा सती जिनिसर देवके ॥ ऐ देशी ॥ जोगणीसमा  
 भवी जिनिसर देवके परभावती नदनरे ॥ जेहेनी सारे सुरी नर सेवके परभावति नदनारे ॥

प्रभुशु कवर पदे वरस सतके प्रभा० ॥ पछे यछं आरिनती रतके ॥ प्रभा० १ ॥ प्रभुशु  
 निच वरभुआ मुरती के प्रभा० ॥ भोगनथी लछं देव्य अक्क भरतीके प्रभा० ॥ अम करन  
 थपा पठ नामके प्रभा० तव भोताया ते पासके ॥ प्रभा० २ ॥ अ ओरडीतिरा करावेके  
 प्रभा० ॥ शुशुवा ते सरवे आवेके प्रभा० ॥ तव हांकषी भायेथी बेवेके प्रभा० इरभभ  
 अतिसे होवेके ॥ प्रभा० ३ ॥ सुभ भरडी नाक ते हाभेके प्रभा० ॥ ने जेताता वती नरे  
 के प्रभा० ॥ तव प्रभुशु सुभथी भोलेके प्रभा० भोदने ससारमा राते के ॥ प्रभा० ४ ॥  
 अम अनीत पखुं हेभाडीके प्रभा० ॥ अतेो दुभतानी आली छे नाडीके प्रभा० ॥ प्रति  
 भोधा पठ नामके प्रभा० आरिन तेना डीधा सागके ॥ प्रभा० ५ ॥ ते साथे आरिन सीधुके  
 प्रभा० नन दुकेभ अगिरस पीधुके प्रभा० अे तवन भयुशे नेदके प्रभा० मन पाछित  
 करी नेदके ॥ प्रभा० ६ ॥ नेवीरा अरधा लछने शैत वदन करतु ॥ सपूर्य ॥

॥ श्री मनीनाथ ओमघीशमा रगे आरिन सीध पय मदावृत आदरे सीपग भोष  
 ते सीध ॥ १ ॥ पये आसरव छडीया छाया पय प्रभाद ॥ पयेदीप वरा करी अजुगार  
 क्या छेवा ॥ २ ॥ जेवा नन नीत नीत नभे नेम होय नवनीध ॥ मुनी दुकम प्रभु  
 सेवता मनवाधीत रण सीध ॥ ३ ॥ नभेयुछु कहीने नेवीरा सपूर्ये कहेवा छिति इसा  
 कथायुक्त सपूर्ये ॥ ॥ आरिन ने वेता लनु मन परभव पयु सीध ॥ अहमतप प्रभु करी  
 ते दीन देवस सीध ॥ १ ॥ धाती करम यारे दषी प्रगटथा शुशु ते यार ॥ अनत गान  
 दरशन तीदा आरिन विरज सार ॥ २ ॥ बोडानेक बस कर थपा वहे प्रसुना पाय मुनी  
 दुकम प्रभु दीछये अवियव पवी राय ॥ ३ ॥ पहेना अछतवदन करीने नेवीरा अरधा  
 कहेवा ॥ पाठन मैमव न कहीने शेषु यार कहेवी ॥ ॥ श्री मनीनन डेवणी जेद गान भाप्यु  
 ॥ पुदगल अपावेथीने योये ते हाप्यु ॥ १ ॥ द्रव्य शुशुपर लथते न्दू । न्दू । जेद ॥ तेम  
 दशमे ते कटु धानथी करमने छेद ॥ २ ॥ अवे, गान पारमे न्दू नेथी सीपप, होय ॥  
 मुनी दुकम नन भापीयु ते वद्य सुभ सोय ॥ ३ ॥ ॥ नदीसर वधीप सभारे ॥ अे आस-  
 ॥ मनी छनेसर डेवन पाग्मा धाती करम यारे वाग्मा ॥ कव्याष्टीक योयुअे भाप्यु मुन अे  
 गधीये हाप्यु ॥ १ ॥ अेक भासनु अयुसयु डीधु ॥ सेदसपुरस साथे ते सीधु ॥ सभत सीपर  
 छपर ते गजो वीशनिर्कर ते नीत आये ॥ २ ॥ देवस पाभी धरम प्रकासु भवजन रदीये  
 ते वासु ॥ अरध छुग भ । वत ते भाये मुने गधुधर ते हाये ॥ ३ ॥ कुमेर न्दूने अारष्टी प्रीमा  
 प्रभु सेना करे अनुसरीया ॥ मुनी दुकम प्रभु तारे दस यरजे दीने नीत वास ॥ ३ ॥ नभे  
 पुछु कहीने तवन कहेतु ॥ कारतक मदीने हादानछ भेली जयोभा भाडाराज ॥ अे देखी ॥ मली  
 छनेसर साहेया सेवा सार मदारान ॥ अहोनीरा सभरयु करे करवा प्यानम हाज ॥ मली  
 छनेसर वीनपु देजे अवीयन राज ॥ मली ॥ आदष्टी ॥ १ ॥ यार करम धाती दषी  
 पाग्मा डेवन सार ॥ सुरनर भवी ओछव हरये गनाता अे वीयार मली ० २ ॥ नभ कभले  
 प्रभु शेभता करे योहोनी प्रवेश ॥ पभी परदक्ष्या दीये इष्य नभे विसोय ॥ मली ० ॥ ३ ॥ नजे  
 गढ ते शैभता दरवाज यार ॥ मली ४ ॥ मध सधासन नष्टीये तिदां जेसे मदारान  
 ॥ अशोक वक्ष ते शोभतु डेव दुडभी गान ॥ मली ० ५ ॥ सेडेभ जेवन जायु कहे धरम

पुनते सार जेम अनता अतीशे गजुतां नावे पार ॥ मली० ॥ ६ ॥ सक्षेपे योनीश क-  
 वा समवा अगे विचार ॥ मुनी हुकम जन सेवता पाभीजे भव पार ॥ भवी० ७ ॥ अ  
 रधा जेवीरा कहेवा ॥ पछे चैत्यवदन करु ॥ डेव-१ पाभी त्रगडे भेडा तीपदी तीडां भाभी  
 ॥ मजुधर अशपीश निहा कीधा सुत्र रयना तथु दाभीछ ॥ १ ॥ याथीश सेडस साधु  
 तस साधवी पावन' दण्डर ॥ अेक लाभने त्रीश दण्डर आवक सुवृत धार ॥ २ ॥ तथु  
 लाभ सीनेर दण्डर आवीका सुवृत धार मुनी हुकम जे भाभीयु जे जन परिवार ॥ ३ ॥  
 नभेयुषु कहीने जेवीरा पूरा कहेवा ॥ धृति श्रीमलीनाथ देव वदन स० ॥ नमीनाथ अेक  
 वीशां वीपरा नराभात ॥ वीजुआ पीता जेदने देवसोकाथी आय ॥ १ ॥ नीत कमल ला-  
 छन भडु पनर धनुशानी काय ॥ दश सदस्त्र वरसो तथु सुंदर जेहेनुं आम ॥ २ ॥ काया  
 कनक वरजुनी देपतां मन मोडीये ॥ मुनी हुकम जे सेवता सीवरमष्टी सोडीये ॥ ३ ॥ नभे  
 युषु कहीने अरधा जेवीरा कहेवा ॥ अयाड वद नवभे प्रभु आरित लेवे ॥ सोकाती वयने  
 करी शान वरसी हेवे ॥ १ ॥ पय महाप्रत आदरे अेद्रिणल मोडी पाय प्रभा' इरे करी  
 विषये वेत तोडी २ स्वय युध साधु यथा, वदु तेहना पाय, मुनी हुकम ते सेवतां,  
 मन वछित इण थाय ३ पछे थोछ' आर कहेवी

अेकादही अति इवडी जे यास नमी जेनेसर सेवीजे मयुयनेा राय, वीजुजे  
 पीता जेदने वीपरान् सभाय, माताने सतरुनभा भर्षभा गरभनो छडा, तेथी नाम नमी  
 दीयुं शीव अधिकारी अेक १ अष्ट द्रव्य पूज करी, सतर जेदी जल्यु, तेम अेकवीस  
 प्रकारनी, अडोतरी मीन आल्यु, जन योवीशे पूजता, समकीत निरमण थाय, आवीश  
 सागर ते लहे, उच्यीत देवसोके जय, २ भागसर अण्यारसे डेवण पाभ्या सार, प्रभु त्र  
 गडे भेसी करी हेसना दीये उदार, छुटां पुल जेम विस्तर लेम प्रभु अर्थ प्रकार्यो, मजु-  
 धरे सुत्र गुथीआ भव्य जव मीत वासो ३ वैशाख वद द्दामी दीने प्रभु रीव पोता,  
 अयुगी नक्ष जेदनी सेवा करे संजुता, गधागी हेवी तिडां सासन निरभ वाव, मुनी  
 हुकम कहे सेवता पाभीजे भवपार ४ नभेयुषु कहीने रतवन कहेजु

नेमी जेनेसर नीरभतां हो लाल नयल्यु तरपत न थाय रे, वीकसो तरया वीयल्यु  
 तुज इपने देपता हो लाल, अनत भागे करी थाय रे वीकसीत० १ डेवण गान तुज  
 उप यु हो लाल, तेदनुं तेज अपार रे वीकसीत कोड सुरज हात ले हो लाल, तादरे  
 तोल नवी धार रे वीकसीत० २ जेम तस इप ते भाभीयुं हो लाल, अवपम अणोचर  
 इप रे, अरुपीना इपने हो लाल उेम अदाये सरप रे वी० ३ इटक जेम जाके करी  
 हो लाल, जल्लो जये नीरधार रे, जाक अभावे ते होवे लाल, नीरभनो उदार रे वी०  
 ४ करम जाकव लगा यकी हो लाल, आतम लागे इप रे, करमं भेल गया पछी हो लाल  
 गाने अहा जे सरप रे वी० ५ न्याय तरक साये लयां हो लाल, नयजे यथा उदार रे,  
 वी० जेवी शीते भाभीयु हो लाल अेहीज मुज आधार रे वी० ६ उमी जे गुजे  
 करी वगगीया हो लाल, नेथी तृप्त नवि थाय रे वी० मुनी हुकम मन मोडियु हो लाल  
 इधे आयो धलुं थाय रे वी० ७ पछी अरधा जेवीरा कहेवा सार पछी यर्षतवदन  
 करेजु समतरीपर मोक्षे गमा अणुसथु हीधु भास, अष्ट करम ते जतीने वरीया

प्रभुञ्च कवर पटे वरस सतके प्रभा० ॥ पडे यष्टं चरित्रनी रतके ॥ प्रभा० १ ॥ प्रभुञ्च  
 निम वरभुमा सुरनी के प्रभा० ॥ बोजनथी लष्ट केवन अक भरतीके प्रभा० ॥ अेम करता  
 यथा अट भासके प्रभा० तव भोजाज्या ते पासके ॥ प्रभा० २ ॥ अट जोरडीतिहा करावेके  
 प्रभा० ॥ द्युञ्जुवा ते सरवे आवेके प्रभा० ॥ तव ढाकषी भाषेथी सेवेके प्रभा० दुरगध  
 अतिसे हेवेके ॥ प्रभा० ३ ॥ सुभ भरती नाक ते दामेके प्रभा० ॥ जे जेताता वयी नरे  
 के प्रभा० ॥ तव प्रभुञ्च सुपथी भोजेके प्रभा० भोजतो ससारमा शेवे के ॥ प्रभा० ४ ॥  
 अेम अ नीत पछुं हेभाडीके प्रभा० ॥ अेतो दुभतानी जाली छे नाडीके प्रभा० ॥ प्रति  
 भोधा अट राजके प्रभा० चरित्र देवा क्रीधा सामके ॥ प्रभा० ५ ॥ ते साथे चरित्र लीधुके  
 प्रभा० जन दुकम अभिरस पीधुके प्रभा० अे तवन भणुशे जेढके प्रभा० मन वाछित  
 करगे जेढके ॥ प्रभा० ६ ॥ जेवीरा अरधा लघने चैत वदन करवु ॥ सपूण्य ॥

॥ श्री मनीनाथ योगेश्वरिभा रगे चरित्र लाध पय महावृत आदरे सीयग भोध  
 ते सीध ॥ १ ॥ पये आसरव छाडीया छाया पय प्रभाद ॥ पयेद्रीय वश करी अणुगार  
 यथा उवा० ॥ २ ॥ अेवा० जन नीत नीत नमो जेम होय नवनीध ॥ सुनी दुकम प्रभु  
 सेवता मनवाछीत हण सीध ॥ ३ ॥ नभेशुञ्च कहीने जेवीरा सपूण्य कहेवा छति दक्षा  
 कलाञ्चु सपूण्य ॥ ॥ चरित्र जे वेना लहु मन परजव पणु लीध ॥ अकमतप प्रभु करी  
 ते दीन केवत सीध ॥ १ ॥ धाती करम चारे दृष्टी प्रगटवा शुच्य ते चार ॥ अनत गान  
 इरशन तीहा चरित्र विरज सार ॥ २ ॥ लोकलोक भस कर यथा वहे प्रभुना पाय सुनी  
 दुकम प्रभु दीञ्च अविचयत पदवी राय ॥ ३ ॥ पडेना अछतवदन करीने जेवीरा अरधा  
 कहेवा ॥ पाछन नैखरदन कहीने योयु चार कहेवी ॥ ॥ श्री मनीजन केवगी जेद गान भाप्यु  
 ॥ पुदगल अपावेगीने जेधे ते दाप्यु ॥ १ ॥ द्रव्य शुच्यपर नयते नृ ॥ नृत्त जेद ॥ तेम  
 दशमे ते कट्ट धानथी करमने छे ॥ २ ॥ अजे० गान चारमे म्हुं जेथी सीवप० होय ॥  
 सुनी दुकम जन भाभीयु ते वदा सुभ सीय ॥ ३ ॥ ॥ नदीसर वधीष सभारे ॥ अे वाल०  
 ॥ मनी जनेसर केवन पाग्मा धाती करम चारे वाग्मा ॥ कल्याणी० योयुअेअप्यु सुन अे  
 कादतीये दाप्यु ॥ १ ॥ अेक भासनु अणुसञ्च क्रीधु ॥ सेदसपुरस साथे ते सीधु ॥ समत सीधर  
 छपर ते जणो वीशतिपेकर ते नीत चोवा ॥ २ ॥ केवत पाग्मी धरम प्रकासु भवजन इदीये  
 ते वासु ॥ अरथ छुग भगवत ते भाजे सुने गणुधर ते दामे ॥ ३ ॥ कुनेर जक्षते धारणी प्रीया  
 प्रभु सेवा करे अ्युसरीया ॥ सुनी दुकम अणु तारे दास यरजे दीजे नीत वास ॥ ४ ॥ नमो  
 शुळ कहीने तवन कहेवु ॥ कारक भहीने कादानञ्च भेरी जयोभा भादाराज ॥ अे देथी ॥ भली  
 जनेसर साहेगा सेवा सार महााराज ॥ अहेनीरा समरञ्च कइं करवा आतम काम ॥ भली  
 जनेसर वीनुं देजे अवीचत राज ॥ भली ॥ आकषी ॥ १ ॥ चार करम धाती दृष्टी  
 पाग्मा केवत सार ॥ सुनर मनी ओछव करयो जनाता अे वीचर भली० २ ॥ नव कभसे  
 प्रभु शोभता करे पोहोवी अवेश ॥ पभी परदक्षजा दीये इअ नमे विशेष ॥ भली० ३ ॥ ॥ नखे  
 ग० ते शोभता इरवाग्न चार ॥ भली० ४ ॥ अथ सधासन जणुथीये तिहां जेसे महााराज  
 ॥ अगेक वक्ष ते शोभत देव दुदभी गाज ॥ भली० ५ ॥ सेदेअ जेजव जियु कहे धरम

धुजते सार ज्येष्ठ अन्नता अतीशे मधुता नावे पार ॥ मली० ॥ ६ ॥ सद्येपे योत्रिश क-  
 षा समवा अजे विचार ॥ मुनी हुकम जन सेवता पाभीजे भव पार ॥ मली० ७ ॥ अ-  
 रधा जेवीरा कहेवा ॥ पछे अत्यवदन करवु ॥ देवन पाभी त्रगडे जेका तीपदी तीहां बाभी  
 ॥ मधुधर अहावीश निहां हीधा सुत्र रयना तथु दाभीश ॥ १ ॥ यात्रोश सेढस साधु  
 तस साधवी आवन दण्डर ॥ ज्येष्ठ लापने त्रीश दण्डर आवक सुवृत धार ॥ २ ॥ तथु  
 लाभ सीतेर दण्डर आवीका सुमत धार मुनी हुकम ज्येष्ठ बाभीयु ज्येष्ठ जन परिवार ॥ ३ ॥  
 नमोयुषु कहीने जेवीरा पूरा कहेवा ॥ छति श्रीमलीनाथ देव वदन स० ॥ नमोनाथ ज्येष्ठ  
 वीशर्मा वीपरा नरभात ॥ वीज्या पीता जेहने देवदोक्थी आय ॥ १ ॥ नील कमल लां-  
 छन भहुं पनर धनुशानी काय ॥ दश सदन्न वरसो तर्षु सुंदर जेहेतुं आय ॥ २ ॥ काया  
 कनक वरधुनी देभतां मन मोदीये ॥ मुनी हुकम ज्येष्ठ सेवता सीवरमणी सोदीये ॥ ३ ॥ नमो  
 युषु कहीने अरधा जेवीरा कहेवा ॥ अपाड वद नवमे प्रभु मारित्र लेवे ॥ शोभतीक वयने  
 करी दान वरसी देवे ॥ १ ॥ पय भदावत आदरे ज्येष्ठपल मोडी पाय प्रभा दुरे करी  
 विषये वेत तोडी २ स्वय णुष साधु थया, वदु तेढना पाय, मुनी हुकम ते सेवतां,  
 मन वछित कृण थाय ३ पछे योर्छ रार कहेवी

ज्येष्ठाक्षरी अति इवडी ज्येष्ठ आल नमी जनेसर सेवीजे मधुसुतो राय, पीज्ये  
 पीता जेहने वीपराज समाय, माताने सतरुनभा भर्षमा गरभनो छडा, तेथी नाम नमी  
 दीयुं शीव अधिकारी ज्येष्ठ १ अष्ट द्रव्य पूज करे, सतर बोदी जल्यु, तेम ज्येष्ठीस  
 प्रकारनी, अहोतरि ज्येष्ठ आल्यु, जन योवीशे पूजता, समकृत निरभण थाय, आवीश  
 सागर ते लहे, ज्येष्ठ देवदोके ज्येष्ठ २ भागसर अग्यारसे देवण पाभ्या सार, प्रभु न  
 गडे जेसी करी देसना दीये उदार, छुटा पुल ज्येष्ठ विरतरे लभ प्रभु अर्थ प्रकार्यो, गज-  
 धरे सुत्र सुथीआ भव्य ज्येष्ठ ज्येष्ठ वासो ३ वैशाख वद दशमी हीने प्रकृ शीव पीता,  
 भयुत्री नक्ष जेहनी मेवा करे मज्जता, गधारी देवी तिहां सासन निरभ वाल, मुनी  
 हुकम कहे सेवता पाभीजे भवपार ४ नमोयुषु कहीने स्तपन कहेतु

नेमी जनेसर नीरभतां हो लान नयल्यु तरपन न थाय रे, वीकसे तरया वीयल्यु  
 पुज इपने देभता हो लाल अन्नत भाजे दरी थाय रे वीकसीत० १ देवण ज्ञान पुज  
 उप यु हो लाल, तेढतुं तेज अपार रे वीकसीत कोड सुरज दाम ले हो लाल, तादरे  
 तोल नवी धार रे वीकसीत० २ ज्येष्ठ तस इप ते भाभीयुं हो लान, अवप अगोअर  
 इप रे, अरुपीना इपनो हो लान, डेम अदाये सइप रे वी० ३ इटक ज्येष्ठ डाके करी  
 हो लाल, ज्येष्ठ ज्येष्ठ नीरधार रे, डाक अभावे ते होवे लाय, नीरभतो उदार रे वी०  
 ४ करम डाकव लाग थकी हो लान, आतम लागे इप रे, करम मेव गया पछी हो लाल  
 माने अदा ज्येष्ठ सइप रे वी० ५ न्याय तरक साये लयां हो लाल, नयले थया उदार रे,  
 वी० ज्येष्ठ रीने भाभीयु हो लाल ज्येष्ठिग मुज आधार रे वी० ६ उनी ज्येष्ठ युजे  
 करी वणगीया हो लाल, तेथी तम नपि थाय रे वी० मुनी हुकम मन मोदीयु हो लान  
 रदये आवो धरुं थाय रे वी० ७ पछी अरधा जेवीरा कहेवा लार पछी अर्धतवदन  
 करवु समतशीपर मोझे गया अज्युमधु हीधु भास, अष्ट करम ते ज्येष्ठने वरीया



શીવરમણી ખાસ અગર અમરપં તે લહો જહાં અબ્ધુત ભોગ, નિકલક નિરજન તે  
યથા, નદિ રોગ ને રોક ૨ અનખ અવિનાશી અબ્ધ તે ચિદાનંદ ભગવાન મુની દુકમ  
સિદ્ધ તે યથા નિજ સરૂપ તે ધાન ૩ નમોયુષ્ઠ કહીને જેવીરા સપૂણ્ઠ કહેવા

## અમરતેજ મુનીની સજ્ઞાય

ઢાળ ૧ ત્રીજી મહારત સામજો એ દેશી શ્રી સખેશ્વર પાસજી, પ્રજીમી તેહના  
પાપ કેશુ ગતી કમ તણી દૂર ધરજો અતરાય ૧ ૨ ભવ્ય ખાણી સામજો, કરમની  
ગતિ જેહ ભોગવ્યા વિષુ છુટે નહિ યાની ભાષે છે તેહ ૨ ભ૦ ૨ આંકણી ભવ સાતમે  
જે યથા અમરતેજ રાજદ વૈતાહ પરવને જોમતું વિવાધર નીરદ ૨ ભવ્ય ૩ બહુ  
રિધિયે પિતો, જીમસેન બન જસ જશથી ભાર્યા જેહની, ૩૫ ગુણે જે ખાસ ૨ ભવ્ય ૪  
જિનધમ રચી સ। નહિ અયાવનો લેશ દો ગધીકપરે સુખ તે ભોગવતાં તે વિશેષ  
૨ ભ૦ ૫ એવે સમે એક રાજ્યો વસુપાન તે સાર ભાયા ધન શ્રી તેહની, ૩૫ કળાએ  
હાર ૨ ભ૦ ૬ વર મુખથી ૩૫ સામજી, કામિ ધયો નર રાય, કામે બુદ્ધિ હોય નહિ  
નિનજ તેહ કહાય ૨ ભ૦ ૭ આજે સ્વરૂપ જે દુષ્ટ તે સુજીને સદુ યાય, મુની દુકમ  
કહે કામથી જે કદીય ન હોય ૨ ભ ૮ ગાય ૧ સપૂણ

ઢાળ ૨ માયા મોસન દીજે એ દેશી હવે અમરતેજ નર રાય, જેહનું મનકુ કામે  
વાય ધન શ્રી લેવાને જ્ય હો લાન કામી કાઈ ન વિચારે ૧ આંકણી હવગય પાપક તે લેતો,  
વેમાન રચી તે કેનો ચાર્યો પયે હવે વેતો હો લાવ૦ કા૦ ૨ મળહ શુકિ તે લેવે, નિ-  
જ યાનક આવે હેવે, જશ શ્રી આગળ તે કેવે, હો લાવ૦ કા૦ ૩ હવે જશ શ્રી મન  
ચિતે મારે રોક લહિ એક તે હુ ખદાઈ હોશે અતે હુ લાવ૦ કા૦ ૪ હવે પિયુને સ  
મળવે, બહુ ઉપદેશ એણી પેરે લાવે જેમ પિયુ બેદ ન પાવે, હો લાવ૦ કા૦ ૫ પર ના  
રીને પાપે ભરીયો, જઈ નરક માહિ તે ગરીયો, લોહ પુત્રી રદ્યે ભરીયો, હો લાવ૦ કા૦  
૬ તે કારણ તમે નવ કરજો પર નારી સગ પરીહરજો, જે સુરગતિ જાવાને સરજો  
હો લાવ૦ કા૦ ૭ પુરવ રતેહ નરરાય વેણુ માયુ પ્રીયાલુંસાય, તે નારી સુકી ચિત  
લાય હો લાલ ૫ ૮ ખદદન સુધી તે રાખી પછે મુકી તેહ નીર પાખી, દુ ખસદેતી  
ને દાખિ હો લાવ૦ કા૦ ૯ મુની દુકમની વાણી સાંભળતાં જેજ બરાણી આજે રસ  
ખાણી કહાણી હો લાલ૦ ગમિ કાઈ ન વિચારે ૧૦ ઢાલ ૨ સપૂણ

ઢાળ ૩. વચ્ચ વિચારજો એ દેશી પાછળથી હવે જે યયુ ૨, તે સુજીને  
આધકાર વસુપાળ રાજ તિહારે, નારી નિજોગ વિચાર ૨, ભવિ જિન સામજો કમ તણી  
ગતિ જેહ ૨ મોહનો આંખો આંકણી જેર જળતુ નવિ ચરે ૨ તેહથી ધયો નીરાશ  
પ્રીતિ ઘણી પ્રેમના યમિ ૨ ખેણુખેણુ સુકે નીસાસ ૨ ભ૦ ૪૨૦ મો૦ ૨ નારી વિજોગ  
દુખે કરી ૨ પાખ્યારે મરતુક રાય તે પાપ અતિ આંકુ ૨ લાગ્યુ વિવાધર રાય ૨  
ભ૦ ૪૦ મો૦ ૩ ધન શ્રી હવે જે ગઈ ૨ તેહને કુણુ આધાર, પીયુ પણુ પર લોક  
ગયો ૨ તેહ થઈ નીરધાર ૨ ભ ૩૦ મો૦ ૪ તેહ પાપ જશશ્રીને, લાગ્યુ તે નીર  
ધાર અત્રાય કર્મ ને વાધીયુ ૨ દપાતયે અવિચાર ૨ ભ૦ ૪૦ મો૦ ૫ તેહ કમ રૂળ

आगणे रे, भाष्पीशु अधिकार, ते कारण्ण भव्य प्राप्तीया रे, तन्ने तुमे परनार रे भ०  
 क० मो० ६ मुनी सन्नेगे दपती रे, पाभ्या प्रतिभोध राण्ण देर्ध नीण पुत्रने रे, करे  
 आतमनी शोध रे भ० क० मो० ७ आरित्र लही प्रभादधी रे, पाभ्यो उपसम शुशुहाण्ण,  
 दोभ उदये पाछे पडये रे, रत्तो आरित्र शुशुहाण्ण रे भ० क० मो० ८ तप न्प क  
 रोया षट्ठ करी रे, गान्ण आराधीरे सार, अत्ये सयेपण्ण करी रे, आतोद्धि अति आर  
 रे भ० क० मो० ९ आयुष पुत्र करी त्थां यक्कि रे, देवलोक्क पारमे न्प, आयु सागर  
 आवीशुं रे, सुभ भोगवे चित्तनाय रे, भ० क० मो० १० मुनी हुक्क कहे आगणे रे,  
 नेह यथा वृत्तत, न्धारय भाशु हवे रे, सामण्णे धरी भूत रे भवि जिन सामणे  
 क्कम तण्णी गत नेह रे मोहने आभणे ११ प्रति दाण उ सभास

दाण ४. कुवर गभारे नन्ने देपता अे देशी अभरतेण एव यवी रे,  
 नवमे भवे सुभगर रे, आरण्णक्षेत्रे श्रावक कुले रे, अवतार ललो उदार रे, कर्म तथी  
 गति सामणे रे आङ्कणी १ पय वरसने न्प हुवे रे, पीता पोता काण रे, रिद्धि  
 भवे सुधाध गध रे, अेही न्गतिनी गान रे क० २ भाये उठेरी भोटो कर्यो रे, परण्णायो  
 ते पाण रे, पुत्र परीवार तेहने हुवे रे, गान्ण अभ्यास सुभकार रे क० ३ धन उपाण्ण  
 करणे रे, आस्थो देशातर विचार रे, पूव अभ्यास तेहने रे, आरित्र आभ्यु उदार रे  
 क० ४ मोह तोडी आतम नेडी रे, गान्ण यरण्णने साथ रे, धाया भाया सब परीदरी रे,  
 नेहने आतम रिद्धि आय रे क० ५ आतमगाने ने रभ्यो रे, तेहने अवर कोण सुभ  
 भात रे, पुद्गल सग श्ये नही रे, नेहने छे शीवरभण्णीनी पात रे क० ६ अवनाशी  
 सुभे आतमा रे, सदा भावे मुनीराय रे, अतर आतम ज्येवता रे, ध्यान परभातम  
 लाय रे क० ७ नव कनपी विदारना रे, करता सदा निवाद रे, भव्य एव प्रतिभोधता  
 रे, षट्ठ देव तस साह रे क० ८ अेभ विचारता आवीया रे, अेक पुरे उार रे, मुनी  
 हुक्क कहे आभणे रे, नेहथी होये भवधार रे क० ९ प्रति दास ४ सपुण्ण

दाण ५. लीवापत कुवर भयो रे अे देशी देवलोक्क पारमेथी यवि, न्प  
 श्री एवते न्णु रे भवि, आवी ते क्वे उपनी, भाशु ते सुण्णो वाणु रे भवि, कर्म न  
 छुट्यो प्राप्तीयो आङ्कणी १ श्रावक कुले उपनी, लधुवेथी सरधा सार रे, श्रावक कुले ते  
 द्ध, परण्णवि पीताअे उारि भवि क० २ भट वरस नेहवे थया, वीधवा यध ते पाण  
 रे भवि, पूरव करम उदे थक्कि, छडा नद्धि णीन्ने उपचार रे भवि क० ३ सरधाथी भन  
 धिर क्यु, पाणे सीवत उार रे भवि, तप न्प कीया षट्ठ करे, गान्ण अभ्यास ते सार  
 रे भवि क० ४ अेहवे ते मुनीवरा, प्रणुमे दरणे अती अग रे भवि, गान्ण अभ्यास क  
 रवा भण्णी, इदीये वाधो न्प रग रे भवि क० ५ मुनिवर पणु ते उपरे, करी कीपा  
 दीयो गान रे भवि, पणु परभाह शुशुहाण्णथी, सराग थयो ते न्णु रे भवि क० ६  
 शासन देन तेडी क्को, पूछ्णो गान विचार रे भवि, प्रेम सराग क्कम आवडयो नद्धि, क्क-  
 रण्णथी निरधार रे भवि क० ७ गान्णने पुछि आवीया, क्को पूर्व सर्ग मत्त रे भवि  
 पूर्व स्नेह तम न्णुथीयो, सराग थयो अति भूत रे भवि क० ८ मुनि विचारता णिन्ने

અથા, સરાગ ન ગયો તે ધાર રે ભવિ, કાળ દોપણુ તે જાણીયો, બહુસ ચારિત્ર વિચાર રે  
ભવિ કં ૭ વદન પુજન બાધને, દર્શનનો ધણો હમેદ રે ભવિ મુની હુકમ કહે તે અ  
તરાયથી, પામ્યા છે અતિ એ. રે ભવિ કરમ ન છુટે પ્રાણીયો ઢાળ ૫ સપૂણ

ઢાળ ૬ કપુર હોવે અતિ ઉજળો રે એ દેશી સમા લોક તમે સાબળો રે, કમ  
તણું એ કળ, પુન અતરાય બાધીયો રે, તેહ તણું એ બળ રે, ભવિયણુ કરમ ન કરમ  
શો કાઈ, કરમે છુટે કામ રે ભવિયણુ આકળી સુખ સરે અળગાં રહ્યા રે, પૂર્વે ભવનો  
નેહ આ ભવનો અતરાયથી રે, દર્શન ન પામે તેહ રે ભવિ ર ઝાની સુખથી તે લલ્યુ  
રે આગે મળશે એહ દેવલોક નર લોકના રે, દોષ ભવ કહ્યા નેહ રે ભવિયણુ કં ૭  
તીરકર પદવી લહો રે મહા વીરહ મોઝાર ચકવર્તિ પદી કહી રે, દોષ પદી તસ સાર  
રે ભવિયણુ કં ૪ તારાં પટરાણી તે હોરી રે, એવા ઝાનીના વેણુ ધર્મ યત્રી અતરાય  
જાગે રે તે સુણુએ સહુ વાણુ રે ભવિયણુ કં ૫ કમ ખપાવી કેવળ લહી રે, પામશે  
શીવ સુખ સાર અમરતેજ મુનીરાયનો રે, એ ગાયો અધિકાર રે ભવિયણુ કં ૬ કિ  
ચીન કમથી દુખએ રે, બોગવીયુ તે જ્યેય તે કારણ બલ્ય પ્રાણીયો રે, નવી કરમે અત  
રાય કામ રે ભવિયણુ કં ૭ સવત ઝોગણીસ દસ નેઠમા રે, વદ છડી શુકવાર વિવા  
ધર મુનિ ગાધ્યો રે મોરખી ગામ મોઝાર રે ભવિયણુ કં ૮ મુનીવરના ગુણ ગાવતા  
રે, શુભ બોધી હોય છવ, મુની હુકમ કહે શીવ લહે રે, સુખ બોગવે સદીવ રે ભવિયણુ  
કમ ન કરશે કામ ગાયા ૯ ઢાળ ૬ સપૂણ

## જ્ઞાન શિતલ વિલાસ

ચૈત્યવદન પહેલુ. વસ્તુ સ્વભાવને જાણવો અનુભવ ઉપિયોગ રંગ નિજપર સત્તા  
નિજતા એહિ જ્ઞાન તરંગ ૧ પરમજે ઉપીયોગતા, એહિ અશુદ્ધ આચાર, સાધન બાધન  
કળ વિ તેયિ ઘિર સસાર ર ચેતન જમ્બ બગિયો દુવે, વિરજ કુરહ્યા પાય વિભાવ  
ઉપિયોગ નજમન, પર પરણુતિ છેવાય ૩ એહિજ ઈચ્છા માદરી પર અનુભવ ક્ષયથાય,  
શુદ્ધ પ્રણુતિમા વસી, નિર વિકલ્પ રસ પાય ૪ અનુભવ સ્થિર મેહજ બાવમો, સેહજ  
સવર પર ગાસ આશ્રવ શોધ શુદ્ધ નિર્ગરા કરમ ધન તિમિર વિનાસ ૫ એ સ્વભાવ  
ચેતનતા, ધક્તિ ધરમ અનત અતિ નિરમય વિશુદ્ધતા, એહિ સિદ્ધ મહત ૬ નિરજન  
નિરાકાર એ અગમ અનોપમ ૩૫ અબાધિત આનદમે જ્ઞાન શીતળ મુજ જૂપ ૭  
ધતિ સપૂણમ ૧

ચૈત્યવદન બીજું જગનાથ જગદીસ જગમહુનેતા ચિદાનંદ ચિત્કંદ ચિનમુર્તિ ચેતા  
એ દેશી શુદ્ધાનંદ સિધ સાધના સાધ્ય રામી, વસ્તુ ધરમ આરાધના શુદ્ધ પામી, અનુ  
ભવ જોગી સેહજ ગુણુ જોગી કનક કરમ ત્યાગી ધયા તે નિરોગી ૧ કહું તાસ વિચાર  
અત કરણુ જોહ ચિદાનંદ જોગે રમે જિમનોહ અનાદિ મિથ્યાતી અચેતજ આપ અ  
માવામ રાની કાળી અધ છાપ ૨ સમકિત ગુણુ શુદ્ધ જિહ્વાઅવકાશ, કગાળીજ રેખા અદ્ર  
ધવળ પ્રકાશ મિથ્યા મોહ તિમિર પડવ તિહાં નાસે અનતાનું કસાય ચોક્કી ક્ષય થાસે ૩  
દેશવિરતિ આવે બારદ્રત બાવે, અપ્રત્યાખ્યાનિ ચોક્કી ત્યાં અબાવે સરવવીરતિ તપ

सुग्री महाव्रत पाय रगी, प्रत्याप्यानि यद्द दृष्टि यथो व्रमगी ४ अप्रभत सदाध प्रभ-  
 त नदि कदाध, सेखिगत येतन त्या निरभलाध, सञ्जना कसाय त्रष्टुने भेदि छेदि, आशादिक  
 पटकद सुदधी उडेदि ५ वेद त्रष्टु नियम अभिलाय अगती, सुक्रावे मिटावे नावे गर्भवास  
 भगती, रत्नो श्रोत्र सुदभपराय हाष्टु दशभ, हष्टुे विर्यवत पाणी करे भरभ ६ दष्टुये  
 मोहराय सताधी छेदाय, तिहां राग द्वेषनो क्षय थाय, प्रष्टुति अशुद्ध अनादिनी टाणी,  
 प्रष्टुति शुद्धभय येतना अशुद्धाणी ७ नथाप्यात यारित्र सयन सामी, रमे निर  
 विकल्प ध्यानि अनागी, वित्यो राग वैरागी क्षिष्टुमोह त्यागी, दृष्टि करे त्रष्टु करम य  
 क्ष्युर भागी ८ तिहा केवणनाष्टु दर्शन अरिहत, उद्योत करे वक्ति धरम अनत, आयु  
 ज्येष्ठ तेदो नोग वास, छेदे अत छेडे करे नोग नास ९ ज्येगातित सिद्ध समश्रेष्ठि  
 सिधावे, पोये शिव धाम समय अेक थावे, करे धिति यरष्टु भग साद्विअनत, समावे  
 ज्येति ज्येत भाषे सिधत १० अनुभव करी साधना सिध भावि, येतन सञ्ज किधो  
 स्वरूपे रभावि, परमात्म निरभी परभी मून ३५, कहे ज्ञान शिखर वाहु सीद्ध रूप  
 ११ छति सपूर्णम्

वैत्यवदन श्रीशु. देशी उपर प्रभाषे समकितनुं सुत ज्ञान आराधी, समकित शुद्ध  
 पात्रो त्या ज्ञान सभाधी, ज्ञान इल विरति विरति इव मुक्ति, विवेक करे साधना शुद्ध  
 शुक्ति १ अनुभव ज्ञान लावे अतसमा रभावो, मन धिर त्या उपियोग नभावो, करे  
 ते शुद्धध वस्तु अेवभाध, पुद्गल छन भेदी इक्षार देभाध २ आतभराम परणो परमा  
 तम सरणो, सत्ता भिन्न भिन्न करी यिनभूति निरणो, तिहा येतना ज्येति विर्यने हावे,  
 करे गङ्गिभेद त्या समकित पात्रे ३ अे समकित मूल विरति ज्येग लेवे, विद्यानद वासी  
 स्वरूपने सेवे, स्वरूपे ज्ञान उपयोग मिधावे, तिहां शुष्टुहाष्टु अप्रभत पावे ४ ज्ञान ७  
 पयोगधी अणगा आवे, तिहा प्रभत शुष्टुहाष्टुं भावे, करे तेजभद ज्ञान शुष्टु करे, वधे  
 तेज उपयोग जनता भदरे ५ अे विरति हाष्टु साधन पाया, तछ गठी आभितर नि  
 अयराया, करे साधना शुद्ध सेष्टि आराहे, तिहाष्टु उपयोग यरष्टु धिर सोहे ६ अनुभवे  
 आतम धरम अनतो, करे भेद छेद अर्भेद लहतो, निरविकल्प भाव आतम पाया,  
 शुद्ध प्रष्टुतिमा येतन आया ७ अेकत्व वित्तक शुक्लध्यान ध्याया, सभाव वरति येतनछ  
 रभाया, पात्रे नाष्टु दर्शन केवण ताज, सकल शिरोमष्टि अग्निहत राग ८ अनत धरम  
 शक्ति हाण अनादि, वक्ति परवरते ते समय दिन मादि, असप्य प्रदेश निरामष्टु पाया,  
 निरत्राष्टु सिद्ध निरणन राया ९ साद्विअनत भग मिद्ध सोदावे, कारज ३५ ते योतेज  
 थावे, मूल स्वभावे अयज अविनासी परमानद भय शिववासी १० मुक्ति साधन करे  
 आतभजानि, समकित विरति लहे जे विद्यानि, पाहज ज्ञान विरति पेदवे शुष्टुहाष्टु, साधन  
 शीधनुं ज्ञान शीतण ऋणे ११ छति सपूर्णम्

वैत्यवदन श्रेष्ठु. विभज केवण ज्ञान कभजा, कसित त्रिभोवन छितकर अे देशी  
 सिद्ध भेत्र पयभी गति मुक्ति परिषद केवणज्ञान, आयक यरष्टुने विर्य अनत, नभो  
 सिद्ध निरणन १ यिन भूति अज अविनासी, निकतक केवण दर्शन, शीव परमात्म

परम ज्येति नमो० २ अज्याप्याध अक्षी अमूर्ति, अप्यड अटय अवगाहन अना  
 श्रित अनत शुभु भडित नमो० ३ अगुर लक्षु निरभजता वक्ति, पूरथु परम सभाधी  
 धन, परमेस्वर निरवाथु पवित्री नमो० ४ शुभु परमय स्वभाव अनतो वक्ति सडनी  
 भिज भिज, ते परतुगत धरम अनतो नमो० ५ अनत धरमे अनतो आनद,  
 अयग अतिद्रिय सुभकर, ते परमानद लेदरी भोगी नमो० ६ ज्ये सिद्ध तिडां सिद्ध  
 अनता, ज्येनिभा ज्येति सभासन निज निजरे भिजता सडनी नमो० ७ अनादि  
 अनत ज्ये सिद्ध सेवो, पूज्ये ध्यावो तर ध्यान, गान शीतल तिडा कवण पावो नमो०  
 ८ धति सपूर्युम्

## ॥ योयो जोमा लिख्यते ॥

सभेसर पासथु पूथये ज्ये देशी वितराग अरिहत पूथये कवणनाथु दशन ली-  
 थये करम कनक सन परिदरि निकवक कन्या सिद्ध वधु वरी १ ज्ये गानि अनुभवी  
 आनभा, निजपर सता भिज महात्मा अपकत्रेथि आरोह ध्यानातभा, सरव गैन धया  
 सिद्धानभा २ अटद्रव्य परतुने ज्येणभी शुभु परमय स्वभाव लक्षु लक्षी पर पाय अ  
 थव अकारथि, आतम गानि धरम धारथि ३ ज्येदि देव परमातम कीजिये, सेवे सुरनर  
 दद्र मन रिजिये तिडां गान शीतल वरस निजिये, परमानद भय रस पिथये ४ धति  
 सपूर्युम् १

योयो जेडा थीजे २ वीर जिजेसर वदिये ज्ये प्रगटे वीर शुभु जसतो ज्ये देशी  
 सुद्धानद निज वदिये ज्ये, परमदेव परधान तो मोक्ष कारथु ज्येद छे ज्ये, उपावन रडी  
 रित तो, निमित्त कारथु देव गुर कवा ज्ये, निज वयने दृढ चित तो, शक्ति भाव प्रथु  
 मन करि ज्ये, वक्ति सनातक भिद्ध तो १ वस्तु स्वभाव सिद्ध साधना ज्ये रमथु धिर  
 शुभु परमय तो, निरविकष रस पिजिये ज्ये, गान अजेत्ता पाय तो भाव सवर शुद्ध  
 निर्गंरा ज्ये करम अनत क्षय धाय तो, निरभण निरजन शुद्ध यर्ध ज्ये सरव सत सिद्ध

સપ, ઝોઝવનો કારણ, નિર્વાણ મગળ ગાવે, જ્ઞાન શીતળ હરખે, જ્ઞેતર્મા જ્ઞેત સમાવે  
૪ ઇતિ સપૂર્ણમ્

થાથે જ્ઞેડો યોથો. ૪ જ્ઞાતમ બોલે અથ સભાળી એ દેશી સિદ્ધચક્ર વાદુ મન  
રજે, નવપદ ભાવના ભાવ ઉમગે, આત્મ સ્વભાવના સગે, પહેલો અરિહત પદ અવકાશ, ગુણ  
ધાતી ચક્ર ક્રમ ત્રિનાશ, અનત ચતુષ્ટિ વાસ, એ પદ સજોગ અજોગમા ધાર, જ્ઞેગાતિત  
સિદ્ધ પદમા વિચાર સદ્ગળ શીરેમણી પ્યાર્, આચારજ ઉવજાપને સાધુ પ્રમત અપ્રમત  
ગુણમા સાધુ, શીવ પં સાધન વાદુ ૧ દર્શન નાથ ચરણુ તપ તપિયા, ખાલક સમકિત  
સુધું જપીયા વેદક અવસર ખપીયા, તિહા એનન સભાવનો રગી, આતમ ગુણ ઝેણિ દદ  
જગો, નીરવિકલ્પ એકગી, રાગ ધરેખ મોહ સમ ભાગે, અશુદ્ધ પ્રણતી અજગી લાગે,  
ખાલક ચરણુ તિહા જગે, વીતરાગ ક્ષિણુમોહ દુવાદશમ, ત્રણુ કરમ ખાળી કરી ભસમ,  
સવી સત પરમાનદ રસમ ૨ જ્ઞાન બોધ અનુભવ વીણુ નાહી, અનુભવ વીણુ પર છોડે  
નાહી, પર છોડે સમકીત લાહી, ધરમ અનતનું ખીજ એ પ્યાર્, સુખ દુખ ચરણુ લાગે  
ખાર્ મેદગાન વીણુ અધાર્, અનુભવ શુદ્ધ ધટ અતર જગે, બધ સત્તા કરમ એતન  
લાગે હણીયો ધરેખને રાગે, કેવળનાથુ દર્શન તિહા પામે, અનતુ લોકલોક સમ સામે,  
તે જ્ઞાન ધમ હિત કામે ઠ ખીજ પદમા તે સિદ્ધ કલિયે, ખાકી આઠ સિદ્ધ સાધન વહિયે,  
અરિહત સમિક્ક લહિયે, આચારજ તે પચાચારી, ઉપાધ્યાય પદે સુત ભારી, સાધુ  
વીરતી ખનિહારી દર્શન સામાન્યને જ્ઞાન વીશીષ ઉપીયોગ ધીર લાં ચરણુ લહેશ, તપ ની  
જરા પરવેસ, ધમ નવપદ સિદ્ધ ચક્રને પૂજે, સુર નર ઈંદ્ર તીહા દીક્ષ રીઝે, જ્ઞાન શીતળ  
તે સીઝે ૪ ઇતિ સપૂર્ણમ્

## ॥ સ્તવનો લિખ્યતે,

### અથ સમકિતનું સ્તવન. ॥

ધન ધન દીવસ ને ધન ધડી છે આજે સવેગ ગુણ પાપો સીદ્ધ હુવો નીજ કાળે,  
મીધ્યાતને હણીયો બણીયો જ્ઞાન સમાજે, જડ એતન લક્ષણુ બીજ બીજતા છાજે ધનં  
૧ એતન ઉપીયોગે વસ્તુ સ્વભાવને દેખે, તપ ઉદીઠભાવનો ભોગ રમણુ ઉવેખે, ઇહા મુક્તિ  
પૂરનો પથ વહે સિદ્ધ લેખે, અવીનાસી એતનરામ નીરજન પેખે ધનં ૨ નીજ ગુણુ દ્રવ્ય  
પરજન્ય સ્વભાવ શુદ્ધ ધાવે, મીધ્યાત મોહ ઝોર રાગ ધરેખ દૂર જાવે, નીજ ધટ અતર  
મેદગાન જગે શુદ્ધ ભાવે, પુનરપી કરમનો બધ ઇહાં નહી પાવે ધનં ૩ અનુભવ વીવેક  
બયો અધ્યાતમ ભાવે, એતન ગુણુ સમકિત શુદ્ધ આવિરભાવ પાવે, ધનધન તે સમય કાળ  
પ્રમોદિત ગાવે ્ પૂી સુમના સગ એતન યાવે ધનં ૪ ઈમ નિશ્ચે સમકિત નિધાન  
ચિત ભાવ્યો, પામવો છે એહીજ સાર ઉમેદ મન આવ્યો, જે પામ્યા છે તિરધાર ભરમ  
ન મમાવ્યો, કહે જ્ઞાન શીતળ શુદ્ધ એતન તદરૂપ પાવ્યો ધનં ૫ ઇતિ સપૂર્ણમ્

### અથ જ્ઞાનનું સ્તવન.

શેતુજે ઠીઠો રે એ દેશી જ્ઞાન તે આતમ સ્વરૂપ જે જાણે, તે નિશ્ચે નય જ્ઞાની  
રે, એ વિશુ સરવ પદારથ જાણે તે વ્યવહાર નય જ્ઞાની રે, જ્ઞાન પદ સેવો રે, જ્ઞાન

ચેતન સદભાવ આનંદ પદ સેવો રે એ આકર્ષી એ બે પક્ષનો પટતર ઝાઝો, વિવ  
રીને ધહા ઢાણુ રે, વિવેક અહીં યાતા જન સુણુજો, અનુભવ રસ શુદ્ધ ચાણુ રે યાનં ૨  
ઢાણુમ સુત્રે પહેલે ઢાણુ, વિર પ્રભુનું વચન રે, એક જાણ્યે તેણે સરવે જાણું નિશ્ચે સુહા  
તમ ધ ય રે યાનં ૩ આતમ સ્વરૂપ અજાણુ અનાણી મિથ્યા અણુભોગ વરતે રે,  
બાકી સરવ જાણુ ધઈ બેઠો તે નહિ યાની મહત રે યાનં ૪ એ સુત્રે ઈત્યાદીક જો  
જો પરખી યાની અહ જો રે અયાની સગત છોડીને ચેતનરાય સગ બાણુજો રે યા  
નં ૫ વ્યવહાર નય નાણી દિ બેદે તેહ સ્વરૂપને બાણુ રે રમણુ ઉદીક જડ દ્રષ્ટી જોતો  
તજવો તે ચિત લાણુ રે યાનં ૬ નય વ્યવહાર ખીજો બેદ નાણી વગ્નુ સ્વભાવને દેખે  
રે ઉદીકભાવ દર્ષિત નહી કરતા, ત્યા સાધન શુદ્ધ સેવે રે યાનં ૭ નીજ ઉપયોગે પ-  
રીક્ષા ઢીજો, યાની સગ કરિજો રે, ખીજો બેદ વ્યવહાર નય નાણી તેહનું વચન સુણી  
જો રે યાનં ૮ એ નાણી સગ ક્ષિણુ નહી તજવો, પરમ પુજ્ય ચિત બણુવો રે આ  
તમ રીદિ અનત દેખાડે તિહાં પરમાનંદ વરવો રે યાનં ૯ પરમાનંદ પદ આતમ અ-  
બેદી, સદગનંદ સ્વભાવે રે ધહા મુક્તિ છે ચેતન તાહરી કરમ સ્વીત સદભાવે રે યા-  
નં ૧ એ સાધન ઉપયોગ નાણુમા, રમતા લખિં જાગે રે તે કારણુ યાન પૂજી વાંદી,  
યાન શીતળ નાણુ માગે રે. યાનં ૧૧ ઇતિ સપુણુમ્

### અથ શેત્રુંજય સ્તવન

જગોને માતા અતરખમી, શેત્રુંજય ગીરી યનીયે રે મનુષ્ય જનમ બવ સદ્ગો  
હીજો આદિ જિણુદ પાએ પડીયે રે જાગો ૧ જાગો ચેતન જડ વેહંચીને નીજ સ્વ  
રૂપ નિહાળો રે રતનત્રય ચેતન શુણુ પ્રગટે, સમકિત મૂળ સભાગો રે જા ૨ જાત્રા  
સદ્ગ સમકિત શુણુ આદે સવર નીજજાત વાપે રે અહા બાસણુ રમણુ ઉપયોગે  
પરમાનંદ પદ સાધે રે જા ૩ સદ્ગ જનમ શેત્રુંજય બેટે નિમિત ઉપાતન સાથ રે, વિ-  
પય કયામ બવ ખીજક તજવા બજવા શ્રી આદિનાથ રે જા ૪ આદિજનેસર મર  
દેવાનંદન નાભિરાયા કુન ચદ રે પુરવ નવાણુ વાર શેત્રુંજયગીરી, સમોસરિયા જિન  
ઈં રે જા ૫ તીરથ પતી ગીરીરાજ સેવીને સિદ્ધ સાધુ અનત રે યાન શીતળ કહે  
તીરથ સેવો, શુણુ નિષ્પન મહત રે જાગો ૬ ઇતિ સપુણુમ્

### અથ ગિરિનાર શ્રી નેમનાથજીનું સ્તવન

બાળ બહાર્યારી જિણુદ પદ ધારી સેવે સુર નર ચરચદા રે ગીરનાર ગીરી નેમ  
નાથ ખીરાજો, બેટતા ઢળે બવ દ્વા રે બા ૧ બાળ બહાર્યારી વિષય નીવારી, નિરનેહી  
શુણુરાય રે, સચિત પુદ્ગલ ભોગ કમ્મ ક્ષિણુ જાણી, લીયે સજ્મ સેહસાળન આય રે  
બા ૨ જિણુદ પદ ધારી રામ ધરેખ નીવારી ધાતી કરમ ક્ષયકારી રે સેહમાનન  
કેવળ નાણુ પ્રમટાઇ, કલ્યાણુ મગળ જ્ઞયકારી રે બા ૩ ઈદ્રાદિક સુર અસખ્ય કોડી  
આવે, સમવસરણુ વીરચાવે રે પરખના બારે મીલે તિહાં વેગે દેશના જનજી સુણુવે  
રે બા ૪ તિહાં ગણુધર પદ વાપે જનજી, રચે દુવાદશાગી સીદ્ધાંત રે, કેધક બોધખીજ  
લાભ પામી, મુત લીયે શાંત કાંત રે બા ૫ આવક આવીકા સાધુ સાધવી, સધ ચદ

विध सायो रे- आशा नेम निज्य हकी धारी, लहो परम पद जयो रे आ० ६ छस तीरथ थापे ते छनछ, समुद्र विज्य कुण यद रे, ससार सागर पार उतारे, नर नारीना वृद रे आ० ७ गीरनार गीरी नेमनाथछ भीरान्ने, जत्रा करे नर नारी रे, सुकृत अे सभ अवर न दुजे, भिध्यात मोह नीवारी रे आ० ८ नेटता टणे भव हदा अे सायो, आत्म गाने रायो रे, शुक्ल शुक्ल परमथ अदीने, शुद्ध प्रकृतिभा नायो रे आ ९ अन्नेगी शुद्धाथ अदीने, जेगातित पद लीघो रे, समन्नेषि छे पायभी दुके, आत्म परदेश भन छीघो रे आ० १० गीरनार गीरीपर नेम लुज्य हकी, कल्याण्टिक त्रिक भूमि हाँई रे, गान शीतल शुज्य रागे हूरसी, अतर आत्म पाछ रे आ० ११ छति सपुलुम्

### अथ तारंगजी श्री अजितनाथ स्तवन

राग रामगिरी कडभानी देशी पथ छनरान्नेो अछत महारान्नेो, अतर दृष्टिये हूर दीठो, तेह अनुभव करी, द्रापु नीज छित भली, द्राप साकर यकी अतीथ भीठो प० १ पथ नीज द्रवणी वरतीये अनुभवे, द्रवपर अनुभव हूर करवो, रमजुता येतन शुज्य परमथमे, साध्य साधनपणो तहा वरवो प० २ सवर निजरा तेहने कीछये, छान्छये रत्नत्रय सार मेवो, नीरवीकल्प अेकत्व अनेदमे शुज्य परमथ रवभाव सेवो पथ० ३ शुद्ध प्रकृतिये येतना रजुभी, छिद्र जेगाही छपयेत छुटो शत्रु मोहाही परिवार स-योगता, आत्म परदेश रहेवास तुटो पथ० ४ भगण कल्याण आनद पद स मही, साही अनत भग सीद्धि हाँभी, शुज्य परमथ रवभाव अनतभा, आनद नेहेर विलसत पाभी पथ० ५ परम पद पाभवा पथ अे अनुभवो, धिर सरथाये नीरधार कीघो, तारग तीरये अछत छन नेटता, र्दीये अतस अमृत पीघो पथ० ६ कारणे कार्य नीसपतीनी सा धना, जपयोग भान सहाय पाये, गान शीतल सुजे अछत छन देशना, यित रमे रहस परमोद नाये पथ० ७ छति सपुलुम्

### अथ श्री मह्विनाथ स्तवन.

मह्विनाथ शीव साथ सारथवाह कहीये रे, सध यसावे सिद्ध तीरथ पति सहीये रे, सध अहोँध सभकित भवि सहीये रे, अतर उपयोगवत येतन शुज्य अहीये रे भसि० १ योथायी अह०भा सगे सध कहीये रे, आवक आवीका सार पयम शुज्य वहीये रे, प्रभत अप्रभत साधु साधवी त्यागी बहीये रे पूरज्य आशानत व्यवहार मुष्य रहीये रे भसि० २ उपरात शुद्ध व्यवहार छेनेद जानी रे, मुष्यता निम्ने साथ दशम शुज्यहानी रे, त्यायी निम्ने अेकतो धिर ध्यानी रे, साधन आत्म अनेद अनत शुज्य गानी रे भसि० ३ सध अह भेद समुदायनो प्रवाहे रे, प्रयाणु करे मह्विसाथ सभाधी रवभावे रे, भारगे शत्रु मेवासी तीहा आवे रे, सेना तवो नही पार अतुन भज दावे रे. भसि० ४ अनदी भीध्यात्व अनतानु जधीभट अलिया रे देपी छन पति साथ भागा यई गवीया रे, शत्रु से ष जाणु यधु जरा भरीया रे शुक्ल ध्यान गान आये मोहराय जलीया रे भसि० ५ दृष्टत अेक आपु भयुँ उपयोगे रे, हाँ छेधेछ वणगे छम सन्नेगे रे हाँ सपा भगटे नहा तप भागे रे अमि जेरे तिहाँ वाधे छेधेँ नही भागे रे भसि० ६



उपनय कश्चु तेनो जित देष्ट दे, अज्ञान जेगे करम महे शुषु जोरि दे, जेतन सताने  
 लक्ष्मी शुद्धि दे आयक लक्ष्मी प्रगटां करम साष्ट दे मल्लि० ७ अरथु लक्ष्मीयात पा  
 म्या अत हाथु इसमे दे, त्रथु करमनो धात क्षिपुमोह इवांशमे दे शुद्ध प्रथुति रीजे  
 जेतनराय वश भेरे, अनत यतुष्टयी उचोत परमानंद रममे दे ॥ मल्लि० ८ सैतेसी करथु  
 धिरथल पुद्गल जेग इंधीने, जेभातीत स्वभाव लहे तप शुद्धि दे भाग जेक पोलात  
 धरे धन भागर्थीरे, जेक समय मभसेषी लोकात्रे सिद्धि दे मल्लि० ९ शुषु परन्तय  
 स्वभाव अनतरमत दे निज निज वक्ति भिन्न, परमानंद वत दे, आनंद वेहेर विल  
 सत भग सादी अनत दे नीभीत कारथु मल्लिनाथ भग सादिसत दे मल्लि० १० सार  
 यवाह सिद्ध साय भाष्यो सिद्धाते दे गयो न्निज शुषु हेने सुजे। मवि सत दे तरथु  
 तारथु छन ज्ञादाज नीभीत लणवत दे, ज्ञापादान सज्जेगे सेवा शुषुवत दे मल्लि० ११  
 प्रभावतीने नद सेवे सुर वद दे कुल नरपति कुणयद पुणे पाय नरिद दे जन्म भो-  
 म्भव सुरे छेद्र करे मेइ गिरिद दे लवट अग न भाष जसम जित यद दे मल्लि० १२  
 सदस पयानन आय वरथु नील काय दे, पयथीस धनुस प्रभाथु लछन कणश पाय दे,  
 मिधिसा नयरीजे जन्मिया जिनरायरे समेतशिपर निरवाथु करमथी मुकाय दे मल्लि०  
 १३ जोगल्लिसभो जिन्रेड यद व्रत धारिरे छन्मथ काल दिन जेक धातिकरम छारिरे, देवत  
 नाथु दशथु पाभीने उपगारिरे भोषनीज हातारी शिव सुभाकारिरे मल्लि० १४ जधारथ  
 सारथवाह साय सिद्ध क्रिधेरे आतमश्प निदान अनुभव पिधेरे भोषल्लि नगरभां गिराणे  
 दरसथु लाम निधेरे ज्ञान शीतल जे साय भिनो काज भिधेरे मल्लि० १५ धति सपूषुम

## ॥ अथ सञ्ज्ञायो जिखयते

### चेतन ज्ञाननी सञ्ज्ञाय पहेली ॥

जेतनल पारजे मत लवेरे जे देशी जेतनल ज्ञान स्वश्पने धाररे तुमे पर  
 छिपियोगने वारो जेतनल० १ पूर्व करम जनिद इश प्राथु दे, ते पश्चरतु प्रभाथु दे,  
 तेदना सगे उपयोग भाथु जेतन० २ जे उपयोग जेतन वरतु दे, परसगे जडता लहछ  
 दे, राग धरेष अज्ञान भदतु जेतन० ३ जे भूल अनादिनी तुजभारे तेथि करता भोगता  
 पुद्गलभा दे पाथे करमवमथा जेतनभां जेतन० ४ तेथी यद गति लठकथु लगेरे दे  
 भूतश्प डिढा नहि लजेरे सुक्ति साधन सज त्याजे जेतन० ५ तेथी दुष्पीयो अनत  
 मसारी दे पुन्य वरतु लजे प्यारी दे करे तप जप कष्ट लहु भारि जेतन० ६ जे मि  
 थ्यात्व पक्ष देभाजे दे, तेथी दिन दुष्पीयो पाडे राडयो दे अह भमत्व करि विथुसाडयो।  
 जेतन० ७ आ अवसर जेतन ज्ञानी दे, पूव रीत शुवे धिर ध्यानी दे परसगे अनती  
 हानी जेतन० ८ ज्ञान विरज जेकता क्रीधी दे पुद्गल प्रथु मन तल ह्रीधी दे उपयोग  
 शुषु स्वश्पभा लीधी जेतन० ९ शुद्ध अनुभव आतम धर्मां दे शक्तिनाव वक्ति परि  
 थुमि दे पूरव लध छेदी धयो छे अकरभी जेतन० १ शुषु धाति यजेने विनाश दे, निहा  
 अनत धरम अवकाश दे क्रीधो भाषकारभा वास जेतन ११ आथु व्यते जेग रोष  
 यावे दे, तिहा जेतन अज्जेगी शुषु पावे दे धदा अपाति यद छे अभावे जेतन० १२

अद्वि सिद्ध मनातक वदु रे, मूल इष जेष्ठ आनदु रे, ज्ञान शीतल करी करम निकड  
 येतन० १३ धृति संपूर्णम्

### अथ समकितनी सज्ञाय.

इषमनो वसत्यज्ञाय३ अे देखी. येनन समकित आदेशे, लक्ष्म पाय विचारो रे,  
 सम सवेम निरवेद अे, अतुकपा आरता धारो रे येतन० १ उपसम लक्ष्म पेहेकुं भा  
 वीये क्षमाये कोषने दृष्टीये रे, वेर विरोष सभावीये, मंत्रीभावने अश्रये रे येतन० २  
 भीलुं लक्ष्म सवेगीये मुर नर सुभ दृ म सरभु रे, वेम मोक्ष अभितापियो, कर्म रक्षित  
 येतन परभु रे येतन० ३ त्रींशु लक्ष्म निरवे. लहे, यडगति अधीपानुं भारी रे,  
 अनुतर सुभ अेर सरभु, अडु अनि धंदा छडु धंदा रे येतन० ४ अतुकपा लक्ष्म योथु  
 यितवे निज परभा द्रव भाव रे, प० अतुकपा होष जे.थी, समशु हरषा लाव रे येतन०  
 ५ परदुम छेदे निज शक्तिये, पर प्राशु रजोपु रे, तस थावर नदि दुभवे, ते द्रव अतु  
 कपा रोपु रे येतन० ६ भाव ते उपदेश धरमकथा, जेद ज्ञाने देभाउरे, अुव पुद्गल  
 नि भिजना, वस्तु सत्ता ज्युटी पाउ रे येतन० ७ गुणु परनय समजवीये ज्ञान येन  
 ना दिने रे, तेथी अतुभव पोते करे, निरधार यथां दिख रीने रे येतन० ८ अरु शुक  
 वस्तु भिजना, अतुभवे निज अपियोगे रे, समकित प्रगट करे प्राथीयो, ते भाव अतुकपा  
 पर जेगे रे येतन० ९ सव जेगे हवे भावसु, देशरीरती सरवरीरती लेवे रे, विषय  
 क्षायने परिहरे, ते द्रव अतुकपा सेरे रे येतन० १० राग धरेष वली मोहने, छडी स्व-  
 भावमा आवे रे रक्तिभाव वक्तिपणुं लहे ते भाव अतुकपा निज थावेरे येतन० ११  
 आरता तक्ष्म अहो पायभु, करे गिन वयन परमाज्ञो रे, जैनभाव सभावमा, देजे  
 येतन राजो रे येतन० १२ धम पाय लक्ष्म लाधे आपमा, ते ज्ञो सभकित रे, ज्ञान  
 शीतल क्षीषा सपने, ते येतन जनम पवित्र रे येतन० १३ धृति संपूर्णम्

### सज्ञाय त्रींजी मधुविंश्यानी लीख्यते.

अेक दिनस वीगे नेमकुमर नीज भिन्न सधाये आवे अे देखी ससार वने यडुंमती  
 भव भमथु अुवने दु म मोहु अतुभव वीना धम साधन करीये ते सरवे छेडु अे  
 आकषी मधुर्गोदु द्रष्टात अीत धरीअे, अधीर वन यडगतीभां करीये, तीहा वन मज  
 भारे ते उरीये ससार वने० १ अुव आगल गज पाछव होउ, वड नीये कुप हीडे  
 होउ, तेभा लठके वडवाछ हो जेडे ससार० २ दष्टी नीयी करे कुप भाउ, अही अर अ  
 जगर अेक भुभ हाउे भय साज्यो उध भुभ अीस पाउे ससार० ३ हाये सुनक हो वड  
 वाछ जेवे, रयाम उचनन वथु अुवीत जेवे, वड पाउथु गज गणित होये ससार ४ वड  
 कये उमो थीर अडे मधुडुथी मणीया उडे, अगे वजगी ते दु भशी रे ससार ५ अे  
 मधुपूडो तीहा शहीयो, मध अरे पडे अीदु नाके लीयो यागी रना. लदनां दु म टलीयो  
 ससार ६ अेजे समे गगने रीमानमा, विधाधर पत्नी आशुंभा जेदी, जेवे छडी  
 रयानमा समार ७ अेजे हीडे कुपे अुव दुभोयो कहे विधाधर मडडी करे सुभीये  
 अेने लावे छडी न रडे सुभीयो ससार ८ कहे विधाधर गुं सुवु ध्यागी. अे वयन

માને હીતકારી, દુર જાતાં કાલકેપ નહીં સારી સમાર ૯ પુનરપી બોલે તીહા કને વિ  
 ઘાધર ઉતરે સ્થીર મને, કહે આની બેસો બાધ વિમાને સસાર ૧૦ એ વચન ન માને  
 વીકલ ભારી, કહે બીંદુ મેષ આતુ મન કારી, જામુ જીવે મધપુકે મુખ ધારી સસાર ૧૧  
 એમ પુનરપી બીંદુ આવે લેષ, ચાટે સ્વાદે મન ભાવે, નીકને નહીં દુખ જીવી જાવે  
 સસાર ૧૨ એને મુકી વીઘાધર જાવે, કલો નથ ઉપનય દાખુ ભાવે, તીહાં ઘાન શીતલ આ  
 નહ પાવે સં ૧૩ ઠાલ પેહેલી સપુર્ણ

## વીજી ઠાલ

સાધુજી સમતા આંરો તમે તમે ક્રોધ નીરધાર મેરે લાલ એ દેશી ચેતનજી શુદ્ધ  
 અનુભવ કરો તીહાં નીજ પર ભીનના યાવ મેરે લાન ટલે પરસ ગીપણું ઉપયોગ સ્વરૂપે  
 પરમઠાય મેં ચેતન ૧ એ આકણી એ માધન શીવપથનું કલ્પુ એથી અઠ ગતી છુટે  
 સસાર મેં દ્રવ બાવનો કમને દર્શી, યાવ સીદ્ધ વધુ ભત્તાર મેરેં ચેં ૨ દ્રવે ઉપનય  
 અથ મુન દાવનો કદું સમજો ચત્તર સ્વભાષુ મેરેં વન ચઉમતી સેઠ મોઠકુ પુનર ભવ  
 પ્રમણુ પ્રમાણુ મેરેં ચેતન ૩ દુખ અસાતા કીજીએ જા સો કાલ મારજુદાર મેરેં  
 વડતે આપુપ બાખીયુ, કુપ કાય જોગ ઈંદ્ર મેરેં ચેતન ૪ વડવાઈ સ્વાસે સ્વાસ એ,  
 અહીં ચાર કષાય કદાય મેરેં અજગર મોહને કીજીએ, મુસક પક્ષ મુસલ કૃષ્ણાય મેરેં  
 ચેતન ૫ ખખીયાં કુટુંબ પરીવાર તે, વાગ્યુ અનુકુન મતીકુત મેરેં એક કલેપ કરી કા  
 લ નીગમે, એ તો જાણીયે પાસાતુ શુલ મેરેં ચેતન ૬ મધુર્મીંદુ વિનય સુખ જાણીયે  
 પય ઈદ્રી વિષય અમગ મેરેં રાગ દેવ એહથી વધે, તેને માને સુખ બેઠો રગ મેરેં  
 ચેત ૭ વિઘાધર સેઠ સદ્યુર, ગમન નીરાનબ ધ્યાનતર મેરેં વીમાન તે ધર્મ જાણીયે  
 પત્ની સો મુણુકી હીનકર મેરેં ચેતન ૮ જાવે ધણીત સો મકતી પુરી દીહા સાવધ  
 કુપે દુખી જીવ મેરેં મુણુકી કહે કાઢાડો દયા કરી લાવો નીરવધ વિમાને કરો શિવ  
 મેરેં ચેં ૯ આતમરાની વિઘાધર કહે એ નહીં માને મુજ કહેજુ મેરે ધ્યાન ટર ગે  
 જાતુ વેગશુ દોગઠ કુણુ રેહેવે રેણુ મેરેં ચેં ૧૦ પુનર પત્ની પ્રેયા ધકો ધ્યાન ઘોડેથી  
 ઉતરે તે સ્થાન મેરેં કહે સસાર કુપથી નીમ્તો બેસો ઘાન વેરાગ સો વિમાન મેરેં  
 ચેત ૧૧ એ માને નહીં વીકલ ધણે, વીકલ બોગ વિષયની માહી મેરેં સદ્યુર તીહા  
 સમજવના દુગતી સસાર રાગ ત્યાહી મેરેં ચેત ૧૨ તે કાજુ તજીયે પ્રેમથી જીમ  
 કાયથી ઉતારે સર્પ મેરે કરી મનમા નવી લાવીયે એક ઘઠીયે સજ્જમ માહા તપ મેરેં  
 ચેં ૧૩ એ વચન સજ્જે ઈદ્રી શુજે, ન ચીતવે ઉદયની માહી. મેરેં હીનાહીન સમજે નહીં  
 શુર ઉપદેશ નહીં શુજુ લાહી મેરેં ચેતન ૧૪ કરી સગના સુખ શુર દાખવે કહે પામે  
 તજીને સસાર મેરેં દેવાગના રીકી લાંબે આપુપે કરો બોગ દિક્ષા લેઈ જીવતાર મેરેં  
 ચેત ૧૫ એ વચન મુણી મન ચીતવે, મીકુ લાગ્યું મોહીત યથું મન મેરેં સમાર  
 રાગ કુપ નવી ટલે મોહ વલગથો ન છુટે જીમ જન મેરેં ૧૬ કહે આમલ સસાર હો  
 ડરજુ હાંપ બોગજુ અતુકલ સુખ મેરેં દુખ નજરે નથી આવતું મિધ્યાત્વી માને સુખ  
 એ તો દુખ મેરેં ચેત ૧૭ એમ સમજી ધ્યાન ઘોડે મડી શુર મયા માવ અધ્યાતમ  
 જાહિ મેરેં અજૂત અનુભવ પાખીયા દુષ વકતી અનત શુજુ માહી મેરેં ચેં ૧૮ તેમા

મુખ્યતા કેવલગાનની, સ જૂન શુદ્ધ ખાવેક તેહ મેરેં પરમાતમ પદ એ મોટકુ તિહાં  
હડી ગઈ કમ ખેહ મેરેં એં ૧૯ નિરજન સિદ્ધ નિરાકાર એ, પરમાનંદ જ્નેતી અનત  
મેરેં અવ્યાભાષ સુખ અનુભવે, અવિનાસી અચન શીવ કત મેરેં એતં ૨૦ તું અલખ  
અગોચર માહરે, કહે ગાન સીતલ સુણો સિદ્ધ મેરેં તે કુ ખ સાવેછે અતી ધણું, કુ ખ  
જય જય દેણુ તુજ રીદ. મેરેં એતનં ૨૧

કલશ. એમ હરખે ગાયો, ગાન પાયો મધુખાંદુ વીચાર એ, તેહ તણી દો ઠાલો કાધી,  
સમજી લહો ભવ પાર એ ૧ સ સાર કુ ખનું મુલ છે, હાણી સુખની યાય એ, તે કારણ  
અતરદ્રષ્ટીએ, તજીએ સ સાર ગગ એ ૨ આત્મગાની ગુર જોધને, દિક્ષા લીયો નીજ  
હેત એ, ગાન સીતલ નીજ દ્રવ્ય ભાવે, આણુદ લહો સિદ્ધ એત એ ઠ સપૂર્ણ

## ॥ અથ ગુરુપદ વાણી લિખ્યતે. ॥

સમુદ્ર વિજય કુલચંદ લો એ દેશી વસ્તુ સત્તાના જાણરે, ગુરુવદિયે હુકમમુની  
જસ નામ સદગુરુ વદિયે ઝોલખાવે વસ્તુ પ્રતે ગું સત્તા સાંહત દિત કામ સં ૧  
ગુણુ પ્રજામ જાજન સહી ગું એક રૂપ ત્રણ કાલ સં તેહ દરવ નિજ જાતીનો ગું  
જસ નહી બેદ વિચાત સં ૨ ધમ કહીયે ગુણુ સ્વભાવેં ગું કર્મ ભાવી પરજાય સં  
ભિન્ન અભિન્ન ત્રિવિધ સદા ગું એક પદારથ પાય સં ઠ ઉપજે વિષુસે થીર રહે ગું  
એ છે વસ્તુ વખાણુ સં ઉપજવુ વીણુસવુ તે સહી ગું પરજાય પ્રથમ તે જાણુ સં  
૪ થીરપણે તે દ્રવનો ગું પલટે નહી નીરધાર સં અવગાહના સર્વે દ્રવની ગું  
ગુણુ પ્રજાય પરદેશ ધાર સં ૫ તેહીજ સત્તા દ્રવની ગું વિષુએ નહી ત્રણ કાવ સં  
દ્રવે દ્રવ મિતે નહી ગું અસહાય અનાદિ નિહાલં સં ૬ નિજ સત્તામય દ્રવ છે ગું  
પરસત્તા મહે ન કદાય સં દ્રવ રૂપ છતિ કાર્યની ગું તિરોભાવ શકિત સદાય સં ૭  
આવીરભાવે નીપજે ગું વાકિત ગુણુ પરજાય સં કાર્ય કારણુ નીજ દ્રવ છે ગું  
પરદ્રવ અકારણુ અકાર્ય સં ૮ છતાપણે સવ દ્રવ છે ગું અછતાપણે પરદ્રવ સં એમ  
આરતી ખે વસ્તુનીં ગું રહી છે સર્વે દ્રવ સં ૯ દ્રવ સ્વભાવે નિત્ય છે ગુરું પ્રજાય  
સ્વભાવે અનિત્ય સં નીત અનીત એક વસ્તુમા ગું ભાખે ગાની વીનીત સં ૧૦  
સ્વદ્રવ સ્વખેત્ર સ્વકાલથી ગુરું સ્વભાવ સહીત ચ્યાર સતં પરદ્રવ પરખેત્ર પર કાલથી  
ગું પગભાવ એ ચ્યાર અસત સં ૧૧ દ્રવ્ય પદારથ એક છે ગું તિમા ગુણુ પરજાય  
અનેક સં ગુણુ પરજાયમાં એક છે ગું દ્રવપણું તે છેક સં ૧૨ શક્તિભાવ અવક્રાવ  
છે ગુરું વક્રાવ વક્રીનાવ સં અભવ્ય સ્વભાવ પલટે નહી ગું પલટે ભવ્ય સ્વભાવ  
સં ૧૩ પર્વાયોધિક બેદ વસ્તુ છે ગું દવ્યાયિક અબેદ સં ઉભય ધરમી દ્રવ છે  
ગું અર્વાયોધિક અબેદ સં ૧૪ એ સ્વાદ વાદ લદાય મધ ગું દ્રવ સત્તા ગુણુની ખાણુ  
સં ઈલાદિક મહુ બેદથી ગું વસ્તુ સત્તા ઝોલખણુ સં ૧૫ તે વસ્તુ ખટ બેદ છે  
ગું એક જીવ અજીવ પાય બેદ સં એકરૂપી ચ્યાર અરૂપી ગું તેને વણુવતા અખેં  
સં ૧૬ આ પદને પુરણુ કસ્યુ ગું બેદ કહે શુ ખીજા પદ માહી સં ઉત્કટ અજે અ  
તિ ધણો ગું ગાન સીતલ ઉછાદિ સં ૧૭ છતિ સપૂર્ણમ્

## વડ વીજું.

દેશી ચઢીયાની હુકમચુનીસર વઢીયે રે ખટ દ્રવના જાણુ, સગા ગુણુ પરજાવને રે, જાણુવા દીનર બાણુ નુટક જાણુવા નિનર બાણુ રવભાવે, ઉપીયોગ જોડે નવી ભાવે, તેહીજ આતમચાની કહીયે, એ વિણુ અવર ન યાગી લહીયે વઢો બનીજન એહ ૧ ધર્મારતીકાય પેહેનો કહોરે ખીજો અધર્મારતી કાય આકાશારતી ત્રીજો કહો રે ચોથો કાય કઢાય તું એ યો કાલ કહો ઉપચારે છાપણો તે નાહિ વિચારે પાચમો દ્રવ્ય પુન ગદસારતી કહીયે છઠો દ્રવ જીવારતી લહીયે વઢો ૨ પટદ્રવ નામ નાખિયા રે, દવે કર્કુ તાસ વિચાર પ્રથમના ત્રણુ દ્રવનો રે સાધનિકપણો ધાર તું સાધનિકપણો ધાર તે દાખુ, અરૂપી અચેતન અત્રીય બાણુ એ ત્રિકણુ ત્રણુ દ્રવમા સરખા, એક ગુણુ બિન ધર્મે પરખા વઢો ૩ ગતિ હેતુ ધર્મારતી છે રે ઘિતી અધર્મારતી કાય, અવકાશ ધર્મા આ કાશ છે રે એ બિન ધર્મ કઢાય તું એ બિન ધર્મ કઢાય રવભાવી, એક ગુણુ તે ચિત્તમા લાવી પરજાવ ચાર દવે તે દાખુ ઉપયોગ થીર કામે રાખુ વઢો ૪ ખુધ દેશ પરદેશ છે રે, અચુર લઘુ સચુકા એ વચ્ચે ચાર દાખીયા રે તે તમજવા જુકા તું તે સમજવા જુકા તે સારો, ધમ અધર્મ ખુધ લોકમા ધારો આકાશ ખુધ લોકલોક માહી, અતોક અત કહો નહી કાહી વઢો ૫ ઉહ અહો ત્રિછાત્રી કેરે કલિપત દેશ કેવાય, ધર્મે અધમ એ દ્રવમા રે અસખ પ્રદેશ સમાય તું અસખ્ય પ્રદેશ સમાય લોકમા, આકાશ દ્રવ રહો લોકલોકમા, અનત પરદેશી તે ખુધ કેવાય અચુર લઘુ ચોથો પરજાવ વઢો ૬ ચોથો દ્રવ તે કાલ છે રે, અવરણુ રૂપ જોહ તેમાના ઉપચાર થી રે, દાખુ તસ ગુણુ જોહ, તું દાખુ તસ ગુણુ જોહ ને અચાર અરૂપી અચેતન અત્રીયધાર નવા પુરાણુ મતના લક્ષણુ, કાલ ગુણુ એ કહો વિચક્ષણુ વઢો ૭ કાલ પરજાવ ચાર દાખુ રે પેહેનો અતિત અનત અનાગત અનત છે રે, મતમાન સમય એકત તું મતમાન એકત અવજો, ખીજો સમય તેને નહી વગો, અચુર લઘુ ચોથો પરજાવ કાલ દ્રવ માહી તે સમાય વઢો ૮ અજીવ અરૂપી વણુવા રે, ચાર દ્રવ સજોગ જીવ પુ ગલ બાકી રહા રે તે દાખુ ઉપયોગ તું તે દાખુ ઉપયોગ સગાવી ખીજા પદમે તે ભાવ લાની આ પને ઇહા પૂરણુ કીધુ યાન રીતજ અમૃત રસ ખીધુ વઢો ૯ ઇતિ સપૂણુ

मू० नूमौ भ्रमन् भ्रवद्बहुविभ्रमाढयो ।

विभ्राजसेऽभ्रमणिवद्वटपत्तनाभ्रे ॥

गांभीर्यवीर्यविनयादिगुणैकासिधु-

स्तवंदते न हुकुमारख्यमुनि क उर्व्याम् ॥१॥

संस्कृतटीका ॥ ॐ नमः श्रीवर्द्धमानाय ॥ वीरप्रचुं वीतमलं

विनाविनं विशेषविज्ञानविशारद विनुम् ॥ विद्याविलासैर्विजितान्नि-  
पक्षिण द्वाणेन सम्यक् प्रणमामि तं मुदा ॥१॥ रामचंद्रकविः सो-  
ऽह बालबुद्धयऽनुकपया । करोमि जैनसाध्वर्कहुकमस्तुतिटिप्पणी-  
म् ॥२॥ अथ तत्रजवान् जगज्जैत्रजैनजनचक्रचूमाणिमुनिराज  
महाराजहुकुमहूतिवरःस्वीयोत्पातबुद्धिप्रबोधनघटाञ्जटाभि . पापं-  
डरजःखडान् खंडयन् कृतसकलजगतीतलजयडिडिमो महाप्रतापेन  
महीतलं पवित्रीकुवन् सघाग्रहाद्वटपत्तने महासजायां स्थितस्तं  
प्रति स्तौति कविः ॥ भूमाविति ॥ नूमौ पृथिव्यां भ्रमरवद् भ्रमन्  
विरहन् कस्यापि पीडामनुत्पादनेन स्वनिर्वाह कुर्वन्नित्यर्थः बहु-  
ना विभ्रमेण शोभया आढयो युक्तः । शोभार्थेपि प्रयुज्यंते लक्ष्मी  
श्रीकातिविभ्रमा इत्यऽभिधानरत्नमाला । वटपत्तरूपे अत्रे आ-  
काशे । द्यौनभोऽभ्रौतरिद्द चेति धनंजयः । अत्रमणिवत् सूर्यवत् ।  
द्युमणिस्तरणिर्मित्र इत्यमरः । विभ्राजसे शोभसे । वर्तमानसमीपे  
नूते इत्यादिना वर्तमानसमीपे लट् । यः राजते इत्यनुसंधेयम्  
अथेतच्चवदस्य वक्ष्यमाणत्वात् यत्तदोर्नित्यसंबन्धत्वात् । गांजी-  
र्यमनौ हृत्यं वीर्यं शोच्यं पराक्रमो वा विनयो नम्रतेत्यादिगुणा-  
नामेकासिधुरेकसमुद्भूतं हुकुमारख्यमुनिं उर्व्यां पृथिव्या । कुञ्जिनी-  
लोर्वराचेति धनंजयः । कः जनः न वदते अपि तु सर्वोपि वंदत  
इत्यर्थः उपमाद्यलंकाराः स्वयमूह्याः विस्तरभयान्नविर्यन्ते ॥१॥

## ॥ ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥

॥ एक समयने विषे गूजरातनु प्रख्यात सेहेर वडोदरा नामे राजधानीमां देशांतरथी घणा पडितो आवि निवास करी ने रहेता हता, तेमां एक पद्दर्शन शास्त्रनी विद्वत्तानु अजिमान धारणा करनार, सुगंधपुर ( आमोद ) निवासी, कविराज रामचड् दीनानाथ नामे प्रसिद्ध शास्त्री, राजसन्मानथी आवीने केटलोक काल रह्या हता तेमने श्री श्री श्री १०८ श्री श्री मुनिराज महाराज श्रीहुकम मुनिना पूर्वपरिचयथी छ स्वनिवारक, चौरजय नंजक, अग्निजयशामक, धनधान्यपुत्रप्रापक, प्रत्यक्तदेवदर्शक, इत्यादि अनेक चमत्कार अनुभव सिद्ध थया हता तोपण स्वधर्मान्निमानथी जैनसाधुनी स्तुतिने हु केम करु ? एवा विचारथी रात्रे गयन करचा पठी पाठली रात्रे स्वप्नमां अनुमाने पाचमा देवलोकना देवे आवि कह्यु के, हे ब्रह्मत्वाजिमानिन् कुविकल्पनो त्याग करच, केमके जेनी स्तुतिदेवता पण करे ते तो तेनी स्तुति मनुष्य करे तेमा सशय करवानो अवकाशज क्या ठे, जे पुरुष थोडा कालमा सिद्धि पदने वरनार ठे अथवा एकावतारी ठे तेनी स्तुति करवामा अमारे पण सशय नथी, कारण के घणा काल पर्यंत देवता सबधी विषय जोग जोगवीने पण सर्व छ.ख निवारक एवु डप्कर मोक्षनु साधन करवानु अवशेष रहेते भाटे ए वखाण करवा योग्य पुरुष ठे तेनी स्तुति करो वली ए स्तुतिने श्रद्धा चक्तिथी वाचशे वचावशे तेना समग्र कष्ट अमो निवारण करीशुं, एम कही देवता अदृश्य थया, पठी घणा हर्षथी ए कविये आ स्तुति करी ठे, अने तेनी संस्कृत टीका पण करी ठे, तेमा विप्रवध काव्यनी अनेक रचना ठे, अने अनेक प्रकारना गूढ अजिप्राय राख्या ठे, अने अनेक प्रकारनां

आश्चर्यकारी चरित्र गुप्तपणे वर्णन करयां ठे, परंतु आ कालना दोषदर्शीं मलिन हृदयना जगतमां घणा जीव वर्ते ठे माटे तेमने कुकर्मबंधनं कारण थवाय माटे तेनो प्रकाश न करतां संक्षेपथी वाल जीवोने कांईक पण ते वातनो बोध थाय माटे संस्कृत टीकाने अनुसरी तेनुं गूजराती जापांतर करुं. ॥

टीकानो अर्थः ॥ हुं संस्कृत टीका करनार जे ते वीर प्रजु केतां कर्मनु विदारण करे एटले नाश करे तेने वीर कहीए. वीर एवा जे प्रजु केता चोत्रीश अतिशयथी विराजमान एवा तीर्थकर महाराज श्री महावीर स्वामी तेमने हर्षे करीने नमस्कार करुं ते महार्वार स्वामी कहेवा ठे के, गयो ठे अष्टकर्मरूपमल ते जेनो एवा एटले अतिशे निर्मज थयेला एवा, अर्थात् नाश करेलो कर्मरूपमल पाठो कोई काले बलगवानोज नथी माटे अतिशे शुद्ध पवित्र एवा अने विजाव कहेतां नाना प्रकारनी ऐश्वर्यपरंपरा तेणे सहित एवा, अर्थात् ठ प्रकारनां प्रातिहार्यादिक ऐश्वर्य तेमणो सहित एवा अने विशेष कहेता सर्वोपरि एवुं जे केवल ज्ञान तेणे करीने, जगतमां रहेला जे सर्व जाव तेमने यथार्थ जाणवामां अतिशे चतुर एवा माटे विभु केतां समर्थ एवा, अने वली कृष्णमात्रमा पोतानी समस्त प्रकारनी विद्याना विलासे करीने अतिशे पराजव करया ठे प्रतिवादि ते जेणे एवा एटले पृथ्वीमां जे जे प्रतिवादी हता तेमने अनेक प्रकारनी विद्याना चमत्कारथी पराजव पमाडीने पोतानुं तीर्थ स्थापन करता माटे तीर्थकर परमात्मा तेमने हु टीकाकार सम्यक् कहेतां मन वचन कायाये करीने नक्ति सहित श्रद्धाथी नमस्कार करुं एटले त्रिकरण शुद्धिये करीने वदना करुं, ए जाव जाणवो. ॥१॥

स. कहेता जगत्प्रसिद्ध एवो हुं रामचंङ्गनामा कवि जे ते वाल बुद्धि कहेतां वस्तु स्वरूपनु यथार्थ ज्ञाने रहित ठे बुद्धि ते



(४)

जेमनी एवा जे पुरुष तेमना उपर उत्पन्न थयेली अनुकंपाए करीने जेनसाधुमा सूर्यसमान एवा हुकुममुनि रूप सूर्यनी जे स्तुति तेनी नानी टीकाने करुनु एटले कोई घणु इव्य खरचनार मले तो मोटी टीका पण थाय ए जाव जाणवो ॥ २ ॥

हवे तत्रजवान् केतां पूज्य एवा अने जगतने जितवानु ठे शील कहेता स्वनाव ते जेनो एवं जे जिनशासन तेने विपे रहेला जे जन कहेता चतुर्विधसय तेमनो जे समूह तेने विपे मुकुटमणि समान एवा अने मुनिराज हुकुम, ए प्रकानु हूति कहेता नामनु धारण करनार एवा, अने पोतानी स्वान्नाविक जे उत्पात बुद्धि तेणे करीने नव्यप्राणिनुने जे प्रबोध करवो ते रूप मेघघटानी वृष्टिरूप ठटाये करीने अनेक प्रकारना एकात मतरूप पाखड अर्थात् त्रणशे ने त्रेसट पाखडमत ते रूप रज खड कहेता धूलना समूहने खडन करता कहेता डवावी देता एवा, एटले जेम धूल वडीने आखोमा पडती होय, पठी एकटम मेघनी धारा वरसे तारे ते धूल तुरत डवाड जाय, तेम पोतानी वाणी रूप धाराना प्रवाहे करीने प्रतिवादिना मतरूप धूलने डवावी देता एवा, अने वडी करघो ठे समस्त प्रकारे पृथ्वी तलने विपे जयडको ते जेमणो एवा, एटले ज्या ज्या विचरे त्या त्या जयपताकानुं स्थापन करता एवा अने पोताना महा महोटा प्रतापे करीने पृथ्वी तलने पवित्र करता विहार करता सता एक वखत सघना अत्याग्रहथी वडोदरा सेहेरमा पधारया हता अने त्या महा मोटी सजा थई तेने विपे विराजमान थयेला एवा ते महामुनिना ते कवि जे ते स्तुति करे ठे ॥

मूलकाव्यनो अर्थ - पृथ्वीने विपे भ्रमरनी पेठे विचरता, एटले कोइ जाव प्राणि मात्रने पीडा न उपजावता पोतानो निर्वाह करता, ए विशेषण करीने साधुना सत्तावीश गुणोएसहित एवा तमो

ठो एमजाव जाणवो वली केवा ठो के, घणी एवी जे शोजा तेणे सहित ठो एटले तपोक्षमीवी उत्पन्न थइ अनेक प्रकारनी जे लब्धित्त तेनी जे शोजा तेणे सहित ठो, अने वली जेम आकाशने विपे सूर्य शीजे तेम तमो आ वडोदरा सेहेरने विपे शोजो ठो, एटले अत्र राजा प्रजा सर्वे जेम सूर्यनुं सन्मान पूजन करेठे तेम तमारु पण बहु मान करेठे माटे, अने वली तेमनुं अज्ञान अंधकारनो नाश करी सूर्यनी पेठे ज्ञाननो प्रकाश करो ठो माटे आ शेहेरने विपे आ समयमां तमोज सूर्य समान ठो ए जाव जाणवो वली तमो केवा ठो के, गंजीरपणु गूरवीरपणु अने विनय इत्यादि जे गुण तेना तो अद्वितीय समुद्ध समान एवा ठो, एटले जेम समुद्धमां जल जरपूर होय तेम तमारै विपे समग्रगुण भरपूर रह्या ठे, ए विशेषणे करीने आ प्रकारनो जाव जणाव्यो के, सर्व सद्गुण तो परमात्माने विपे रहे ठे, माटे अखंड अध्यात्म ज्ञान चितनना प्रौढ प्रबल प्रकाशशी परमात्म दशाना अनुभव रूप आनंद समुद्धना उठलता मोटा तरगे करीने ससार संबंधी अध्यात्म अधिभूत अने अधिदैव रूप त्रण तापशी दग्ध थयेला प्राणियोने परम शांतिने पमाडो ठो माटे तमारु शुद्धात्म स्वरूपे करीनेज वर्णन करवुं योग्य ठे, एम धारीने कवि कहेठे के तमो सर्व गुणना एक समुद्ध ठो, ए प्रकारना हुकुम ठे नाम ते जेमनुं एवा तमोने पृथ्वीने विपे कोण पुरुष न नमस्कार करे ! सर्वे वदन करेज, एमां कांड आश्चर्य नथी. ॥१॥

## कुत्रबंध.

भूमौभ्रमन्भ्रमरवद्दु विभ्रमादयो । विभ्राजसेभ्रमणिवदृपत्तनाभ्रे ॥  
 गौभीर्यवीर्य विनयादिगुणैक सिधुस्तवदते नहुकुमारव्यसुनिकउर्व्या  
 म् ॥१॥

भू
भू मी भू
भू मी भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र मी भू
भू मी भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र म भ्र मी भू

भ्र  
 मा  
 द्यो  
 वि  
 भ्रा  
 ज  
 से  
 भ्र  
 म  
 णि  
 व  
 दृ  
 प  
 त्त  
 ना  
 भ्रे

दृट पत्तनाभ्रे ॥  
 गाभीर्यवीर्य विनयादि-  
 गुणैकसिधुस्तवदते नहुकुमार-  
 र्व्यसुनि कउर्व्याम् ॥१॥

आठ वस्तु गुन मले तो पुरुषनी बुद्धि निर्मल रहे, अनं ए आठ अशुभ मले तो पुरुषनी बुद्धि मलिन थाय एवु नीतिशास्त्रनु वाक्य ठे माटे अशुभ देशकालमां पण निरंतर जेनी निर्मल बुद्धि रहे ठे एवा महा समर्थ तमे ठो एवो अज्ञिप्राय आ जगाये जाणवो. वली वादिना समूहने अद्वितीय काल समान जणाता एवा, एटले जेम कालथी नय पामे तेम प्रतिवादि पुरुषो, जेनुं नाम मात्र श्रवण करवाथी स्वदेशनो त्याग करी परदेशमा पलायन करी कोई न जुलखे माटे वेपातर करी भ्रमण करे ठे

वली नाश करघो ठे कहेतां अदृश्य करघो ठे अधर्मिनो समूह जेणे एवा, एटले पोते तथा पोतानो परिवार निरंतर धर्ममा वर्ते ठे, तेने जोई अधर्मना करनार उपरथी धर्मनो आजासमात्र देखाडनार पुरुषो लज्जा पामीने गुप्तपणे जेना नये सताता फरे ठे ए जाव जाणावां. अथवा महामानी एवा प्रतिवादि पुरुषो, पोतानी लाज जवाथी नष्ट थाय ठे. वली पोतानी प्रकृति कहेतां नाना प्रकारना सुदर आचरण करवानो स्वजाव तेने विषे सरलपणे वर्तता, एटले सुदर स्वाभाविक आचरण करता पण केटलाक छुट जीवोने अवलु जासन थाय ठे तो पण तेना उपर काइ क्रोध न करता सरल स्वजावे नम्रताथी वर्तता एवा, कहेतां पोताथी वने तेम कोइ पोताना निमित्त कर्म बंधन न करे तेम वर्तता वली नाश करघुं ठे कदर्पनु मूल जेणे एवा, एटले कामादि दोषनी उत्पत्तिनु मूल खोजी काडीने श्रोता पुरुषोने तेनी समझण आपी जेरीते ते दोष फरीथी उत्पन्न न थाय तेवो उपाय देखाडी मूलमांथी दोषमात्रनु निकदन करता एवा वली केवल ज्ञानी पुरुषोना जेवु जे ज्ञान तेण करीने शोचता, एटले आ कालमां केवल ज्ञानी नथी तोपण श्रुतज्ञानना वलथी केवल ज्ञानीनी शोचानु धारण करता एवा वली अहिसानुं ठे शील

आठ वस्तु शुद्ध मले तो पुरुषनी बुद्धि निर्मल रहे, अने ए आठ अशुद्ध मले तो पुरुषनी बुद्धि मलिन थाय एवं नीतिशास्त्रनुं वाक्य ठे माटे अशुद्ध देशकालमां पण निरतर जेनी निर्मल बुद्धि रहे ठे एवा महा समर्थ तमे ठो एवो अग्निप्राय आ जगाये जाणवो. वली वादिना समूहने अद्वितीय काल समान जणाता एवा, एटले जेम कालथी जय पामे तेम प्रतिवादि पुरुषो, जेनुं नाम मात्र श्रवण करवाथी स्वदेशनो त्याग करी परदेशमा पलायन करी कोई न कुलखे माटे वेपांतर करी भ्रमण करे ठे.

वली नाश करयो ठे कहेता अदृश्य करयो ठे अधर्मिनो समूह जेणे एवा, एटले पोते तथा पोतानो परिवार निरतर धर्ममा वर्ते ठे, तेने जोई अधर्मना करनार उपरथी धर्मनो आनासमात्र देखाडनार पुरुषो लज्जा पामीने गुप्तपणे जेना जये सताता फरे ठे ए ज्ञाव जाणावो. अथवा महामानी एवा प्रतिवादि पुरुषो, पोतानी लाज जवाथी नष्ट थाय ठे. वली पोतानी प्रकृति कहेता नाना प्रकारनां सुदर आचरण करवानो स्वज्ञाव तेने विषे सरलपणे वर्तता, एटले सुदर स्वाभाविक आचरण करता पण केटलाक छुट जीवोने अवलुं ज्ञासन थाय ठे तो पण तेना उपर काइ क्रोध न करता सरल स्वजावे नम्रताथी वर्तता एवा, कहेता पोताथी बने तेम कोइ पोताना निमित्त कर्म बंधन न करे तेम वर्तता वली नाश करयो ठे कदर्पनु मूल जेणे एवा, एटले कामादि दोषनी उत्पत्तिनु मूल खोली काडीने श्रोता पुरुषोने तेनी समझण आपी जेरीते ते दोष फरीथी उत्पन्न न थाय तेवो उपाय देखाडी मूलमांथी दोषमात्रनु निकदन करता एवा वली केवल ज्ञानी पुरुषोना जेवु जे ज्ञान तेण करीने शोचता, एटले आ कालमा केवल ज्ञानी नथी तोपण श्रुतज्ञानना बलथी केवल ज्ञानीनी शोचानु धारण करता एवा वली अहिसानु ठे शील

(१०)

जेमनु एवा, एटले छव्ययी तथा जावयी कोइ प्रकारनी हिंसा न थाय ए प्रकारना उपयोगमा सदा वर्तता एवा हुकुममुनिने हुं अतिशे आदरयी स्तुति करुछु एटले अनिवादन, गुणप्रशंसन, स्वरूपनिरूपण, इत्यादि प्रीतिउत्पादक वाक्यवडे मारी शक्तिने अनुसरी वर्णन करुछु ॥१॥ वार पाखडीना कमलवधि चित्रनुं आ काव्य ठे

## ॥ चित्र काव्य बीजुं ॥२॥

आनदाभोभिखेज हतहृदयमल जैनसिद्धातशाज  
सच्छास्त्राभ्यासपाल सततसुविमल वादिवृदैककालम् ॥  
विध्यस्ताऽधर्मिजाल प्रकृतिपु सरज कृत्तकदर्पमूज  
कैवल्यज्ञानमाजहुकुममुनिमलसस्तुवेऽहिसशीजम् ॥२॥



द्वादशार कमलवधि काव्यमिदम् ॥२॥

क्लेशांतं शांतिशांतं नरदरहरणं धीरवीरप्ररक्तं  
पाप तापं क्षपंतं वरतरचरणैर्लोकशोकत्वकष्टम् ॥  
काल व्यालं दलंतं नवनवजवजीभ्रंशके शक्तशक्ति  
कामं कामंदमतं यतिनतिततिगंस्तौमितं मित्रमित्रम् ॥३॥

॥ स्रग्धरावृत्तम् ॥

टीका क्लेशातमिति। क्लेशस्य दुःखस्य अंतोनाशो यस्य सतं। अंतःस्वरूपेनिकटे प्राप्ते निश्चयनाशयोरिति हैमः। सदासुखीत्यर्थः। शांत्या कृत्वा शांतस्तं अक्रोधिनमिति जावः। नराणामनुष्णाणादरज्यं संसारजयमिति जावः। दरं विद्धं दरं जयमित्यनेकार्थध्वनिमंजय्याम्। तत्तुहंतीति तथाभूतस्त। धीरोयोवीरः वीरप्रभुस्तस्मिन् प्ररक्तं प्रकर्षेण आसक्त अतएव वीरप्रच्युतुल्यमिति जावः। यद्वा स्वयधीरः सचासौ वीरप्ररक्तस्तमिति। पापतथातापं संसाराऽनलं कृपतं उद्धूनयतं। वरतराणि श्रेष्ठतराणि। देवाद्दृतेवरः श्रेष्ठे त्रिष्वित्यमरः। यानि चरणानि आचरणानितैः यद्वा श्रेष्ठतरपादैः कृत्वा लोकानां शोकस्य जावः। शोकत्वं कष्टं तत्क्षपंतं नाशयंतम् काल एव व्यालः सर्पस्त विषधर दंशरूपवनाशनसर्पसरीसृपव्यालानित्यत्रिधानरत्नमाला। तं दलंतं पराजवंतमित्यर्थः। यस्य कालस्यापि जय नास्तीति जावः। चित्रे कालमिति पाठो बोध्यः। तथाच न क्वतिः। तदुक्तं वाग्जट्टालकारे। नानुस्वारविसर्गौ च चित्रजगायसंमताविति। नवप्रकारा इति नवनवाः। अत्र प्रकारेण गुणवचनस्थेति द्विर्जावर्धधारयवजावात्सुपोलुक्। या नवजियः संसारजोतय तासा भ्रंशके नाशने शक्ता सामर्थ्ययुक्ता शक्तिर्यस्य सतः। काम मदनं काम सेष्वं यथा तथा। यद्वा यथेष्टं। कामं चानुमतौ स्मृत प्रकाशे चाप्यसूयाया तथानुगमनेपि चेति मेदिनी। दमत यं कामोपि पराजव कर्तुं न शक्नोति किमुताऽन्ये इति जावः। यतीना

साधूना नतिततय प्रणामपक्तयस्ता गच्छति प्राप्नोति । गत्यर्था-  
स्तेप्राप्त्यर्था इतिवचनात् । तथाभूत मुनियोपि य प्रणमत्यतो  
मुनिचक्रवर्त्तित्व व्यज्यते । मित्रेषु सुहृत्सु विषये मित्र. सूर्यसदृशः  
यथा सूर्यो मित्ररूपाणि कमलान्युत्फुल्लयति तथा सुहृद्दर्गमिति-  
चाव. ॥ मित्र सुहृदि मित्रोऽर्के इतिविश्व. । तंमुनिराजस्तौमि  
अनुवर्णयामि ॥ वृत्त तु स्रग्धराख्यम् । तद्वद्गुणपूर्वमुक्तम् । ला-  
टानुप्रासञ्चैकानुप्रासादय. शब्दालकरा.स्वयमभ्युह्या. ॥३॥

त्रीजा काव्यनो अर्थ.-केशनो ठे अत जेमने अथवा  
जेथी शिष्योना केशनो अत थाय ठे एवा, एटले पोताना कर्मनो  
कृप करवाथी ड खना अतने पामेला अथवा जेणे प्रसिद्ध क-  
रेला उपदेशथी नव्य प्राणियो ड.खना अतने पाम्याठं पामे  
ठे अने पामशे एवा. अने नर कहेता पोताने विपे प्रीतिवाला जे  
स्त्रीपुरुषो तेमना अनेक प्रकारना जे नय तेमनु निवारण कर-  
ता, एटले ते महामुनिनी सेवामा रहेला देवता जे ते ए मुनिने  
विपे प्रीतिवाला नक्तजनना अनेक प्रकारना आवि पडेला जे  
कष्ट तेमनु निवारण करे ठे ए वात प्रसिद्ध ठे, जेवी के कोइ न-  
क्तनु मध्य रात्रे घर बलतु हतु तेमा घरनी तमाम समृद्धि बलि  
जाय एटलुज नुकशान हतु एमन हतु परतु सगाथे सुतेला स्त्री  
पुरुष तथा धावणो पुत्र, ते सर्वनो एकदम अतकाल आवि पो-  
चवानी वखत आवी, तेज समयमा कोइ अधिष्ठायक देवताए  
श्री हुकुममुनिनुज स्वरूप धारणा करी “उठ सुतोदु गुं” एम  
कही तेने जगाडी तेनु जेवु घटे तेवु रक्षण करी ते देवता अदृ-  
श्य थयो इत्यादि अनेक प्रजाव तेमना नक्तजन जाणे ठे, विस्तार  
थवाना नयथी केवल दिशमात्रज अति सङ्केपथी देखाडी ठे बली  
शातमुञ्जाए करीने साक्षात् श्री शातिनाथ नगवान जेवा जणा  
ता, अर्थात् क्रोधरहित ठे एटलो नाव जाणवो वजी नर कहेता




मनुष्य तेमनो जन्ममरण इत्यादि संसार संबंधि त्रास तेनो नाश करनार एवा, एटले केवल आलोक संबंधि नयनो नाश करे ठे एम नही, परलोक संबंधि नयनो पण अनेक प्रकारनी युक्ति प्रयुक्तिथी नाश करे ठे एवा वली महा धीरजवंत एवा जे वीर परमात्मा तेने विपे अतिशे आसक्त एवा, एटले केवल रातदिवस पारकुज काम करता हशे, पण पोतानुं आत्म साधन नही करतो होय एवी आशकाने दूर करवाने कहे ठे के, वीर परमात्माने विपे अतिशे आसक्त थयेला कहेतां वीरपरमात्माने तुड्य एजाव जाणवो, अथवा पोते वैर्यवंत अने वीरपरमात्माने विपे एकत्वजावनाना अभ्यासनी परम सीमाने पामेला एवा वली अतिशे श्रेष्ठ एवां आचरणवडे पापने तथा तापने नाश करता, एटले योगि लोकने पण अशक्य एवी योगाभ्यासनी अनेक कलां तेणे करीने एटले आकाशगमनादिक तथा दूर दर्शन दूर श्रवण इत्यादिक प्राप्त थयेलीं जे लब्धिसिद्धिं तेणे करीने अनेक प्रकारना आधिव्याधि अने उपाधि संबंधि स्वपरना परिताप तेनुं निर्मूलपणु करता एवा अथवा अतिशे श्रेष्ठ एवां जे पोताना चरणकमल तेणे करीने पापने तथा तापने नाश करता; एटले पोतानु पगे चालीने नक्तजनने दर्शन आपवु, पुठवुं इत्यादिके करीने पापने तथा तापने नाश करता एवा, तथा लोकनु जे शोकपणु ते रूप जे रुष्ट तेने नाश करता, एटले पोतानो घणो दयालु स्वजाव ठे माटे कोइपणु ड.खि पुरुपनु ड.ख देखीने पोतानी जाते त्या जइने जेते प्रकारे तेना ड.खनु निवारण थाय एवा उपदेशादिक उपाये करीने सुखी करता एवा वली कालरूप सर्पनो पराजव करता, एटले सर्व लोकने नयंकर एवो जे काल तेथी पण नय न पामता कहेता जेनी योगसाधनाना बलने देखी काल पण कपे ठे ए जाव जाणवो वली नवा नवां

(१४)

जे आवि पडतां ससार संवधि कष्ट तेमनुं निवारण करवामां  
अतिशे सामर्थ्ययुक्त ठे शक्ति कहेता अधिष्ठायक देवी जेमने  
एवा, एटले पोता उपर तथा सेवकजन उपर अनेक प्रकारना  
अपूर्व शत्रुए मिथ्यात्वि देवीजना साधनथी प्रकट करेला शरीर  
कष्टादिक तेमनु नाश करवामा अतिशे समर्थ एवी ठे पद्मावती  
प्रमुख प्रसन्न थयेली देवीनो समूह ते जेनी पासे एवा, अर्थात्  
जे देवीनु स्मरण करी आज्ञा करे तो ते देवी, ते सेवक पासे जइ  
तेनु समग्र कष्ट निवारण करे, एवा समर्थ तमो ठो एम नाव  
जाणवो वली अतिशे कामनु दमन करता एवा, एटले कामदेवनुं  
प्रबल लशकररूप स्त्रीजना समूहनो प्रसगसते पण तेनो पराजव  
करवाने समर्थ एवा अथवा क्रोधलोजादिकने तो जीत्या ठे परतु  
कामने विशेषपणो जीतता एटलो नाव जाणवो अथवा कामदे-  
वने पराजव करवा समर्थ ठे तो, वीजा शत्रुनो पराजव करे तेमा  
शु आश्चर्य ठे ए नाव जाणवो एज कारण माटे यति कहेता  
कामादिक शत्रुने जितवानु प्रयत्न करता एवा साधु पुरुष, तेमना  
जे समूह तेणे वदन करेला एवा, एटले अनेक प्रकारनु साम-  
र्थ्य वर्णन करीने नमस्कार करेला, अर्थात् मुनिराज पदवीनु धा-  
रणकरता एवा वली मित्र कहेता पोतानो आभ्यंतर सेवक वर्ग  
तेमने मित्र कहेता सूर्य समान एवा, एटले सूर्य जेम कमलने  
प्रफुल्लित करे ठे तेम मित्रवर्गने आनंदमा राखता एवा ते मुनिरा-  
जनं हु अनुवर्णनकरवु, एटले हु काइ नवी स्तुति करतो नथी,  
माराथी पूर्वना कवियोये जेम स्तुति करीठे ते मार्गे हु पण  
स्तुति करवु ॥ ३ ॥ आ हारवधि चित्रकाव्यनो अर्थ ठे ॥

## ॥ चित्रकाव्यत्रीजुं ॥ ३ ॥



॥ हारबंधि काव्य मिदम् ॥ ३ ॥

लीनीभवंति हुकुमार्क महोदयेनो-  
त्सूत्रप्ररूपणमलिम्लुचयूथकानि ॥  
नित्य भयादिव खलाजिमनोगुहासु  
प्रोत्फुल्लति स्वजनचित्तसरोरुहाली ॥ ४ ॥

॥ वसंततिलकावृत्तम् ॥

टीका—लीनीति हुकुम एव अर्क सूर्यस्तस्य महोदयेन उत्सूत्राणा  
प्ररूपणानि निरूपणानि एव मलीम्लुचाना चौराणा मलीम्लुचोमा-  
सनेदे चौरज्वलनयो पुमानिति मेवेनी । तेषायूथकानि वृंदानि  
खला एव अद्भ्य पर्वता । अङ्घ्रिगोत्रगिरिधावाचलशैलशिलोच्चया  
इत्यमर । तेषां मनांस्येव गुहा तासुनित्यजयादिवलीनीभवति ।  
लय प्राप्नुवतीत्यर्थ । उत्सूत्रप्ररूपण खलेषु स्थित न त्वऽन्येष्विति  
गूढज्ञाव । स्वजनोना चित्तान्येवसरोरुहाणि कमलानि तेषां-  
माऽऽजीपक्ति । वीथ्यालीपक्तिरावलीतित्रिकांडशेष । प्रोत्फुल्लति  
विकसति स्वजनसुखदायक इतिज्ञाव वसंततिलकावृत्तम् । तद्धक्ता  
उक्तावसंततिलका तजजा जतौ ग ॥४॥


॥ चोथा काव्यनो अर्थ — श्री हुकुम मुनिरूप सूर्यनो म-  
हा मोटो उदय थयो तेणे करीने अथवा ते हेतु माटे उत्सूत्रनुं  
प्ररूपण करवु ते रूप जे चोर तेना समूह जे ते खल पुरुपरूप जे  
पर्वतो तेमनी मनरूप गुफाने विपे नयथकीज जाणेशु एम नि-  
त्ये लीन थइ जायठे कहेता चोरनी पेठ सताइ जायठे एटले  
सूर्योदय थाय त्यारे चोर होय ते पर्वतोनी गुफाने विपे सताइ  
रहेठे तेम उत्सूत्रनु निरूपण करवा रूप चोरना टोला हता ते  
खल पुरुपरूप पर्वतोमा पेशीने तेमना मनरूप गुफामा सताइ रह्या  
ठे, एटले जे हुकुम मुनिरूप सूर्यना नयथी खल पुरुपोथी पण  
सनामा उत्सूत्रनी प्ररूपणा थइ शकती नथी, कारण के ते एम

(१४)

जाणो ठे के आपडे माथे कोइ जवरजस्त महापडित पुठनार ठे  
ते जयथी मनमां रहेली उत्सूत्रनी प्ररूपणा, महासजाने विपे  
खल पुरुपोथी पण प्रकाश करी शकता नथी तो बीजा क्या-  
थीज करी शके । । अने सूर्योदय थवाथी जेम कमल प्रफुल्लित  
थाय तेम स्वजननां चित्तरूप कमलनो समूह प्रफुल्लित थयो  
ठे रहस्यार्थ एटलोठे के ते समयने विपे वडोदरामां तेज सजा  
मध्ये ते महामुनिनी जन्म जूमि जे राधनपुर नगर त्याथी तथा  
अन्य गाममाथी पण आवेला तेमनां घणां सगासवधिये सहित  
देशातरना वंदन करवा आवेला लोकना समूहनो अतिशे उठ-  
लतो आनंदनो समुझ जोइ, ते कविये आ पदनु वर्णन करयुं  
ठे के स्वजनना चित्त रूप कमलनो समूह प्रफुल्लित थयोठे ॥४॥  
आ धनुर्वेधि चित्रकाव्यनो अर्थ ठे ॥

लीनी भवति हुकुमार्कं महोदयेनोत्स्वन्नप्ररूपणमलिस्तुचयूथकानि ॥  
 नित्य भयादिय खजाद्रिमनोगुहासुप्रोक्तु ह्यति स्वजनचित्तसरोरुहाली ॥४॥

( १८ )  
 ॥ चित्रकाव्य चोषुं ॥ ४ ॥



॥ धनुर्वधिकाव्य मिदम् ॥ ४ ॥

तंद्वाहीनं तीव्रधियं पंक्तिरंकु-  
देशे सिंहं सद्बिधिपात्र कृतसख्यम् ॥  
श्रीमद्वीरैः सन्निधितत्त्वे यदपूजि  
तं वंदेऽहं श्रीहुकुमारख्यं विजितांतम् ॥५॥

॥ पद्मारचक्रवंधि काव्यमिदम् ॥

तंद्देति । तद्दया आलस्येन हीनः रहितस्तं । तंद्वातंश्चिश्च  
कथ्यते । इतिद्विरूपकोशः । तीव्राकुशायाधीर्बुद्धिर्यस्य तं । पडिता  
विद्वांस एव रंकवो मृगाः । व्यकुस्तथारंकुरिमे इतिहलायुधः त-  
स्मिन्देशे सिंहतुडय सद्बिधीना सदानुष्ठानाना पात्र । कृत संपूर्ण  
निष्पादित सख्यं जीवेपुमैत्र्यं येन सत मित्रवद्भि तकत्तैत्यर्थः । श्री-  
मद्वीरैः सह मान्यत्वाद्बहुवचनम् । सन्निधितत्त्वेसिद्धेश्वरचक्रे यद्य-  
स्माद्धेतोरपूजिपूजितं विजितः अंतो येन स तं कालस्यापि जयकर  
इतिजावः । अंतःस्वरूपे निकटे प्रांते निश्चयनाशयोरिति हेमचंद्रः । तं  
श्रीहुकुमारख्यं मुनि अहं वदे नमस्करोमि । मत्तमयूरवृत्तम् । तडुक्तं ।  
वेदैरधैर्भोयसगा मत्तमयूरमिति ॥५॥

पाचमा काव्यनो अर्थः—तद्वा कहेता आलस्य तेणे रहित  
एटले धर्म साधन करवुं तथा कराववु तेमा प्रमाद रहितपणे व-  
र्तता एवा. वली तीव्र ठे बुद्धि जेनी, एटले कुशाग्र बुद्धिवाला,  
कहेतां कुश जे दर्ज तेना अग्र जेवी सूक्ष्म बुद्धिवाला, अर्थात्  
जे जे काममा बुद्धिनो प्रवेश करावे तेते काममां सर्वोपरि पार-  
गत बुद्धिवाला, जावार्थ एवो ठे के आलोक संवधि काम तथा पर-  
लोक सवधि जे काम तेने दीर्घ दृष्टिथी तेना परिणामना विचार  
करीने तेमां प्रवर्तता एवा वली पंक्तिना समूहरूप मृगना टोलां  
तेमने सिंह समान जणाता, एटले जेम सिंहना शब्द सांजली  
मृगनो समूह चारे पासथी नासे ठे तेम प्रतिवादी एवा पंक्ति

नामनु धारण करनार पुरुषो, जेनु नाम सांजली ते देशमांथी पलायन करे ठे एवा, वली सत्शास्त्रमा अवश्य करवापणो कहेलो जे विधिमार्ग, कहेता अध्यात्म मार्ग संबंधि आचरण तेने रहेवानु पात्ररूप एवा, एटले जेना प्रतापवी सामान्य बुद्धिवाला एवा पण स्त्री पुरुषोना समूह, जगतना महोटा पंक्तिने पण अगम्य एवा अध्यात्म शास्त्रना रहस्य सुखनुं आस्वादन करवु तेमा चतुर एवा थया ठे, माटे कृत कहेता सपूर्ण करयुं ठे सखापणु जेमणे एवा, एटले जेम मित्र होय ते पोताना मित्रनु अनेक प्रकारे जेम वने तेम हित करे ते प्रकारे अनेक जीवनु हित करनार एवा वली सत्पुरुषोना निधि कहेता नडार, ते रूप तत्त्व वस्तुने विषे अर्थात् सिद्ध चक्रने विषे एटले नवपदजीना स्मरणमा साधु पद पण ठे माटे जे श्री वीरपरमात्माना साधे साधु पदवीमा पूजाय ठे, कारण के विशेषे करीने जित्युं ठे कहेता पाम्यु ठे अर्थात् अनुभव्यु ठे अत कहेता गुहात्मस्वरूप ते जेमणे एवा ते हुकुममुनिने हु अजिवदन करुतु ॥ ५ ॥ पडारचक्रवधि काव्यनो अर्थ ते ॥



(२१)


॥ चित्रकाव्य पांचमुं ॥५॥

तंद्राहीनं तीव्रधियं पंडितरंकु-

देशे सिंहं सद्दिधिपात्रं कृतसरव्यम् ॥

श्रीमद्दीरैः सन्निधितत्त्वे यदपूजि

तं वंदेऽहं श्री हुकुमारव्यं विजितांतम् ॥५॥



॥षडार चक्रबंधि काव्यमिदम्॥

(५१)

नारतीरत्नरंगारक्षारक्षीरधरक्षरः ॥

धीरवीरवर योरमार मारसुरच्युरः ॥६॥

गोमूत्रिकावधचित्रश्लोकोऽयम्.

नारतीति । नारत्या. सरस्वत्याः रत्नश्रेष्ठ. । रत्नश्रेष्ठे मणा-  
वपीति विश्व. । यो रगो रागो यस्य स चासौ अरीणांशत्रूणां स-  
मूह आर स एव क्षार लवण यत्क्षीरं जल । पानीयद्वययो. क्षार-  
मितिधनजयः । तस्पधर लवणावुराशिः तस्य क्षर. नाशक । मार.  
कामः मदनोमन्मथोमार इत्यमर । स एव सुर. देव तस्पदुर वेदको  
यो मुनि. धीरवीरस्य वर वरदान अरशांघ्र । अरशिघ्रे च चक्रांगे इति  
विश्व. । आरप्राप येन प्रसन्नोऽकृत. श्रीवीरप्रभु. स्वतुल्य ज्ञात्वा  
स्वासनस्थायिन विदधन् सन् पूजयतीति गूढान्निप्राय. ॥६॥

उठा श्लोकनो अर्थ.—नारती कहेता जिनपरमात्मानी  
वाणी तेने विपे ठे श्रेष्ठ राग जेमने, एटले अनेक प्रकारना शास्त्र  
ठे परतु वीतरागना कहेला शास्त्रने सत्य जाणी तेने विपे प्रीति  
करता, अर्थात् ते शास्त्रने आधारे क्रियानुष्ठान पोते करे ठे अने  
बीजाने पण करावे ठे एवा अथवा पोताने नारती देवी प्रत्यक्ष  
थया ठे माटे ते देवीनो ठे राग जेने विपे एवा, एज कारण माटे  
आर कहेता अरिनो समूह ते रूप लवण समुद्र तेनो नाश क-  
रता, एटले पोताने स्वाधीन थयेली देवींन कोइने जाजी खबर  
न पडे तेवी रीत्ये अनेक प्रकारना छपछव करनार शत्रु समूहने  
अदृश्य करे ठे कहेता तेमनो पराजव करी वारोवहार विदाय करे  
ठे ए जाव जाणवो वली मार कहेता काम ते रूप देवनो परा-  
जव करता, एटले जे मुनिनु रूप जोई तेनो पराजव करवा काम-  
देवे शस्त्र नाख्या तेज शस्त्र मुनिनो पराजव न करता उलटा  
कामदेवने वाग्यां, अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप, रस, अने गंध ए

(३३)

पांच विषय, कामदेवना बाण ठे, ते बाण मुनिनो पराजव करी  
शकता नथी, ए जाव जाणवो ए प्रकारना ते मुनि, जे ते धीर-  
जवत एवा वीरप्रभुनु शीघ्रपणे वरदानथी सहशपणाने पाम्या;  
एटले वीरप्रभु जेवा धीरजवंत तमो कहेवाया ठो अथवा काम-  
देवनां शस्त्ररूप स्त्रियो ठे, ते तमारो पराजवं न करतां उजटी  
कामनो पराजव करे ठे, अर्थात् तमारो उपदेश साजली ब्रह्मच-  
र्यनुं पालन करवाथी कामदेवनो उपहास्य करे ठे माटे प्रभुए  
पोतानु एवु अश्वर्य तमने प्रसन्न थई आप्युं जणाय ठे ॥ ६ ॥  
आ अर्थ गोमूत्रिकाबंध श्लोकनो ठे, ॥

॥ छठ्ठाश्लोकनुं चित्र ॥

॥ गोमूत्रिकाबंध चित्रश्लोकोऽयम् ॥ ६ ॥

भारतीरत्नरंगारक्षारक्षीरधरक्षरः ॥

धीरवीरवरं योरमार मारसुरच्छुरः ॥ ६ ॥

भा	त्न	क्षा	ध	धी	व	मा	सु
र	र	र	रः॥	र	र	र	र
ती	गा	क्षी	क्ष	वी	यो	मा	च्छु

भा	र	ती	र	त्न	र	गा	र	क्षा	र	क्षी	र	ध	र	क्षरः॥
धी	र	वी	र	व	र	यो	र	मा	र	मा	र	सु	र	च्छुः॥

॥ इयमपि गोमूत्रिकाबंधचित्रश्लोक लेखनरीतिः ॥

॥ एकज श्लोकबे प्रकारना गोमूत्रिकाबंधचित्रमां आविशकेछे ॥

(२४)

कलकविकल कांतं कमनीयकलाकुलम् ॥

सशिष्य विश्वविरूपात वदे त यमनिर्मलम् ॥३॥


॥ चक्रबंधिचित्रश्लोकोऽयम् ॥

कलकेति ॥ कलकेन विकलः रहितस्त । कांतं मनोहरं । हृद्य हारि मनोहर च विपुल कात परं सुंदरमिति हलायुधः कमनीयान्निः रम्यान्निः कलाजिराकुलं व्याप्तं । आफुलं निचितं व्याप्तमित्यन्निधानरत्नमाला । शिष्यैर्युक्त सशिष्य । विश्वस्मिन् जगति विख्यात यमैर्नियमैर्निर्मलं तं हुकुममुनि वदे नौमि ॥३॥

सातमा श्लोकनो अर्थ.—वली कलक रहित एवा, एटले कोइ दिवस कोइ प्रकारनु पोताना चारित्रमा कलंक आबवा देता नथी एवा तमो ठो अथवा मुनिमार्गेने कलंक आपनार एवा जे स्त्रीधनादि पदार्थ तेणे रहित ठो, अर्थात् जेथी कलंक लागे एवी वस्तुनो छव्यथी तथा जावथी त्याग करता एवा वली कोइनी आशंका ग्रहण करी कवि, उत्तर आपे ठे के तमो ए वर्णन करवा मांडेला मुनिनु रुड भुड कालु कछूपु गधातु शरीर हइते तेने जोइ काण स्त्रीयो मोह पांमे, माटे तेमनु ब्रह्मचर्य कलक रहित होय, एवी आशकाने दूर करवा कवि कहे ठे के वली तमो कहो ठो के, कात कहेता मनोहर ठो, एटले देखवा मात्रधीज सर्वना मननुं हरण करो ठो. वली सुंदर एवी जे कलाज तेणे करीने व्याप्त ठो, एटले सर्व कला मध्ये जेथी जीवनो मोह थाय ए कला सर्वोपरि ठे माटे अनेक जीवोने मोहमार्गे चलाववाने अर्थे जेमा नफो घणो ठे अने दोष थोडो ठे एवा अनेक प्रकारना जुना तथा नवा अध्यात्म ग्रथोने तैयार करी प्रसिद्ध करवु इत्यादि अनेक प्रकारनी युक्त कलावडे जव्य प्राणियोनु श्रेय करता एवा. वली शिष्य सहित जगतमा विख्यात थयेला, एटले पोते प्रतिबोध

करी, महा इर्लज एवी अध्यात्म स्थितिने पमाडेला अनेक शिष्यो करया ठे, जे शिष्योनी उंची स्थिति तथा ज्ञान जोड लोकने आ-  
 श्रय उत्पन्न थाय ठे के जे महामुनिना आ प्रकारनी उत्तम द-  
 शाने तथा ज्ञानने पांमेला शिष्यो ठे तो तेना गुरु तो केवा ज्ञानी  
 हशे!!! ए प्रकारनी कीर्त्ति वडे लोकमां विख्यात थयेला एवा  
 वली यमवडे निर्मल थयेला, एटले अहिंसा, सत्य जापण, अ-  
 चौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ए पांच प्रकारना जे यम तेणे करीने  
 चक्षुआदि इंद्रियोनी तथा मनआदि अंतःकरणनी तथा आत्म  
 प्रवेशमां अस्फुटपणे रहेली अनेक प्रकारनी पच विषय संबंधि  
 नोगनी तृष्णारूप वासनाना अंशनी वाधितानुवृत्तियो तेमने  
 निर्मल करवाना प्रयत्नमां वर्त्तता माटे निर्मल थयेला एवा ते  
 हुकुममुनिनुं हुं वदन करुवु. ॥७॥ आ अर्थ चक्रबंधि श्लोकनो ठे

कलकविकलं कालकर्मनीयकलाकुलम् ॥  
 सशिष्य विषयविरव्यालं यदेत यमनिर्मलम् ॥ ७ ॥



॥ चक्रबंधी श्लोकोयम् ॥

(५६)

निजप्रतापावरणारयःस्वयनिरंतरं नीचकुलाययुःक्षयम् ॥  
सुवर्णशोचानिचयेमुखांबुजेसुरत्नवाक्यंहुकुमंमुनिजजे ॥७॥

॥ देवठत्रवधि काव्यमिदम् ॥


निजेति । निजस्य स्वस्य मुनेरितियावत् प्रतापस्य आवरणं  
येषां ते च ते अरयः शत्रवः यतो नीचकुलाः निरतर सदा स्वयं  
स्वपापेनैव क्षय नाशं ययुः प्रापुः । कथञ्चूत तं मुनिं । सुष्टु वर्णा-  
शोचा अक्षरशोचा तस्या निचयो समूहो यस्य तादृशे मुखांबुजे  
मुखकमले सुवर्णस्य शोनेत्यन्यत्र सुष्टु रत्नानीव वाक्यानि यस्य  
त एतादृश हुकुममुनि जजे । जजसेवायामितिधातोर्लिट् । वश-  
स्थवृत्तम् । तडक्तम् । जतौ तु वशस्थमुदीरित जराविति ॥७॥

आत्मा काव्यनो अर्थ —जे महामुनिना महा प्रतापनुं ठे  
आवरण जेमने एवा शत्रु जे ते निरतर नीचकुलमाज उत्पन्न  
थया करेठे माटे पोतानी मेले पोताने पापे क्षय पांमेठे एटले  
नीच कुल कहेता अधर्म कुलमा उत्पन्न थयेला एवा काम, क्रोध,  
लोल, मोह, मद, मत्सर आदि अतःशत्रु अने जिनमार्गना  
उत्थापक अने पोते अधर्ममां चाले अने पोताना शिष्योने अध-  
र्ममा चलावे तोपण तेमां धर्म माननार एवा स्वाभाविक द्वेषि  
पुरुषो जेते जे महामुनिना महा प्रतापनु आवरण पामीने कहेतां  
जेम अजवालामा अधारु पोतानी मेले नाश पांमेठे तेम ते द्वेषि  
पुरुषो पोतानी मेलेज अदृश्य थायठे वली सारोठे अक्षर शो-  
चानो समूह जेने विपे एवा जेना मुखकमलमा सुदर रत्न जेवां  
शोचानायमान ठे वाक्य जेना एवा एटले जे क्षरपणाने कहेतां ना-  
शपणाने अथवा असत्यपणाने न पांमे ते अक्षर कहीए, अक्षर  
जेना मुखकमलमा रहाठे, कहेता जेजे अक्षर मुखमाथी नीकले ठे  
तेते सत्य थायठे, अर्थात् जेवी मुखमाथी वाणी नीकले ठे तेवोज

(३४)

अगतमां सत्य सर्व वनाव वनेवे, माटे सुंदर अमूल्य रत्न जेवां  
जेना मुखमांथी वाक्य नीकलेवे ए जाव जाणवो. ते प्रकारना गुण  
विशिष्ट जे हुकुममुनि तेनुं हुं प्रजन करंलुं. ॥ ८ ॥ आ काव्य  
देवछत्रवधि चित्रनुं ठे.

निजप्रतापाचरणारयः स्वयनिरंतरं नीचकुलाययुः क्षयम्॥  
सुवर्णाशोभानिचये सुरबाहुजे सुरत्नवाक्य हुकुमं मुनिं भजे॥८॥



॥ देव छत्रवधि काव्यमिदम् ॥८॥

संधे विधेयातिदयादयेशशक्यनकितेकरणीयमीश ॥

शस्त्रैर्विनानाशितजीवपाशशश्वत्प्रसन्नोभवसत्प्रकाश॥ए॥

॥ राजचामरवधि काव्यमिदम् ॥

सद्य इति । हेदयेश दयानाथ सधे अतिदया बहुरूपा विधेया करणीया हेईश ते तव कि करणीय न शक्यं अपि तु सर्वं गुणं कर्तुं समर्थ इति नाव । शस्त्रैर्विना नाशिता वेदिता जीवानां पाशा वधनानि येन तत्सबुद्धौ हेसदस्तुप्रकाशक शश्वत् निरतर पक्षातरे तु शश्वत्स्यादात्मप्रश्ने च मगले इति मेदिनी । प्रसन्नो च प्रसीदेत्यर्थ ॥ए॥


नवमा काव्यनो अर्थ - हे दयेश कहेता दयाना स्वामी अर्थात् घणा दयालु एवा हे मुने । संधने विषे तमारे घणी रुपा राखवी, एटले प्रथम एक वर्ष सधने घणी आपत्ति आवी पत्नी हती ते वखत तमोए घणी दयाये करीने पोताना वेहनुं पण नुकशान न गणाता ते सपनी रक्षा करी हती तेवीने तेवीज आपत्ति आगी पडे ते समयने विषे रक्षा करजो, एवी प्रार्थना करु तु, कारण के तमारे करवा योग्य शु नयी ? सर्वं शुभ कार्यमात्र करवाने तमो समर्थ ठो, कहेवानो अज्ञिप्राय एटलो ठे के तमारी सेवामा अदृश्यपणे रहेला देवता पण जो तमारी रुपादृष्टि जेना उपर पडेते तो तेनी आपत्तिने मटाडेते माटे ए डखनुं निवारण पोएज करयु एम कहेता अमारे कोइ प्रकारनो बाध नयी वली वस्तुना प्रकाशक शस्त्र धारण करवाविना नाश करवा ठे जीवपाश जेणे एवा तमो अमारी उपर प्रसन्न थाव जावा के, अनादि काजना जीवोने कर्मवधन ठे ते वधन कोइ प्रकारे, खवडे ठेदाय एवा नथी माटे ते वज्रसार कहेवाय ठे, वधन पण तमारा सुंदर सत्य उपदेशधी



(१४)

जगतमां सत्य सर्व वनावं वनेते, माटे सुंदर अमूल्य रत्न जेवां  
जेना मुखमांथी वाक्य नीकलेते ए जाव जाणवो. ते प्रकारना गुण  
विशिष्ट जे हुकुममुनि तेनुं हुन्नजन करुनुं. ॥ ७ ॥ आ काव्य  
देवउन्नवधि चित्रनुं ठे.

निजप्रतापावरणारयः स्वयनिरंतरं नीचकुलाययुः क्षयम् ॥  
सुवर्णाशोभानिचये सुरत्नवाक्य हुकुमं मुनिं भजे ॥ ८ ॥



॥ देव उन्नवधि काव्यमिदम् ॥ ८ ॥

उपाध्याधिव्याधि प्रभवतिनसंधंदमयितुं  
 नवभ्रांतिक्छांतिर्हुकुममुनिपादाज्वमहसः ।  
 गलद्वाधवोधविदधतिसदाय. सजयतात्  
 प्रबुद्धोवुद्धोपिप्रचुरमहसायस्ययशसा ॥१०॥

उपाधीति। हुकुममुने पादाज्वमहस. चरणकमलप्रतापात्  
 संधस्य उपाधि. बाह्यपीमा आधिर्मानसीपीमा व्याधिर्देह-  
 पीमा तेषा समाहारे नपसकत्वमेकत्वम् । दमयितु पीमयितु न  
 प्रभवति न समर्थ इति । नवे संसारे या त्त्रातिर्ध्रमण तस्या. क्छाति-  
 र्नाशो यस्य स मुनि अथवा सापि न प्रभवतीतिपूर्वेणान्वयः य.  
 सदा गलत् गलितो बाधो यस्मात्तादृशवोध विदधति, यस्य प्रचुर  
 बहु । प्रभूत प्रचुर प्राज्यमिति हलायुध. । मह उत्सवो यस्मात्तेन  
 वचसा अबुद्धोपि अज्ञोपि प्रबुद्ध. बोध प्राप्त. स. हुकुममुनि  
 जयतात् । शिखरिणीवृत्तम् । तडक्तम् । रसैरुद्धै. विनायमनसज-  
 लाग शिखरिणीति ॥ १० ॥

दशमा काव्यनो अर्थ -जे महामुनिना चरणकमलना प्र-  
 तापथी उपाधि, आधि, अने व्याधि, ते सघने पीडवा समर्थ  
 धता नथी एटले जन्मातरे करेला प्रबल कर्मना उदयथी सहज  
 स्वजावे वश वयेला कोइ अधिष्ठायक मित्र देवता तेनी सहायताथी  
 ए महामुनि ज्या ज्या विचरे ठे त्या त्या उपाधि कहेता राजा  
 प्रमुखे करेलो बाहिरथी जणातो उपध्व तथा आधि कहेतां वा-  
 हिरथी न जणाती एवी अतरनी पीडा तथा व्याधि कहेता शरी-  
 रनी पीडा ए त्रण प्रकारना कष्ट, चतुर्विध सघमाथी कोइ पण  
 प्रीतिवाला नक्तने पीडवा समर्थ धता नथी, तेनु कारण एटलु-  
 ज जाणवु के, प्रत्युपकार करनार एवा ते सेवक मित्रदेवे प्रसन्न  
 धई ते महामुनिने वरदान आप्नु ठे के तमारे विषे प्रीतिवाला

नविक प्राणिनां कष्टमात्रनु, हुं प्रार्थना वगर, वारोवार निवारण  
 करीश तथा कोइ द्वारे करावीश, ए जाव जाणवो. अने ते म-  
 हामुनिने विपे प्रीति पण केवा प्राणिने थाय ठे तेनी सूचना  
 पण विशेषणद्वारे देखामे ठे के, जेणे संसारमां भ्रमण करवानुं  
 ओहुं करयु ठे एवा प्राणिने प्रीति थाय ठे; अथवा अतिशे अल्प  
 ठे संख्या जेनी एवा जेना नव ठे एवा महामुनिने विपे प्रीति  
 पण हलवा कर्मवाला प्राणिनेज थाय ठे पण नारे कर्म जीवोने  
 नथी धती एवुं रहस्य जाणवुं. अथवा जे महामुनिना प्रतापथी  
 संसारमां भ्रमण करवारूप कष्ट पण नाश पामे ठे एटले जे एवा  
 उत्तम प्रीतिवाला देवगुरुधर्मनारागी ठे ते जेथी घणुं संसारमा  
 रज्जवुं पडे एवां काम करताज नथी माटे तेमणे संसार ओढो  
 करयो एम कहेवु युक्त ठे, अर्थात् नवभ्रमणनु कष्ट पण तेमने  
 पीडवा समर्थ धतुं नथी. आवडो मोटो ए मुनिनो प्रताप वर्णन  
 करवानु कारण वेतावे ठे के, जे मुनि सदाकाल वाधरहित बोध  
 थापे ठे, एटले कोइ मोटो राजा अथवा कोइ मोटो साहुकार  
 तेनु मुख दाङ्गिएय न राखतां जेवुं शास्त्रमां होय तेवुज यथार्थ  
 प्ररूपण करे ठे. आ विशेषण कहेवामां आ जगाए आ महामु-  
 निनो एक मोटो इतिहास कहेवो घटे ठे परतु अथनु विशेषणुं  
 थाय माटे तेमना रागी पुरुषोने तेनी दिशमात्र जाणवा वास्ते  
 जराक लखवु. एक समयने विपे कोइ महान् राजाए पुठयुं के  
 राजा लोक मृगया (आहेडा कर्म) करे ते राजधर्म ठे के नथी।  
 तथा राणीये पुठयुं के पतिनी आज्ञार्थी परपुरुष सेवन करवामां  
 कांइ ओल्लु पाप ठे के नथी पठी ए वे प्रश्नना उत्तर संबंधि घणु  
 व्याख्यान करी तेमने समजावी एवो सिद्धांत करयो के राजाए  
 मृगया न करवी तथा स्त्रीयोये, पतिनी आज्ञार्थी पण व्यञ्चिचार  
 न करवो. इत्यादि घणीवार्ता थई तेनो अथ करवानी पण मने

आज्ञा थइ हती एटले तात्पर्य कहेवानुं ए ठे के सुजे तेवो जग  
 तमा महोठो कहेवातो होय तोपण तेनी ठायामा म्वाइ जाव  
 नही एवा तमो समर्थ ठो वली अतिशे ठे आनंद उत्सव जे  
 थकी अथवा अतिशे ठे प्रताप जेनो एवा प्रजाविक वचने करी  
 अइ पुरुष पण बोध पांमे ठे एवा जे तमो महामुनि ते जयवता  
 वत्तां एटले जेना महा प्रजाविक वचनथी जेनी कोइ दिवस  
 कोइने आशा नही एवा जड पुरुष पण बोध पांम्या माटे तमो  
 घणो काल विराजमान रहा ॥१०॥ आ शब्दालकारनु काव्य ठे

लोलाऽलोलाऽलोललोल्लीलोलोलाऽलोललोलली ।

लोललोलाऽलोललोलाऽलीलालीलोऽलोललोल्लू ॥११॥

॥ एकाक्षरश्लोक ॥

लोलेति लोलायां लक्ष्यां अलोल अतृष्ण लोलश्चपलतृ-  
 णयोरित्यमर । ललती ललामा लीला क्रिया यस्य स , लीला  
 विलासक्रिययोरित्यमर । लोलाया लक्ष्यां लोला लोलुपा लुब्धा  
 इति यावत् तान् न ललति नेच्छतीति ललइच्छायामितिधातोर ।  
 ललीवलासीत्यर्थ । लोलती चचला या लोला जिब्हा तस्या  
 ललेन विलासेन उत् अधिक लोलाया लक्ष्या लीला केली  
 विलासोवा । लीला केलीविलासयोरिति मेदिनी, तस्या आल्य  
 पक्तयस्ता लाति ददातीति । यस्य जिब्हाया लक्ष्मीर्विचते तथा  
 कृत्वा पक्षितदारिद्र्यविघ्नेदकारक इति ज्ञाव । शृंगारज्ञावचेष्टाया  
 लोलः स्याद्वाच्यलिगक । सतृष्णे चचले लोला जिब्हाकमलयो-  
 स्त्रियामितिमेदिनी सर्वत्र बोध्य । लिलू । लिनयलुनातीति लू-  
 अठेदने तस्मात्किप् नयनं च इति ज्ञाव  
 कर्त्तव्यध्याहार्य अललल ॥११॥

• हुकुममुनिः

अगीयारमा श्लोकनो अर्थः—जोला कहेतां लक्ष्मीने विपे  
अजोल कहेतां तृष्णारहित एवा, ते उपर थोमी कया ठे के, घणां  
वैराग्यथी घर मुकी निरुद्धया पठी जवांनी अक्वस्थामां आवेला ते  
मुनि कोइ सुंदर नगरमा मास कल्प करी विराजमान हता, ए-  
क दिवस गोचरी करी दरवाजा वारणो वागमां पोताना मुकाम  
जणी प्रवेश करतां कोइ विरहिणी अने वागमां जइ नगर जणी  
आवती महा सुंदर अने कामातुर थयेली ते राणीए महा मुनिनुं  
रूप जोइ पोताना रयमां मूर्ठा खाइ पडी, तेणीये केटलीकवारे  
जाग्रत थइ पोताना स्थानमां गयां पठी रात्रिये आवी ते मु-  
निनी प्रार्थना करी ठे, ते लखी शकाय तेम नथी; परतु ठेवट क-  
हुं के आ मारा देह सुद्धा तमाम राज्य लक्ष्मी आपने अर्पण करु  
तुं तोपण तेमा न बोजाता मुनिनी धीरज जोइ प्रसन्न थयेली वन  
देवताए ते अनुकूल उपसर्गनुं निवारण करयुं इत्यादि घणां  
इतिहासो ठे पण ग्रथ मोटो थाय माटे लखता नथी वली सुंदर ठे  
क्रिया ते जेनी एवा एटले ज्ञाननी साथे क्रियानु पण पालन कर-  
ता अर्थात् ज्ञाने करी ठकी न गयेजां एवा वली लक्ष्मीने विपे  
लुब्ध थयेली पुरुषोना समागमने न इठता एवा, एटले सहज  
स्वभावे जेवा सामान्य गरीव लोको साथे वातचित्त करी तेमने  
आनंद उत्पन्न करे तेवी रीते घणा धनवान् साथे घणो समागमं  
न इठता एवा वली लली कहेता पोताना आत्मनिदने विपे  
विज्ञास करता, एटले जेवी रीत्ये पोताना स्वाभाविक आत्मानां  
आनंदने विपे मग्न रहे तेवी रीत्ये कोइ प्रकारनां पण परजावने  
विपे आनंदने न मानता एवा वली परोपकार करवांमां चपल  
एवी जे पोतानी जिह्वा तेना विज्ञासे करीने अधिक लक्ष्मीनी  
बीजोनी श्रेणिने आपता, एटले जेनी जिह्वांमां लक्ष्मी अने  
सेरस्वती संघांथे निवास करीने रही ठे, अर्थात् पोता पाते

लक्ष्मी नथा परंतु एक जीजना फरकवाधीज पंमित लोकना, दारिद्र्यनो विवेद करता एवा. वली लिलू.कहेतां जे आ लोक परलोक संबधी नय तेने नाश करता सता विचरे ठे, एटले आ जगाए कविनो अजिप्राय एवो जणाय ठे के, आपनी स्तुति करनारने कोइ प्रकारनु दारिद्र्यनय न रहेवुं जोइए. ॥११॥ ए प्रकारे एकाद्वर चित्र श्लोकनो अर्थ सपूर्ण थयो.

प्रचडपाषंडविखंडनोद्यतं

परं पवित्रं सुचरित्रशालिनम् ।

व्यवद्यविद्य वटपत्तने स्थितं

मुनिं प्रति श्रीह्रुकुमाजिधं स्तुति ॥११॥

अथ निगमयति प्रचमेति। प्रचरु प्रबलो यो पापंरु. तस्य विखंडने उद्यत तत्परस्त। पर. श्रेष्ठ, पवित्र शुद्ध, सुचरित्रैः शालते त, व्यवद्यानिर्दोषा विद्या यस्य तं वटपत्तने स्थित अधुनाऽऽगतमित्यर्थ. । श्रीह्रुकुम इति अजिधा नाम यस्य त मुनि प्रति स्तुतिरियं जवतीति शेष ॥११॥

श्री ह्रुकुममुनिनी स्तुतिनी समाप्ति करेठे.

वारमा काव्यनो अर्थ.—प्रचरु कहेतां प्रबल थयेला पाखरु मतोनो विशेष खडन करवामा उद्यमवत एवा एटले ज्या ज्या विहार करे त्यां त्यां अनेक विद्वानोनी सनाथो करी तेमने अनेक प्रकारना चमत्कार देखामी तेमना अतरमा रहेली जे पाखड मतनी आस्था तेने दूर करी जैनमतनी आस्थानुं धारणा करता, अर्थात् ते ते विद्वानो कदापि लोक लाजना जयथी जैन धर्मनी आसक्तिने बाहिरथी नथी देखाडी शकता, परंतु तेमना अतरमा जैन धर्मनी अज्ञानु स्थापन ए महा मुनिए घणा विद्वानोने विषे करेलु ठे, एज कारण माटे श्रेष्ठ एवा. अने पमर

पवित्र एवा, एटले कोइना मनमां एवी आशंका धती होय के ए मुनिने स्नानादिक बाहिरथी पवित्रता नथी ते देखवाथी ब्राह्मण लोको तेमने शी रीत्ये पवित्र जांणी पगे लागी पासे बेड़ी उपदेश सांजलता हशे ? तेनुं समाधान करवा आ वात कही ठे के, ज्यां चमत्कार त्यां नमस्कार, करवो घटे ठे, ए प्रकारनुं जांणता विद्वानोने चमत्कार देखाडी स्वाधीन करी उपेदश आपी समजावे ठे के जलथी स्नान करवुं ते ड्यव्य स्नान ठे, ते करतां पण जाव स्नान ठे ते अति उत्तम ठे माटे मुनिने तो निरंतर जाव स्नान ज होय ठे इत्यादि शास्त्र प्रमाण सहित उपदेश करी तेमना अंतरमां जैनधर्मनुं सर्वोत्तमपणा स्थापन करवा मुनिनुं परमपवित्र पणुं पण स्थापन करी बतावता एवा. वली सारुं एवुं जे चारित्र तेणे करीने शोभता एटले कोइने प्रबोध पमादवो इत्यादि कारण माटे कोइ प्रकारनो अपवाद मार्ग सेवन करे तोपण तेनी आलोचना लेइ उत्सर्ग मार्गे वर्तता एवा. वली निर्दोष ठे विद्या जेमनी, एटले विद्याने भंगे कैटलाक अहंकारादिक दोष रह्या ठे, परतु ए मुनिने तो विद्याथोनी जोडेज अनेक प्रकारना नम्रतादिक गुण उत्पन्न थया ठे एवा जे वर्तमान कालमां वटपत्तन ( वडोदरुं ) नामा नगरमां विराजमान थयेला ते हुकममुनि प्रत्ये आ स्तुति ठे ॥१२॥

केन अस्यत इंदुरास्यममलं कुत्रेक्ष्यते कः सुरः

कि पद्मं रजनिविकाशि वद के प्रायोऽत्र मान्या मताः ।

कः कीर्त्या परितोऽधुना विजयते प्रौढप्रतापो मुनि-

र्मप्रश्नोत्तरमध्यमाक्षरपदं वर्वर्त्ति सर्वोपरि ॥ १३ ॥

॥व्यस्त समस्तजातिरूपवह्निर्लापिकारुयश्चित्र श्लोकोयम्॥

॥ केनेत्यादि ॥ इंडुभंड. केन पुता अस्यत आस्वाद्यत इति

४१ श्री हुकुममुनीजी महाराजनेवदनात्रिदसि

॥ त्रियोगेसहजेधर्यामहावृतो । पंच सुधाचारने ॥

प्राणिनेनकरेपीडासुखधरे । मृपाअदत्तात्यागते ॥

स्त्रिसेवापरिग्रहत्यागउजये । विरक्तजंजालजी ॥

एवाश्रीगुरुराजश्रीहुकुमने । वन्डहुत्रिकालजी ॥१॥

॥ अर्थ ॥ जे चारित्र लइ साधु वाय तेनो सुद्ध आचार के०  
आचरण एठे जे । प्रथम पंच महावृत अगीकार करे ॥ ते महावृ-  
तो त्रियोगेके० मन वचन अने कायाना योगे करीने । स्हेजथी  
अगिकार कर्या ॥ ते महावृतोना नाम । पहेजु प्राणातिपात विर-  
मण । ते एके सर्वथा ठकायना जीवने हणो नहिं । हणावे नहिं ।  
हणता प्रत्ये अनुमोदे नहिं ॥ अने ते जीवोपर करुणा नाव राखी  
पोताथी थाय तेटजो उपकार करी सुख उपजावे ॥ वीजु मृपा के  
सर्वथा जुवु न बोले ॥ त्रीजु अदृता के० कोइना आप्या सिवाय  
कइ चीज लेवी नहिं ॥ चोथु स्त्रि सेवा के० मैथुननो त्याग ॥ पाचमु  
परिग्रह नव प्रकारे तेनो त्याग ॥ ए उजय के० मैथुन तथा परि-  
ग्रह त्याग तथा पहेजा त्रण कइया ए रीते पाच महावृतो । व्यव-  
हार तथा निश्चेथी आदरी मुनीराज थया ॥ तेथी करी जजालथी  
विरक्त थया । एवा सुसाधुजने विपे मुगट समान । श्री हुकुममु-  
नीजी महाराज तेमने हु त्रिकाल वंदना करु बु ॥ इति द्वितिय  
गाथार्थ ॥ १ ॥

॥ धारीसुमतिपाचनेजरुरथी । गुप्तित्रीहृदयेधरी ॥

वेठीपरिसहआकराअतिमुनी । गुणोनीशोजाकरी ॥

ध्यानोधर्मशुकलप्रभुमनधरे । वैराग्यविशालजी ॥

एवासुगुरुराजश्रीहुकुमने । वन्डहुत्रिकालजी ॥ ३ ॥

॥ अर्थ ॥ सुमतिके० सारी बुद्धि तथा पाच प्रकारनी सु-



श्री हुकुममुनीजी महाराजनेवदनात्रिदसि. ४३

मति तेने जरूरथी के० अगत्यथी धारी के० राखी ठे ॥ तथा गु-  
प्तित्री के० त्रण ठे ॥ ते मनगुप्ति ।१। वचनगुप्ति ।२। कायगुप्ति ।३।  
ए त्रणो गुप्ति गोपवी ठे ॥ तथा जली रीते चारीत्र पाजतां धर्मां  
साधुने घणा प्रकारना परीसह के० पुजलने छ.ख सहन करवुं प-  
डेठे ॥ तथा परिसहना वावीश जेद ठे । इत्यादि परिसह देखते  
जे चारित्र आदि सद्गुणो तेनी ए महा मुनीए सोझ दयते ॥  
तथा ध्यान चार ॥ आर्तध्यान ।१। रौद्रध्यान ।२। अर्जुन  
।३। सुहृध्यान ।४। तेमां सुजध्यान वे धर्मध्यान तथा सुहृध्यान  
ते वे ध्यानोए महात्मा मुनीना चित्तरम्य उद्यानने विषे गतेषा  
ठे ॥ अने विशाल के० ॥ महा मोटो वैराग्य ते परे सोनाना हृदय  
कमलने विषे धारणा करी रहेलां ठे ॥ एवा श्री मुत्ताधुने विषे  
मुगट समान श्री हुकुममुनीजी महाराज । तेने हुं त्रिकाल वंद-  
ना करुवुं ॥ इति त्रुतिय गाथार्थ ॥ ३ ॥

॥ मिथ्यादिसल्यतोडवाज्ञानवजे । मंड्याआपोआपथी ॥

जाणीदुष्टकषायचारहणिया । ताडीदिव्यतापथी ॥

निवारीमदआठगकडरनी । तेनुतज्याव्हाजनी ॥

एवासुगुरुराजश्री हुकुमने । वन्दुत्रिकालनी ॥ ४ ॥

॥ अर्थ ॥ हरेक कोइ पत्थर अथवा गह्वाने जांजवो होय  
तो वज्र जोइए ठीये । तो आत्माने जोइए नगरे जता वचमां

कारण के ए महा दुष्ट ठे एवु जाएयु ठे ॥ तथा जे मद आव ठे ते  
 डर्गतिरूप डरजिगधे जरेला ठे । ते गध न सहन थवाधी आठ  
 मद काढीने तेनी डरभीगध मटानी ठे ॥ तथा ते मद उपर आ-  
 पण मिथ्यामति जीवोने स्नेह होय ठे ॥ पण ए मुनीए तेना  
 उपरथी व्हाल के० स्नेह ठोमी दइ आव मद रहित थया ठे ॥  
 एवा श्री सुसाधुजने विषे मुगट समान श्री हुकममुनीजी महा-  
 राज तेमने हु त्रिकाल वंदना करू बु ॥ इति चतुर्थ गाथार्थ ॥

॥ पचेडीविपयोनिवारकजला । त्याग्याअवृतोतथा ॥  
 निजाप्रहरीवेगथीमनरली । आवीउजाग्रदसा ॥  
 इत्यादीतजीडर्गुणोनिरमला । गुणोवर्तेहालजी ॥  
 एवासुगुरुराजश्रीहुकमने । वन्डहुत्रिकालजी ॥ ४ ॥

॥ अर्थ ॥ इंडीउ पाच ॥ चक्षुइडी । कर्णोडी । रसेंडी । घ्राणे-  
 डी । स्पर्सेडी । ए पाच इंडीउना त्रेविस विषय तेने मुठित क-  
 रवाने ए मुनी भला के० सारा ठे ॥ तथा अवृतो बार ते पांच इ-  
 डी तथा ठु मन तेउने ठकायना जीवमा व्रतावे ॥ एवा अवृत  
 वार । तेने त्याग्याके० तेउनो सग निवार्यो ठे । तथा जे निजा  
 पाच तेने वेगथी के० जपाटा वध काहामी नाखी ठे ॥ ने मनमा  
 घणा रलीआत के० खुशी थया ठे ॥ अने निजा जवाधी ज्ञाना  
 नद उजागर दशामा प्रवर्तमान थया ठे ॥ तथा ए निजा आ-  
 दी बीजा घणा डर्गुणो ससारी जीवोमा होय ठे । ते डर्गुणो ना-  
 मे तमाम त्याग कीधा ठे ॥ एवा ए महा मुनी हाल विद्यमान ठे  
 अने निर्मल । एवा जे रुडा सद्गुणोए करी जरेला ए मुनी  
 हालमा वर्ते ठे ॥ एवा सुसाधुजने विषे मुगट समान । श्री  
 हुकममुनीजी महाराज । तेमने हुं त्रिकाल साष्टांग वदना करूबु  
 -ति पचम गाथार्थ ॥ ५ ॥

व्याख्याजेनीगुह्यार्थवानवचने । गीरासुधानीऊरे ॥

अध्यात्मिन्नविनेगुणीवरसति । धाराअखंडिधरे ॥

जक्तिपूर्वकप्रेमथीजनशुणे । नाशे कर्मोआलजी ॥

एवासुगुरुराजश्रीहुकुमने । वन्डहुंत्रिकालजी ॥ ६ ॥

॥ अर्थ ॥ गुह्यार्थवान के० जेमा अति उमो अर्थ होय तेवा घणा ज्ञानवान वचनोथी सुशोन्नित जेनो उपदेश ठे ॥ वली गुह्यार्थ के० श्रवण करनारा जेवा श्रावक होय तेने पोत पोतानी बुद्धि प्रमाणे उपदेश लागे ॥ जेम के जीणी बुद्धिवालाने एक वाक्यमां घणा प्रकारनो अर्थ समजाय ॥ अने घणो बोध लागे तेवो उपदेश ठे ॥ वली उपदेश केवो ठे के अध्यात्मि के० अद्वितिय आत्मज्ञान नरेलुं ठे । ते जविने गुणि के० जे नव्य प्राणिउं ठे तेने गुणकारि ठे ॥ कारण के आ ससार दुःखनी खाण तेथी मुक्त थइ सिद्ध पदवीने वरे ॥ एवो जे अध्यात्मि उपदेश ठे । तेवी जेनी वाणी ते खंभित न थाय के० जरा पण विचार करवो पडे नहिं । तेवी अमृतरुपी वरसाढनी अखडित धारा माफक । उपदेश रूप वरसाढ वरसे ठे ॥ ए अमृतरूप वरसाढनु पाणी जे पीए ॥ ते जन्म जरा मरणथी मुक्त थइ अमर पद पामे तेथी अमृतरूप वरसाढ कह्यो ॥ ते जे प्राणी देव जक्ति, गुरुजक्तिरूप प्रेमथी तथा ससारथी मुक्त थवाना उलासथी हर्षथी एक चित्त तन्मयपणे जे साजले तेने । आठ कर्म तथा वर्गणानुरूप जे आल के० तहोमत कालीटीली ते नाश पामेने मोक्षरूप अक्षय पद पामे । एवा उपदेशना दाता श्री सुसाधुजना समुदायने विपे मुगट समान एवा श्री हुकुममुनीजी महाराज तेमने ह त्रिकापना करवुं ॥ इति पद्यम् ॥

४६ श्री हुकुममुनीजी महाराजनेवदनात्रिदसि  
 विशेषेश्रमलैकरीविचरता । ग्रामानुग्रामेफरी ॥  
 लोकोनेप्रतिवोधवामनविपे । शिघ्रेथीहिम्मतधरी ॥  
 शकादूरकरेसहुजनतणी । सम्जावीसोवारजी ॥  
 एवासुगुरुराजश्रीहुकमने । वन्डहुंत्रिकालजी ॥ ७ ॥

॥ अर्थ ॥ घणाक साधुन एकज शेहेर अथवा । कस्वामां  
 निरतर रहे ठे ॥ ते बीजा शहेरोमा पण घणा खरा जता नथी ।  
 तो गामनामा तो क्याथी जाय ॥ तेथी करी गामडाना लोको ।  
 सुसाधुनना उपदेश विनाज रहेठे ॥ तेम न करता ए मुनीराज  
 घणु खरु गामो गाम महेनत लइ विहार करता ॥ तेथी जव्य  
 प्राणी तत्काल बोध पामे ॥ तेवी मनमा वीरज राखीने करुणा  
 निधि उपदेश रुप करुणा जावथी सुबोध करता ॥ ते उपदेश  
 आपता कोइने कइ शका पडे । अथवा धर्म पुस्तक प्रमुख कंइ  
 विषय वाचता कोइना मनमा कइ शका पमी होय ॥ ते महा-  
 राजने जइने पूठे तो तेने सविस्तर समज पामी वहेम दूर क-  
 रावे ॥ तेम ठता उंठी बुद्धि वालाना मनमा वरोवर नाठसे तो  
 घणीवार घणी तरेहथी समजावी । तेना मननी शका दूर करा-  
 वे ॥ एवा सुसाधुनना समुदायने विपे । मुगट समान । एवा श्री  
 हुकममुनीजी महाराज ॥ तेमने हु त्रीकाल साष्टाग वदना करू  
 तु ॥ इति सप्तम् गाथार्य ॥

प्रश्नोपूठणदर्शनोखटतणा । लोकोसर्वेआवता ॥  
 तेनाउतरसद्यथीमनगमे । सदेहसघलाजता ॥  
 तेहनेनिजधर्मकरीउपदिसे । जेस्वामीकृपालजी ॥  
 एवासुगुरुराजश्रीहुकमने । वन्डहुंत्रिकालजी ॥ ७ ॥

॥ अर्थ ॥ उपर कह्या प्रमाणे मननी शकानो प्रस्न पूठवाने  
 ॥ आपणा जैन दर्शनना लोको तो आवेज । पण अन्य

जे बीजा दर्शनोना पण घणा लोको तथा पंढितो बाह्यणादि ।  
 महाराज पासे प्रस्न पूठवा । तथा वादविवाद करवाने आवता ॥  
 तेजने तेमना धर्म पुस्तक मांहेथी जैन धर्मने मलता वाक्योथी  
 सारी रीते समजण पांमीने । उतर करता ॥ के कहेता वारने त  
 रतज तेना मनमा वरोवर तसे ॥ तेथी करी ते लोकोना संदेहो  
 थोडी महेनते नाश पामता ॥ पठीथी ते लोकोने वेसामीने । म-  
 हादयाना निधि एवा महाराज । ते वितराग नापित धर्म । स्याद-  
 वाद शैलीयुक्त । जैनधर्म तेणे करी । सीध्रवोध पामे तेवो । उपदेश  
 रूपदान देता ॥ ते श्रवण करी सज्जा विसर्जन थति ॥ एवा सुसा-  
 धुजना समुदायने विषे मुगत समान । एवा श्री ह्युकुममुनीजी महा-  
 राजातेमने हु त्रीकाल साष्टाग वंदना करुंठुं ॥ इति अष्टम गाथार्थ ॥

दीयेतेउपदेशसातनयथी । तत्वोशुद्धादाखवे ॥

जेवाआगमजापीयातसपरे । ज्योतिज्ञानेपर्खवे ॥

नग्रीमोक्षजवाभणीजहाजते । संसारे सुगालजी ॥

एवासुगुरुराजश्रीह्युकुमने । वन्डुंहुंत्रीकालजी ॥ ए ॥

॥ अर्थ ॥ बीजा अन्य दर्शनो जे ठे । तेज सत नयना पूरा  
 ग्राहक नथी ॥ पण एकाद नयना ग्राहको ठे । तेथी तेजने पुरुं  
 ज्ञान थतुं नथी ॥ पण आपणुं जैन दर्शन । साते नये करी वि-  
 राजमान ठे ॥ माटे साते नये करी ए महात्मा परुपणा करे ठे ।  
 तथा जे नवे तत्वो कहेजा ठे ॥ तेमां सुधा के० खरा खपना वे  
 तत्वो ठे । एक जीवतत्व । तथा बीजो मोक्षतत्व । ते वे तत्व देखा  
 डे ॥ कारणके जीवतत्वनी उजखाण थाय तो मोक्षतत्व तो प्र-  
 गटेज ॥ माटे प्रथम जीवतत्व कह्यो ने पठी मोक्षतत्व । ए वे त-  
 त्वो जेवी-रीते आगम के० सूत्र सिद्धांतमां कहेजा ठे ॥ तेबीज  
 रीते ज्ञानरुप ज्योतीथी देखाडे ॥ ते ज्ञानरुप ज्योति केवी ठे कं०

जगत्रमा चङ्गमानी ज्योति ते तेजस्वी वस्तुत्रमा उत्तम गणाय ठे  
 पण सूर्यना किरणोना प्रकाश आगल । तेनु तेज झाखु मालुम  
 पमे ठे ॥ माटे चङ्गमा करतां पण सूर्यनो प्रकाश श्रेष्ट ठे ॥ पण  
 ज्ञानना प्रकाश आगल ते कङ्ग गणत्रीमा नथी । कारण के च-  
 र्मचक्षुवडे जे दीगामा आवे ठे तेटलुंज सूर्यवडे देखाय ठे ॥ ते  
 पण चक्षुवत होय तो ॥ अने जो छटीए अंध होय तो तो सूर्यनो  
 प्रकाश नकामोज ठे ॥ पण जे आत्म स्वरूप । चर्मचक्षुए दीगामा  
 आवे नही । ते ज्ञान चक्षुवडे प्रत्यक्ष दीगामां आवे ठे ॥ माटे  
 सर्व प्रकारनी ज्योती करता ज्ञान ज्योति श्रेष्ट ठे ॥ ते ज्योतिव-  
 डे तत्वनी तुंजखाण करावे ठे । जहाज के० वहाण ते वने जल-  
 ना नरेला समुद्रनो पार पमाय ठे ॥ पण जे अपार संसार स-  
 मुद्रनो पार पामी शकीए नहीं । एवा ठे । तेने पेले तीर अतुल्य  
 रिद्रिए नरपूर एहवी मोक्षरूप नगरी ठे ॥ ते नगरने विपे ज-  
 वाने वास्ते महाउत्तम वाहाण जोडए । ते वहाण एसजुरु ठे ॥ जे  
 नव्य जीव ससार उपर उदास चित्त राखी गुरु महाराजना उ-  
 पदेशे चाले । ते मोक्ष पदने पामे ॥ पण जे माणस ससार उपर  
 प्रिति राखे ॥ ते ए पदने अवस्य पामे नहीं ॥ पण ए महाराज  
 केवा ठे के ससार उपरथी । जेनु चित्त सुगाल के० उदास थयेलुं  
 ठे ॥ कारणके संसार उपरथी उदासी जाव थया विना चारित्र  
 लेवाय नहीं ॥ माटे ए मुनिनु चित्त संसार उपरथी उदास थये  
 लु ठे ॥ एवा सुसाधुत्रना समुदायमा मुगट समान । एवा श्री हु-  
 कममुनीजी माहाराज तेमने हु त्रिकाल साष्टांग वंदना करू बु  
 ॥ ए ॥ इति नवम् गाथार्थ ॥

धमेंधोरीगुणेरविनितिसदा । तत्वोभोगीजाणजी ॥

। नो १३ । त । जाणेउद्योभाणजी ॥

कमोरूपिरोगनावैदजे । वर्णुंशुहुंवालजी ॥

एवासुगुरुराजश्रीहुकुमने । वन्डुंहुंत्रिकालजी ॥ १० ॥

-अर्थ-धर्म जे अरिहत परमात्मानो जापेलो जैनधर्म ॥  
तेने विषे प्रवर्तवाने धोरि के० मुख्य आगेवान ठे ॥ एटले जै-  
नधर्मनी उन्नति बहु माने करे ठे । तेथी तेनो फेलाव थाय ठे ॥  
माटे बोरी कहीये ॥ तथा चारित्र्यादिने शोभावे एवा सद्गुणो।  
ते एवा के जगतने विषे सूर्यना तेजस्वी किरणो जगतने सुखदा-  
ता ठे । तेम ए महामुनीना सद्गुणो एवा ठे के सर्व नव्यजीवो  
सदायकाल सुखमा रहे एवु अक्षयपद सुख देवाने समर्थ ठे ॥  
तेथी गुणरूपी सूर्य कहीए । एवा मुनी नितिना आचरणवडे स-  
दायकाल प्रवर्ते ठे ॥ तथा तत्व के० सार वस्तु जे आत्मज्ञान  
तेनाज जोगमयी ठे । तथा आ जगतमां कुगुरुज्ञना उपदेशरूप  
अज्ञानरूप अधिकारथी जगतमां धमाधम थइ रही ठे ॥ ते कु-  
गुरुज्ञना उपदेशरूप अधिकारथी डखी यता । अज्ञानी जनोने  
गोमववाने ज्ञानरूप तेजथी सूर्य जेवा तेजस्वी । ए महामुनी  
अज्ञान अधिकार नाश करवाने । उत्पन्न थएला जणाय ठे ॥  
तथा सर्व जीवोने कर्मरूपी महारोग अनतोकाल थयो । घणा  
प्रकारनी पीमाउ करे ठे ॥ तेनो वैद सुगुरु सिवाय जगतमां कोइ  
नथी । कारणके सुगुरुना उपदेशरूप औपध खाधा विना मटे  
नहि ॥ माटे श्री हुकुममुनीजी महाराज रूप महावैद । ए रोगनुं  
उपड आपवाने समर्थ ठे ॥ इत्यादि जे ए महामुनीना अगाध  
गुण ते वधा वर्णववाने हुं समर्थ नहि ॥ कारणके हु वाल के०  
अल्प बुद्धिवतथी कह्या जाय नहि ॥ एवा श्री सुसाधुज्ञना स-  
मुदायने विषे मुगट समान । श्री हुकुममुनीजी महाराज तेमने  
हुं । साष्टांग वंदना कसंठु ॥ १० ॥ इति दशम गाथार्थ.

ग्रथोज्ञानअगाधनावहुकर्या । स्हेजेथीसमजाववा ॥

पामेसम्यक्तद्वारथीसमकीतो । वेगेमिथ्यात्वोजवा ॥

बीजोज्ञानविलासएरिचनर्यो । नामेगुणोभालजी ॥

एवासुगुरुराजश्रीहुकुमने । वन्डंहुंत्रीकालजी ॥ ११ ॥

अर्थ-अने वली जे वाळ जीवो तेजने स्हेजथी समज पाडवाने वास्ते । सुत्र सिद्धात माहेथी माखणनी परे तत्वनो उधार करीने । ए मुनीए । घणा ग्रथो रच्या ठे ॥ ते ग्रथो मध्ये अगाध के० घणुज ज्ञान । व्यवहार तथा निश्चनये करी देखाड्यु ठे ॥ ते त्रिपे अध्यात्म विषय घणो ठे ॥ ते ग्रथो माहेला थोमांकना नाम कहुवु ॥ १ ॥ सम्यक्त्वद्वारनामा ग्रथ ठे । तेमा सात द्वार कहेला ठे । १ मा व्यवहार वलीष्ट कह्यो ठे ॥ २ मा मिथ्यात्व जवा सारु मिथ्यात्वनु स्वरुप विगेरे देखाम्यु ठे ॥ ३ मा समकितना अनेक जेद देखाम्या ठे ॥ ४ मा देवतत्व स्पष्ट रीते देखाम्यो ठे ॥ ५ मा गुरुत्तरी उजखाण करावी ठे ॥ ६ मा धर्मतत्वनी उजखाण ठे ॥ ७ मा ए तत्वनी सदहणानु फल । अने आर्त तथा रुद्ध्याननु स्वरुप देखाड्यु ठे ॥ ए ग्रथ घणो महोटो ठे ॥ एनु जे नव्य जीव श्रधा पूर्वक । मनन करे । तेने समकित प्राप्त थाय ॥ अने मिथ्यात्वनो तुरतज नाश थाय ॥ ते मिथ्यात्व केहेवु ठे के । मोक्षरुप नगरे जवाना मार्गना मुख आगलज । अजगर रूपे पडेलो ठे ॥ ते ज्यासुधी खस्ते नहिं त्यासुधी । कोइ जीवथी ए नगरनो मार्ग पकडाय नही ॥ तेम जाणी ए मिथ्यात्वने दूर करी । समकित पामी । चढती श्रेणीनो मार्ग नव्य जीव पकडे ॥ तेटला सारु । आ सम्यक्त्व द्वार नामाग्रथ रचवा । तस्वी लीधी जणाय ठे ॥

तथा बीजो ग्रथ ज्ञानविलास । नामनो ठे ॥ ते ग्रथ पण



मोटो ठे ॥ अने पद्यबंध ठे ॥ ए ग्रंथमा ख्याणुयोगनी अनेक  
 वर्चा ठे ॥ अने ख्यने । नय । निक्षेपा । पद्म । प्रमाण । कारक ।  
 सप्तजंगी । चउजंगी । विगेरे लागु करी समज पाडेवी ठे ॥ तथा  
 पददर्शननी चर्चा अनेक रीते करीने । ख्यनु स्वरुप उलखाव्युं  
 ठे ॥ ए विगेरे ज्ञाननो घणोज तरंग चलाव्यो ठे ॥ तेथी ए ग्रंथना  
 नाम प्रमाणे । खरेखरा गुणो ठे ॥ तथा ज्ञाननी रिष्टिए करी  
 संपूर्ण नरेलो । ए ज्ञानविलास नामे ग्रंथ ठे ॥ एवा ग्रंथोना क-  
 र्त्ता । श्री सुसाधुजना समुदायने विषे मुगट समान । श्री हुकुम-  
 मुनीजी महाराज । तेमने हुं त्रीकाल साष्टांग वंदना करु तुं ॥  
 ॥११॥ इति एकादशम् गाथार्थ ॥

चिदानंदवत्रीसीबोधदिनकर । मिथ्यात्वविद्वंषणो ॥  
 सारोद्धारसिद्धांतनोअतिभलो । हुकुमविलासोगणो ॥  
 इत्यादिवहुग्रंथथोककरता । म्हात्माप्रतिपालजी ॥  
 एवासुगुरुराजश्रीहुकुमने । वड्डुंहुंत्रीकालजी ॥ १२ ॥

अर्थ-त्रीजो ग्रंथ चिदानंद वत्रीसी नामे ठे ॥ तेमां ३३ प-  
 दो रागमां ठे । अने चेतनरायने निज स्वरुपमा । रमण करवाने  
 घणा प्रकारे समजाव्यो ठे ॥ ए ग्रंथ पण आत्माने घणोज  
 गुणकारी ठे ॥

चौथो ग्रंथ बोधदिनकरनामे ठे ॥ तेमां सप्तजंगीनी समज  
 घणीज सरलताथी पामी ठे ॥ तथा श्री यशोविजयजी उपाध्या-  
 यजीकृत । अध्यात्मसारनामे ग्रंथ मांहेला योगाधिकारना ४३  
 श्लोकनो टवो नरी खरो भावार्थ प्रदर्शित कर्यो ठे ॥ तथा घणो  
 सारो उपदेश करेलो ठे । ए ग्रंथ खरेखरो बोधदिनकर के० उ-  
 पदेशरूप सूर्य ठे ॥

तथा पांचमो ग्रंथ मिथ्यात्व विद्वसण नामे ठे ॥ तेमां ख्य

५१ श्री हुकुममुनीजी महाराजनेवदनात्रिदश

जाव तथा निश्रे व्यवहारथी । अने नास्तीक मतनु खडन करी ।  
जीवनु स्थापन कर्युं ठे ॥ तथा जीवना स्वजाव नयना १७ जेद ।  
विगेरे वतावी मिथ्यात्वनो नाश कर्यो ठे ॥ माटे मिथ्यात्व विद्व-  
पण । ए नाम सिद्ध थयुं ठे ॥

तथा ठठो ग्रथ सिद्धांत सारोक्षर नामे ठे ॥ ए ग्रथमा नि-  
श्वेनु स्थापन करी मोक्षमार्ग देखाय्यो ठे ॥

सातमो ग्रथ । हुकम विलास नामनो पद्यवध ठे ॥ एमा  
चोविसी के० चोवीस जिनना स्तवनो । अध्यात्मि ठे ॥ तथा श्री  
नेमनाथजिनना पचःश्रृंगारणी पुजा । मरवापुत्रनी सझाय ।  
ज्ञानविचार सार ग्रथ । तथा बीजा घणा स्तवनो । चैत्यवंदनो ।  
धोयो ॥ गुवलीउ । सझायो । अध्यात्मना पदो । लावणीउ । घन  
फाग । होलीउ । रागना पदो । विगेरे अध्यात्मि ज्ञानमय ठे ॥ ए  
सिवायना विजा पण घणा ग्रंथो ठे ॥ तेमा ७ तत्वसारोक्षर । ए  
ध्यानविलास । १० आत्मचितामणि । ११ अध्यात्मसारोक्षर ।  
१२ ज्ञानभूषण । १३ प्रकृतिप्रकाश । १४ मित्रपरिहा । १५ नवाहु-  
कुमविलास । १६ मनोरथजावना । १७ पदसग्रह । १८ थजाव-  
प्रकरण । १९ अनुभवप्रकाश । २० रागमाला । २१ वास्तूकपुजा  
२२ सिद्धनापन्नरजेद । इत्यादि घणा ग्रथो तथा अध्यात्म ठनुवी।  
सतस्वरूप पंचासी । तथा मन ठत्रीसी । विगेरे अध्यात्मि छहा ।  
अने अमरतेज मुनीनी सझाय । विगेरे सझायो । अने स्तवनो ।  
विगेरे पण घणु ठे ॥ अने नवा ग्रथो पण अद्यापि रचताज जाय  
ठे ॥ ए ग्रथोधी तथा प्रत्यक्ष उपदेशथी । हाल कालना लोकोने ।  
घणोज उपकार करे ठे ॥ अने ए महात्मा विद्यमान नहि होय । ते  
समयमां एमना रचेला ग्रथोधी । जब्यजीवोना समकितरूपी वृद्धो-  
नु पोपण थशे ॥ माटे जब्यजीवोना प्रतिपाल कहिए ॥ एवा श्री  
हुसाधुजना समुदायमा मुगट समान । श्री हुकुममुनीजी महाराज

तेमने हुं त्रीकाल साष्टांग वदना करुं तुं ॥ इति द्वादशम गाथार्थ ॥

उगणीउगणचालीसेकृश्रपद्धे । आषाढएकादशे ॥

गुणोधर्मगुरुतणास्तवतां । रोमेरुमानुससे ॥

जीव्हाएकगुणोघणामुनितणा । क्हेतानावेपारजी ॥

एवासुगुरुराजश्रीहुकुमने । वन्डंहुत्रीकालजी ॥ १३ ॥

अर्थ—जगत्रमा गुरु त्रण प्रकारना । ससार मार्गे गणाय ठे प्रथम गुरु मावापठे । के तेउ नानपण्थी ससार व्यवहारनी रीते नितिनी केजवणी आपी सुधारे ॥ त्यार पुठे बीजा गुरु कलाचार्य अथवा महेताजी ठे । ते लीपी । ज्ञापा ॥ कला । इत्यादि शिखवी संसारीकज्ञान सपादन करावे ॥ त्रीजा धर्म गुरु ते । वितराग परमात्माना आलवन वडे । आत्मस्वरूपनी उलखाण करावे ॥ ते गुरु त्रीविध तापना टालणाहार । जन्मजरा ने मरणथी मुक्त करे ॥ एवा श्री धर्मगुरु ठे ॥ ते श्री हुकुममुनीजी महाराज । अजर स्तवन कर्ता हु धर्मचद । तेना परम पूज्य गुरु । श्री । हुकुममुनीजी महाराजनी स्तुती ॥ विक्रमाजित संवत्सर । १९३९ । ना अषाढ वद ११ ने दिवसे करतां । मारां सर्व स्वा हर्षित थया ॥ अर्थात् मने अत्यंत हर्ष थयो ॥ ए महात्माना अधाग गुण म्हारी जीव्हाए करी कही शकाय नहि ॥ परतु मारी अटपवुद्धि प्रमाणे । समुझमार्थी एक विड मात्र गुणनी स्तवना करी ठे ॥ एवा सदगुण निधान । सर्व सुसाधुजना समुदायमा मुगट समान । श्री । श्री । हुकुममुनीजीमहाराज तेमने हुं त्रिकाल साष्टांग वदना करुं तुं ॥ इति त्रयोदशम् गाथार्थ ॥ १३ ॥ ॥ जा पोते ॥

॥ सपूर्ण ॥



# महावीरस्वामीना सत्तावीश लवनुं भोटु स्तवन.

हाल १ ली.

अथमल्लोमर प्रीतम मादरो रे ओ देवी पढेनाने समईरे पाचशोषेशो रे वणी  
 सारद सुपकद ॥ नीज शुर डेरा रे यरुषु कमण नभी रे ॥ स्तवसु वीर लुषुद ॥ १ ॥ भवी  
 दुष्णे सनादिन भव भोटका रे ॥ ओ आकप्री ॥ तयसार नामेरे अपर विदेहमा रे ॥ भक्ति  
 पतिने आदेश ॥ काट बेवाने ने भयो ओकतो रे ॥ गिरी उदारने प्रवेश ॥ २ ॥ भविं ॥  
 आदार वेनाओरे रसवती नीपनी रे ॥ दानर चि मीन धाव ॥ अतिथी वुवे ओषे अवशारे  
 रे ॥ धर्म अतरमथी भाव ॥ ३ ॥ भवीं ॥ पुन्य सजोगे रे मुनिवर आविधा रे ॥ भारग  
 लु ॥ ओ नेह ॥ निरभी नीत्तरे ध य मुज भाग्यने रे ॥ रोभा सीत ययो देह ॥ ४ ॥  
 भवीं ॥ निरवव आदार हेर्छने धम कहे रे ॥ निस्तयो मुज रनाम ॥ योग्य जपनीने रे  
 मुनी दिओ देशना रे ॥ समकित लखा अभिराम ॥ ५ ॥ भवीं ॥ भारग देभाडीने रे वदिने  
 वल्लो रे ॥ समरतो नवकार ॥ देव शुर धमने ओजप्पा रे ॥ सामय सुभना दातार ॥ ६ ॥  
 भवीं ॥ पढेते मवे धम धम ज्या धिने रे ॥ सुधमं यओ देव ॥ ओक परयोपम आडिपु  
 ओगरी रे ॥ श्रीओ भवे रवयमेव ॥ ७ ॥ भवी ॥ श्रीओ भवे यकि भरतेशरे ॥ तस दुओ  
 भरींयिकुमार ॥ प्रभु वयनाभृत सामगी रमथी रे ॥ दीक्षित यओ अलुगार ॥ ८ ॥

हाल २ ल.

यतुरसनेही मोदना ओ देवी ओक हीन श्रीम काणभा ॥ विचरतो ओकाकी रे ॥ अ  
 ली ॥ रवाग्नी यकी गहे ॥ ज्ञानभदे अनि छाकी रे ॥ नीजे भव भवी सामजो ॥ ओ टेक  
 ॥ १ ॥ तप न तपो अति आकरो ॥ भेले मवीन छे द रे ॥ अमल्यपणु इकर धणुं ॥ नर  
 वाये नही ओह रे ॥ २ ॥ नीजे ॥ धर ननु वुगनु नही ॥ धम धारिने निभासे रे ॥ वेस  
 नवो श्रींहीने ॥ अ न देह ते यरयो रे ॥ नाजे ॥ ३ ॥ करकभने यहुं दउने ॥ भगवु कपुं  
 करु रे ॥ पाय पावही पेहेरु ॥ भरतके छत्र धरु रे ॥ नाजे ॥ ४ ॥ परीभीत नलशु  
 रान ॥ नृज नटा वुं धाई रे ॥ रापु ननेछ सुवसुनी ॥ राणी युव न गार रे  
 ॥ ५ ॥ श्रीजे ॥ वेश करिने कुनींगीना ॥ धम कइ वगी सायो रे ॥ वापुी युजे पडीमोहनो ॥  
 नृणी ओ हीरो नयो रे ॥ ५ ॥ श्रीजे ॥ नृणी दीक्षा जेभने ॥ आणी मुनीने आपि रे  
 नृज नृज आगण रागथी ॥ साधु नृजु पुत्र यापे रे ॥ ७ ॥ श्रीजे ॥ आह लुषुद सयो  
 सया ॥ साकेतन उधाने रे ॥ भरतल वदन सययी ॥ वदि हरभ अभाने रे ॥ ८ ॥ श्रीजे ॥  
 भरत भजे ओ परभदे ॥ मर्छ छे तुम सरयो रे ॥ रवाभी हडे सुषु गणया ॥ तुम सु  
 न भरीयिओ परभे ॥ रे ॥ श्री ॥ ९ ॥ वासुदेव पढेतो होरी ॥ यकवृती अ मुकाये रे ॥ तीथ  
 पति मोषीशमे ॥ नामे वीर कदाये रे ॥ श्रीजे ॥ १० ॥ प्रभु मुजे ओम सामली उवसित  
 धर्ष प्रभु वदि रे ॥ भरत आण्यो भरिनी कने, वदे भन गइगहनो रे ॥ ११ ॥ श्रीजे ॥ युषु  
 रनवना करी धम हडे ॥ वेदु ओह भर्म रे ॥ वासुदेव यकी धर्ष ॥ धारो छनपनि यम रे  
 ॥ १२ ॥ श्रीजे ॥ छन वयनाभृत दाभवी ॥ री उनठ आणी रे ॥ प्रभुभी भरत धरे  
 गया ॥ भरिनीने शुजनिधि नृणी रे ॥ श्री ॥ १३ ॥

ઢાલ ૩ છ

નદી જમુનાકે તીર ઉઢે દોષ પખીયા ॥ એ ટેક ॥ મરિચી ઈમ ઇમ ચીતવે ભ  
સ્ત વચન સુખી ॥ મુજ સમે અવર ન કોઈ અઢે જગમા ધણી ॥ જેતાવબ જગતમા  
છે તે મે લલા ॥ અહો ધ્રી આદીજીજીદે નીજ મુખથી કલ્યા ॥ ૧ ॥ રતનાકર મુજ વશ  
અનોપમ શુભ મિતા ॥ દાદો જનમા મુખ્ય ચક્રીમા મુજ પિતા ॥ અહો ઉતમ ઇળ મા  
હર હું સહુમા ચીરે ॥ ધ ધ ધન્ય મુજ અવતાઝ હરિમા હુ ધુરે ॥ ૨ ॥ ચક્રવૃત યધ ચ-  
રીમ જીજેશર યાજશુ ॥ કનક કમળપર નીજ પદ કમળ હાઈશુ ॥ સુર નર કોડા કોડ  
મની મુજ પ્રભુમરો ॥ પ્રાતિહારજ વર આઠરધુ સમોવશરણુ ધરો ॥ ૩ ॥ મદ કરતાથી  
નીચ ગોત્ર ઇમ આધીક ॥ ભવ ભન નીચ જ મનું ઇળ ઇલા માધીક ॥ એક દીન રોગ  
હૃદયથી મન ઇમ વિતવે ॥ સેવા કારક શિષ્ય કઈ મર્ષ હવે ॥ ૪ ॥ સાર ન પુછે મે સુની  
પરિચિત છે ધણા ॥ હુમરા દુર ધકી દીસે રળીયામણા ॥ એહવે કપિલ નામે એક નૃપ  
સુન આરીઓ ॥ તેને મરીચિએ પ્રભુનો ધર્મ શુચારીઓ ॥ ૫ ॥ યોગ્ય જાણી કહે જ  
ઓ મુની પામે તમે ॥ દીક્ષા ઈયો શુભ ભાવથી કહીએ છીયે અમે ॥ પ્રપિન કહે તવ  
ધર્મ નથી રધુ તુમ ગઢે ॥ મનથી ચીને એ જોગ મુજ લાયક અછે ॥ ૬ ॥ મરિચી કહે  
કપીન ઇલાં પથુ ધર્મ છે ॥ ચીત રચે તીહા સેરીએ એ હીત મર્મ છે ॥ એમ ઉત્સન  
કલાથી સમાર વધારીઓ ॥ ગામર કોડાકોડ અપારાવારીઓ ॥ ૭ ॥ ચોરાલી લાખ પુ-  
રનનું આહુપુ મોગવી ॥ અતે અનાતો ચીતથી ત્રીજે ભવથી ચવી ॥ દશ તાગરે ભ  
વ ચોથો પચમ સ્વર્ગમા, ઉપનો પચમ ભવ હવે આહુજી વર્ગમા ॥ ૮ ॥ એવી પુરવનાખ  
આહુમે કોલીઁ ઢીજ ધઓ ॥ યુગા નધરીએ હઢે ભન ભમતા ગઓ ॥ મોહાતેર લાખ  
પુરવ આયુ પુષ્પહાજ નામથી ॥ અતે ત્રીઁડી ધધને મુઓ છે અકામથી ॥ ૯ ॥ સા-  
તમે સોહમ ચૈસ પૂરે ભવ આઠમે, અગ્નીચોત ઢીજ લખ પુરવ આયુનાઠમે ॥ અતે ત્રી  
દડી ધઈને હવે નરમે ભવે, ઈશાને અત્રન સુખ રગે અનુભવે ॥ ૧૦ ॥

ઢાલ ૪ ચી

લીધગીરી ધ્યાવો ભવિકા સીધ ગીરી ધ્યાવો એ દેરી અગ્નીભુતી ઢીજ દરામે આ  
બો ॥ મ દીરપૂનમા તેહ શુદાયો લાલન તેહ શુદાયો ॥ છપન લખ પુરવ આયુ ધરતો  
અને ત્રીઁડાઓ ધધને તે રીરતો લાનન ધધને તે રીરતો ૧ અગીઆરમે ભવે લાનન  
કુમાર, આરમે સ્વેતાગીએ અવતાર લાલન સ્વેતાખીયે અવતાર ॥ ભારઢીજ ઢીજ અતે  
ત્રીદડી ॥ યુમારીત લખ પુરવ આયુ મડી લાલન પુરવ આયુ મડી ૨ તેરમે ભન ધઓ  
માહોદે દેવ ॥ ચૌદમે યાવર આહુજી દેવ લાનન આહુજી દવ ॥ ચોત્રીશ લખ પુરવ આયુ  
પાની, ત્રીઁડીઓ યધ કાયાને ગાળી લાનન કાયાને ગાળી ૩ પદરમે ભવે પાયમે સ્વર્ગ,  
લાથી ચવી મમીઓ ભવ વગ લાલન મમીઓ ભવ વર્ગે મોવમે ભવ વીશ્વભુતી નામે,  
ક્ષત્રીય શુત ઉષ થો તે શકામે લાનન ઉરનો તે શામે ૮ વૈસાખભુતી ધારણીનો જાયો,  
સભુતી સાધુએ તેહ વદાયો લાલન તેહ વદાયો ॥ સદસ વરશ જેજે ચરણ આરાધી,  
તપશી ધઓ અતી વી મી ઉપાધી લાનન વીરમી ઉપાધી ૫ ॥ એક દીન મધુરાએ ગો  
ચરી ચારા ૧ વરજ તાજતા માઈએ નાળ્યો લાનન માઈએ નાળ્યો એહવે એક ગા  
થેતસ માં, ભુમી પડયો અર્ત કોરે તે ધારયો લાલન કોથે તે ધારયો ॥ ૬ ॥ તે જોતા

ગહેને ગગને બમાડી, ધમ નીચ બલ તેહને દેખાડી લાલન તેહને દેખાડી. મલુસલ સાથે નીમાણું કીધું ૥ તપ સાથે ૫૧ માળિને લીધું લાલન માગીને લીધું ૥ ૭ ૥ કાડ વગસનું છાતીન શારી. સતરમે સુક રંગે અવતારી લાલન સ્વર્ગ અવતારી ૥ અદારમે ભવે પુત્રાનો કામિ ૥ રાખપનિ પોતનપુત્ર સ્વામી લાલન પોતનપુત્ર સ્વામી ૧૮ ૥ મૃગાવતી તાળી એ કુળે ધરીઓ શાત સુન સુગાન અવતરીઓ લા ૦ ૥ બાલપને જોણે સિદને કહ્યીઓ, તી પુટ નારાયણ કરી શુભીઓ લાલન નારાયણ કરી શુભીઓ ૬ તજસે સાક મધામ તે કીધા, સન્ધ્યાપાલમે દુ ખ દીધા લાલન પાનકને દુ ખ દીધા ૥ લાખ મોતલી વરસનું આયુ, બોમરી માતમી નરકે તે જન્ય લાલન નરકે તે જન્ય ૧૦ ઓગણીશમે ભવે દુ ખ અતી વેદી વી સમે ભવ દુઓ સીદ અએદી લાલન સીદ સએની ૥ રોયી નરકમે ભવ એક રીયે, બહુ ભવ બનતા હવે ગાવોશમે લાલન હવે ગાવોશમે ૧૧ કોઈ શુભ જોગે નરભવ પાપો ૥ તે રીતમે ભવે ચક્રિ ગાયો લાલન ચક્રિ ગવાનો ૥ ધનજય ધારણીનો તે જોડો ૥ મુકા નનરી ભુજબજ જોડો લ ૫૧ બુજબજ જોડો ૧૨ ખખડ દુવામા આણુમનાવી, ચૌરયજી નીરી સપદા પાઈ. લાલન સપદા પાઈ પોટીનાચાગજ શુર તીહા વદી દીશા આદરી મનથી આણુદી લાલન મનથી આણુદી ૧૩ ચૌરતીતાખ પુરવ રમાખ, અયુ પાની દવે ચૌરાશમે જળુ લાલન ચૌરાશમે જળુ ૥ માદાસુક દુઓ અમર ઉમ તે. અમૃત સુખ અનુભવનો એ રજે લાલન અનુભવનો એ રજે ૧૪

કાવ ૫ મી

ચક્રિશર્દણા તી લોમ છે એ દેતી આ બગને છરીકાપુરી, પચવીશમે ભવ આપાછ ૥ બનં છતતતુ ટર કુળે, નહન નામ સુદા રાછ ૥ ૧ ૥ તુગક ૥ નામ ન ન ગામમ વન પોદિલા ચરન ક હે અદા ન જુદમનેાક બવિચરે ૥ મૃગપતિ જોમ ગીરીવને ૥ તીહા માસખમજે વીશરયાનક તપતપી દુકરખે ૥ ૫૬ ગાધીઠા ઈલા તીયે કરનું બાવથી આદરખજે ર ૥ ચાલ ૥ અભિચરી માસ ખમબ કી ૥ જનજીવ પરજતોછ ૥ ઉનશીન નાવે તપમરી ૥ મીધો ભરનો અતોછ ૥ કાકા તુટકા ભવ આત કીધો કાજ સીધો ૥ તામ શખ્યા દુ કહુ ૥ અગીઆર લાખને શકશ એશી, છશે પીશવાનીશ લડું ૥ દીન પચ કવર અધીક જણે લાખ પચવીસ શારનું ૥ આકેષુ પાની જમણુ ઠારી કામ કીધુ મરદનું ૥ ૪ ૥ ચાલ ૥ અણુમજી માસ લતેખજે, કરી વધને પરણુમે છ ૥ સચી જગ વગ ખમાળિને, ચરીઓ ત્યાયી સકામેછ ૥ ૫ ૥ તુટક ૥ ચરીઓ મકામે રમ શમે વીત અરે શુર દુવે ૥ ત્યા રીવીધ નુર મુખ બોમરે ખરીશમે ભવ એ જુઓ ૥ મરીચી ભવે જો કન આધુ તે દહ છ ખુચુ નહી ૥ ચરીમ સત્તાવીશ ભવમે હ ચે આજુ તે શહી ૥ ૬ ૥ ચલ ૥ જામ ત મહજુ વરી વર માહજુકુડ મામેછ, તશ ધરણી ૩જ ગોરડી દેવાનદા નામેછ ૥ તુટકા દેવાનદા કુમે આયા ચૈદ સુપનાં નીચી નહે ૥ તવ ઈન અવધે જોધને, દરિજીઅમેખીને કહે ૥ નગર ક્ષત્રોવકુડ ગામે ૥ સીધારથ છે નરપતી ૥ તશ પટરાણી તેહ ખાણી ૥ નામે નીશના ચુણવતી ૥ ૮ ૥ ચાલ ૥ તીહા જઈ ગબને પાલો એ પુમને આદેશ છ ૥ મોઈ કાયે એમ નવી જયુ ૥ કોજકુળે ન હાયે છનેસછ ૥ તુટક ૥ કોજકુળે ન હાયે છનપતી ૥ વની એદ અજરીગની કયા ૥ લવજુ જળમાં અમૃત લહેરી ૥ મરમા શુરતર જલા ૬ ધમ ઈત્ર વધજુ સામસી, પોચ્યા તીહા પ્રજુમે પ્રજુ ૥ એદુ ગબ પાટરી રમ ભરથી ૥ નય વદે નીજ વીજુ ૥ ૧૦ ૥

दास ६ ङी.

दारे भारे जेष्मनीआनो लटका दाश यार जे जे देसी दारे भारे तावी दीन  
 छम वरीने दीन धर माहे जे ॥ त्रीशला कुपे त्रीभोवन नायक आनीधारे दोव ॥ दारे  
 भारे तेदज राते मोद सुपन लडे मात जे ॥ सुपनपाठक तेडीने अथ सुष्वापीआ रे  
 दोष ॥ दारे भारे जंम रिथति पूरषु थये ननभ्या स्वाम जे ॥ नारक यावर ननता  
 सुभने भावती रे दोष ॥ दारे भारे सुतीकर्भने करती धरती डरभ जे अमरी रे शुषुसभरी नीन पद  
 भावनी रे दोन ॥ २ ॥ दारे भारे सोदम छद्रादीकने मोछव होत जे ॥ सीधारथ पशु तिभवली मनभोटे  
 करेरे दोष ॥ दारे भारे नाम ह्यु श्री वधमान कुभारजे ॥ दीन दीन वाधे प्रभुछ कल्पतर  
 परेरे दोष ॥ ३ ॥ दारे भारे देवे अनीधा दीधु श्री माहावीर जे ॥ जेवन वय वीक्षरी  
 हवे नवनव भोगने रे दोन ॥ दारे भारे छम करता मात पीता गया स्वर्ग भोजार जे ॥  
 लोमतीक तव देव करे उपयोगने रे दोन ॥ ४ ॥ दारे भारे वरवीदान दधने सजम वीध  
 जे ॥ परिवहन उपसर्ग सदा प्रभु मे धर्यारे दोन ॥ दारे भारे लाभ वरवी तपशी पुरव  
 भव नाथजे ॥ तोपशु आ भव तपनी राभी नदी मर्यारे दोन ॥ दारे भारे जे भठभारी  
 पशु दीन तेदमा जेक उच्यजे ॥ नव यतुभाशी छे नचुभाशी ते लक्षु रे दोव ॥ दारे भारे  
 जे अदीभारी भठ जेभावी नजुने ॥ दोदभाशी दुग मातभमशु पारे कहु रे दोष  
 ॥ दारे भारे भोनेर भासभमशु वनी अठम पारजे ॥ दुगती जोगशुनीत जे उठ तपने  
 भपु रे दोन ॥ दारे भारे जे आटे तप तपीआ ते वीशु नीर जे ॥ त्रयुशे जोगशु प-  
 यशी ते पारशु दीन गशु रे दोष ७ दारे भारे तीम अप्रीती अधी जेहा नदी भगवत  
 जे ॥ पार वरतमा निद्रा जे धडीनी करीरे दोष ॥ दारे नीरभल ध्याने वातीकरभ अ  
 पाज जे ॥ दरशन ज्ञान विनाशी केवणने वरीरे दोष ॥ ८ दारे भारे प्रभु केवन पाभी  
 स्वुवावीका तीरजे ॥ आवे रे वियरता वीत उभगधीरे दोष ॥ दारे भारे अती उवशीत  
 यधने सुन नर कोडभोडी जे ॥ छन वयनाभूत सुयुवा आने रगधीरे दोष ॥ ९ ॥

दास ७ भी.

अभिनदन अवधारीजे जे देशी महतेन वनभा समोसर्था ॥ नगनायक छनयद सु  
 गानी ॥ सभवसरशु रयना रयी ॥ प्रभुमे योशक छदि शुगानी ॥ १ ॥ वीरछशु दने वदीजे जे ॥  
 टेक ॥ प्रतीदारज आठ शु शोभे प्रभुने देदार शु गानी दीजे ध्वनीजे देसना ॥ साभने प्रभत  
 पार उदसुती दीन प्रभुभने ॥ गजधर थापे अगीपार शुगानी ॥ दरशन ज्ञान यरशु धरा  
 ॥ शिदशदस अशुगार शुगानी ॥ ३ ॥ वीसा छत्रोश सहसे शुसाटुष्पी ॥ यारसे वादी प्र  
 भाशु शुगानी ॥ वैकीय लम्बि जे केवणी ॥ शपनशेशात सुमशु शुगानी ॥ ४ ॥ वीर  
 ॥ डोढा नाशुधर तेरये ॥ मशुपजनी, शतपय शुगानी ॥ पुरवधर अनुतर मुनि ॥ ५  
 ॥ ज्ये न्यडशत शय शुगानी ॥ ५ ॥ दोढ लाभ नर शदसछे ॥ श्रमलोपासक सार  
 शुगानी ॥ आनीका वणी त्रशु लाभने उपर शदश अदार शुगानी ॥ वीर ॥ ६ ॥ योवीड  
 सधनी थापना ॥ करता शीरता नाथ शुगानी ॥ भरीक कभद पडीभोहना ॥ भेलता वी  
 वपुर साथ शुगानी ॥ ७ ॥ वीर ॥ पुतरा पुतन जेदवा ॥ नगभा दीशे कोय शुगानी ॥  
 लावी दीन दुपे वशा ॥ जे उपमार मे ज्ये शुगानी ॥ वीर ॥ ८ ॥ शीवपुर तेदने पहा-

भागे भवभय रोक ॥ सनेहा ॥ सुम० ॥ १ ॥ धमज्जल प्रगटथा गुणे, नवि भूके पव  
 ओके ॥ सनेहा ॥ अन्य देई रायु नदी, रायु ओदवी टेक ॥ सनेहा ॥ सुम० ॥ २ ॥ यान  
 मदिरे गुण साधुनु, विरतशु त्रिधुवन भूष ॥ सनेहा ॥ बोहाबोकाभा व्याधीयुं, गण्णे सर्व  
 सक्ष ॥ सनेहा ॥ सुम० ॥ ३ ॥ सर्वांगे साधन करी, भाति सुभति ३५ ॥ सनेहा ॥ आनन्द  
 प्रगगवीने, पाभ्या सिद्ध स्वक्ष ॥ सनेहा ॥ सुम० ॥ ४ ॥ रमठ परम ज्योति तक्षी, सेवकने  
 मन आढ ॥ सनेहा ॥ शुद्ध आरि ननमा करी, वीय अधिक प्रवाद ॥ सनेहा ॥ सुम०  
 ॥ ५ ॥ सद्धन समाध आतमा, कडे पट नक्र पास ॥ सनेहा ॥ पुद्गल भाव छन्दे नदी,  
 तापे निज शुभ्र आस ॥ सनेहा ॥ सुम० ॥ ६ ॥ तादरी भूरति हेपीने, रीज्यो सेवक गम  
 ॥ सनेहा ॥ पर स्वभाव राये नदी, न करे अनुचित काम ॥ सनेहा ॥ सुम ॥ ७ ॥ ते  
 भा? हुं वीनवु घो रत्नत्रय दान ॥ सनेहा ॥ आनदविभवसुरि यधी, पुष्पविभव शुभ  
 ध्यान ॥ सनेहा ॥ सुम० ॥ ८ ॥ छति ॥

### ॥ अथ पद्मप्रलङ्गिन स्तवन् ॥

॥ पद्मप्रलङ्गिनराजने रे अनुपम ज्ये जपकार ॥ सल्ले ॥ तीर्थकर जे तीयने रे,  
 नाथ करे जेकार ॥ स० ॥ पद्म ॥ १ ॥ दाता तुं अन्य ज्वने रे, आपरे अक्षय राज ॥ स ॥  
 पर परिश्रुति द्वरे करे रे, तिव साधनने काज ॥ स० ॥ पद्म० ॥ २ ॥ प्रभु तुमने निल ध्या  
 पता रे कम कवकता ज्य ॥ स० ॥ धरणी तल भाहे जेवता रे, तुं यशु जम मन भाय  
 ॥ स० ॥ पद्म० ॥ ३ ॥ साधन सकल जे धमनुं रे दाता दाननुं दक्ष ॥ स० ॥ व्यभि न-  
 व्यभि भावने रे, जलधुम तुं जलक्ष ॥ स० ॥ पद्म० ॥ ४ ॥ प्राप्ति अराप्ति होयथी रे, नि  
 श्वक छे तुं सहेज ॥ स० ॥ हुं अकवकता आई रे, सद्धन शक्तिने हेज ॥ स० ॥ पद्म०  
 ॥ ५ ॥ पक्षपात सवि छडीने रे, भावित समरस पोष ॥ स० ॥ द्रव्य भाग्यी अदरे रे,  
 पारी राजने रोष ॥ स० ॥ पद्म० ॥ ६ ॥ द्रव्यात्मिक अनार्थरे रे भावात्मिक अपध ॥ स० ॥  
 आध्यात्मिकेय रचना करी रे, परतु अनेक सणध ॥ स० ॥ पद्म० ॥ ७ ॥ ओके अनेकता  
 जे लणे रे, तात्त्विक यानी सोय ॥ स० ॥ पुष्पविभवसुरि ज्येम वदे रे, आनद अधिक  
 तस होय ॥ स० ॥ पद्म० ॥ ८ ॥ छति ॥

### अथ सुपाद्यङ्गिन स्तवन्

॥ श्री सुपास जिष्णुदशु, अनुभव प्रीत जनाय हो ॥ जिनज ॥ अधराधी हुं तादरे,  
 तारशो कोष्ठ जेपाय हो ॥ जि० ॥ श्री सु० ॥ १ ॥ ओके समय ओकातमा आची घो सुज  
 आश हो ॥ जि० ॥ तो मोहराय ते शु करे दीपके तमने विनाश हो ॥ जि० ॥ श्री सु०  
 ॥ २ ॥ परभावजन तादरे ध्याताने सिद्ध थाय हो ॥ जि० ॥ शब्द अध्यात्म तजवथी, मन  
 श्रमिणे ते सचाय हो ॥ जि० ॥ श्री सु० ॥ ३ ॥ कुमता भमना सद्गु अटे अविद्या जेपाधि  
 ज्य हो ॥ जि० ॥ इतरथ कवकता कल्पना, मन अदकार नसाय हो ॥ जि० ॥ श्री सु०  
 ॥ ४ ॥ राम रूप अनार्थिनो, अतिम अही अवगाह हो ॥ जि० ॥ सैनेधी करण करी, वेद  
 अवेदक भाव हो ॥ जि० ॥ श्री सु० ॥ ५ ॥ समयातर जेपयोगमा वर्तना सव सभाय हो  
 ॥ जि० ॥ आवतनावतपनु यथा, सद्धन स्वभाव अभाय हो ॥ जि० ॥ श्री सु० ॥ ६ ॥ बोहा



शोकना भाव जे, लखे सिद्ध अभंग हो ॥ जिनो पक्षु अगोचर भाषे नदी, व्यक्ताव्य  
 कित भग हो ॥ जिनो ॥ श्री सु० ॥ ७ ॥ शुद्धाशुद्धनी भिनता, लेह जाने ओलभाय हो ॥  
 जिनो ॥ पक्षु कर्पु गोचर नदी, विव्य जाने ते जल्लाय हो ॥ गि० ॥ श्री सु० ॥ ८ ॥ अर्था  
 परमर्था अनेदधी, अर्पितार्पित सभाय हो ॥ जिनो ॥ ध्यान प्रच्छन्न पक्षु करे, तेदनुं भूह्य  
 न थाय हो ॥ जिनो ॥ श्री सु० ॥ ९ ॥ तरस दरस युग्म नेत्रता, दर्शनमोहनी विलाय हो ॥ जिनो ॥  
 समग्नि शुद्ध देपाडीये, दासने कश्छा वाय हो ॥ जिनो ॥ श्री सु० ॥ १० ॥ चार कपायनी  
 योक्ती, हास्य पटक निवार हो ॥ जिनो ॥ परमानंद पुण्यसूरिनो, दर्शन सुगम तो थाय  
 हो ॥ जिनो ॥ श्री सु० ॥ ११ ॥ छति ॥

### ॥ अथ यद्रभजिनस्तत्पन ॥

॥ यद्रभजिनतादरे, अतिशयनो अलत वित्तास जे ॥ पद अरये तद भासतो  
 जे, तसु पातक थाय पिच्छास जे ॥ यद्र० ॥ १ ॥ स्वर्गं भृत्यु पातासुनो जे, आतपन  
 तुंडी कहेवाय जे ॥ तुम विष्णु द्विग श्रय लक्ष्मी जे, गान जिवोतक सभवाय जे ॥ यद्र०  
 ॥ २ ॥ सिद्ध सर्प वारी दावाने जे, अह किन्नरने दुष्ट देव जे ॥ तुम स्मरल्लु नरपमात्रिका  
 जे ध्यातां जपसग नय निलमेव जे ॥ यद्र० ॥ ३ ॥ नाम रटनूओ पदे जे नपे जे,  
 ध्याने ऋणुता आवे अग जे ॥ दरने थाय अपवर्गता जे, पात्रे मोक्ष ते भूकी व्यग  
 जे ॥ यद्र० ॥ ४ ॥ आस लक्ष अनासता जे, सतोपे अनानिशु लीन जे ॥ शान्धतपद  
 तेदने भवे जे, जे आदरे अवासना सिग जे ॥ यद्र० ॥ ५ ॥ दृष्टि कुशील अशुचि गरे  
 जे, राग रेष अशुद्धता नय जे ॥ सात्विक साप्रत मोक्षनो जे, स्वयलुद्ध भाव साय क-  
 हेवाय जे ॥ यद्र० ॥ ६ ॥ अवेभूते सिद्धता जे, साध्यात्मा अजे अ विभास जे ॥ शुद्ध  
 योगे आरुद यध जे, ध्यानमुद्रा स्वउप अे भासजे ॥ यद्र० ॥ ७ ॥ तन्भयता सिद्धन  
 भयीजे, अविचन अक्षय विनाम जे ॥ पाप पुण्यने सभभापे करी जे, थाय भावित आ  
 तभा तास जे ॥ यद्र० ॥ ८ ॥ अतुद्ध धातु जे शुद्ध करे जे, अेम अतर्भाव भवि जेद  
 जे ॥ सभता सभी निज जेनडी जे, अग श्रद्धा सुरगित तेद जे ॥ यद्र० ॥ ९ ॥ अ  
 तुभव अतत स्वर्पथी जे, दीपे तेजे अवडल देद जे ॥ परमानंद पुण्यसूरिणी जे, थाय  
 अयभ विदेही तेद जे ॥ यद्र० ॥ १० ॥ छति ॥

### ॥ अथ सुविधिजिनस्तत्पन ॥

॥ सुविधि जिनेसर सेवीय जे, करी त्रिकरल्लु शुद्ध प्रखिधान जे ॥ अविनाशी प०  
 भगटापीये जे, जेथी पाभीये मुक्ति निधान जे ॥ सु० ॥ १ ॥ जउतायजग दासी करे जे,  
 लक्ष नेतन्य स्वर्पे होय जे ॥ सय पन्नय अर्भुतिशु जे, नदी कर्मनो अध छे डाय  
 जे ॥ सु० ॥ २ ॥ अशुभावविभाव निवारीने जे, करी शुद्धातम प्रागभाव जे ॥ अक्रिय  
 अविगत अनान्रयि जे, थाय आलतिक स्वभाव जे ॥ सु० ॥ ३ ॥ सर्वगत देशगत तुं जे  
 जे, शु नरनुं याते जेर जे ॥ जगती आगले समुद्रथी जे, नविभूके भयादा डार जे  
 ॥ सु० ॥ ४ ॥ दहादष्ट विवेयतो जे, थाय अकृत्रिभता शुलु भाव जे ॥ अन्वय अतर  
 जेद छे जे, ते भेटे शुद्ध स्वभाव जे ॥ सु० ॥ ५ ॥ गृधता पुद्गत आभनी जे, ते तो

तिदां कष्टे न सोढाय ज्ञे ॥ आनन्दविभवस्यरि यम ज्ञे, पुष्पयने परमानन्द धाय ज्ञे ॥  
सु० ॥ १ ॥ छति ॥

### ॥ अथ शीतलजिह्विन स्तवन् ॥

॥ श्री शीतल जिह्विन, मत्स्यो पुरव पुण्ये आन ॥ भाव अपूरये ज्ञे, पूरयु पद  
भवे ज्ञे ॥ श्री० ॥ १ ॥ निषभा कारयु भाव, शुद्धि निमित्ततो दार ॥ सिद्धती साधना ज्ञे,  
जनम अनाधना ज्ञे ॥ श्री० ॥ २ ॥ दाता तु भवो दश, निनस कुस प्रलक्ष ॥ धन्य तुम  
धामने ज्ञे लीलयै नामने ज्ञे ॥ श्री० ॥ ३ ॥ जे दता मोहना मध, हेप्पी नादी तुम पद  
॥ शक्ति तुम तष्टी ज्ञे, अनत अनत भली ज्ञे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ उपशमे मनना मोह  
कदपते कस्यो सोज ॥ तुष्णा मेरीजो ज्ञे, कुल तस मेरीजो ज्ञे ॥ श्री० ॥ ५ ॥ अम-  
अकषायि देव, जान कई हू सेन ॥ शैम शैम गमे ज्ञे, इ भ विभोग वमे ज्ञे ॥ श्री० ॥ ६  
सुरपति नरपति नाथ, जेडी जेकु दाथ ॥ प्रभु तुम आन ॥ ज्ञे, उभा भागने ज्ञे ॥ श्री  
॥ जा छदा धवतता जेद, करी सुभेद्रिय जेद ॥ आकुचन कठि ज्ञे सिधि सुभम भर्षः  
॥ श्री० ॥ ८ ॥ तुम सभ मुग मुग, आपी जेटु शुभा ॥ पुष्पविभवस्यरि ज्ञे, तः  
अनुसरी ज्ञे ॥ श्री० ॥ ८ ॥ छति ॥

### ॥ अथ त्रेयांसजिन स्तवन् ॥

॥ त्रेयास जिह्वदु नेहतो निवहीये हो नीरागोशु केम के ॥ पून भक्ति प्रभा  
वना द्रव्य भाये हो हीने शुभ जेम के ॥ त्रेयांस ॥ १ ॥ देव निर जन ध्याछे, धरी भनभा  
हे अनि धैय विनास के ॥ तुम अतिशय आनदता, हेपीने हो धाय परम उदास के ॥  
त्रेयांस ॥ २ ॥ युक्ति योगासन तष्टी, रगटावी हो सुभतिनी साथ के ॥ ममकु भजेद पा-  
वतल्ला तुमे विभव भव हो हो तारक नाथ के ॥ त्रेयांस ॥ ३ ॥ क्षय कारयु अपादानता  
साधनता हो सदाननी शक्ति के ॥ व्यक्ति वडे प्रभु यार्थये, निष्पति हो सावन प्रति  
पति के ॥ त्रेयांस ॥ ४ ॥ भागोदये प्रभु तुं म यो भोम अनता हो भोगवता नाथ के  
॥ साथ भव्या भने सुकितना, भव सतति हो दवे रदी मुग दाथ के ॥ त्रेयांस ॥ ५ ॥  
सर्गेशे उज्ज्वल यथा, छति अछति हो जे परिश्रुति भाव के ॥ सवगत जेद वर्तना,  
व्यापकता हो अव्यापक स्वभाव के ॥ त्रेयांस ॥ ६ ॥ अहो जववता स्वाभीष्ट, तमे छे प्रभु  
हो जगदान देव के ॥ देवेद्रविभवस्यरीशना, सिध्य पुष्पयने हो हो तुम पय सेव के  
॥ त्रेयांस ॥ ७ ॥ छति ॥

### ॥ अथ वासुपूज्यजिन स्तवन् ॥

॥ श्री वासुपूज्य जिन विनति, अवधारो मुग देव रे ॥ अविषवाह प्रगट करी, सु  
जने पयु आपो हेव रे ॥ श्री० ॥ १ ॥ स्वययुध प्रभु डेवनी, आत्म प्रबोध विकास रे ॥  
विषय विकारने परिकरयो तेजे दरिता तुम प्रकार रे ॥ श्री० ॥ २ ॥ किरिया स्वता योग  
नी, तु इधी धयो अविरोध रे ॥ अयोगी पडे तुम आनता, धन्य छे तुम प्रभुता बोध रे  
॥ श्री० ॥ ३ ॥ कदेश कषाय जे आकरा, तुम समदहे सभ पात रे ॥ आतुरता मुजने धष्टी  
करवा प्रभुदु होष पात रे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ अन अचनाही तुं प्रभु, अतीन्द्रिय सुभ सात  
रे ॥ मुग मन पर करो पापछ, भातुं पाड छे भक्षेन रे ॥ श्री० ॥ ५ ॥ द्रव्यधी योग

समारवा, क्रिरिया सद्भोध कळत रे ॥ अवर आरौप जे अळु करे, ते मति जेद अनत  
रे ॥ श्री० ॥ ६ ॥ अवर अनेरा द्रव्यना, छे ज्ञाता विष्णु भदत रे ॥ साधक भावल्लु करी,  
तमे यथा शिववधु कत रे ॥ श्री० ॥ ७ ॥ समता सयम प्ररग जे, तत्व विवेचन कर रे ॥  
सत्त्व लक्षित प्रगामथी, तमे योगीश्वर शिरदार रे ॥ श्री० ॥ ८ ॥ अगुइ लधु भापे करी, वीय  
अपूवनी शक्ति रे ॥ पुण्यविभनसरीसर, ध्यावे विधि निषेधनी युक्ति रे ॥ श्री० ॥ ९ ॥ छति ॥

### ॥ अथ विभलजिन स्तवन ॥

॥ विभल विभव वदन तष्ठी छ रे, लागे भक्ति पदूर ॥ देवे देवी तुम स्मरणे छ  
रे, पाभे सुभ भरपूर ॥ विभन जिन, तुजु भव सोनाय ॥ १ ॥ अे आंकष्ठी ॥ ताहरी  
तीक्ष्ण दृष्टितु छ रे, वीय अटकष्यु न गय ॥ नय निक्षेपनी वाचना छ रे, तुम विष्णु मल्लु  
कहेचाय ॥ वि० ॥ २ ॥ विस्तारें पठ द्रव्युं छ रे, हेय ने छपाडेय ॥ जदसगने अपवादानुं छ  
रे, रहस्य तु प्रगठ कहेय ॥ विभ० ॥ ३ ॥ तुज आगमे अगम्य छे छ रे, चाद विवाद  
विसां ॥ तेहने जेम जेम जेछये छ रे, थाये मन साटडा ॥ वि० ॥ ४ ॥ शास्त्र समुद्र  
अथाद छे छ रे, तेहने मल्लु लडे छेद ॥ पठ भाषा यार वेदने छ रे, गल्लु न पार वहेय  
॥ वि० ॥ ५ ॥ अवायक वायकपडे छ रे, केम आरौप ते थाय ॥ सहजता जे निज प  
रतुनी छ रे, अयथ ते केम लभाय ॥ वि० ॥ ६ ॥ पुरगत काय करता यका छ रे, आत्म  
जडता थाय ॥ निज परिश्रुति सभारता छ रे, आत्म जडता गय ॥ वि० ॥ ७ ॥ जेतन  
क्रिरिया जेतन तष्ठी छ रे जेद आगम आग्नाय ॥ आप आधेो पर छेउवेो छ रे, अे  
काय धरनेो न्याय ॥ वि० ॥ ८ ॥ अकता सुभे भापतेो छ रे, करेो क्रिरिया कर्म ॥  
तेहवेो वयक के नर्ही छ रे, वेव वेकनेो भर्म ॥ वि० ॥ ९ ॥ वछे सुक्ति जवा बष्ठी  
छ रे, न भूके अनारिनी यान ॥ अतगत रक्षाटिक प छ रे, ते नवि पाभे यान ॥ वि०  
॥ १० ॥ कडे छद्विय वरा करे छ रे, माने धर्म भिथ्यात ॥ विभाव परिश्रुतिय वतना छ रे,  
तिहा स्वभाव विनात ॥ वि० ॥ ११ ॥ जेतन पुद्गल द्रव्यनेो छ रे अ थो य मिलन न  
थाय ॥ मिल द्रव्य मित पतार्थनुं छ रे, मळड अथ सभचाय ॥ वि० ॥ १२ ॥ जित लक्ष  
लज करी छ रे, जेानभेो थायनेो भागें ॥ मल्लु वय कायाज्जडा छ रे, तेहशु न कीर्  
राग ॥ वि० ॥ १३ ॥ विभत जिनेश्वर ध्यावता छ रे, न रहे दुविधा क्वाय ॥ विभनभति  
पुण्यसरिने छ रे, भजतां आन होय ॥ वि० ॥ १४ ॥ छति ॥

### अथ अनतजिन स्तवन

॥ अनत अनत अस्ति शुद्धे ॥ मनमोहन भेरे, प्रगठ करी निज रूप ॥ जगज्वन  
भेरे ॥ नाशित पर पण्य तष्ठी ॥ म० ॥ पुरेणु पुण्ये अ रूप ॥ जग० ॥ १ ॥ तुजथी  
दु अ नवि निजमे ॥ म० ॥ तो लोकाडा करे हास्य ॥ ज० ॥ ते भाटे सेवक तष्ठी ॥ म० ॥  
लज्ज राभेो भास ॥ ज० ॥ २ ॥ कर्म वादन हरे यथा ॥ म० ॥ ज्ञान सुजग परकाश ॥ ज० ॥  
दीपकभ्येति प्रगठ जिहा ॥ म० ॥ तिहा तमनुं केम वास ॥ ज० ॥ ३ ॥ जिहा होये ध्यान  
भुमारिका ॥ म० ॥ तिहा म विलय यध गय ॥ ज० ॥ शपातीत साधन शुचि म० ॥ तिहा  
अत्राणु न थाय ॥ ज० ॥ ४ ॥ जेदभा जे विभम यशे ॥ म० ॥ तो जडताथी योग ॥ ज० ॥  
अवय शक्ति प्रगठ करे ॥ म० ॥ तो थाये तुम सम भोग ॥ ज० ॥ ५ ॥ आत्म स्वरेपे

आत्म भवे ॥ म० ॥ जितं पशुति निजपद लाय ॥ ७० ॥ जेभ तात्रभा उपधातु भवे  
 ॥ म० ॥ सुवशु भारे वेनाय ॥ ७० ॥ ६ ॥ तेभ आत्मज्ञानी भवे ॥ म० ॥ रीज धपेरी याय  
 ॥ ७० ॥ दिति समर्पि योग साधीने ॥ म० ॥ क्षायिक कथन कदाय ॥ ७० ॥ ७ ॥ मत्र  
 प्रयोगे हेतु ॥ म० ॥ साधन साधकं याय ॥ ७० ॥ तरनसूरि परि शीलना ॥ म० ॥ पु  
 प्यने आनद याय ॥ ७० ॥ ८ ॥ छति ॥

### ॥ अथ धर्मजिन स्तवने ॥

॥ धर्मजिनेसर देव, छे ताराशे रे ॥ तुजविष्णु केभ रहेवाय, पल जेक प्यारा रे  
 ॥ धर्म० ॥ १ ॥ मुने तारवा भाटे नाथ, मुक्ति देवा रे ॥ मुक्तिशु सम्भक्तन, आपो भेवा रे  
 ॥ धर्म० ॥ २ ॥ अठमछ मत्र अष्टाष्टं नठक्यो इरवा रे ॥ अठक्यो आगम देभ, गसागत  
 करवा रे ॥ धर्म० ॥ ३ ॥ कोष मान भायाने बोभ तरकर ताके रे ॥ पशु नवि आने जेर,  
 शमदम आँ रे ॥ धर्म० ॥ ४ ॥ जे अनुभवनी रयता करे, गानी गजुता रे ॥ द्रव्य जे  
 केक मजार, पयाय अनता रे ॥ धर्म० ॥ ५ ॥ कूड कपट कवकतु, स्थान छडा-यु रे ॥ शुचकर  
 वस्तु विशेष, तरतम शब्दु रे ॥ धर्म० ॥ ६ ॥ धूँताने धीरज हेछ, धम जताज्यो रे ॥ पुष्ये  
 सोमविभवसूरि शयनुं, दर्शन पायो रे ॥ धर्म० ॥ ७ ॥ छति ॥

### ॥ अथ शातिजिन स्तवने ॥

॥ शातिजिन णापशु निजशुल्य आपशु तरपसी जल्य मुजने मध्यु जे ॥ शातिसभ  
 शुद्धता, अवर कोने नही प्रेरथा आत्मज्ञाने इत्यु जे ॥ शाति० ॥ १ ॥ जे अनुभावथी,  
 आगम ज्ञानथी लक्षु अवेदी पद शाधनुं जे ॥ पवत धूमथी वहि बि ह जोवप्युं तेभ  
 अलि गता तावतुं जे ॥ शाति० ॥ २ ॥ पट दरतन यथा, जे जेकेक लक्षा, पशु सभभावित  
 कोर्क साधे ॥ नय भग अनुसरी वां हरे करी जेभ सररगने जैन साधे ॥ शाति०  
 ॥ ३ ॥ विधि अनेकता, व्यवहारनी भि नता निश्चय शुद्धानद सदज्जमा जे ॥ ध्यालक्षु कुन  
 जल्यो, म यासि मत अफ्यो सा तेदनेा व्यवहार अफ्यो जे ॥ शाति० ॥ ४ ॥ कया नछ  
 सामर्थ्युं उवा कछे अवरोड्यु तेभ तेभ सशयमा पश्यो जे ॥ जया जेनुं पडिवज्यु, सा  
 तेनी सगे जल्यु, निरपेक्षथी पुष्यविभव सधु जे ॥ शाति० ॥ ५ ॥ छति ॥

### ॥ अथ कुशुजिन स्तवने ॥

॥ धन्य ध य कुशु जिषुदने ॥ मनमोहन भेरे ॥ करीव अयन निल ॥ भवि ज्योदन  
 भेरे ॥ यक्षु हरिसन इरसे नही ॥ म० ॥ आप अयक्षु तप ॥ भवि० ॥ १ ॥ प्रगट केवल  
 यशु जिहवा ॥ म० ॥ इदना नही अर्थ ताम ॥ भवि० ॥ आनद अधिम छपने ॥ म० ॥  
 सभरता तुज नाम ॥ भवि० ॥ २ ॥ आलभन हेछ तारजे ॥ म० ॥ भिर्इ वरेइ याय ॥  
 भवि० ॥ स्वामी दाये भेवापडे ॥ म० ॥ मुजने देता शु जय ॥ भवि० ॥ ३ ॥ पर व्यव  
 साये प्राणीयो ॥ म० ॥ करे अटकमने जध ॥ भवि० ॥ अशुद्धताथी आयस्यु ॥ म० ॥  
 जेभ वा से सुयधध ॥ भवि० ॥ ४ ॥ मानता छच्छता पूजता ॥ म० ॥ प्रगट करे ते भेक्ष  
 ॥ भवि० ॥ गिरिया करी जन रजवा ॥ म० ॥ थाप्यो जेकततो पक्ष ॥ भवि० ॥ ५ ॥ नि-  
 रप अरिन न जोवप्यो ॥ म० ॥ लक्ष विलक्षु गान ॥ भवि० ॥ द्रव्य क्षेत्र काल भावना

॥ म० ॥ भेदाभेदना नश्य ॥ भवि० ॥ ६ ॥ परिसङ्गती पुद्गल तस्या ॥ म० ॥ न करयो  
 छद्धारोह ॥ भवि० ॥ भिद्दु यकी समुद्र नीपणे ॥ म० ॥ भिद्दु समुद्रभा सोह ॥ भवि० ॥ ७ ॥  
 अद्यानता हरे वसे ॥ म० ॥ तो दर्शन मुग्धम ते थाय ॥ भवि० ॥ ध्यान पूर्युता अनुभव  
 ॥ म० ॥ आनंद अधिक सभाय ॥ भवि० ॥ ८ ॥ सत्तरमे जिन सेवता ॥ म० ॥ देवद  
 विभव प० पाय ॥ भवि० ॥ भक्तै रतवन करता यकां ॥ म० ॥ पुष्पने आनंद थाय  
 ॥ भवि० ॥ ९ ॥ छति ॥

### ॥ अथ अरजिन स्तवतन ॥

॥ श्रीअर जिनवर सेवीयें, प्रीति भक्ति होय भिलाय रे ॥ वचन असगथी सेवना,  
 करता पाप पनायरे ॥ श्री० ॥ १ ॥ आगम न्हं पश्चीयां, तेभा नैगभादि नय भेद रे ॥  
 नैगम अभाग न्ने आदरे, ते द्रव्य वियेभन छेः रे ॥ श्री० ॥ २ ॥ छिक्क भिद्दु तृषु जप रे,  
 जे विधि पुद्गल आत रे ॥ क्षायोपशम शुषु प्रगट छे, प्राग्भाव प्रगटयो निहाल रे ॥  
 श्री० ॥ ३ ॥ तद्दवत् मेकमेवता प्रगट करी, आलतिक तीरो भावरे ॥ परम जेकरवता आदरी,  
 पीन सात्विक दृष्टे न्भाव रे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ वीतरागता तादरी, जिहा वीला रागने राप रे  
 ॥ निरजन ते अजन रहितता, धरतरता पद निदोष रे ॥ श्री० ॥ ५ ॥ विम पयक अना  
 दिना, ते निवास्यां पडितवीय रे ॥ ध्यानावनमित आतमा, निष्कपटे कुशय जेम धैय रे  
 ॥ श्री० ॥ ६ ॥ आत्म परमात्म लहे, जे शुभकड पडिमकड साधे रे ॥ तत्त्वविमलसूरि अरखुथी,  
 पुष्पविभव स्वर्षे वाधे रे ॥ श्री० ॥ ७ ॥ छति ॥

### ॥ अथ भद्विजिन स्तवतन ॥

॥ भद्विजिन निकनकता जे, ते शुद्धता केम न्ख्याय जे ॥ द्वाय यपनता निवा-  
 रीये जे, झीजे सूयो धर्म मन भायजे ॥ म० ॥ १ ॥ आर निक्षेपे वाचना जे, शण्ड नये  
 जन्भाव जे ॥ आश्रव निराश्रव परिश्रुमे जे, सद्दु कर्म प्रकृतिने टाल जे ॥ म० ॥ २ ॥  
 अभिनव वस्तु ज्योलापी जे, ग्रहे निज मेधानी पराग जे ॥ आनंद आधिक सपणे जे,  
 थाय निवृत्ति प्रगट पोय भाग जे ॥ म० ॥ ३ ॥ निमित्त शुद्ध प्रयोगथी जे, कर्ता अ  
 कर्ता थाय जे ॥ वस्तुता अप्रतिकारथी जे, उत्पाद व्यय ध्रुव सद्ग सभाय जे ॥ म०  
 ॥ ४ ॥ जेक अनेक रूपे करी जे, वर्तना प्रावत अनेक जे ॥ आनंदविमलसूरीश्वर यकी  
 जे, पुष्पविमलने प्रभुता थाय जे ॥ म० ॥ ५ ॥ छति ॥

### ॥ अथ मुनिसुम्रतजिन स्तवतन ॥

॥ श्री मुनिसुम्रत जिनेद्रा, रहत सदा पूरख्यानदा ॥ अद्यान कभावनी हरे हरदा, स्व-  
 पयायमे रमखु करदा ॥ श्री० ॥ १ ॥ भेदद्यान शुषि पद भावे, परपर्याय नियोगे आवे ॥  
 शुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल स्वभावे, रमतो निम्ननद क्षेत्रे थावे ॥ श्री० ॥ २ ॥ क्षेत्रथी क्षेत्राकाश  
 प्रभाज्जे, द्रव्ये अनता पदार्थ पोछाज्जे ॥ काले अरभावतन आज्जे, बनस्थिति परिपाके व  
 आज्जे ॥ श्री० ॥ ३ ॥ भाव रमखु शुद्धात्म भाहे, द्रव्ये लक्ष्य अरखु न्ख्याय ॥ सुरजे सु  
 भति नोडा कराय, अविसवादे तेथी गवाय ॥ श्री० ॥ ४ ॥ जपयोगी शुषु आतम डेरो,  
 अन उपयोगी पुद्गल अनेरो ॥ प्रतित करी मित आरागे रहवे, सुरि जन सपतिजे  
 खीपरे कहेवे ॥ श्री० ॥ ५ ॥ जे अद्विरातम अहिता प्रसजे, तेहना कता नही प्रभु रगे ॥

हेवेद्र सोमसूरिधी तरवागे, पागे पुष्य सूरिधे विष्णु अगे ॥ श्री० ॥ ६ ॥ छति ॥ ॥

### ॥ अथ नेमिजिन स्तवन् ॥

॥ नेमिजिन सेनता पद पाधये, आतम अनुभव धिर धांमे ॥ राग हेन इरितने  
 हभीये, जिन वयन अनुवर्ध रभीये ॥ नेमि० ॥ १ ॥ तुम ध्याने आदायता अति कडीये,  
 भागे सूधी तत इक्षिषु वहीये ॥ सपति सांप्रत जे करीये, निरपनामे रसासा तो वरी  
 ये ॥ नेमि० ॥ २ ॥ द्रव्य अनतर्तुं नायक रवागी, शुद्धातम भाव विकारिक नागी ॥ मन व्या  
 खने वल तुमे कीधी, ध य धन्य तुम वीर्य प्रसिधये ॥ नेमि० ॥ ३ ॥ नदी अशुद्ध कर्मां  
 कारकनो, भग्नता साधयेके धरता तारकनो ॥ तुज आगे पाण्ड न आने, छंद नागेद्र धनेद्र  
 सु जोले ॥ नेमि० ॥ ४ ॥ प्राप्ति अप्राप्तिधी उभयो धु, परपुण्य करवाधी विरभो धु ॥ न  
 देसा सम अेक धरे, तर-सूरिधी पुष्य विनोद रे ॥ नेमि० ॥ ५ ॥ छति ॥

### ॥ अथ नेमिजिन स्तवन् ॥

॥ नमो नमो नेमि जिषुदने, जड पर पक्षे न राग्या रे ॥ अपून पीडरथु रवागी रे  
 करी पीडुष्ट योमे भाग्या रे ॥ नेमो० ॥ १ ॥ सात नये करी जेकरु, मयन कस्यु नितरी  
 रो रे ॥ पयासितकायभा भून आतमा अवर सल्लु जेय स्वइपे रे ॥ नेमो० ॥ २ ॥ स्वमति  
 विमति बेदधी, अेक अनेक स्वइपे रे ॥ आगम भाव अे परधीये नक्षीये वस्तु स्वइपे  
 रे ॥ नेमो० ॥ ३ ॥ इधी अइधी ओलजे, वदोदय तुमे शक्यो रे ॥ परपरछोदि सम  
 तक्षी विमलता शुद्ध नयधी विशेष्यो रे ॥ नेमो० ॥ ४ ॥ दान आकल्यु निकल्यु करी, भाव  
 दया प्रभटावी रे ॥ तीक्ष्ण्यु वृत्ति अति गाननी, तेदिज यन्थु अनुसरवी रे ॥ नेमो० ॥ ५ ॥  
 सुभति नारी वरिया तुमे भुंयो भमता सग रे ॥ पुण्यविमल सृष्टि यकी, परमानंद धन  
 रग रे ॥ नेमो० ॥ ६ ॥ छति ॥

### ॥ अथ पार्श्वजिन स्तवन् ॥

॥ पार्श्वनाथ जगजुर तजो, परतु धम ते केम जेवाय रे ॥ आतम धमनी विमनता  
 निमलता केम हहेवाय रे ॥ पार्श्व ॥ १ ॥ क्षयिक भूमकित प्रगठनुं, कारण्य कार्य समराने  
 रे ॥ ध्यान जुषु आरोदतां, समभिरुद नय शुद्ध लेवाने रे ॥ पार्श्व० ॥ २ ॥ सावजन पद  
 स्थिति निहा, निरावजन इपातीत रे ॥ जेवजुते सिद्ध तुअे अन्तरांतर पदनी प्रतीत रे  
 ॥ पार्श्व० ॥ ३ ॥ जिन पदावपित आतमा, ज्योतिनय ज्योति सभाय रे ॥ अण्वाणाय  
 स्थितिनयी, अे आगम प्रमाखु जभायरे ॥ पार्श्व० ॥ ४ ॥ ससार भाहे नहयो धम,  
 ध्यान जे अेक्षीपरे भावे रे ॥ तेदने सुकित छदा नक्षीये, अनुमान प्रमाखुने दावे रे ॥  
 पार्श्व० ॥ ५ ॥ आधाराध्येय स्वइपधी, वाद विवाद न मय रे ॥ शक्त अध्यात्म रसि सधे,  
 नसु पार्श्वे छंदय रत्ना होय रे ॥ पार्श्व ॥ ६ ॥ युक्ति नक्षी जे आदरे आसित नासित  
 जे० रे ॥ मृत्तिम जलकता त्रयोमधी धट व्यकित कदाय अन्ते० रे ॥ पार्श्व० ॥ ७ ॥ तल्लु  
 अपेक्षिके पट व्यकितता कता भावे सधाय रे ॥ तेम कानक शुद्ध प्रयोगधी जमित वृत्ति  
 अनुभव रे ॥ पार्श्व० ॥ ८ ॥ तृणभा जेम धृत शक्ति कही नेगमनय असे जेता रे ॥  
 तेम सताभा पारस पट्टे ते सयद नयधी लेता रे ॥ पार्श्व० ॥ ९ ॥ शुद्ध नये आरोदतां,

तुरिया शुद्धध्याने कहेवाय रे ॥ वस्तु पृथक् विचारता, जेव्ही अनेकता थाय रे ॥ पार्श्व०  
 ॥ १० ॥ निग अही अलिग प० रहे, तसु साधन शुद्धता होय रे ॥ जेम कतकथी जलमन  
 भिन्नता, प्रयोग थकी शुद्ध ज्ये रे ॥ पार्श्व० ॥ ११ ॥ रज्जुने कृष्णी उरी मानीये, जिहा  
 लगे अधकार हेभाय रे ॥ आप स्वप्न विचारता विभाव परिष्कृति विदाय रे ॥ पार्श्व०  
 ॥ १२ ॥ अन्य उहे ते पर दृग परे, ज्युक्त सिद्ध न कदाय रे ॥ जड ज्युक्त परे ज  
 ष्ठीये, जेतन सिद्ध शक्ति लहाय रे ॥ पार्श्व० ॥ १३ ॥ कचन पीतवनवि होवे, रत्न  
 काय केम थाय रे ॥ भिन लही प्रतिभासथी, हेमे निज आतम राय रे ॥ पार्श्व० ॥ १४ ॥  
 गान दशन गुप्ति जहा लुने, वैराग्ये निरपक्षता साधे रे ॥ पुण्यविमनस्सरि तरवथी, पर  
 मानक धन वाधे रे ॥ पार्श्व० ॥ १५ ॥ छति ॥

॥ अथ महावीरजिन स्तवन ॥

॥ अरभजिनेसर नभीये रे, हो मनमोहन वीर प्रभु ॥ प्रभु दशनथी दु म गभीय  
 रे ॥ हो मन० ॥ अमे ध्यान तमाङ्क धरीय रे ॥ हो मन० ॥ ज्येथी विचित्र सेजने वरीय  
 रे ॥ हो मन० ॥ १ ॥ तुमं त्रिशता कुन अष्टुवाह्यु रे ॥ हो० ॥ तुमं जगु तीरथ पाहु  
 रे ॥ हो० ॥ तमे लोकभा जियोत कीधी रे ॥ हो० ॥ दवे महादेश कारज सीधी रे ॥ हो०  
 ॥ २ ॥ सोढमथी दुपसह सुधी रे ॥ हो० ॥ सहस्र ऐकपीश वर्षनी बुद्धि रे ॥ हो० ॥  
 दुःखअवसर्पिणी कान रे ॥ हो० ॥ निर्वहेगे दुपम आर रे ॥ हो० ॥ ३ ॥ तुम आग-  
 मथी शुद्ध यावु रे ॥ हो० ॥ अे अवसर लही मन भावु रे ॥ हो० ॥ अज अजुयोग नि-  
 दायु रे ॥ हो० ॥ गान धंधये कर्म प्रजहु रे ॥ हो० ॥ ४ ॥ भित्था भतं हवे नदीं लहु रे  
 ॥ हो० ॥ आतम दृष्टेथी विचार्यु रे ॥ हो० ॥ सात नय सप्तमगी प्रभागे रे ॥ हो० ॥  
 अगोपाग वभावे रे ॥ हो० ॥ ५ ॥ भाव निक्षेपं रात्री आराधे रे ॥ हो० ॥ द्रव्यारितक प  
 र्यायागित साधे रे ॥ हो० ॥ ध्रुव गौड्यता मुप्य स्वभावे रे ॥ हो० ॥ छति छता सम्भान  
 रे ॥ हो० ॥ ६ ॥ पाप पुण्य प्रकृति कडिये रे ॥ हो० ॥ तेदशु नही नेह निरवधीय रे  
 ॥ हो० ॥ अद्यय पुत्र होय कडीये रे ॥ हो० ॥ पथु व्यवहारे भिन लकीये रे ॥ हो० ॥ ७ ॥  
 ऐक जल भात विप्रने सोप्ये रे ॥ हो० ॥ तेजे भास भदिरा लुकत्ये रे ॥ हो० ॥ अ-  
 गान नीय कर्म ते कीधु रे ॥ हो० ॥ तेजे शुभ अनुभ द्रव लीधु रे ॥ हो० ॥ ८ ॥ अध  
 अनध परिष्कारे रे ॥ हो० ॥ अनियतिकरणु ने धामे रे ॥ हो० ॥ योग सहित अयोगी  
 कीधे रे ॥ हो० ॥ होय प्रकृति सभ सिद्धे रे ॥ हो० ॥ ९ ॥ पश्युषु दाष्टी वृद्धि लभीय रे  
 ॥ हो० ॥ अशुद्ध लघु व्यवसाय रे ॥ हो० ॥ काय लही शुद्ध जपानने रे ॥ हो० ॥ सूक्ष्म  
 स्तुवता अनुमाने रे ॥ हो० ॥ १० ॥ शुष्णी जनने सुशुष्णी भक्षवे रे ॥ हो० ॥ आनद  
 अधिक तिदां कवे रे ॥ हो० ॥ अमे राकित तुभारी गवेपी रे ॥ हो० ॥ तो लब्धि सि  
 द्धि अमारी येगी रे ॥ हो० ॥ ११ ॥ जड भावे जड अघे रे ॥ हो० ॥ जेतन जेतन  
 अजधे रे ॥ हो० ॥ भायें अकता आतम कडीय रे ॥ हो० ॥ तो आप स्वप्न सहज  
 लकीये रे ॥ हो० ॥ १२ ॥ निज निज शेनावगाही रे ॥ स्वजति विजति न याही रे  
 ॥ हो० ॥ स्वयुषु विद्युषु ननि होवे रे ॥ हो० ॥ ते तो राजनीतिशु ज्येवे रे ॥ हो०  
 ॥ १३ ॥ अतरयुद्धं मने रे ॥ हो० ॥ अचित क्रिया साधे आवे रे ॥ हो० ॥ सङ्ग द्र

બનો જાણ્ય તે આતમ રે ॥ હો ॥ નિજ આસ્વાદે ભુક્ત તદાતમ રે ॥ હો ॥ ૧૪ ॥  
 તપમન્ન લધુ પોસાગારે રે ॥ હો ॥ વિશાલ સૂરિપન્ન ધારે રે ॥ હો ॥ ૧૫ ॥ જન સોમસરિ  
 મુનીન્દ્ર રે હો ॥ હો માખ પ્રગટી જગત્ત્ર રે ॥ હો ॥ ૧૫ ॥ આનદવિમલસૂરિ રાખા  
 ॥ હો ॥ તસ પાટૈ દેવેન્દ્ર સોહાયા રે ॥ હો ॥ તત્ત્વસૂરિ તિલક નદાયા રે ॥ હો ॥ પરમા  
 નદ પુષ્પસૂરિ ગાયા રે ॥ હો મન ॥ ૧૬ ॥ ઈ ॥ ઇતિ શ્રી પુણ્યનિમલ સુરિકૃત વ  
 જુવિ શતિચિન્નસ્તવનાનિ સ પૂર્ણાનિ ॥

### ॥ અથ પ્રથમ પદ ॥

॥ આનમ અનુભવ પ્રગટ ભયો જન, મોહકી કીમત મતિ ॥ પ્રથમધારા વહે જનુ  
 અનોપમ, વા વડવાનવગી કૌન મતિ ॥ આતમ ॥ ૧ ॥ જુ લો મન બસ ની હોવત, તુ  
 લો ન જનના સોહી ॥ જનના સ્વરૂપ નિજ દુષ્ટે વિચારી, સીચીયે. પદ તેવ કાહી ॥ આ  
 તમ ॥ ૨ ॥ વમતવદન ભયો જીઠ સુધારસ, ચિતામણિ ચિત્ત ચાહ કરીરી ॥ ઇચીયો ચિ  
 તામણિ પુષ્પસૂરિશુ, પરમાનન્દ ધન પદ વરીરી ॥ આતમ ॥ ૩ ॥ ઇતિ ॥

### ॥ અથ દ્વિતીય પદ ॥

॥ હો આતમજી, અનુભવર્મા રમતા તમને શુ ધાય છે ॥ એ તો વિષય કપાય અ  
 તિ વિરૂઆ છે, જગ કલક ચઠાવામા ખલિયા છે, પર પ્રૃષ્ઠિ ખઠાવામા ખલીયા છે એને  
 મુકે પરમ સુખ મલીયા છે ॥ હો આતમ ॥ ૧ ॥ તમે નિમનદના ભોગી છો, સ્વપર  
 વિવેચન યોગી છો, વલી રાગ દેષના ચૂરક છો, વરી ધ્યાનાનદે પૂરક છો ॥ હો આતમ  
 ॥ ૨ ॥ તમે ન્યાય અન્યાસ પ્રમાણે છો, વિશુદ્ધ અવિશુદ્ધને જાણો છો, વરી કેવન લક્ષ્મી  
 વિલાસી છો, પરમાનન્દ ધન પન્ વાસી છો ॥ હો આતમ ॥ ૩ ॥ ઇતિ ॥

### ॥ અથ તૃતીય પદ ॥

॥ મેરે તો એક એવ સ્વરૂપ સત્યાસત્ય પચાયમે ॥ એક અતેન્ પ્રતિરૂપ, વાગે  
 યોધન શુદ્ધ છે, ભેદજ્ઞાન જગદીશે ॥ મેરે તો ॥ ૧ ॥ સહજ ભાવ જે સાંભરે, કરે  
 દીલકા ઘુતિ ઉન્નમે ॥ માયા દૂર કરી દીલથી, સાધ્યાત્મ ભાવમે ॥ મેરે તો ॥ ૨ ॥  
 મોહ બદ નસાડીયા, અતરસુદૃત વિનાથી ॥ મનોવગથા પુદ્ગલ દેખી, જાગ્યો આતમ  
 રાથી ॥ મેરે તો ॥ ૩ ॥ મનની અપતતા રોધવી, એદિજ મહોટા ધર્મ ॥ તત્ત્વવિમલ  
 સૂરિથી લલો, પુષ્પસૂરી પન્ સ્વ ॥ મેરે તો ॥ ૪ ॥ ઇતિ ॥

### ॥ અથ ચતુર્થ પદ ॥

॥ અહો મેરે સુગાની સુગુલુ સનેલી વાલમ કાઈ મિલાવે ॥ અરે દિલલાઇ દલાલ  
 કાઈ એસા દે સ્વાગીકુ દિખલાવે ॥ અહો ॥ ૧ ॥ રાત દીવમ મે તો જુરી ગમાવે,  
 પીયુ ખિતુ દતુ નહિ ભાવે ॥ ખિન્દ જલ ખૂલે અખ મેરી તો સુખ સમૃદ્ધિ ધાવે બ  
 હોતેરી ॥ અહો ॥ ૨ ॥ મહાનન્દ પદના દાતા છો, અનુભવ રસના માતા છો ॥ નિ  
 સિવાદનર્મ મશન જેવા છો, નિર્મલ જ્યોતિ નિરજન તેવા છો ॥ અહો ॥ ૩ ॥ અદાને  
 સેને સોભાયા છો, વિવિધ પીયુસમ સોભાયા છો ॥ પુણ્ય વિમલ પન્ ધ્યાયા છો પરમાનન્દ  
 મિતયા છે ॥ અહો ॥ ૪ ॥ ઇતિ ॥



### ॥ अथ पचम पह ॥

॥ तु मोहे क्षयकु सतावने लगी वी गति तोसे हमेरी सेजे, निगोःमे गिजी ॥ ते  
री भातमे रहू जोग व्युष्ठ, तो सभता सप्पी जवे विठूरी ॥ तु मोहे ॥ १ ॥ तुम सग  
ते रहो आर गतिमे जेतना, निज शुद्धि जिसारी परभाव कभाधम ॥ पुष्पविभूतसूरि  
पिय आवे छे भभि, अतुमवनी सेजे रमजे विनोःनी ॥ तु मोहे ॥ २ ॥ छति ॥

### ॥ अथ नेमजिन स्तवन ॥

॥ समुद्रविजय सुत सुद्ध रे काष्ठ, भाता सिवाहे लाव ॥ प्रीतम पातनीया ॥ भातो  
अभारी नीनती रे काष्ठ, कश्चा करीने कृपाल ॥ प्रीत ॥ १ ॥ तोरखुयी रथ देरवी रे काष्ठ,  
गु या या महाराज ॥ श्री ॥ नदव जनमा आपक्षी रे काष्ठ, धष्ठी वधारी लाज ॥ प्री ॥  
॥ २ ॥ धनदेव धननती भन भष्ठी रे काठ पोषो परिगन प्रीत ॥ प्री ॥ मुज महिर  
पावन करो रे काठ, आपी रसनी रीत ॥ प्री ॥ ३ ॥ नर वि भक्ति जनावीने देह तो,  
कश् तुमारी सेन ॥ प्री ॥ अगे तुमारा दामडा रे प्रभु तुमे अमारा देन ॥ श्री  
॥ ४ ॥ मुप भठके जग वरा करो रे काठ, द्रग लठके हरो भन ॥ प्री ॥ धरमा हु भूती  
कई रे माडाई, विरहे हाजे तर ॥ प्री ॥ ५ ॥ रात न आवे निद्रडी रे दे तो, रहू छु निल  
पिास ॥ प्री ॥ दिवने न लागे भूपडी रे भठ, नहो पाष्ठीशु प्यार ॥ श्री ॥ ६ ॥  
डुडी करी कुडी अरो रे मुने, छटकी दीषो छेद ॥ प्री ॥ श्रीगया पान तथुी परे रे काष्ठ,  
नाथो मुज पर नेद ॥ प्री ॥ ७ ॥ विरह व्यथा पीडे धष्ठी रे मुने, जखे ते किरतार ॥ प्री ॥  
मोहवरो जेभ जोलती रे काठ, पोहाती प्रीतम पास ॥ प्री ॥ निमोडी सयम अडी रे  
काठ, पाभी केवल भास ॥ प्री ॥ ८ ॥ अश्रुत पं राणु न वरी रे भीषु, नेमनाथ ज्यु सग  
॥ प्री ॥ जे अविचन जेडनी प्रते रे काठ, नहे नित्य निल रग ॥ प्री ॥ छति स्तवन ॥

### सभास

ज्ञान सभो कोष्ठ धन नही, सभता सभो नही सुभ, ज्वित सभ आशा नहो, ले ज  
सभो नही हु भ ॥ १ ॥

### भावना

प्रभु दरान सुभ स पह, प्रभु दरान नननिध प्रभु दरानथी पाभीजे, सकण पहारथ सिद्ध  
भावे जिनवर पूछजे, भावे दीजे दान, भावे भावना भाविजे, भावे केवजगान २  
जगनयाधार कृपावतार, दुवार स सार विभर वैव, श्री पीतरागे तुद्धि मुक्ति  
भावा, दिग्ग प्रभो विशय्याभि क्रियित ॥ १ ॥

हेभीरे अद्भूत तादर ३प, अयरिजे भविकाशपी पं वशे, प्रभु ताडारी गत तुं  
जखे हो देव, सभरखु भज ले के वायक जस कहे १

વાડી ચયો ચોરીયો, સોલન પાખડીએ પાસ જિનેશ્વર પૂજ્યે પાયે આગળીએ ૧  
 યલા કેરે ખાગમે, બેટે શ્રી જનરાજ, જેમ તારામાં ચદ્રમા, તેમ શીમે મહારાજ ૨

### લાવણી

તું અકલકી રૂપ સરૂપી, પરમાનન્દ પદ તું દાઇ, તું સકર પક્ષા જગદીશ્વર, પીત  
 રામ તુ નિરમાઇ ૧ અનોપમ રૂપ દેખી ગુજ રીએ, સુરનરનારી કેવદા, નમોનિરજન  
 કૃષ્ણપતિ સેવિત, પાસ ગોડીયા સુરકલા ૨ કાને કુડળ સિર છત્ર ખિરાળે, ચતુ રીમ  
 નિરધારી, અષ્ટ બીજોર દાઇ સોહીએ તુમ વદે સદ્ગુ નર નારી ૩ અગ્નિ કાષ્ઠે સપ  
 નિકાલયા, મત્ર સુનાયા બહુ ભારી પૂરવ જ મકા વેગ ખોલાયા, જલ બ સાયા શિરધારી  
 ૪ જળ વ્યારી પ્રભુ નાકે અડીયા આસન કપ્યા નિરધારી નામ નાગતી છત્ર ધરે છે,  
 પૂર્વ જન્મકા ઉપકારી ૫ રૂપનિઝ્ય કહે સુધ્ય મેરી લાવણી એસી શોભા બહુ સારી  
 માત પિતા બાધવ સહુ સાયે, સન્નમ લીધાં નિરધારી ૬

આતુ અષ્ટાપદ ગિરનાર, સમેતગિખર સેતુજે નાર, પચ તીરથ એ ઉત્તમ ધામ, મોક્ષ  
 ગયા તેને કર પ્રણામ

### શ્રી સિન્ધાચલનુ સ્તવન

#### ટોહા

અકેકુ ડગલુ બરે સેતુજ સાનુ જેવ સપ્તમ કહે ભવ કોડનાં, કર્મ ખપાવે તેહ ૧  
 સેતુજ સમો તીરથ નહી, સપ્તમ સમો નહી દવ જાતમ મરખા ગુર નહી, વળી વળી  
 વડુ તેહ ૨ સિદ્ધાચળ સમરૂ સદા સોરઠ દેશ મોખર મનુષ્ય જનમ પામી કરી, વડુ  
 વાર હખર ૩ સોરઠ દેશમા સચરો, ન ચદયો ગઢ ગિરનાર, સેતુજ નદી નાલો ન  
 રી, તેનો એલે ગયો અવતાર ૪ સેતુજ નદીમાં નાહીને મુખ બાધી મુખમશ, દેવ  
 યુગાદ પૂજ્યે આપી મન સતો ૫ જગમાં તીરથ હો વડા, સેતુજે ગિરનાર, એક  
 ગઢ સપ્તમ સમોસયા એક ગઢ તેમકુમાર. ૬ સિદ્ધાચળ સિદ્ધિ વયા, મુનિવર અ  
 નતિ મોઢ બયા મુનિવર મુગતે ગયા, વડુ એ કરનેડ ૭ હપ્તલ ઉપર છ ગયા સાબળ  
 ધરની નાર, જેણે સેતુજે ભેગ્યો નહી, તેનો એલે ગયો અવતાર ૮ સેતુજ્ય ગિરી  
 મુજો, મરૂદેરીનો નદ, શુગલા ધન નિચારકા, નમો યુગાદિ જિજ્ઞુ ૯



નારિન પામે અધકાર, જ્ઞાનેવી રીતે તુમે મળ્યાથી, રહે ન કંઈ લગાર. જ્ઞાને  
 મોગ વેળે અતે રવામી તારણે તમે નિરધાર જ્ઞાને હવે તાને કારણુ જિનછ, ધણી  
 કરા હો વાર જ્ઞાને મનગરથી દીન દયાણુ કરસો અમ ઉપગાર જ્ઞાને તુમ ચ  
 રણુએ શીલ નમાવી નમીએ વાર હગાર જ્ઞાને દાન દયાના માગ મળી સહુ વદે  
 વાર તાર જ્ઞાને કરજોડી તુમ પાને માગે, આપો તિવસુખ સાર જ્ઞાને

૪


( નાથ કેસે ગજકો બધ હોડાયો એ ગગ )

પરમ પ્રભુ તું છે પરમ ઉપગારી, નમે સુર અસુર નર નારી પરમ સચ્ચિત્તનદ મોહન  
 મૂર્તિ, ભવિ ભવ ભજનકારી, કરમ રિનાશી તું અવિનાશી જગતમા દુઓ જ્યકારી, પ  
 રમ નહુ તું છે પરમ ઉપગારી નમે ૧ કર દ્ય જોડી તુમને નમે છે, મુનિવરને  
 બહાચાગી શ્રદ્ધા રૂપી નીરમા નિત નાગી, જે જ્ઞાને મકિત વિચારી, પરમ પ્રભુ તું છે પ  
 રમ ઉપગારી નમે ૨ તે જ્ઞાનના મનસાગિન પૂરે, સમાર સામર તરી, જિનમણી  
 રસન દાસ ઈચ્છે છે, આપો જિવ સુમકારી પ મ પ્રભુ તું છે પરમ ઉપગારી નમે ૩

૫

કામ છે દુષ્ટ વિકારી એ રાગ

શી ગતિ યાતે હમારી હા હા રે પ્રભુ તી ગતિ યાગે હમારી, ચાર દુટ મારી કેડે  
 પડ્યા છે કોષ માન મોહકારી હા હા રે વળી માવા મારે છે મુ રને, વૈરી એ અમ કેલ  
 ભાગી હા હા રે તે કારણુ તુમ મરણુ આરી રીનતડી અરધારી હા હા રે તુમ વિના  
 તે સરે દુટો જાગે મ નિચારી હા રા રે આ જગમ મ દેર ધણુ છે બહા કૃષ્ણ મોસારી  
 રા હા રે પીર પેમબર ને વળી માના જોવા જગમ મ ધારી હા હા રે તે સરેમા તુ  
 જ્ઞાને દેખુ ગણુ શુકુના બકારી હા હા રે તુમ વિના દુજ્ઞે નવી રસમી, દુનિયામો તારણુ  
 હાગી રા હા રે માગે દયાણુ દુટોને કાઢી, દેખાડસો તિવ તારી હા હા રે દાન દયાના  
 બાળ મળીને, એટલી અગલ શુભરી હા હા રે



॥ શ્રી રૂપમજિનના ॥

( આહા પ્રભુ કામ છે દુષ્ટ વિકારી એ રાગ )

સરમ પ્રભુ પદપન્જ મન મોડુ, પદપન્જ મન મોડુ રૂપમ જો ટેક જોસક  
 સુરવર મુગટ અરણુ પર ધરિ ભવ ભવ પાતિક ધોયુ તુજ પં ભવતારક દુ ખદારક, જોઈ  
 જોઈ જા જોયુ સરમ ૧ પ્રેમધકી જેણે તુજ પ પૂળ્યા, જ મ મરણુ દુ ખ ખોડુ  
 જૈન સના કેશવ જિનવર પદ ભક્તિ વિરે વિત પ્રોડુ રૂપમ ૨

૨

( ગાગ બાણુકારો )

તુમે આગર ઉપગારી આજ અલ સુજ્જને હમારી મુજ પીનતગી અવધારો,  
 આ ભવધી પાર ઉતારો રે જુઓ પ્રેમ નગરથી બાળી આજ અજ્ઞાને ૧ દુવો સદ્ય

નિન્સ તે હમારો, દેખ્યો દેદાર સ્વામી તુમારો રે, તુમ નૂરતી લાગે બાટુ પ્યારી આગ  
અ-૧૦ ૨ પ્રભુ તારણદાર હો સ્વામી વળી મોક્ષ વધુના ગામી રે, હો નિરાગી સુખકારી  
આગ અ-૧૦ ૩ પ્રભુ અવિચળ સુખકૃ આપો, નિન દુખ હમારાં કાપો રે, શુ ગુવો હો  
નિન વિચારી આગ અ-૧૦ ૪ સ્વામી અતરડની વાત, કહીએ તે કોને તાત રે, તુમ  
વિના ન જાવે શુનગી આગ અ-૧૦ ૫ સાહેબ મરદેવી જિજ્ઞુદા, અને નાબિરાયા કુ  
ળ ચદા રે, સુનદા સુભગળા નારી આગ અ-૧૦ ૬ ચક્રી ભરત પાટુમળ પ્રુત, દુગ્મ  
અમાણુ વગ સત રે, તે સવેને લીધા તુમે તારી આગ અ-૧૦ ૭ કેમ મૌન ધરો મુગ  
વેળા, નર્દી કગતા રાવપૂર ભેળા રે, રો અવશુષુ અમત્રા ધારી આગ અ-૧૦ ૮ નવ  
કરોને ગારા તારા તુમે કદાવો જગત આધારા રે વળી અનેક શુભુ ભડારી આગ અ-૧૦  
૯ નુ ઝાનુ તમોને કહીયે, દાન દયા સુખનાન લઈએ રે, સ્વામી કહીયે વાર હનરી  
આગ અ-૧૦ ૧૦

## ॥ શ્રી અજિતનાથ જિનના ॥

### લલિત છંદ

અનિતનાથજી અ-૧ ઉચર, તુમ કૃપારકે ભવનિવિ તર, રારણુ આતીયા દાસ આ  
સમે, વિનયથી વિભુ વદીએ અમે ૧ વિનયથી ચગ્યા વનિતાના પનિ, જનની આપના  
વિજયા સતી, રમણી મુકિતથી રોજ તું રમે, વિનયથી વિભુ વદીએ અમે ૨ જય જગત્પ-  
નિ છન ગચીએ, બજન બકાનું બકિન સાચીએ, તરણુ તારણા તાત હો તમે, વિન-  
યથી વિભુ વદીએ અમે ૩ કુગલ યે કર્યા પાપ મે ધણાં, કુલીગ મેવતા રાખી ના  
મળ્યા, સુખ સેવથી પાપ સો સમે, વિનયથી વિભુ વદીએ અમે ૪ વિપય વૃત્તિથી  
નવ ના કરવું ધન નૂતી પલું વૃગમા ધરણ, અવર દેવતા દિન ના ગને, વિનયથી વિભુ  
વદીએ અમે ૫ સ્મરણુ સ્વામીનું હુ કરું સઠાં, તરત ઠાળશે આપ આપદા, સુરપતિ  
સુ નાથને નમે, વિનયથી વિભુ વદીએ અમે ૬ જૈનની સમા છનજી જપે, અચિત  
સનના પાપ તો ખપે, મમગતો નથી વદના વિધિ, વિનયથી આપને કેરાને કીધો ૭

૨

### દેનાનો દયાળ છોટી કોને શરણુ જાઉં એ રાગ

જય ! જય ! જિનજી આગ, અરજ આ રિવકારો, અનિત સ્વામી સમરું સદા, વિપતી  
વિદારો જય જય ૦ ૧ નમુ નમુ ભવ નિપાત, નાથજી નિવારો, કુમનિ કાપી સુમતિ  
આપી, સરયા સુધારા જય જય ૦ ૨ દીનાનાથ દુખ તણો, આણુ દવે આગે, કૃપા  
નિધિ ! કામા કરો, વાક જે અમારો જય જય ૦ ૩ જ્ઞાત ભગની માત તાત, તું પ્રભુ  
અમારો, પાં પંખ પૂજું કરું, પાપને પ્રદારો જય જય ૦ ૪ ઉર અવાસ પ્રણુપતિ,  
ત્રેમની પધારો, કેતવલાન સદિત સ્વામી, જૈન સમા તારો જય જય ૦ ૫

૩

### ( ખાનાની પલ રાખ પ્રભુ તાગ એ રાહ )

નવ બજન ભગનાન, ભવિ બગ્ને ભય બજન ભગવાન એ રેક અનિત જિનેશુ

આપ તૃપા કરી, આપો ભવ અવસાન ભવિ ૧ વૈશાખ મુન્તી ત્રયોદશી દિવસે, અવિયા વિગ્રય વિમાન, ઉપન્યા અયોધ્યા નગર નાયજી વિજયા કુખે શુભવાન ભવિં ૨ મહા સુ. અષ્ટમી દિન જિન જન્મ્યા, દીપા અદાક વાન ધર ધર તરીઆતોરજી બાધ્યા, માય શુભી શુભવાન ભવિં ૩ જિતશત્રુ તૃપ આપ પિતા તે, પરીપૂરજી પુ ય વાન, વીર્યકર સુત મોહ તિમિરે હર, સાહિખ સુરજ સમાન ભવિં ૪ ત્રયુ જગત સુદે સ્વામી સમરજી મુ, ધરજો વીનતિ ધ્યાન, જૈન પ્રવતક શિવસુત કેશવ માગે કેડળ શાન ભવિં ૫

૬

## ( રાગ હુમરી )

જાતુ સખી જિન મદિરકુ, નૈ અજિત જિનદકુ ધ્યાતુ રે, જાતુ સખીં એ ટેક જિનજીસે પ્રીત લગી તનમનસે, ચરજીમે સીત નમાતુ રે જાતુ સખીં ૧ અષ્ટ દ્રવ્યસે પૂજ કરકે, મનવહિત કૃણ પાતુ રે જાતુ સખીં ૨ જન સમુદ્રસે પાર ઉતારો ધતની અરજ લગાતુ રે જાતુ સખીં ૩ કરજોડી મ્હે ચ. ગોપાલ, ચરજી કમળ ચિત લાતુ રે જાતુ સખીં ૪

❧ \* ❧

## ॥ શ્રી સમવનાથ જિનના ॥

## ત્રોટક

શુભ સભવ સાહિખ સેવ સજી ભવ ભાવટ ભજન દેવ જાજી જગજીવન થી જિનરાજ જયો અભિવદનથી અથ જોવ ગયો ૧ શન ચાઠ ધતુપતી દેહ સુભી, ભવિ ભાવ ધરે કરજોડ શુભી જસ મોખિત સોન કાય સહી હય લછન લછન અલપ નહી ૨ મનમોહન આનદ રાઈ શરી, હય આખ દિપે અરવિદ હરી, શુક નાજીક નાક મનોહર છે અધરો પરવાળ સમા વર છે ૩ ઉપદેશ રિમેય નુપા સરખો ભવનાટક સિદ્ધ યજી નિરખો સુભીએ વિનતી જિનજી કરજો અમ સેવક સાહિખને શરજી ૪ ભવમા ભમ તા જગવત મળ્યા, પદ પ્રાપ્ત થયે પરિતાપ ટળ્યા, જગનાથક લાયક પીડ હરો શિવદાયક સેવક સાય કરો ૫ કરજીઉવિષિ કરજી કરશે અમને ભવસાપર ઉદ્ધરશે, ભવી જૈ નવવતકની વિનતી, વગી કેશવ જન પવિત્ર થતી ૬

૨

## ( આઈ એમ વેગી શુક બગાળી બાધુ એ રાગ )

સભવ સ્વામી જગ જન તાતા, શ્યાત તાત મુજ તું ભગવાન સાહિખ તારૂ શરજી કહેજી અરિકી આપો ભવ અવસાન ૧ પૂરજી આશ ધરી ઠું આ થો નેક નજરથી નાય નિહાળ, નમું નમું તુજ પંચકજને, દયા કરી મુજ દુખ નાજળ ૨ વીતરાગ મ મળદાતા છે તુજને જાતુ દીન દયાગ, પાપ પ્રાતનો અત કરીને સેવકને શિવ નમરી આદ ૩ અધમોદારક નરક નિવાઈ, પૂરદર પૂજે છે પાય જૈન સમન્યા તુજને વદે નાજીક માગે શિવપં. સાય. ૪

३

( छाड लगरवा भूरुप भोरी धाधु-ओ राग. )

तारो रे सजन स्वामी, भवोदधि तारो रे, ६५ करणेडी कडे, सेवक तमारो रे तारो रे०  
१ लपट जपट जट, करम कटक कट, पावक वी परभेशे रे, पावक पावक पावक रे, केशव  
प्रवर्तक विपति विहारो रे, तारो रे० २

॥ श्री जभिनदन जिनना ॥

राग धद्रिसलानो

जय जग व नम हुदनम हरिसखु, दीजे देव दयाण, दरनिश दानर रहु दणुरमा,  
हुं करणेडी कृपाण, श्री अभिनदन अदन अरयु, वदन करी विशेष, जगदानदन दुरित  
निकदन, अरपो गान जगेश जय० १ भवसागरमा भक्ति वगर हुं, भटकपो भूती  
भान, अनुकपाथी आपो अरिदा, भव अटपी अवसान, निगोदधी निकणी नाना हु भ,  
नरके सला निदान, पूरव पु य उलयी आ भव भवे भव्या भगवानं जय० २ ५  
रम कृपाणु पावन पकडयो, धरी उकुडी आश, सेवक उपर करे सुदष्टि, विश्वभर विश्वास,  
आरा आप तक्षी उयापी, करी अपराध अनत, निहक थर्छ निधा निर्ग्रयो, णहु सता-  
र्या सत जय० ३ शरजे आण्यो साया साद्विन, भय भागो भगवत, कश्चासागर  
कृपा करीने, तारो जयक जत आरा पारपूरथु प्रभु करेशो, धरतो विनती ध्यान, वे  
नप्रवतक सिव सुत केशव, नूधे जिन शुभु गान जय० ४

२

( कडु शु नसीये दुःभीओ कीधो छे ओ राग )

कश्चा नमरथी प्रभुछ कृपाणु, दीछओ हरीशन देव दयाणु, कश्चा० ओ रेक अ  
मिनन प्रभु पाप निकदन, भक्ति यकी भव भव हु भ टाणु कश्चा० १ अरथु रारथु  
स्वामी करथु हुं आण्यो, आप प्रतापथी पाप प्रभणु कश्चा० २ भव भय भजन  
भजन करता साद्विन समकित शुभु अणवाणु कश्चा० ३ जैनप्रवर्तक सिव सुत  
केशव, नदाव थयो प्रभु शुभु निदाण्यु कश्चा० ४

३

राग धद्रिसलानो

निरय निकदन भव भय भजन, परम जिनेश्वर राय, सवर नदन श्री अभिनदन,  
कन्यनवरणी भाय १ भान सिद्धरथी जया प्रभुछ, सिवशुभना दातार, माध शुद्ध  
पीर दिन प्रभु जनमा, रवि सम तेज देवर २ नगरी अयोध्यानो जिन स्वामी,  
अविशुभ लछन पाप निवछन निराभय जिनना, आपण्डण शुभु गाय ३ जग दि  
तशारी जग उपगारी, अगण्ठित शुभुना आम, माणिकविजय नमे पदप कन, देजे सि  
वपुर धाम ४

( पूर्ण यथा छे जेस सज्जनो जे राग )

अद्रप्रथम भगवान, सेवो भवि अद्रप्रथम भगवान, जे रेक येतर वही प्रथमी  
 दिन यवीया, शुभ विजयत विमान सेवो० पोप वही पारस दिन जनभ्या, अद्रपुरी  
 शुभ स्थान सेवो० लक्ष्मणा ननगी नया प्रभु सार राग निदान सेवो० मदी-  
 सेन नरपति प्रभुना पिता परिपू षु पु यवान सेवो० छुपति सज्जन पाया जिनज्ज,  
 काया छिं सभान. सेवो० दीक्षा लक्ष प्रभु केवण पाया पाया सिवपुर स्थान सेवो०  
 देनसभा मुनि भाषिके भागे, आपो केवणगान सेवो०

— \* —

॥ श्री सुविधिनाथ जिनना ॥

( राग कल्याण )

श्री जगतपति प्रभु वार कुपति, पार ताप कापी आन मु र सुभति जे रेक  
 भवजन तारखु दु म विनायु, निरय निवारखु देव, मुकितकारक भरि भयवारक, वासव  
 आरे मेव. श्री. १ जग जन रजन यल नीतज सुविधिनाथ भगवान, वाभा नल  
 इरित निकहन आपो शिवइण हान. श्री० २ सुभीर नरपति कुतभी पति छिं निगण  
 काय अविद्यग धामी शुषु शुभु भाभी, वलन करीजे पाय. श्री० ३ परम इयाणु परम  
 जिनेश्वर सकण देव शिरताज भव रलाकर पार उतारी सारे किकर काज श्री० ४  
 जैनप्रवतक मज्ज वडे अवरत पद अरविह, भाषिकेने अमृत पद आपो, अरिहा कु  
 राज कद श्री० ५

— ❦ —

॥ श्री शीतलनाथ जिनना ॥

राग अनजारी

हे शीतलनाथ जिन प्यारा, मुज सादिग मोहनगारा रेक तुमे नद्य देवीना न-  
 या, शुभ भाष भासभा आया, वही पारस ज म तुमारा मुज सादीग मोहनगारा हे  
 शीतल० शुभ भाष वही प्रभु आरे, कयो रिदा ज्योच्छव प्यारे धन्य दिन ते भगणकारा,  
 मुज सादीग मोहनगारा हे शीतल० तुम बहीषपूरनी भादी जनी सभा अति शुभ  
 सादी मण्या साधुज्यो वीस हनरा मुज सादीग मोहनगारा हे शीतल० वणी गणु  
 पर जेक ने ज्येशी, तेनी भूदती बद्रज ज्येशी वणी धावक साथ अपारा, मुज सादीग  
 मोहनगारा हे शीतल० प्रभु पोप तज्यो दिन सारे, वही ज्योदश भगणकारा, प्रभु के  
 वणयान सुधाया मुज सादीग मोहनगारा हे शीतल० हूं वणी पूज करवा आनु शुभ  
 केसर अदन छाउ, वणी पुष्प अने इण प्यारा मुज सादीग मोहनगारा हे शीतल०  
 प्रभु शानोदध उषु भावे, शीश वाडोनान नभावं यो शिरमल्ली आ वारा, मुज सादीग  
 मोहनगारा, हे शीतल०



२

(पत्ता मुण्डु योरीका बिलकुल भीला हे अदेशी)

शीतल जिन आये यरखु तुभारे, भव दु भ ताप मिटावो हमारे शीतल० टेक  
 द्रष्टव्य नदन जग सनु वरन, नदाहेरी प्रलु भात तुम्हारे शीतल० १ कयन परखु  
 कापे नेलु धनुषधो, टैपत आनद विवन विनारे शीतल० २ शिवसुभ हायक सपतिना  
 यक अतर रिपुग हूर नीवारे शीतल० ३ श्री जिनोदय गायन मडणी, यह गोपाल हय  
 सरखु तुम्हारे शीतल० ४

— \* —

॥ श्री श्रेयासनाथ जिनना ॥

हीननो हयाल छोटी के ने शरखु जठि अे राग

जिनपति श्रेयासनाथ अरज आ स्त्रीकारो अे टेक तरखु तुंज रमखु कइं यो  
 गति निवारो जिन० १ यरखु शरखु करखु आब्यो भव समुद्र तारो, जगम भरखु  
 दु भ सुभ जिनल विहारो जिन० २ जगत भात तात स्वाभी हास छु तमारो, नमु  
 नमुं नमु प्रलु अवन समूह वारो जिन० ३ भाइ करजे में उयापी आखु जे हगरे,  
 दिन हयाण छोडो हवे नयी हू छोडनारो जिन० ४ मोक्ष सात स्वाभी प्रेभ्य काज सारो,  
 भाखिकविजय सहीत विशु जैन गोष्ठी तारो जिन० ५

— \* —

॥ श्री वासुपूज जिनना ॥

( राजुल कहे नाथ गये साथ परहरी ) अे राग

वासुपूज्य स्वाभी जिन विश्व तात रे, भयाब्धिथी उतारी आप मुक्ति सात रे १  
 वासुराम नद आप छो कृपात रे कृपा करी जियुद दु भने प्रजल रे, २ पूरखु पु यथी  
 मज्या महेश आन रे अज सुष्णिने करो सेरक काज रे ३ जगतपति अवनत शक्ति  
 गानवान रे, अहनिश छु कइं छु तुंज सुख गान रे ४ प्रेमथी प्रलुछ पूखु पाद पदम  
 रे, भाखिक जैन गोष्ठी भागे शिव सदा रे ५

२

राग ईंद्रिसलानो

प्रह छठी मे सदा नमु रे, वासुपूज्य जिनराय, पारमा तीर्थकर स्वाभी, वहु वीरा  
 नमाय टेक काज अवनतो हू भयो रे, नगक नीजोद के माय अम प्रलुछ मे शरखु  
 आयो, रामो तुम योरी वाज मेइ शिपर मिदामा कर, नवरारे जिन इन डेसर अ-  
 दन बरी कमोली आभी रसु महारा १ २ जैनपदिकोका अ गान ... जिन स्वामि  
 प्रलुछ तमाइ नाम जपता, होवे जय

## રાગ ઇદ્રિમભાનો

હું પાપી પૂરો પ્રજ્ઞુ ગ્રેરે હે રજુ પરમ કૃણાળ, સદમાવે સમઈ શિવસુખ સેહેને,  
સાધુ સહુ દુ ખ ટાગે મન નિરમન નવ રાખી નિત નિત નિરખા નાથ નિહાળ, આ  
ભાગ્યહીન ભમરો ભગતી ભૂવો, ભટક્યો ખૂ ઠાળ જગ તેજ ગિન જગ ખાપ જાણુ નિત,  
વાસુપૂજ્ય જગપાળ, મુક્તિ રમણીને વરીયા ૧ રમીયા રાસ રસાળ, અનત આનં  
અનત શક્તિ, અનત શુભ અજવાળ, દોષત કહે દિન દિન દેને દરિશાણુ, દાન હે દીન દયાળ



## ॥ શ્રી વિમલનાથ જિનના ॥

( નાથ કેસે ગજકો બધ ઠોડાયો — એ રાગ )

વિમળ પ્રજુ તુ છે જગત ઉપગારી તું છે જગત ઉપગારી નમે નિદા દિન માનવ  
નારી વિમળ—ટક અટ કમ જિન દૂ કરીને, તું ત્યો ભવ ભારી કું તો રજુ ભવ  
સિધુ ખૂડયો, કમ કરી બહુ ભારી વિમળ રજુ તું છે જગતઉપગારી નમે ૦ ૧ પૂરપ  
પુ પે તુ જિન મળાયો મેવ કઈ એક તારી કિકરને પ્રજુ મેહેર કરીને સમ કમ વિદારી  
વિમળ પ્રજુ તુ છે જગત ઉપગારી નમે ૦ ૨ નન્ક નિકેત ભવ ભવ ભજન તું છે  
પગમ મુખમગી જૈન સમા મુનિ માણેક વદે દેને વિજુ જિનનારી વિમળ રજુ તું છે  
જગત ઉપગારી નમે ૦ ૩

૨

## લલિત છંદ

વિમનનાથજી મુજુએ તમે, અરજ બાજ તો ઉચારીએ અમે અજરનાથજી તિજમ  
તપનિ જિન દયાળ તુ આપ સન્મતિ અહનિશ તાહરો જાપ જાપિએ તુજ કૃપા યકી  
દુ ખ કાપીએ, સુમદ જિનજી વાર દુ ાલિ લિ દયાળ તું આપ સન્મતિ પરમ ભાવથી  
વરીએ તને ભવ સરિતપતિ તાર દાસને વિનુ નિવારજો મુજ કુમતિ દિન વાળી હું  
આપ સ મતિ જગતમા ધણા દેવ તો ભમે તુ જ વિના રજુ મુજ ના મમે જિનપતિ  
યકી જાપ વિપતિ દિન દયાળ તું આપ સ મતિ ચરણુ પગાની સેવના કરે બન સમુદથી  
પાર ઉનઈ, હલ્ય ધારજો માથુક વીનતિ દિન દયાળ તું આપ સન્મતિ

— \* —

## ॥ શ્રી અનતનાથ જિનના ॥

સ્વામીનાથ, સ્વામીનાથ, સ્વામીનાથરે, એ દેશી

અનતનાથ અનતનાથ અનતનાથરે આપ છે અનત ગુણી મોત સાથ રે એ  
આકણી ૧ આપણ વગી સમમીએ ચગી સ્વામ રે પ્રાણત દેવતોકથી અમોધ્યા કામ રે  
આપ છે ૦ ૨ વર્કિ વૈશાખ તેરને જ મ થાય રે, નદીધરે ઓવેવ કાગ ઇદ્ર જાપ રે  
આપ છે ૦ ૩ સિદ્ધસેન તાન પ્રજુ, સુપસા માન રે, રેવતી નક્ષત્ર સમ પ્રજુ જાત રે આપ છે ૦

४ लछन धीयाथा तर्षु भीन राश रे, धनुष पर्याश देहमान, लभ विभ्यात रे आप छो०  
 ५ नीत लाम वर आयु पागी स्तव रे, राजकाज भोगरीधुं, प्रभु अकाम रे आप छो०  
 ६ वहि वैराभ यतुंति, मन लहात रे, सदम साधु साथे रक्ष अशोक कहात रे आप छो०  
 ७ दीक्षा तिथि अत्र तिथिअ, डेवण धात रे देशना सुणी जनाना कष्ट जत रे आप छो०  
 ८ नभेतसिभर सतेपयु अक मासरे, यैत्र सुदि पयभीअे मोक्षवास रे, आप छो०  
 ९ गान्द्रवतंक भडगी, शुष्ण गाय रे, सच श्री धो १७ तजो वछित पाय रे आप छो० १०

२

### अरे लालदेव धरस तरङ्ग जलही आव अे देखी

नभुं हुं करे रे कृपा जिनराय, दीयो सेर आणे अति सुभकार, न ३५ २५३५ न से  
 ७ न मान, सिदानद ३५ नभे आणमान १ करी पाप हरे पर्या शिवनार, हवे राज  
 गणेश्वरा मुज तार द्यानु जिनदा द्याना निधान, सिदानद ३५ नभे आणमान २  
 क्या मे अनता नदि जयाय पार, भरी पाप रेगी न डोवे विचार, नही दिन अेके धरु  
 तुज ध्यान, सिदानद ३५ नभे आणमान ३ भभो भूतले हुं सुषो आण पात, अन्या  
 राय राक अनतीज जत नही धर्म मधु नही मुभ दान, सिदानद ३५ नभे आणमान  
 ४ करी प्रेम पूरो हुं आन्योण आण जिष्णुदा हवे हुं सुधारेण काज, कं रे राव ने हुं  
 दीयो आन कान सिदानद ३५ नभे आणमान ५ जिष्णुदा जिष्णुदा ननु नाम हुं, कृपानाय  
 आणे दीये साथ तुं, नही अ य तारा विना शुषुवान, सिदानद ३५ नभे आणमान ६  
 नभी कोड वारे वदे वाडीकान, दीयो रत्नभाणा वई शिवभाण, सभा जैन गावे प्रभु शुष्ण  
 गान, सिदानद ३५ नभे आणमान ७

— \* —

॥ श्री धर्मनाथ जिनना. ॥

( राग ओभाडरखुनो )

सुनो धर्मप्रभु जिनयदा, अेक अरज कर सुभकदा, प्रभु तुं अगधीत शुष्ण भ  
 ियो विष्णु हुं अवाखुनो दरियो प्रभु तुं शिवराभा रेगी, विष्णु हुं भवसिधु सगी,  
 प्रभु हुं कर्म ने तोडया, विष्णु मे मुज साथे जेया प्रभु तुं मुज सरभ अनेक, विष्णु  
 तुं छे मुज मन अेक, प्रभु शरथ कं भगवत, मुज दुःख तजो करे अत, नयी तुम  
 विना मुज कोर्, भवतारक जिन तुं होर्, जगनायक अतरजमी, अथ धायक विष्णु वि  
 सराभी मुज अथ कर्मने भायो, अविषण पद राकर आपो, अेटवी विनती छे आण,  
 कहे माथिक जैन सभाज

ललित छंद

जगतपालछु धर्मनाथ रे भवक तागजे जाली हाथ रे, सुभद देव रे भाव हुं धरी,  
 जिन तने नभुं धर सवरी १ लपत तादई देणी आण रे, दरभ पाभीरो विश्वगज रे,  
 सहर तादई नाथ मे करी, जिन तने नभुं धर सवरी २ शरथ तादई हुं हवे कं,  
 पदक अेकभां मुक्तिने वई जगत मधुना हुं पने दरी, जिन तने नभुं धर सवरी ३

પુરુષ પુન્યથી તુ હવે મર્યો, સકળ કલના એાધને ડલ્યો, અરજ એ તુની માણિકની ધરી,  
જિન તને નમું ધસ સવરી ૪

— ❀ —

॥ શ્રી શાન્તિનાથ જિનનાં ॥

(કહ્યું શુ નસીએ દુઃખીઓ કીધો છે એ રાગ )

શાન્તિ જિનેશ્વર અરજ સ્વીકારો, જ મ મરણનો ફેરો નિવારો ઠાળ અનંતો ભવ  
બાંહે બટકયો, તેએ આંચો નહીં આરો દમારો શાન્તિ જિનેશ્વર૦ ૧ પૂર્વે પ્ર ૫ કાષાં  
હસો જિનજી, દીઠો દેહાર મે નાથ તુમારો શાન્તિ જિનેશ્વર૦ ૨ આજ મનોરથ દમારા  
ફળીઆ, સકળ યથો હવે જ મ દમારો શાન્તિ જિનેશ્વર૦ ૩ આશા પૂજી કરસ્યોજ દેવા,  
બાળ તુમારો અતિ દુ ખીઆરો શાન્તિ જિનેશ્વર૦ ૪ ભવજળ માહે સેવક હુમે છે, દિન  
દયાળુ તમે તો ઉમારો શાન્તિ જિનેશ્વર૦ ૫ મોડા વહેલા પ્રજીજી તુમારે તાવા વિના  
નહીં છુગકો ધનારો શાન્તિ જિનેશ્વર૦ ૬ તો હવે વાર કરો સ્વા કારણ, હરત અહીને  
જલદીપી તારો શાન્તિ જિનેશ્વર૦ ૭ જાન દયા બાળકો મળી બોલો, તુમ સાહેબ હમ  
પાર ઉતારો શાન્તિ જિનેશ્વર૦ ૮

૨

(બાનાની પત રાખ પ્રભુ તારા — એ રાહ )

શાન્તિ જિનેશ્વર સ્વામ, સેવો તમે શાન્તિ જિનેશ્વર સ્વામ એ ટેક સરવારથસિદ્ધથી  
તે અહીને, ઉપના હરિતનાપુર ગામ, સેવો વિશ્વસેન તાત માત અચિરાને રાગથી હુઓ  
આરામ સેવો શાન્તિ ઘર્ષ વળી દેશ સકળમા તીજીશુ શાન્તિ નામ સેવો જ મ મહો  
સ્વ ઇરે કીધો, લેઈ મેશ્ગિર ઠામ સેવો લાખ પૂરવ આયુ પ્રભુ પાળી, પહોઆ મુમતી  
ધામ સેવો જૈનપ્રવતક મડળ તુમને, કરે કોડ પ્રજામ સેવો

૩

(આજ કાન મોરલીની બનસી બળદાંડે, એ ગાગ )

વિશ્વસેન નહ તોરે વદનામે પાઈ રે દુરિતધાર્ષ મુક્તિ ઈ સપદાનીપાઈ રે વિશ્વસેન૦  
૧ કલ્પરક્ષ મરતમખી દાનથી હરાઈ રે, દીવસમણી તેજની ચ દ સોમતાઈ રે વિશ્વસેન  
૨ શુષ્ર પાત કેરી આજ જિનમે ન સાઈ રે અભય કરણ નાથકી બલીઈ શરણ આઈ રે  
વિશ્વસેન૦ ૩ ઈદમે કલક દેખી નિષ્કલક સાઈ રે લક્ષણ મીસે ચરણ વિરે મૃગો વસે  
આઈ રે વિશ્વસેન૦ ૪ અનિરાકે લાલકી કલાણુ બડાઈ રે શક્તિ મળીર ભવ સિધુક  
તરાઈ રે વિશ્વસેન૦ ૫

— ❀ —

॥ શ્રી કુધનાથ જિનના ॥

(કહ્યું શુ નસીએ દુ ખીઓ કીધો છે એ રાગ,)

ક્યુ પ્રજીજી દયા દીલ ધારો એ ટેક સેવમે ભવ પાત ઉતારો ક્યુ પ્રજીજી૦ ૧  
ભવમજન વિપુર ગામી જનમ મરણ ભવ દુ ખ વિધારો ક્યુ પ્રજીજી૦ ૨ સરણ  
તમારે હુ શકર આઓ, ચાર ગતિ મુજ ફરે નિવારો ક્યુ પ્રજીજી૦ ૩ દુરિત નિવારક

श्री गिनयद्य, अविद्यया यो पुत्र विवदास तारो. इत्यु प्रथमं १ भरतु गणना ११  
सिर नामी, मुनि नाथेक प्रतु भृत्य तथारो. इत्यु २४७० ५

२

( मुने छोट यज्ञा भनकारा ऐ राग.)

हे कुमुताय नमस्वामी, हे अन्न कर्क सिंगानी. जे देव दुन पदम करनर सेवे,  
तुम शब्दे छु सिव नामी, हे अन्न कर्क सिव नामी. १ वाक लिल दुवने लक्ष्मी,  
मुन मानस तमद आक्षी, आन्यो छु अचरत घानी, हे अन्न कर्क सिव नामी. २  
मुन किल कभते कायो, प्रतु मुनि शर्मते आपो, प्रतु अचरत अक्षी अक्षी हे अ-  
रन कर्क सिर नामी ३ तुम पादर गणीते सेव्य हेने देवधी देव, अचरत अचर-  
तामी, हे अरन कर्क सिर नामी ४ तुम वदे गैल सुवेदी, गनेनित अन्न श्रेणी,  
मायिक सिव यो गुणभागी, हे अन्न कर्क सिव नामी. ५



॥ श्री भरनाय विनना ॥

( नागीना कटाक्ष आगण पुत्रुप छे मुनिना ऐ राग.)

भरनाय आप जे छ अति तजु दही, दक्षने तु दक्ष नदरीची द्या वही न-  
भायी निवास आत तादगी कर्क, विषयय दान येदे अन्न दु पं, अन्न का दक्ष कद  
वस भोपरी, कर्म आड मड पाड याव ते पगी. दुव अन्न कर्क अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी,  
दासनी ह्याव दाव आतना भगी घनयन अन्न नक्षी तुने अक्षी, हेव अन्न कर्क  
अक्षी अक्षी निवाग तम दम नोनधी पक्षनवे नक्षी, अन्न कर्क अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
दम प्राक्षणी तुं द्यावदा, अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
सद्यो न नक्ष, वर्नाना निदर दक्ष दाव दक्ष अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
नेनय द कहे दाव जे पति



॥ श्री मङ्गिनाय विनना ॥

आनानी पुत्र शपि पशु नाग. ऐ राग.

मङ्गिनाय नमस्वामी, अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
गणना निषिवाद्यु अक्षी अक्षी १ अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
आवे २ अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
पुत्री अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
तिथारे अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
१ अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी  
सना अक्षी, अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी अक्षी

નાંખી કૂપ માહે કરી ઉપગાર અહોં દાન દયાળ બાળ શિષ્ય અપાર, માંજે શિવ  
સુખ ને વાર વાર

૨

### અગ્રેણ વાગ્ની ચાલ

દીનકે દયાત લાત તાર તાર તાર દીંદ્ર નાર નાચતી સધાર દાર દાર, દીનકે એ  
આકર્ષી. અથચેન નૃપ મુહ નદન પધાર, વામાદેવી જસ સુત પાસજી કુમાર દીનકે  
૧ ધુમક ધુમક ધમક ધુમક ધુમકે છનાર, તનનનન તનનનન વીનસે પોકાર દીનકે ૨  
દીરા મોતી ઝવેર નગ માણીકોકે યાળ, થીશ ધશ ઉપરે વધાવે વારવાર દીનકે ૩  
તતાયધયા તતાયધયા પ્રભુકે દાર બાજત મુદગ દમ દમ દમ વધાર દીનકે ૪ છપન  
કુમારિ દેવા દેવી નૃપ નાર, દેતી હે આલીપ વીન જીવે ચિરકાળ દીનકે ૫ યુગવાળ  
ખાશે રસાસ શોખ જળ, વાસ પ્રુષી કહેત વીં દેખકે નિદાળ દીનકે ૬

૩

### રહો ગહો રે ખદવરાય એ દેશી

નમો નમો રે માનવ પાસ સામળાઓ એ રેક વામાનદન નરક નિકકન સુરવધુથી  
નવી ચળીઓ નમો ૧ કમકતલો જીએ એક ધડોમા યાનેથી ગરને ડળાઓ નમો  
૨ દીક્ષા નેઈ પ્રભુ કેવળ પાપો રાવપુરીમા જઈ મળીઓ નમો ૩ શિવસુખ કારણ  
કમ વિદારણ એ સમ નહી ધીએ બળાઓ નમો ૪ પૂરવ પુ ય થકી ભવિ તુમને,  
નીરોકેવર જિન મળાઓ નમો ૫ મુનિ મારુક કહે આજ અમારે, અરવ સુધારક  
હળાઓ નમો ૬

— \* —

### ॥ શ્રી મહાવીર જિનના ॥

#### રાગ ઇંદ્રિસલાનો

મહાવીર મહાવીર મે જ્યું જોર નિલ કર જલ્યામ, પ્રભુજી તમારૂં મુખકું જોતા,  
સકળ થયું મુજ કામ મહાવીર ૧ તેરે અગર પુષ્પ ચડાવું, ભાત ભાતકે જાત,  
જવાન દાનડી જાસુર દમરો માવતી મોગર સાથ મહાવીર ૨ હીરે જડેલો મરતકે  
મુ ઠ, કાનમે કેડળ સાર બાહે બાળુનધ બેરખા, જોર મને મોતનકો દાર મહાવીર ૩  
એસી આગી મહાવીર પ્રભુકી, ઘરિસન કરે નર નાર, પ્રભુ તોરા અરજી પસાયથી, બ  
વિચન પામે ભવપાર મહાવીર ૪ શી લધુઆવ લેવ જોટી, ગાવે ગીત રસાળ,  
સેવક ઉપર કરજી કરી નજુ, દેજો સુખ વિરાળ મહાવીર ૫

૨

#### અખ તો પાર ભયે હમ સાધુ એ રાગ

વીર નજુ ભવપાર જિનારો કોષ કયાવને દૂર કરી રે, એ આકર્ષી સાસનપતિ સ્વામી  
કર કરજી, ભવભવ બટકયો કમ કરી રે, કુમતિ કલાયક સગ ન છોરે, જિન આજી નહિ

शीर धरी रे वीर २ मोह सुभट जग डेर करत-हे करण्यु का न दीस धरो रे, पाप अदार रहे नही अणगा, आप अरे प्रलु साथ करो रे वीर २ भिधारय सुत त्रिशया नहन, भहेर करो दीन दास परे रे, गान छिच्छक शुलु गाय तमारा, शिववधु वरवा प्रेम धरे रे वीर ३

३

### ( राग जीओटी हुमरी )

चिते धरो महानीर, सजन जतो चित धरो ओ आकषी कसर अहन जिन नव नव अगे, पूजता हरे भव पीर सजन० भाव धरी शुभ दरीसन करता, लणी न-भावेो शीर सजन० सकृण होवे सहु काज तुमारा, भाजे भवजलर, सजन० भ-कित करो भविजन शुभ भावे, तारक नीमोवन धीर सजन० नरभव पाभी प्रलु नित्य पूजे, मन वय शुद्ध शरीर सजन० भजे वाडीनान भाव धरीने, ध्यान धरो मन थीर सजन०

४

### राग धनदारे

पदभासन भूरती तार, नेत्रो अविकारी यार, शस्त्र वागा वरजत काया, थी वीर जि नेथर राया ओ आकषी १ प्रलु सिधारय गुण आया, भणी छिद्राक्षी दुनतया, नी शदा देवीना जया श्री वीर० २ तुज नामे नननिधि थाये, शिव सुंरी सदन वराये, सिद्ध लछन शोभित पाया श्री वीर० ३ शासनपति शिवपुर रवाभी, करे वीनती हुं थीर नाभी, तल कूडी जगतनी भाया श्री वीर० ४ दीनोधारक निरह धरावेो, शिव वधु अमने परण्योवेो, जैनगानछिच्छके शुलु गाया श्री वीर० ५



## परचूरण दोडीयां.

अहो धश जिन तु सदा दीतदार, अनता दु भी भवभाथी उगार, अति हेतकारी सदा सुभकार, सुभी शिवपुरभा जवा मुज तार प्रलु सेवने तमे तारनार, अहो देव हुं तो नमु वारवार, भयो लभयोशारी भभ्यो हु असार, पूरव पुन्ये पाभ्यो हु तारो देदार, सभा जैन वहे तने कोड वार, नमे भक्त होलत तरे भवपार

रहो रहो रे लहराय हो धडीयां, हो धडीया रे अण्य यार धडीयां रहो रहो रे० आकषी प्रेमका ध्यावा भोत भशावा, पिपत भधुरी दोलडीया रहो० १ दायशु दाय मि धार्छ दीयो सादी, पुलडा जिधावु सेजडीया रहो० २ शण्डुत छोडी असे गिरनारे, दिपता मोहन वेनडीया रहो० ३ इपयह कहे नाथ निरजन मुक्तवधु शुलु शैतडीया रहो० ४

किरपा करे रे जोडीपास जिनेश्वर तुम स्वाभी अतरजभी रे टेक छये छये गम्पर  
पासछ पीरान्ने, यारे तरक जानी जानी किरपा० १ छीत वरखु तोरी अग पीरान्ने,  
अदनेका जन्टी जनीदारी किरपा० २ पाहे आण्डुमध बेरभा मिरान्ने, कुडमकी छनी हे  
न्यारी किरपा० ३ धुजत धुडत मे प्रभु पाये, पूरखु पदवी अय पाछ किरपा० ४  
नाथ निरजन नाम तुभारे, इपयद पदवी पाछ किरपा० ५

भेर भेर नही आवे, अवसर भेर भेर नही आवे टेक लुभु लुभु लुभु  
कर वे भलाछ, जनम जनम सुभु पावे अवसर० १ तन धन जेमन सयडी लुठो,  
राखु पलकमे लवे अवसर० २ तन रूटे धन कोखु कामको, कायकु इपय कढावे अ  
वसर० ३ काका दीवमे साथ असत हे साकु लुठ न भावे, अवसर० ४ आनदधन  
प्रभु अनत पधमे, समरी समरी सुखु गावे, अवसर० ५

दा रे प्रभु भज ले मेरा छीत राछ आकछुी आठ पोहोरकी सोसठ धडीया, दो ५  
डीया जिन साछ रे दा रे० १ दान पु य ककु धन कर ले, मोह भायाकु सागी रे  
दा रे० २ आनदधन कहे समज समज रे आभर भोवेगा पाछ रे दा रे० ३

पीरान्ने जगतेमे, पीरान्ने मदिरेमे, प्रभु जोडीया हे पारशनाथ पीरान्ने० १  
यूवा यूवा यदन ओर अरगम, इसरमे गरकाव पीरान्ने० २ रम्यो नेम प्रभुछ रे  
छन मिरान्ने मोतिपडा तपे रे निदाड पीरान्ने ३ भवसागर मे पी आये पडयो  
हे, पाहे पडउ मुज तार पीरान्ने० ४ इपय० कहे नाथ निरजन, तरखु तारखु तुम  
तार पीरान्ने० ५

लागी तेरे दरसकी भुभारीआ, लागी तेरे० टेक आम घतुरे कहे न भावे पीन  
भे सुध भिसारीआ रे लागी० १ गानके पान बरी बरी गाने भारी मोहे रेम कडा  
रीआ रे लागी० २ तु छुहे करता भगन भयो हे, इपयद पीया वारीया रे लागी० ३

हीने हेभा हमेरा स्वाभी स्वाभीछ अतरजभी रे हीने टेक आठ भवनी प्रीत  
रकाशी, नवमे गया शिवभाभी रे हीने० १ सहसावनकी कुल गवनमे मल्या मुने  
अतरजभा रे हीने० २ आप यने भीरनारे छपर, तारी तारी केवण पाभीने, हीने० ३  
कहे नथु प्रभु नेम नगीना कहु छु आन शीर नाभी रे हीने ४

लुभुल पोकादे नेम पीया जेमी क्या करी मुने छोडकु यले नुक अमसे क्या पडी  
राखुब० १ दुध आराको नीरास ग सीनता धडी, प्यारा पस नही अमेरा हीनम पी  
रने पडी राखुब० २ अमसे रत्ता न जये प्रीतम तुम पीना धडी, सग लीछमे



इयाण इयाधर्म आदरी राखुध० उ निशदिन तुमेरा नाम हेते गानकी जरी, मुनि यद  
विजय यरखु कमण यितमें धरी राखुध० ४

—\*—

भताळ मेरो नेम खुयो गीरनार, ओकेली जनसे मेरो० राखुव उभी अरज क  
रेछे, भलाळ मेरी अरज सुनो मदारान ओकेली० तोरखु आओ खले रथ डेरी, भलाळ  
वां तो पसुवनकी मुनी छे पोक्षर ओक० सहसावनकी कुज गलनमे, भलाळ वा तो यार  
मदावत धार ओकेली० दरभयद प्रभु राखुव विनवे, भताळ मेरो इज्जे मुक्तिमे  
वास ओकेली०

—\*—

मे तो सदागहेकु दुदखु खविया ओ यान न तो जेती दिई निररामारे, नेम रयाम  
मुजे नही पाया रे मे० ओक जन दुदयो हुजे जन दुदयो, मे तो दुद लीया वन सा  
रा रे मे० वन भुग पंजर सुवा खुर, मेरे नयनमें नीर उंदाया रे मे० पावने धी  
जनी गते बिय भावा, मे तो सेहदीको रवाग जनाया रे मे० अछनविजय कहे धन  
धन राखुव, मे तो प्रभु यरखु यित लाया रे मे०

—\*—

सेता जज्जे रे सामणीया पीडी पाननगी, पीडी पाननकी रे, हील जननकी, सेता०  
टेक काया रे यूना लनंग सोपारी, वारी तेरा हिल जननकी सेता० १ तास भ दम नरपू०  
मरोल, पाळ जनी रग ताननग सेता० २ सहसावनकी कुज गलनमे, लागी उरे मुन  
ध्याननकी सेता० ३ कहे नथु प्रभु धर्म प्रकासित, हु जधीदारी केवणगाननकी सेता० ४

—\*—

जुवेो मेरी सधयां, हीपे गोडीयाळ केवा रे टेक परपडीजे ननु नप वि जे,  
जाने देवाधीदेवा रे जुवेो० १ डेसर अहन बरी रे क्योणां, जेती मुन नके जदुस रे  
जुवेो० २ आगी रयो भोगर नसुसकी, पूगन करौने नर अजे रे जुवेो० ३ नकु ०  
व्याखु कवि हीपेना श्रावक कहे, सरधाधी समकित पावु रे जुवेो० ४

—\*—

प्रभु पास यितामखु मेरो हा रे प्रभु० टेक भीन जेो कीने ने नीट नयो डेरी  
नाम जनु नित तेरो रे प्रभु० १ प्रीन लगी मेरी प्रभुमे आनी, जेजेो अद यकारो रे  
प्रभु० २ आनदधन प्रभु यरखु सरखु हे, जेत हीजे मुनीको रेग रे प्रभु० ३

—\*—

ते सुभ आपरो रे, करी पोतानो अक्षयपद थापरो रे धन० ४ गायो नीत आन तान सङ्ग  
सोबाभल्या रे, सुरसदीने सद्यमे वधाभल्या रे धन धन० ५

राष्ट्रव कडे नाथ गये साथ परदरी, नदी अरज मेरां गरज कछु हीलमे धरी. रा  
ष्ट्र० १ तरे हईकी मे तररी देपु मेहेवपर अदी, देभी नाथ सय जन मेरी अप्पीयां  
करी राष्ट्र० २ आयो तोरनसे हीरीओ रथ साभने करी, कीनी पमुवनपे अहेर कर आपे  
क्या करी राष्ट्र० ३ आठ भवकी लक्ष्मी गीत होवमे न करी, आये नवमे भव जेन  
बोग गये भीसरी राष्ट्र० ४ छोडी राष्ट्र० श्रीनार कीनी शिवधु वरी, कडे सुत प्र  
भुदास वित अरखुसे धरी राष्ट्र० ५

तुं जगमाही दीवो प्रभुछ, तुं जगमाही दीवो अये टेक० तीनजगतके भाव प्र  
काशन, कछुअे न पवन न धीवो अये राष्ट्र० १ तुम नदीं जगवाड अनुपम, तेव कपूर  
न भीवो अये प्रभु० २ देवविण्य प्रभु अरखु तरखुमे, भोत नरस अिरछवो अये  
प्रभु० ३

जलीदारी लछ, मढादीर तारी समेसरखुकी जलीदारी आकषुी वखु गढ तपन  
जिगले, जेरी छे परभदा थारी मढा० १ वाधुी जेजवन जलु काछ साभजे, तारया छे  
नरने नारी मढा० २ आनदधन प्रभु अेषुी पेरे मेने आवागमन ते नीवारी मढा० ३

किरपा कराने आदीअर आवा केसा प्यान ला या हे किरपा० टेक कर छपर कर  
अधिक निराने, आन नगर जुमाया ह किरपा० १ गमनागमनी वार न सान्नी,  
शिव रमखुीक धाया हे, किरपा० २ आप तरे आरनकु तारे अेदि निरुड धराया हे कि  
रपा० ३ त्रेम पदरथ छेअछा दूरे, शक्तिगुगल शुखु गाया हे किरपा० ४

जेतन कान्नी भीडीका डेरा अये टेक पड गया लुदथी भग गया डेरा लोक कडे  
धर मेरा रे जेतन १ छपर पदते भूपखु सोहे वीतर भोत अघेरा रे जेतन० २  
लुहा हाठ कडा हुनिआमे गूहा तन धन मेरा रे जेतन० ३ अेदी अरज तुं कर ले  
आर्ध, अये जगका नडा तेग रे जेतन० ४ नरत कडे छीन छीन मत भीमरो, अ  
पना कर सो सवेता रे जेतन० ५

अलुछमे हरिसन पायो, आन मे अलुछमे हरिसन पायो, टेक वजित पूरखु  
पास वितामधुी, देभन दुरित गभायो आन० १ मोदनी मूरत भदिमा सागर कि



धूप उभेवो ने करे आरती, मुभ जोलो नवकार ॥ आ० ॥ ४ ॥ छपे धरी आदेशर पूजे,  
जोमुभ प्रतिभा स्यार ॥ आ० ॥ ५ ॥ छपे धरी भावे भावना भावो, निभ यामो भ  
वपार ॥ आ० ॥ ६ ॥ सकलवद सेवक निनछको, आनदधन छपगार ॥ आ० ॥ ७ ॥ छति ॥

### अथ पोसह लेवा-नी तथा पारवानो विधी लिख्यते

प्रथम हरियावद्विधाये पडिक्रमि छम्हामि अभासमजो देछ छम्हाकारेणु सदिसेह भ  
गवन् पोसह मुदपति पडिनेहुं जेम कही मुदपति पडिनेदवी पछे छम्हामि० छम्हाका  
पोसह सहिसाहु वलि छम्हा० छम्हाका पोसह हाई पछे हाथ नेदि १ नवकार गधुनी  
पोसहनु पम्हम्हाणु करवु पछे छम्हामि० छम्हाम० सामायक मुदपति पडिनेहुं कडि मु  
दपति पडिनेदविने आभायक उयरु ५० ५० देछ जे० स० ५० जे० हाई ५० स०  
स० तिहांधी ते सज्जय करे जेम कही उ नवकार गधुनी छीजे तिहा सुधी कहेवु पछे  
छम्हामि० छम्हा १० भट्टवेन सहिसाहु छम्हामि० लडुवेव करीथु छम्हामि० पडिनेदवु  
करे जेम कही मुदपति पडिनेदवी छम्हामि० छम्हाकरी भगवन् पसाय करी पडिनेदवु  
पडिनेदवो ७ छम्हामि० छम्हाका० उपधि मुदपति पडिनेहुं जेम कही मुदपति पडिनेदवी  
छम्हामि० छम्हाका० उपधि सहिसाहु छम्हामि० छम्हाका० उपधि पडिनेदवु छम्हामि०  
छम्हाका० सज्जय करे जेम कही १ नवकार १५० म दनिगुणुनी सज्जय कहेवी अन  
सरे पोरसीनी हरियावदि पडिक्रमी छम्हामि० छम्हाम० पडिनेदवु करे जेम कही मुदपति  
पडिनेदवी इरी सट्ट समक्ष पोसह उच्यरे तेनी विधी उपर लभ्या प्रभाजु सरवे कहेवु,  
पथु सज्जय कहेवी नही पछे राई मुदपति पडिनेदवी वादवु जे देवा पछे राधय आ  
बोड जेम कही जे ने राधजो कही संवत्सवि राधयि पन्थास होय तो वादवु जे देवा  
अभुद्विजो आमवा पछे वादवु जे देवा पम्हम्हाणु करवु पछे कानना देव वादवा, पाछ  
दि वभते पडिनेदवु करे ते धरीगानही पडिक्रमी पछे नमलुगमलु आलोखि जेम कही  
ध्यामभिति भापामभिति ज्येपलुसभिति आननभ अनिभवेवजु सभिति पारिष्टापनिम सभि  
ति मनउमी वयनउमी कायउमी जे पान सभिति त्रणु उमी आठ प्रवयन माता आवक  
तसे धम पोसह आभायक सिधे जउन निराधना दुध होय ते सवे मने वयने कायाजे  
करी मि०रमि दुक्क छम्हामि० छम्हाम० पडिनेदवु करे छम्हामि० छम्हाम० पोसहसाह  
नभानु २ जेम कही मुदपति छहासहुं यवरे पनेनवा अने भाधु होय तो येपाडु तथा  
कहोरो मनी पाय वाना पदेववा पछे छम्हामि० छम्हाकरी भगवन् पसाय करी पडिनेदवु  
पडिनेदवो ७, छम्हामि० छम्हाका० उपधि मुदपति पडिनेहुं जेम कही मुदपति पडिने  
दवी छम्हामि० छम्हाका० सज्जय करे जेम कही १ नवकार गधुनी म-दनिगुणुनी सज्जय  
कहेवी, पछे भाधु होय तो वादवु जे देह पम्हम्हाणु करे, भाधु न होय तो अभास  
मलु देह पम्हम्हाणु करे, पछे छम्हामि० छम्हाका० उपधि सहिसाहु छम्हामि० छम्हा  
का० उपधि पडिनेहुं जेम कही नेटना वत्र लाडी रखा होय तेटना पदेववा पछे देव  
वादवा पछे निकांमलु करवु पोसह पारवो नवकार गधुनी सागरयदो कहेवो ॥ छति ॥

## અથ પ્રભાતનો પોસો સીધલાને સાંજે રાતપોસો લેવાની વિધી લિખ્યતે

પ્રભાતનો પોસો લેવાની વિધી છે તે રીતે ખમાસમણે દેઈ ઇરિયાવહીથી જાવત બુવેવ કરચુ તિહા સુધી, પણ પોસાના પચ્ચખાણુમા ફર છે તે લખીએ છીએ સેમ દિવસ રા પદ કહેવુ પછે ખમાસમણુ દેઈ ઇરિયાવહી પરિક્રમી ઇચ્છામિં ઇચ્છાકાં ય ડિત પરિલેહું એમ કહી માગ્યા રજ કરે

### અથ સાંજે નવો પોસો લેવાનો વિધી

હવવાસાદી જથન્ય એકાસચુ કરચુ હોય નેને લેવાય ખમાસમણુદેઈ ઇરિયાવહી પરિક્રમી પરિલેહુ કરે ખમાસમણુ દેઈ ઇરિયાવહીથી જાવત બુવેવ કરચુ તિહા સુધી પછે ઇચ્છામિં ઇચ્છાકાં પરિલેહુ કરે કહી ઇચ્છામિં ઇચ્છામ પોસહશાન પરમારણુ કહી મુહપતિ પરિલેહી ઇચ્છામિં ઇચ્છાકારી ભગવન્ પમાય કરી પરિલેહુ પરિલેહાવો કહી ઇચ્છામિં ઇચ્છાકાં હપ યી મુહપતી પરિલેહું કહી મુહપતિ પરિલેહની પછે ઇચ્છામિં ઇચ્છાકાં સગ્રાય કરે કહી સગ્રાય કરે ખાધુ હોય તો વાળ્યા મે દેઈ પચ્ચખાણુ કરે, ખાધુ ન હોય તો ખમાસમણુ દેઈ પચ્ચખાણુ કરે, પછે ઇચ્છામિં ઇચ્છાકાં હપથી સદિસાહુ ઇચ્છામિં ઇચ્છામિં હપથિ પરિલેહુ કહી પછે હેવ વાદી માગ્યા કરે પરિક્રમણુ કરે પછે એક પોરોર રાની આશરે જાય તીહા સુધી નિદ્રા લેવી નહી પછે ખમાસમણુ દેઈ ઇચ્છાકાં બહુપરિ પુત્રા પોરસી કહી ખમાસમણુ દેઈ ઇરિયાવહી પરિક્રમી જાવત લોગસ કહી ઇચ્છામિં ઇચ્છામિં બહુપરિપુત્રા પોરસી રાષ સયારે ઠાનુ કહી પછે ઇચ્છામિં ઇચ્છાકાં ચૈલવ દન કરે કહી ચક્રેકસાયનું ચૈલવન જાવત જયનીયરાય સુધી કરે પછે ઇચ્છામિં ઇચ્છાકાં સયારા વિધી બચુના મુહપતિ પરિલેહું કહી મુહપતિ પરિલેહવી પછે સયારા પોરસી બચાવવી જાગે તિહાં સુધી સગ્રાય ધ્યાન કરે ॥ ઇતિ ॥

પોસામા એકામણુદિ કરચુ હોય તો અવસરે પચખાણુ પારી પોસહશાયાથી જાન સ્સહી કહી નિજ ગૃહે ઇયા શોધતો ખમાસમણુ દેઈ ઇરિયાવહી પરિક્રમી ખનાં ગમણુ ગમણુ આનોઈ કાગે પૂજી યથા સભવે અતિથી સવિભાગ વ્રત ફરમી નિશ્ચન વ્યાસને બેસી હાથ ગખ પગ પાન પરિલેહી નોકાર મનારી પ્રાશુક આહાર જમે અથવા પોસહશા ઘાએ પૂર્વ પ્રેરિત નિજ પુત્રાદિક આણ્યો આહાર ભોગવે પણ અધુનિ પરે ગોચરી નહી તથા કારણુ વિના મોદક સ્વાદુ લરિગાદિ તબોન ન લેવો પછી ગિસીહી કહી પોસહશામા એ આવી ખમાં ઇરિયાં પરિક્રમી ચૈલવદન કરવુ ॥ ઇતિ ॥

अथ पोसाभां १८ द्योप लागे तेनां नाम लिप्यते,

- १ विष्णु पोसाती लावे ते आहार वे ते
  - २ पोसा निभीत सरस आहार वे ते
  - ३ उत्तरवारणे भोजनतो जेग भेववे ते
  - ४ करीरनी विष्णुपा करे ते
  - ५ पोसाने अर्ध वस्त्र घेवरावे ते
  - ६ पोसाने अथ धरेंछुा धडावे ते
  - ७ पोसाने अथ वस्त्र रगावे ते
  - ८ करीरनो भेल उतारे ते
  - ९ पोसाभा अकाले ळधे ते
  - १० ओ सारी भायी कडे ते
  - ११ पोसाभा आहार भजे लुडो कडे ते
  - १२ भवी लुडी रागविक्रया करे ते
  - १३ भनि लुडी विक्रया करे ते
  - १४ भानादि ळवणु लुभी रडी शोधे नही ते
  - १५ क्राधनी निद करे ते
  - १६ विना पोसातीथी आलाप सलाप करे ते
  - १७ चोरनी विक्रया करे ते
  - १८ आ साये वात विक्रया करे ते
- ४६१ श्री पोसकभा १८ द्योप लागे ते वरछने पोसक करे तेने ध य छे

अथ श्री पोसकभा मडल करवा वटिनीति लघु  
नित्यादि ळवणु जेग जग्या प्रतिज्ञेणु  
निमित्तेलभांछे छींछे

- |  |   |     |
|--|---|-----|
| पथम सधारा पोसेनी जग्यांछे,               | लुडियासे                                | ॥३॥ |
| १ आधाडे आसन उच्यारे पासवणे<br>अलुडियासे  | ४ आधाडे मज्जे पासवणे अलुडियासे          | ॥४॥ |
| २ आधाडे आसने पासवणे अलुडियासे ॥२॥        | ५ आधाडे इरे उच्यारे पासवणे<br>अलुडियासे | ॥५॥ |
| ३ आधाडे मज्जे उच्यारे पासवणे अ           | ६ आधाडे इरे पासवणे अलुडियासे            | ॥६॥ |
| ४६२ उपाश्रयना पारणाना भाडिनी तरइना       |   |     |
| १ आधाडे आसने उच्यारे पासवणे<br>अलुडियासे | ४ आधाडे मज्जे पासवणे अलुडियासे          | ॥४॥ |
|  | ५ आधाडे इरे उच्यारे पासवणे              |     |

૨ આનાડે આસને પાસવણે અહિયાસે	૥૨૥	અહિયાસે	૥૫૥
૩ આધાડે મજ્જે ઉચ્ચારે પાસવણે અહિયાસે	૥૩૥	૬ આધાડે દુરે પાસવણે અહિયાસે	૥૬૥

### ॥ હવે ઉપાશ્રયના ખારણા ખાહર નજીક રહીને કરે તે

૧ અણાધાડે આમને ઉચ્ચારે પાસવણે અણુહિયાસે	૥૧૥	૪ અણાધાડે મજ્જે પાસવણે અણુહિયાસે	૥૪૥
૨ અણાધાડે આસને પાસવણે અણુહિયાસે	૥૨૥	૫ અણાધાડે દુરે ઉચ્ચારે પામવણે અણુહિયાસે	૥૫૥
૩ અણાધાડે મજ્જે ઉચ્ચારે પાસવણે અણુહિયાસે	૥૩૥	૬ અણાધાડે દુરે પાસવણે અણુહિયાસે	૥૬૥

### હવે ઉપાશ્રયથી ૧૦૦ હાથ આશરે દૂરે રહેતે કરવાં

૧ અણાધાડે આસને ઉચ્ચારે પાસવણે અહિયાસે	૥૧૥	૪ અણાધાડે મજ્જણે પાસવણે અહિયાસે	૥૪૥
૨ અણાધાડે આસને પામવણે અહિયાસે	૥૨૥	૫ અણાધાડે દુરે ઉચ્ચારે પામવણે અહિયાસે	૥૫૥
૩ અણાધાડે મજ્જે ઉચ્ચારે પાસવણે અહિયાસે	૥૩૥	૬ અણાધાડે દુરે પાસવણે અહિયાસે	૥૬૥

॥ ધૃતિ શ્રી મહત્વ યોગ ૨૪ સમાપ્તમ્ ॥

### અથ શ્રાવકની ૧૧ પડિમાનો વિચાર

૧ ૦ સણુ ૨ વય ૩ સામાર્થ, ૪ પોસહ ૫ પડિમા ૬ અબજ ૭ સચ્ચિત્ત ॥ ૮ આરબ ૯ પેસ ૧૦ કદિકુ, વજ્જએ ૧૧ મમણુબૂએ ॥ ૧ ॥

૧ (દસણુપડિમા કે૦) ત્રણકાલ દેનપૂજા રાગદી પદ્ આગાર રહીત શકાદિ સ્વય રહીત માસ ૧ ની

૨ (વતપડિમા કે૦) પાવ અણુવત અતીચાર રહીત નતવું પાવણુ પ્રથમ પડિમા સહીત માસ ૨ ની

૩ (સામાર્થ્ય કે૦) સામ્ર સવાર સામાયિક કરે અતિચાર રહિત માસ ૩ ની, પૂવ ક્રિયા સહિત

૪ (પોમહપડિમા કે૦) ચાર પરવી પોસહ સપૂજુ ચારે પ્રમગ્ને પોસહ—ઉપવાસ સમિતિ ના હોય તે આખી નીવિ કરે માસ ૪ ની

૫ (પડિમાપડિમા કે૦) પ્રતીપેર પોરે ૨૪ લોગસને કાઉસગ્ગ કરવે, માસ ૫ ની

૬ (અમહલાગી કે૦) શીત પાલણુ, માસ ૬ ની

૭ (સચ્ચીનલાગી કે૦) સચિત આહારાદીકનો લાગ કરે માસ ૭ ની  
 ૮ (આરબલાગ કે૦) પોતે આરબ તે, જીવવધ વ્યાપાર ન કરે માસ ૮ ની  
 ૯ (પેસ કરાવે નહિ કે૦) પોતે ખીજા પાસે આરબ જે અનધાતાદિ વાપાર કરાવે  
 નહી, માસ ૯ ની

૧૦ (ઉદ્દેસીક કે૦) પોતાને અર્થે ખીજે આગબ કરી કાઈ વસ્તુ નીપજવી, તે પોતે  
 વાપરે નહી માસ ૧૦ ની

૧૧ (સાધુ નેવો કે૦) રાગદિક સમક્ષે જતિવેષ પહેરી ચવચો પ્રમુખ ઉપગરણ્ય ધ  
 ની, આહાર ભિક્ષાવૃત્તીએ લે લ્યા પ્રતીમાધર શ્રાવક છુ એમ કહે, માસ ૧૧ સુધી

॥ એ શ્રાવની ૧૧ પરિમા અનીઅઠવ્રત વિશેષ સપૂણ્ય ॥

### અથ ચૌદ નિયમ ધારવાની વિગત લખ્યતે

- ॥ ગાથા ॥ ૧ સચિત ૨ દ૦૧ ૩ વિગર્હ ૪ વાણ્યુહ ૫ ત મોલ ૬ વચ ૭ કુચ્છમે  
 સુ ॥ ૮ વાહણ્યુ ૯ સપણ્યુ ૧૦ વિવેચણ્યુ, ૧૧ બબ ૧૨ તિસિ ૧૩ ન્દાણ્યુ ૧૪ બત્તેસુ ॥૧॥
- ૧ સચિત જે મોટી પાણી અગિ મીઠું નીલી વનરપતી ફૂલ ફૂલ જાન કાષ્ટ મન  
 પત્ર ખીજા આદે કાના વાન, પામ પણ્યુ ઘસ્ટ લાગે એ ઘડિ યરા વિના મચિ  
 તમા તેનું માન કરે
- ૨ દ્રવ્ય જે જે વસ્તુ મુખમા જુલ જૂલ સ્વાદ અથ નાખવી તે તેની ગણ્યુનીનો  
 નિયમ
- ૩ વિગર્હ તે ૧ ફુધ ૨ વ્હી ૩ ધી ૪ ગોન ૫ તેલ ૬ કઠ્ઠ વિગવ તે, જે તાવડે તલે તે  
 તથા ધાણ્યુ તન્મા પલરચ કરે વિગત અને નીજ ધાણ્યુ નીવિયાતામા તેનો નીયમ
- ૪ વાણ્યુહ તે પગરખા મોજડી પાવડી ચાખડી મોજ તેનો નિયમ
- ૫ તમોન તે મોપારી પાન લવગ એલચી પ્રમુખ મુખ્યશુદ્ધિ યાવ તેના તોલનો  
 નિયમ
- ૬ વચ (વજ) તે પોતાને પહેરવામા આવે તેની ગણ્યુનીનો નિયમ
- ૭ કુચ્છમેસુ તે જે વસ્તુ નાકે મુંચે તેના તોલનો નિયમ
- ૮ વાહણ્યુ તે ત્રણ બેદે ચરતું તે ઘોડા, હાયાં ઉટ બલદ, પામ પ્રમુખ, ફરતું તે  
 માડી રથ પ્રમુખ તરતું તે વહાણ્યુ નાવ તાપા ભોટ પ્રમુખ તેનો નિયમ
- ૯ સપણ્યુ તે સુનાર ખાટના પલ માટી માટ પાટલા પથરણ્યા પ્રમુખનો નિયમ
- ૧૦ વિવેચણ્યુ તે જે વસ્તુ પોતાને ઘરીરે વિલેખન કરે તેના તોલનો નિયમ
- ૧૧ બબ તે નારીના ભોાનો નિયમ
- ૧૨ દિવિ તે પૂન દક્ષિણ્ય પશ્ચિમ કતર, ઉદ્ધ અને અધો જવાતું પ્રમાણ્યુ કરે તે
- ૧૩ ન્દાણ્યુ તે સન અગે નાહણુ તે તેનું પરિમાણ્યુ
- ૧૪ બત્તેસુ તે ભોગન પાણી જમ્યામા આવે તેનું તોલ



- १५ पृथक्काय ते भाडी भीडु, भडी प्रमुअ पोताने निभाने वावर तेनो नियम  
 २६ अपकाय ते पाष्ठी पीये वावर नाळा प्रमुअभा आवे तेना तोवतुं मान  
 १७ तेलभय ते ले पोताने चरीरे भोग डपभोगभा युना चारी दाधडी अगिडी  
 प्रमुअनु राधु नीपळ्यु ताभ्या सेक्याभा आवे तेनो नियम करे ते  
 १८ वाडकाय ते पभा दिवोला पडवा लुगगादिकथी पवन नाभीये तेनु प्रभाण्य  
 १९ वनस्पतिकाय ते वीला इन कूल साक भाधा वावख्याभा आवे ते हातल्य सुद्धा-  
 तुं परिभाण्य  
 २० व्रमकाय ते ले नाम पाणे ते डिडा डिडी विछी गाय भन्ध पभी अनुष्य देव  
 नारडी तेभाना डोवने चिना अ राधे सकृष्पी माई नडी तेनो नियम  
 २१ असि ते तलवार भावा तीर चरी अरा डोदावा पावडा धटि प्रमुअ लवधना  
 करनारा तेनो नियम करे ते  
 २२ भरी ते राढीना अडिआ दरातो प्रमुअनेा नियम करे ते  
 २३ कृषि ते वरभिन जोहवाक वर हाट भेत्र प्रमुअ ताना कुतादि जोहे पानगादिके  
 करी तेनो नियम  
 धति श्री योह नियमादि भेन २३ पोताथी पये तेम पावे तेने धन्य छे ॥

### अथ श्री जिनसुवतनी ८४ आशातना लभो छे

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| १ अलभो नाणे             | १७ वनन करे ते.                   |
| २ घृतादि डिडा           | १८ हात नाणे सभारे ते             |
| ३ कवळ प्रमुअ            | १९ पिस्त्रामण्यु करे ते          |
| ४ धनुसक्यादि            | २० गायानि आधे ते                 |
| ५ पाष्ठीना अगला         | २१ वतानो भेन नाणे ते             |
| ६ तभोलादि भाय           | २२ आप्प्यनो मेल नाणे ते          |
| ७ तभोव युक्तु           | २३ नभनो मेल नाणे ते              |
| ८ गावो हे ते            | २४ गडस्थलनो मेल नाणे             |
| ९ भूत्र विष्टानुं नाअतु | २५ नाकनो मेल नाणे ते             |
| १० चरीर धोतु ते         | २६ भाधानो मेल नाणे               |
| ११ वाव सभारवा ते        | २७ काननो भेन नाणे                |
| १२ नभ सभारवा ते         | २८ चरीरनो मेल नाणे               |
| १३ सोढी नाणे ते         | २९ भत्रथी भूत काठतु अथवा रागदिके |
| १४ सुअडीयादि भाय ते     | कार्यनी भसलत करवी.               |
| १५ आभडी नाणे ते         | ३० सद्दालने भने ते               |
| १६ पित्त करे ते         | ३१ नाभु लभे ते                   |

( १०० )

- ३२ धन वेद्ये ते  
३३ थापणु मुके ते  
३४ भाडे आभने जेसे ते  
३५ छाया थाये ते  
३६ कपर्डा मुके ते  
३७ धान मुके ते  
३८ पापड नांभे ते  
३९ वडिओ करे ते  
४० राजभयाकिं जेसे ते  
४१ इदन करे ते  
४२ विकथा करे ते  
४३ शत्रु धडे ते  
४४ तिर्यक भाये ते  
४५ तापणु करे ते  
४६ राघे ते  
४७ नार्थु परभे ते  
४८ नीसिद्धि भागे ते  
४९ छन धराये ते,  
५० भासडा मुके ते  
५१ शत्रु मुके ते  
५२ आमर धराये ते  
५३ मन अकाम न करे ते  
५४ तेल्लादि जेजे ते  
५५ सखित भोग न तणे ते  
५६ अजोग अजेत न तणे ते  
५७ गिन हीडे हाथ न जेडे ते  
५८ अकसाडि उत्रासणु न करे  
जे चोराशी आधातना पूज्य काय निना शरीर क्षुत्प्रादि काम अर्थे करे ते, आशा  
तना तथ आलुकरुच्ये धनु

परमुरथु

- ५९ मुगट धरे ते  
६० पाधडिना अविवेक करे ते  
६१ तोरादि धावे ते  
६२ होम करे ते  
६३ जेडिडे रमबु ते  
६४ जनार सलाम करे ते  
६५ भाडवेद्ये करे ते  
६६ दुकार रेकार करे ते  
६७ धरणे जेसे ते  
६८ युद्ध करवु ते  
६९ चोटादि सभारवु ते  
७० पग आधीने जेमबु ते  
७१ पावडि आभडि पडरे ते  
७२ लाभे पजे जेसे ते  
७३ पुडपुडि वगाडवी,  
७४ कान करे ते  
७५ पगनी रज उडाडे ते  
७६ मथुन सेवे ते  
७७ भाकणु शू वेद्ये  
७८ जोगन करे ते  
७९ शुभ उगाडवु अथवा मल्लयुद्ध  
करे ते  
८० वेधकर्म करे ते  
८१ वेपार करे ते  
८२ शय्या पायरे ते  
८३ पीवा भाडे पाणु राभु ते  
८४ स्नान करे ते

॥ शुद्धगुरु श्री हुकममुनिभ्यो नमः ॥

जे प्राणी आ मत्रनी एऊ नवकारवाली मन वश राखीने  
रोज फेरवे, ते प्राणीने अवश्य मनकामना सिद्ध थाय

॥ ज्ञानदीपक आत्मज्ञानी जिनशासनना पूजनिक  
श्री हुकममुनि साहेव ॥

जावार्थ -संवत् १९३२ ना कार्तिक वदि ७ थी ते पोस  
शुदि १५ सूधी देवलोकमां रहेनारा देवताजुण श्री सूरतना उपा-  
श्रयमां तथा गोमदोमने पांजरे श्रीमन्महाराज श्री हुकममुनि म-  
हाराजनोत्सव कस्यो, तेमा महाराजनी आगी, पूजा, आनुपणा,  
पुष्प, धूप, दीप, आरति, मंगलदीवो, गीत, ग्यान, नाटक, वाजित्र,  
रुशनाइ, वरसाद, गाजवीज अने खुशवोइ विगेरे तरेह तरेहनी  
अनेक चमत्कारिक वस्तुजु सहित देवताजुनु हम्मेशां आववु थतुं  
हतु सर्वे सव विगेरे हजारो माणसोना देखतां अने सांजलतां  
सवत् १९३२ ना कार्तिक वदि १३ ना दिवसे देवताजु, ए पदवी  
आपी गया ठे जो आ वार्त्तानो विस्तार करीए तो, पार आवे तेम  
नथी माटे इहां मात्र संक्षेपथीज लखी ठे हालमां पण देवताजुनुं  
आववु जवु निरतर थाय ठे तरेह तरेहनी खुशवो देवताजु करे  
ठे तेमा जेना पुण्यनी रचना होय, तेवा घणा मनुष्यो देखे ठे,  
साजले ठे अने तेजने सुगंध पण आवे ठे, अने जेना पुण्यनी रचना  
काची ठे, तेजने सुगंध पण आवे नहि तेम देखे पण नही

स्वस्तिश्री सुरत वदरे, महाशुनस्थाने, पूज्याराधे, सर्वे शुनो-

पमा जायक, सङ्गुण निधान, चतुरस्रजाण विवेक सागर  
 विवेकी, धर्मबुद्धि, गुणमति, गुणग्राही, परोपकारी, विद्वान्  
 रक्ष्य अने मरमना जाण, सर्वजीवना दयालु,  
 पंक्ति, व्याकरण अने न्यायादिकना जाणनारा, मुनियोमा  
 धार्य पदवीना धारक, धर्मतीर्थना नायक, धर्मचक्रने प्रनाम  
 संहितकार्यना स्वामी, अध्यात्म सुखना जोगी, अध्यात्मिक सुख  
 उपदेशक, वर्तमान समये विराजमान एवा महाराजाशिराद  
 महाराजा मुनिश्री ७ श्रीहुक्ममुनीजी महाराज ।

जोग्य श्री साहोदधी विखितग आप साहेवना चरण कम

लाभो रोषक, गलादी गुलाचंद सौजाग्यचंद्र, तथा अमो सर्वेशेनी  
 जगोना महानुभाव तत्त्वप्रणाम पूर्वक "नमोस्तुभ्यं, नमोस्तुभ्यं,  
 नमोस्तुभ्यं" वांचशो. वली आप साहेवने विनति करवानी क,  
 अहो! अहो!! धन्यजे आप साहेवनी तुष्टमान महेर नजरने ॥  
 के, अमे दीन राक कर्मने वश पड्या, मोहमा मुझाया जाणी आप  
 वयालु साहेवनी रहेम नजर थइ के, आ विचारा अनादि कालना  
 तृपानुर थएलानी तृपा शात करवाने आशारूप किनारे चढी आ-  
 यला जो तत्त्वामृतरसमयनुं पान करे, तो तेमनी तृपा वृजे आशा  
 । निवृत्ति पामे, सुखनी प्रवृत्ति थाय अने सदाय शातिरस्तने वेदीने  
 रहे. एम जाणीने आप साहेवनो आत्मा अभ्यासन वजे करी  
 वचन अमृतरसमय एवो वपादि वरसावे, सतजगे करी, निराबाध,  
 महाअन्नूत, गान्धिर्य, अथाग एवो आगम नामा समुद्र के, जेमा  
 अनुभवरूप लहेरोधी नरपूर नरेलो एवो जे आगम नामा समुद्र,  
 तेने किनारे चढी आवेलो नव्य तत्त्वरुची जीव कोइक पूर्वोपाङ्कित  
 पुण्यानुवधी पुण्यकर्मना उदये कृतीने पोतानी  
 निकटे करी आप साहेवना रचे, अवल  
 काइ स्याजाविक सुखनी कार्षिका  
 ग्वी

अनंता गुण मध्ये एक समकित दर्शन नामनी वीजरूप कर्णिका,  
तेनी श्रद्धा श्वाधी ते नव्य जीवोए पोतानी चित्तरूप नूमिने विपे  
वावी, तेज वेलाये जेदज्ञान रूप अकूरो उपन्यो, ते अकूराना  
स्वजावे करी स्वसत्ता, परसत्तानी प्रमाणाता थइ, त्यारे महारा है-  
यामां अत्यंत हर्ष, अन्नूत आश्चर्य आनद उपन्यो

तो अहो! अहो!! आवा सम्यक्दर्शन जेद विज्ञान विना  
में अनतो काल फोगट गुमाव्यो! एटले अकार्य फल विना अ-  
फल गुमाव्यो ते अनतो काल ए के, एक परावर्त्तन कालना व-  
खतनो अनुमान ते केनी पेते? तो के, जे देवोनां उत्कृष्टां आ-  
उखाने पामी गुमावे, एवो जे एक परावर्त्तन कालनो वखत, सपूर्ण  
सत्यार्थ तो केवलीना ज्ञानगम ठे अने तत्त्व अभ्यासी उद्भस्थ  
ज्ञानीने तो श्रद्धा मात्र अनुभवमां ठे के, धणो जे बहुकाल ठे,  
तो अनता परावर्त्तन कालनो केटलो वखत थयो? एवो जे वखत  
एटले काल, ते फल विना गुमाव्यो ते कइ पेरे? तोके, एक स-  
म्यक्दर्शन जेद विज्ञान विना एक आत्माना अन्वय व्यतिरेकादि  
जे अनता गुण पर्यायना जेद ते स्वकर्मावर्त्त अशुद्ध उपादान  
थइ, स्वसत्ता, परसत्ताने एकमेक जाणी पोतानी जे ऋद्धि संपदा  
जे स्वगुण पर्यायमां हती, ते जूले परगुण परपर्यायमा अहंपणे  
प्रणमी पोतानी मानी रह्यो, तेणे करी चतुर्गति संसारमां जन्म  
मरणनी वेदना अनती वेदी, तेवामां महारा ज्ञाग्योदयना परि-  
पाके करी तमो तत्त्वज्ञानी आत्मा अनुभवियोना अनुभवेला जे  
कांइ तत्त्वरसी वचनो, तेनो शो मतलब ठे? तेनो सार मने मारी  
मति प्रमाणे जेले प्रकारे अनुभववाचोठे तेणे करीने आप साहेबे जे  
काइ ग्रथो रचेलाठे, अने ते ग्रंथोमां एवां वचनो टांक्यांठे, के, एक  
एक शब्दना जे अर्थ अने तेनी जे मिताश ते एवी ठे के, मुखथी  
कही शकाय नही तेम हैयेथी बूटी शके पण नही तो हु एवी

पमा लायक, सङ्गुण निधान, चतुरस्रजाण विवेक सागर, विनय विवेकी, धर्मबुद्धि, शुद्धमति, गुणग्राही, परोपकारी, जिनागमना रहस्य अने मरमना जाण, सर्वजीवना दयालु, हितवत्सल महोटा पमित, व्याकरण अने न्यायादिकना जाणनारा, मुनियोर्मा आचार्य पदवीना धारक, धर्मतीर्थना नायक, धर्मचक्रने वरनारा, स्वहितकार्यना स्वामी, अध्यात्म सुखना जोगी, अध्यात्मिक सुखना उपदेशक, वर्तमान समये विराजमान एवा महाराजाधिराज महात्मा मुनिश्री व श्रीहुकममुनीजी महाराज ।

जोग्य श्री दाहोदधी लिखितग आप साहेवना चरण कमलनो सेवेक, टलाटी गुलाबचद सौजाग्यचद, तथा अमो सर्वे शैली जनोना महानुनाव तत्त्वप्रणाम पूर्वक "नमोस्तुभ्य, नमोस्तुभ्यं, नमोस्तुभ्य" वाचशो वली आप साहेवने विनति करवानी के, अहो ! अहो ! ! धन्यठे आप साहेवनी तुष्टमान महेर नजरने ! ! के, अमे दीन राक कर्मने वश पड्या, मोहमा मुजाया जाणी आप दयालु साहेवनी रहेम नजर थइ के, आ विचारा अनादि कालना तृपातुर थएलानी तृपा शात करवाने आगारूप किनारे चढी आवेला जो तत्त्वामृतरसमयनु पान करे, तो तेमनी तृपा वूजे आशा निवृत्ति पामे, सुखनी प्रवृत्ति थाय अने सदाय शातिरसने वेदीने रहे एम जाणीने आप साहेवनो आत्मा अभ्यासन बले करी बचन अमृतरसमय एवो वर्षाद वरसावे, सप्तजगे करी, निरावाध, महाअन्नूत, गात्रिर्य, अथाग एवो आगम नामा समुद्ध के, जेमा अनुचवरूप जहेरोधी जरपूर जरेलो एवो जे आगम नामा समुद्ध, तेने किनारे चढी आवेलो जव्य तत्त्वरुची जीव कोइक पूर्वोपाङ्कित पुण्यानुवधी पुण्यकर्मना उदये करीने, पोतानी काललब्धिना निकटे करी आप साहेवना रचेला ग्रथोनु अवलवन करता जे

२ स्वाभाविक सुखनी कर्णिका प्राप्त थइ, ते एवी के, आत्माना

साहेब महात्मा गुरुनी समचतरस्त्र मूर्ति तेनी शांतमुद्रा समा-  
धी जावे स्थिर थएली वीतराग जावने पोशती जाणे के, नविक  
जीवोने विना वचने मोक्षमार्गनो उपदेशज देती होय नहि! एवी  
शांतमुद्रानु अवलोकन करता हैयामा अत्यत हर्ष उत्पन्न थयो  
आगल चालता सतसरुपपंचाशीनो अभ्यास करयो, तेमा मु-  
ख्यपणे सम्यक्तजावे जे जे अंशे कर्मावर्तथी निवृत्ति थइ पोता-  
नी वृत्ति स्वअनुजाइ कहेतां पोतानी वृत्ति ठती जावे प्रणमी,  
ते ते अंशे सतपाणु प्रगट्यु अने प्रगट्या जावनी ठतीने अनु-  
भव करीने एज रसने वधारी वधारीने अनंत ज्ञान दर्शनादिक  
जे शक्तिजावे हता, ते वक्तिजावे करी अरूपी असख्यात प्रदेश  
मध्ये स्थापी स्थिरजावे करवा ए संपूर्ण स्थिरतापणु तेज परम  
सततापणु ठे ते प्रगट करवा माटे पोतानी कारक शक्ति ठती ठे  
कारण के, कारकचक्रने आवरण नथी पण विशेष एटलोज ठे  
के, अनादिकालनु बाधक जावे प्रणम्यु ठे, तेणे करीने पोते अशुद्ध  
उपादान थइ, पोताना ज्ञान प्राणादिक धाती रह्यो ठे. एटले  
अवराइ रह्यो ठे

ते जो उपादान थइ कारकचक्रने बाधक जावथी पलटावी  
साधक जावे प्रणमावी, स्वअनुगत करे ते एवी रीते के, आगममां  
श्री जगवत देवे मुख्यपणे चार कारण प्ररूप्या ठे ते १ निमित्त,  
२ उपादान, ३ असाधारण अने ४ अपेक्षा ए प्रमाणे चार का-  
रणना स्वजावने अनुभवतो थको तथा वध, उदय, उदीरणा  
अने सत्ताना स्वजावने जाणतो थको तथा देश, काल अने जा-  
यादिकनो जाण, ते एम जाणे के, हाल महारे शी क्रिया करवी घटे  
ठे<sup>१</sup> के, ते क्रिया करतां महारा कर्मनी सिद्धि थाय। एम देश,  
काल अने जावने मेलवी जोता मालम पडी थावे के, था ससा  
रमा मार्ग तो वेज देखायठे तेमा एक बंध अने वीजो मोक्ष, तेमा

आशा राखतु के, आवा महात्मा बहुश्रुतज्ञानीना वचनाने महारी ठाती साथे दावी अहोनिश तेनो अभ्यासी थइ एवा वचनोनु पान करीश, तो गु वाठित कार्यनी सिद्धि नहि करुं ? थपितु करीशज ! एवी महारी मनोवृत्ति ठे ते सजुरुना वचनना पसायथी महारी सर्व आशा पूर्ण थइ वाठित कार्यनी सिद्धि थशे ए सर्वे उपगार बहुश्रुत महात्मा गुरुनोज ठे

वली आप स्वामीजीने प्रथम कागल नग ? “प्रकृतिप्रकाश” नामनो ग्रथ ? मगाववा सारु अरज गुजारी हती, ते आप साहेवे स्विकारी थमो दिन राक, कर्मवशने पडेल्ला, जूले जमता, जब अटवीमा अस्जाएला दरदने रहेमनजर करी के, पोतानी निज रुद्धि वताववा वदल धर्मानुरागने विशे ग्रथ रचवानो श्रम माथे लेइ मोक्षमार्गनो रस्तो एवो शुद्ध करी आप्यो ठे के, जविक जीवोने ते रस्तो दृष्टिए पड्यो के, तरत सिद्धे मागे चाड्यो जाय, थने पोताने स्वाधिन जे निधि तेनं पामी मोक्ष मदिरमा आराम ले, सुखानद स्वामी पोतानी नवल वधु साथे आपशमा स्पर्शा-स्पर्शा सादिथनत जागे सुख जोगवी रहे ए सर्व उपगार आप दयालु गुरुनोज ठे कारण के, मोक्षमार्गनो प्रकाश सूर्यनी पेरे तथा केवली जगवान तथा गणरादिकोए उपदेशो ठे पण तेनो महान प्रकाश होवाने लीथे अमो मटवुद्धि स्तो रु शक्तिवालाने जासनमा न आवी शके, एम जाणी आप साहेवोए थमो दीन उपर एवो दया करी के, दीपकनी पेरे प्रकासे एवा प्राकृत जापडना ग्रथ रची सुगम मोक्षमार्गनो रहस्य दर्शावी आप्यो ठे के, तेनु अवलवन करता तरत पोताना स्वकार्यनी सिद्धि थाय सिद्धि करे तो धन्य ठे ! आप साहेवे अमारा उपर दीन जाणी उपगारना अर्थे ज्ञानप्रकाश प्रकरण ग्रथना प्रकरणसग्रह नामना थो अमारी तरफ मोकजाव्या ते ग्रथना प्रथम पृष्ठमा आप



द्वियजनित सुखनी इच्छा पुरे ते पण जाते पूर्ण नही वली ते अनित्य ठे. अने परमार्थे विचारी जोता तो, जे इद्वियजनित सुख ठे, ते जाते दुःख रूपज ठे। पण साहेबना शब्दने अवलंबता तो, सहज सहज अतिद्विय सुखनी प्राप्ति करे. अने मुक्ति रमणीनो कंत धडने बेसे अने मोक्ष मदिरमा आराम ले सादिअनत जागे पोताना स्वभाविक सुखने जोगवतो रहे ए सर्व उपगार आप महात्मा गुरुनोज ठे

हवे आपे मित्रपरीक्षामां मित्रपरीक्षानो हक पश्चोत्तर साथे सारी पेठे दर्शाव्यो ठे के, मित्र कोने कहीए? अने ए मित्रताथी शु सुख थाय? एनुं स्वरूप आपे शु-शु-शु-शु जागे करी तेनी साथे चौन्नगी जोडी चार प्रकारे दर्शावी आप्युं ठे तेणे करी वांचनार सङ्गानोने महा सुल्लन पडे जेने पोताना स्वरूपने परोक्षज्ञाने करी प्रत्यक्ष सिद्ध समान निर्धार करयुं ठे, ते धणीने तो तेनो हाथ जाली मुक्ति मार्गे लेइ चालवाने आप साहेबे मित्रोवाच तथा चैतनोवाचनां वचनोमा परस्परे प्रश्नोत्तर वादे करी महा वैराग्यरस दर्शावी आप्यो ठे. के, ते मीठा वचनोनु पान करता ए-टले अवलंबता तरतज मार्गानुसारी प्रवर्तवानो कामी थाय ते कोनी पेठे? तो के, जेम तरुणवयनो विचक्षण पुरुष स्त्रीनारस शणगारादिकनो जाण तथा मैथुनादिक कामकलानो कामी, तेने जो तरुणवयवाली स्त्री हावनावादिके करी ते पुरित शृंगार रसे रचेली चित्रामणमां उतारवा जेवी अने मीठा वचने करीने पुरुषना दिलने रीजी पमाडनारी एवी सुवासे वासित अने ते पुरुषना चितने खेची, पोताना हृदयकमलमा स्थायी आराम सुखने आपनारीनो जोग मजे, तो शु ते कामी पुरुष कामकलाना सुखनी सिद्धि नही करे? अपितु करेज, तेनो उपनय इहां एम जोडवो के, जेम इहां तरुणवयनो विचक्षण पुरुष, तेम त्यां जे

( ६ )

कागज

वध मार्गमां तो हु अनादिनो वसेलो तु माटे एमा शी क्रिया करवी पडे ? ए अकाज कार्य तो अनादिनु हतुज तेमा कार्यपणु कोण माने ? अने ज्या कार्यनी सिद्धि न थइ होय, त्या क्रिया तो करवी घटे

हवे नविन कार्य तो एज के, मोक्ष निपजाववु ठे तेने माटे पोते केवी क्रिया आचरवी जोइए ? तो के, देश, काल अने जावने मेलवी जोता घटती क्रिया नासी आवे, हवे पोतानु कार्य करवाने अतरदृष्टिए करीने जुए के, जे मने पुज्जलजावनी वृद्धि थइ ठे, तेज मने दुःखनी दातार ठे अने जे आत्मजावनी वृद्धि ठे, तेज मने सुखनी दातार ठे एम जाणी असाधारण कारणे करी पुज्जल वृद्धिना पर्यायनी हानी करतो, पुज्जल हानीना पर्यायनी वृद्धि करतो कारक, पक्ष, प्रमाण, सतजगीए करी, इव्य गुण पर्यायादिकना स्वरूपे करी स्वरूपने जाणतो वको पोताना कारकचक्रने बाधक जावयी पलटावी पलटावी, साक्षाक जावे प्रणमावी प्रणमावी मोक्षमार्गनी सिद्धि करे माटे मोक्षमार्गनी क्रिया तो उपर कह्या प्रमाणे रूही ठे, पण जो आत्म उपयोग विना फक्त एकला व्रत नियम तप जप अने वाडाना आत्मवरथी तथा कुजाचार प्रवर्तिथी क्रिया करी तेने धर्म मानी तेने परपराए मुक्ति मानी ले ठे, ते प्रत्यक्ष मिथ्यादृष्टिज देखाय ठे एज अनतो ससार ठे कारण के, कारणना कारणने धर्म माने ते वणीने मुक्ति क्याथी थाय ? ए आदिलेइ आप साहेवे सतरूपपचाशांमा बहु विधे उपदेश दर्शाव्यो ठे. तेना मरमने जे धणी जाणे, तेने मुक्ति पोताना सहज दशामांज नासे

आगल चालता मित्रपरीक्षानो अभ्यास करयो, तेमा आप साहेवे एवा वचनो रूह्या ठे के, एक एक शब्दनो अमुख्य जाणे - रत्नाचितामणिनी पेटे चितव्या फलनी प्राप्ति करे एटले इ-

दिनो विसरी गयो ठे, अने महा ढारिख अवस्थाने वेदे ठे तेने कोइक विचक्षण पुरुष कहे ठे के, अरे जाइ! तुं आवुं संकट केम सहे ठे? अने कहे ठे के, तहारी पासे अखुट निधिनो ख-जानो ठे, पण तने देखातो नथी. तेनु कारण एज ठेके, तुं पर-द्वय, परक्षेत्र, परकाल अने परजावमां चोरनी पेठे पोतानु जाणी लेवा ताके ठे, पण ते परद्वयादिकना स्वामी तो एवा ठे के, पोतानी स्वद्वयादिक जे निधि ठे, तेतो एक प्रदेशांतर तथा एक समयांतर पण पोतानी सत्ताने मूकनार नथी. तो तुं क्यां फांफां मारी महा कष्ट वेदी, तुस खांडी कणनी आशाए रहे ठे? जोने तुज तहारी निधिने अनादिनो भूख्यो ठे पण द्वायादिकनी तो पोतानी सत्ताने मूकी एक प्रदेशांतर तथा एक समयांतर पण ग्वशी नथी पण तुंज परवारे तरफ जुए ठे तेथी करीने तहारीज ले तहारीज निधि तनेज दृष्टिये आवी शक्ति नथी पण हवे तुं हारु कहु माने तो, जे तहारी हरामदृष्टि अनादिनी परावर्त नुजाइ थइ प्रणमी रही ठे तेने तु जाण के, ए परिणती क्यांथी न? अने क्यां समाइ? अने वली ए परिणतीना कर्त्ताहर्ता ण ठे? अने कर्त्ताए शु कर्म कस्थुं? अने ए कर्मने करणे कोऽप्यावुं? अने कर्म आव्याथी संप्रदानता धरी कोने अप्युं? शरण्अप्यार्थी संप्रदानता क्यां थइ? अने ए संप्रदानतादि-कनो आधारभूत कोण ठे? तेउने तुं ओलख!

हवे कहेवानुं ए के, एवुं जे कारकचक्र तेने दर समये पट्का-रकरूप प्रणम्यां जाय ठे, ते अतरदृष्टिये देख के, ए पट्कारकनो स्वामी कोण ठे? कारण के, कारकचक्रने आवरण नथी माटे देखवु जाणवु तो महा सुल्लज ठे; पण पोतानी कालब्धिना परिपाक विना तथा खपी थइ उपयोग दृष्टि देतो नथी, तेथी महादर्जन

( ८ )

कागल

जीव सहेजे पोतानी काल लब्धिना निकटे करीने अधिकरणादि  
त्रण करणे अनुसरतो अवृत्ति करणना चरम समए जेद विज्ञान  
प्रवर्तिना पायामा तेनेज तरुणवयनो विचक्षण पुरुष कहीए जेम  
इहा स्त्रीना रस शणगारादिकनो जाण, तेम त्यां पोतानी स्व  
परिणती नामनीज स्त्री तेना रस शणगारादिकनो जाण अर्थात्  
रस कहेतां स्वभाविक सुखनो जाण अनुभवे अने शणगार क-  
हेता करुणा कोमलता, तीक्ष्णता, उदासिनता, आनदता, आ-  
रामता, स्थिरता, अनाकुलता तेनो जाण, तेम इहामैथुनादिकनी  
कामकलाना कामीने तरुणवयवाली स्त्रीना सयोगे करी स्पर्शा-  
स्पर्श इन्द्रियोना वले करी मनोयोग द्वारे मनन करी गरमीनी  
व्याधिना एटले तीक्ष्णता कामरूप वीर्यना परमाणुआने  
निर्झरावतो आनद सुखना आरामने पामे ठे

तेम अतर आत्मा ते स्वपरिणती नामनी जे स्त्री तेना स-  
योगे करी स्पर्शास्पर्श जेद विज्ञान वले करी एटले निविड मोहनी  
गातोने जेदी मतिज्ञान, श्रुतज्ञान द्वारे मनन करी अवधिज्ञान  
वरणने निर्झरावतो अथवा क्षय करी मोक्ष मदिरमा एटले  
पोताना असख्याता प्रदेशमा आराम सुखना आनदने जोगी  
गवी रहेशे

हवे आ वार्त्ता कहेवानो रहस्य एजठे के, जेद विज्ञान के,  
व्या विना जे सर्वे जीवो रह्या, ते सर्वे बाल वयनाज कहेवाय.  
अथवा नपुसक पण तेनेज कहेवाय कारण के, आ मित्रपरीक्षामा  
आप गुरुजीए एवा मीठा वचन उमेस्था ठे के, तेना मरमने अर्थात्  
तेनो शो सार ठे ? तेना रसना सुखने अने तेना आस्वादनने  
ते वीचारा शु जाणो ? अने जाणो नहितो जोगवी शु शके ? हु  
एम जाणु वु के, ते सर्व प्रताप आप महात्मा गुरुनो ठे कारण  
कोइ पुरुष पोतानी स्वाधीन नीधिने पोतानी मेलेज अना-

न्य विशेष गुणपर्यायादिकनी उन्नखाएने माटे ज्ञानविलास नाम-  
नो ग्रथ आपे बद्धेलो तेनो अभ्यास करवाधी ड्व्यनी कांडक  
विशेष समजणा पडी तेथी स्वसत्ता परसत्तानी सारी, रीते निर्धा-  
रता थड तेथी मार्ग दृष्टिये आव्यो, पण पोताना कार्यनी सिद्धि  
तो ना थड, सिद्धि तो मार्गदर्शि जीव मार्गानुसारी प्रवर्तवानो अ-  
भ्यासी थड, तोज पोताना मार्गनी अने कार्यनी सिद्धि पामडो.

हवे कहेवानो हेतु तो एज ठे के, मार्गानुसारी प्रवर्तवाने तो  
आ मित्रपरीक्षामा आप साहेवे एवा मरम वचनो कहेलां ठे के,  
ए मरम वचनना मरम जाणी तरत पोताना कार्यसिद्धिनो कामी  
थाय, ए सर्व उपगार आप दयालु बहुश्रुत महात्मा गुरुनोज ठे.  
आगल चालतां परिणतीप्रकाश नामना ग्रंथनो अभ्यास कस्यो,  
तेमा आप स्वामीजीए नव्य जीवोना हितने अर्थे मोक्षमार्ग द-  
र्शाववा बदल आपे एवी दया करी के, आ विचारा मोक्षसुखना  
अज्ञापे कोड अत्रतीनी क्रियानो, कोड मनोयोगनो, कोड वचन  
योगनो, कोड काययोगनो, कोड गुणागुन कर्मनो, कोड पांच इं-  
द्रियोने मोकलापणानो, इत्यादिक सर्वनो त्याग करी मोक्ष मा-  
नी ले ठे, पण ते विचारा एम नधी जाणता के, ए पूर्वकृत कर्मना  
उदयने योगे क्रियानुं उठाण थाय ठे अने ए उठाणनी क्रियाने  
रोकवा चाहेठे, पण ते एम नधी जाणतो के, एउठाणनी जे क्रि-  
या ठे, ते तो तेना वेग प्रमाणे वर्तावी रहेशे नही ते उपर दृष्टांत  
कहे ठे (सवैया एकत्रीशा ) जैसे गजराज पड्यो रे करदम  
के कुड विचे, उद्यम अहुटे नपे ठुटे ड.ख दधशो ॥ जैसे लोह क-  
टककी कोरशो उरजडो मीन, चेत अज्ञाता लहे शाता लहे संध-  
शो, जैसे महा ताप शिर वाही रोग रास्वो नर, तके निज काज  
न सके उठी स्वठदशो ॥ तैसे ज्ञानवत न जाणे वसाहि कडु,  
वयो फरे पूरव करम फल फदशो ॥१॥ एनो अर्थ समयसारना-

करी राख्युं ठे 'कहेवत ठे के, तरणा हेठे मुगररे' मुगर कोइए दीठो नही तेम एक दृष्टिनेज ओठे ठे ते दृष्टि अनादिनी बहार तरफ देख सुखने जुए ठे, पण त्यातो एक अश पण सुखनी प्राप्ति ना थइ. हवे तु एक निमेष मात्र माहिजी तरफ देख के, तहारी जे अखुट निधि ते तहारा खेत्रथी एक प्रदेशांतर पण खशी नथी ए प्रमाणिक पुरुपोनु कहेवु मान्य करी, विनय करी, प्रतित राखी, धिरजता धरी विषय वासनाथी पोताना चित्तने चारी महा उल्लासे तीक्ष्ण दृष्टि देख पोताना स्वखेत्रे खोजवा लाग्यो पण ते अनादि कालना राग द्वेष वायुए करी, शुभाशुभ कर्म रूप धूल उडवाथी दटाइ गएली निधिनी एक सम्यक्तदर्शन नामनी कर्णिका दृष्टिये आववाथी पोताने हृद प्रतित थइ के, महारे अखुट निधिनो ख-जानो ठे एवी प्रमाणाता प्रमाणिक पुरुपोना कहेवाथी चासी, तेमज आ मित्रपरीक्षामा आप प्रमाणिक पुरुपोना मीठा वचनो-नु पान करवाथी महारा हैयामा अत्यंत हर्ष उपन्यो के, आवा दयालु गुरुए महारा उपर केटलोक उपगार कर्यो के, प्रथम म-हारी भ्रम मतिये करी मने काइपण ना सूज्यु ? के, धर्म ते शुं हशे ? अने धर्म श्याथी प्रगटे ? अने धर्म प्रगटवाथी शुं सुख थाय ? अने कुगुरु सुगुरु शा बद्धणो जाणीये ? अने व्रत, नियम, तप, जप, पूजा, प्रज्ञावनादिक एशु ठे ? अने ए आचार शा कार्य अर्थे आचरवो घटे ठे ? अने जो कदापि आचरवो, पण ते क-र्ताथे कार्यपणु कोना अदरमायनु ? माटे अतरग जेवो परिणाम हशे, तेवु कार्य थशे एवी भ्रम मतिये करी मने काइपण ना सू-ज्यु ! ए सर्वे भ्रमनो नाश करवा माटे प्रथम आप साहेबजीनी रचेली परत नग १ अध्यात्मसारोद्धारनी तथा दिनकरबोध नाम-नी मली, ते वाचता मारा हैयामा जे भ्रम हतो, ते टढ्यो अने स्व-सत्ता परसत्तानी वृजखाण अने प्रमाणाता थइ, अने ख्यना सामा-

विना कर्मबंधनो मूल हेतु वीजो कोइ नथी एवं आप स्वामी-  
जीनु कहेवुं ठे ते सत्यार्थ रीते ज्ञासनमा आवे ठे. वली, ए परि-  
णतीप्रकाश ग्रंथने विषे आप साहेवे एवी युक्ति हेतु दृष्टांते उ-  
पदेश दर्शाव्यो ठे के, वाचनार सङ्गनोने महा स्पष्ट रीते लक्ष्मां  
आवे. तेणे करी पोताना आत्माने राग द्वेष रूप बधनना फासा-  
धी ठोडावी, वैराग्य जावने आचरी परम समाधी जावमां स्थिर  
रहे. ते स्थिर थइ परम शांतजावमा मग्नपणो आनंद सुखना  
आरामने जोगवी रहे

ए ग्रथ वांचतां मने एटलो सरागजाव उपन्यो के, अहो हो॥

हालना समयमां आवी वृत्तिवाला परम गुरु विचरे ठे ॥ तो  
धन्य ठे महारा जाग्योदयने के, आवी निर्मलविना अमृतरस  
तेमां मेघनु एक बुंद मात्र पान करवायी अमारी अमर दशानी एक  
शांखा तेम बधाणी के, अर्धपुञ्जलपरावर्त्तननी मांहिलीकोरे मुक्तिरमणी  
अनिज्ञाणेथे वरीने पोताना असख्यात प्रदेशनी अमरपुरीमा निवास  
योगनो, कीने सादिअनत जांगे जोगोपजोग गुणने सदाकाल जोगवी रही-  
दियोने मोवरी हैयामा प्रमाणता धवाधी दर्शाव्यो ठे के, हेवो अने ते व-  
नी लेनेना मरमने जाणवाधी आप उपर अत्यंत सरागता करी स-  
रागता जाव करी एवी रीऊ आवी के, तेणे करी नेत्रमां हर्षानं-  
दनां अश्रुपात आव्यां तो धन्य ठे, आपना शब्द ब्रह्मने धन्य ठे.  
आपना ज्ञानने धन्य ठे आपनी क्षयोपशम दशाने धन्य ठे-आ-  
पनी जेदज्ञानरूप त्क्षणा सुजाकने धन्य ठे के, जेणे करी महान  
कष्टियो के, जे ठेदी ठेदाय नहि अने जेदी जेदाय नही एवी जे  
घाटीयो तेने ठेद जेद करी मोक्षमार्गनो रस्तो एवो सिद्धो करी  
आप्यो के, ते रस्ते चढी आवेलो जविक जीव परिणतीप्रकाश ना-  
मनी रेलगाडीमां वेसी नि संदेह मोक्षपुरीमां पहोची निवास करे  
हवे हु आपना गुणनु वाद वचनथी शुं कही शकुं? आपतो अ-

टकमाथी जोइ लेज्यो. एवी रीते ए उवाणानी क्रियानु जोरतो, गुणस्थानकनी हृद प्रमाणे केवली पर्यंत पहोचेलु ठे तेमां पण गुणस्थानकनी हृदनु पण प्रमाण नथी के, फलाणे गुणस्थानके शुभकर्मनो उदय होय के, फलाणे गुणस्थानके अशुभकर्मनो उदय होय, एवो पण काइ नियम नथी एतो पूर्वे राग द्वेषनावे जे पूर्वकर्म बाध्यु होय, तेनो तेवो रस विकार आवी निजरे. अने रसनो जाणतो, आत्मा ठे तेने काइ लागे वलगे नही अने जाणवु ते तो आत्मानो स्वधर्म ठे, अने उदयिक रस विपाकनो जोक्ता पण एज आत्मा ठे कारण के, 'कर्त्ता सोइ जोक्ता' केमके, पूर्वे राग द्वेषनावे एज आत्मा कर्मनो कर्त्ता हतो, तो रस विपाके एज आत्मा कर्मनो जोक्ता ठे. हवे एज आत्मा कर्मना रस विपाकने जोगवतां नउतन कर्मने वाधे, एवो तो काइ नियमासी; पण बांध्या कर्मनी नियमाए निर्झरातो करे, तेम तो उचवचनो-पण विशेष तो एटजोउ ठे के, पूर्वे जे कर्म बाध्यु हतु, तेने, आवा द्वेष नावे जोगवे तो नउतन कर्म वाधे तेमा पण काइ प्रथम मनथी के, जेवु कर्म जोगव्यु होय, तेवुज वाधे, एतो राधे धर्म ते गु जे प्रकृतिनो कामी आस्वादी थइ रीजे ते ते कर्मने वाधे सुख पूर्वकर्मना रस विपाकने उदासिन नावे जोगवे, तो पोतेज ते कर्मनी निर्झरा करे ते उपर बहुश्रुत महात्मा गुरुनु कहेवु ठे तेनी चोपाऽ ॥ पूर्वकर्म उदये रस जुजे, ज्ञान मगन ममता न प्रयूजे ॥ उरमे उदासीनता लहीये, उं बुध परिग्रहवत न कहीए ॥ २ ॥ ॥दोहा॥ ज्ञानी ज्ञाने मगन रहे, रागादिक मज खोय ॥ चित्त उदासे करणी करे, कर्मवध नहि होय ॥२॥ एवु आप सर्वे महात्मा बहुश्रुत गुरुनु जे कहेवु ठे, ते महा हितनु करनारु ठे अने आपे परिणतीप्रकाशमा तो निरतर पोकार करी पचारी पचारी ने कथ्युं ठे के, फक्त एक राग द्वेष नावथीज कर्म वधाय ठे. ए



वियोग रहे ठे. गइसाल आपनां दर्शनने सारु आववानुं हतुं, पण अतराय कर्मना उदय बले आवी शकायुं नही वली हालमां पण आववानु ठे, ते महारा जाग्योदय प्रबल हशे तो, आपनुं दर्शन थशे हालमां रतलाम तरफथी मनसुखनाईए एवा समाचार लख्या ठे के, महाराजनु शरीर नरम ठे, एवा समाचार सांजड्या तेथी महारा मनमां सरागजावना वशे चिंता थाय ठे. माटे आपना शरीरनी सुखशाता विपेना समाचार लखी जणावशो कारण के, तेथी महारा चित्तमा स्थिरता आवे, ने आपतो सदाय स्थिरतावंतज ठो कारण के, ज्यां सूधी ए वेदनीय कर्मनो उदय ठे, त्यां सूधी शाता अशाता निज सामग्रीनो संयोग बन्यो रहे पण आप महात्मा पुरुपोनी वृत्तितो सदाये क्योपशमजावनी अधिकताना बले करी अहोनिश उदासिनता जावे प्रणामी रहे तेना सजावे करी शाता अशाताना कारणमां लेपाती नथी. केम के, जलमां कमल सदाये अलिप्तज रहे ठे, तेम आपनी वृत्ति उदयना अरुजाट्टमां लिप्तमान थती नथी. ते हुं सारी रीते आपना वचनथी मानुंहुं शा कारणथी के, आपे मित्रपरीक्षामां मित्रोवाच तथा चेतनोवाचना सवादमां आपनी वृत्तिने निर्मलानद मीठा वचने करी उदासिनता जावे एवी संतोपित करी ठे के, सदाये परजावनी कामना प्रवृत्तिथी निवृत्त थइ स्वाधीन जे स्वजाविक सुख नामनी सख्यामां संतोप जावे स्थिर थइ आरामसुखना आनदने जोगवी रहे एम आपना वचननी प्रमाणाता आवे ठे के, आवी वृत्ति सदाये स्थिरताजावे प्रणमेलीज रहे ठे ! तेथी आपने शाता अशाताना जे उदय, ते सामान्य अचेद जावे सदाये समधीनोज वखत ठे, एवीज आपनी वृत्तिनी प्रमाणाता महारा अनुभवमां आवे ठे ने आप तो सर्व वाते जाणमान गुरु ठो अने आ कागलनु लखाण वधी गयुं तेनु कारण

नतगुणना पात्र ठो, आप अनत ह्योपशमदशानी प्राप्ति करी  
पोताना स्वगुण पर्यायने निरतर जोगोपजोगे करी सदाये गुणीने  
जोगवी रहो ठो. अने नविक जीवोने पण तेज मार्गं चालवानो  
उपाय बतावो ठो माटे स्वपरदयामयनु जे ध्यान, ते तमेज ठो  
तथास्तु

हवे प्रश्न कहीए गीए. ते नीचे मुजब.

अहो स्वामिन्! तिर्नक प्रचय अने ऊर्ध्व प्रचय ते कोने क-  
हीए? अने तेनु केवुं स्वरूप ठे? ते आपनी कृपाथी हु ज्ञाणवा  
ने इहु बु

वली केवली जगवानने तथा सिद्ध परमेष्ठिने वर्तमान एक  
समये अतित अनागत काल सबधी पदार्थोना पर्यायनु जे ज्ञान  
कहेता जाणपणु, ते शी रीते जासनमा आवे ठे? कारण के, व  
र्तमान समयना पर्यायनी वक्ति जावे प्रणमेलो जे पदार्थ, ते तो  
जासनमां आवी शके, परंतु अतितकालनो जे पर्याय ठे, ते तो  
व्ययने पामेलो ठे अने अनागत कालनो पर्याय वक्तिजावे प्रण-  
म्यो नथी तेम वस्तुमा पर्यायना ढगला नथी कारण के, जे स-  
मये सोनु मुद्धिका पर्यायने प्राप्त थएलुं ठे, तेज समये सोनु क  
कण पर्यायने प्राप्त थएलु होय तेम पण नथी कारण के, ज्यारे  
मुद्धिका पर्यायनो व्यय थाय, त्यारे ककण पर्यायनो उत्पाद थाय  
एम जोता वस्तुमा वर्तमान समये ढगला पण नथी तो वर्त्त-  
मान समये त्रिकाल सबधी पदार्थोना पर्यायनु जे जाणवु, ते  
शी रीते जासनमा आवे? तेनो खुलासो महारा सदेहने दूर क-  
रवा माटे आप कृपादृष्टि करी बतावशो?

वली आप स्वामीना दर्शन करवानी मने घणा दिवस थया  
जिलापा ठे, पण महारा कमनशीवने लीये आपना दर्शननो

मे महारा आत्माने कर्म प्रकृतियोना वोजाथी कांइ पण हलवो न करघो ? अने शात दांत गुणे करी न सतोप्यो ? अने विषयवासना राग द्वेषथी पराङ्मुख न करघो ? तेणे करी आर्त्त रौड्ध्याननुं जोर जवर रहेठे. अने तेथी महारु मन मलीन रहेठे, कदापि कोइवार उपशमजावना वशे सत्ताचूमिना जेदज्ञाननो अनुभव एक अधनिमेष मात्र थाय, ते पण विशेष वार टके नही. तो देशविरतीयादिक चारित्र गुणस्थानकनी वातनुं तो कहेवुंज गुं ? एम जोतां मने चारित्र मोह जवरो नडे ठे, तेथी महारा अध्ववसाय मलीन रहेठे तेथी हुं महारा कठोर परिणामने धिक्कारुं तु अने संबोधु तु के, क्यारे तु तहारा हृदयने निर्मल करी आत्मा अनुभवमां रमण करीश ? अने आत्मा अनुभवनो कामी थइश ? स्थिरता जावे स्वभाविक सुखना अनुभवने क्यारे वेदीश ? एवी महारी अजिलापा रूप मनोवृत्ति ठे ते सज्जुना प्ररूपेला श्रुतरूप शब्द ब्रह्म के, तेमां उत्सर्ग अपवाद मार्गनी मित्रताइथी पोताना कर्मनी सिद्धि थाय, तेवा उपाय वतलाव्या ठे. ते रूप अवलंबन करी महारा वाठितकार्यनी सिद्धि करुं. एवी महारी मति सज्जुना वचन पसायथी पूर्ण थानुं। एज विनंती लिखितंग आपना चरणकमलनो सेवक, तलाटी गुलावचंद सौजाग्यचंद नानो तेना महानुभाव तत्त्वपूर्वक “नमोस्तुभ्यं, नमोस्तुभ्यं, नमोस्तुभ्यं वांचशो ! आप स्वामी सदाये शुद्ध उपयोगमां वर्त्तो ठो, तेम सदाये वर्त्तशो. एवी जयपणानी वृत्तिनेज धन्य ठे। धन्य ठे। धन्य ठे।।।

॥ इति समाप्तम् ॥

एज ठे के, मने आपना उपदेशरूपी वचननु पान करवाथी एट-  
ले वस्तु अनेक नयात्मक ठे तेनी लेशमात्र अनुभवमा श्रद्धा व-  
वाथी में महारा आत्माने पर जे अजीवज्ञव्य, ते अपर जे जीव-  
ज्ञव्यथी नाखो (जुदो) अनुभव्यो के, महारा स्वज्ञव्यादिक निद्वे-  
पामा परज्ञव्यादिक नद्वेपानु सदाये नास्तिपणु ठे एम परस्पर  
निद्वेपादिकनो विचार करता महारो आत्मा परज्ञव्यादिकथी  
न्यारो अनुभव्यो अने अनुभव्याना आनदनो आश्चर्य आववा-  
थी मनमा ठाक आव्यो

हवे कहेवानु के, जेना मनमां ठाक होय, ते गु गुं न कहे ?  
अपितु जे जे मनमां उवाण उवे, ते ते सवे कहे तेमज आप गुरु  
पिता आगल हु जे बालक, ते गु गुं न कहु ? माटे आ कागलना  
लखाएनी अदर महारी मतिदोपथी अथवा मंदबुद्धिथी हीना-  
धिक शब्दो लखाणा होय तो, ते दोपनो महारा उपर कृमानाव  
राखशो कारण के, मने आपना गुणनो नक्तिनाव विशेष ठे. के-  
टलीएक वार स्वप्नामा पण आपनी शातमुद्धानु अवलोकन करु  
हुं तथा महारु हृदय जेम कमलने सूर्यना सयोगवत् महा प्रफु-  
ल्लित थाय ठे, तो जाग्रत अवस्थामां आपना गुणनी नक्तिनो राग  
केम न होय ? अर्थात् अवश्य होयज । ए रागना लीधे आ काग-  
लनु लखाण वध्यु ठे. वली केटलीक तो महारा मननी उरमीने  
अटकावी लखाण करय ठे कारण के कागल वधी जाय केम के,  
आतो कागज ठे के, चोपडी ? वली एम जाणी पण विशेष लखाण  
नथी करयु केमके, बहुश्रुती थोडामाज धणु जाणे ठे के, आनो शो  
हेत ठे ? अने जे हेतुना मरमने जाणे, तेमने वधारे शु लखवु पडे ?  
एज मने बोधनी वृद्धि थवानी प्रार्थना ठे ते सजुरुना वचन पसा  
यथा फयवती धशे

वली महारी एवी डर्वशा ठे के, प्रकृतियोनु स्वरूप विचारते

अने उल्लंघ्यती दश जेद ठे ते पांच जेदमां प्रथम अजिग्रहि मिथ्यात्व ते केवुं ठे के, लीधेली हठ ठोडे नही, केनी पेते के, गर्हव पूठवत् ॥१॥ वीजु अजिग्रहि मिथ्यात्व ते केवुं ठे के, सर्वेने देव गुरु जाणे ठे, पण कोइनी परीक्षा जाणतो नथी जला जुंडानी खबर नथी ॥ २ ॥ त्रीजुं अजिनिवेशि मिथ्यात्व ते केवुं ठे के, खोटुं जाणे पण ठोडे नही वीतरागनो मार्ग साचो जाणे, पण आदरे नही केनी पेते? जेम श्री पार्श्वनाथस्वामीना सतानिया चरित्रथी भ्रष्ट यइने गोशाला पासे रह्या तद्वत् ॥३॥ चोयु संसइ मिथ्यात्व ते, वीतरागना वचनमां समये समये सशय पडे के, ए वचन साचुं ठे के जुतु ठे? अथवा ए वात हशे के, नहि होय? एम मन मोलातु थकु रहे ॥ ४ ॥ पांचमु अनाजोग मिथ्यात्व ते केवुं ठे के, अजाणपाण्ट एटले काइ पण धर्म कर्मनी खबरज नथी। ते सर्व थकी नबलो, अजाण ठे शा वास्ते के, जाण अजाणना जोगा आठ आठनी आदेदेइने विस्तार घणो ठे परतु इहा ग्रंथ गौरवना नयथी लख्यो नथी तथा जे मिथ्यात्वना दश जेद कह्या, ते श्री गणान्गजीसूत्रमां ठे, ते रीते जाणजो एवी रीते मिथ्यात्वने जजतो थको जीव संसारमा अनंतोकाल परित्रमण करे. ॥१॥

तथा अत्रतना वार जेद ठे, तेनो विस्तार करयो नथी. अत्रतने सेवतो जीव अनता कर्म उपार्जे, माटे अत्रत थकी सदाकाल मने वेगलु रहेवु अने अहोनिशी एवी विचारणा करवी के, रखे। हु महारा उपयोगथी चूकीने अत्रत जेगो जलुं ॥१॥ शा माटे के, आगल हु अत्रत जेगो घणो काल रह्यो, तेथी मे अनंतां दुःख जोगव्यां ठे, ते दुःखनो विस्तार आगल कहीशु ॥२॥

हवे त्रीजो कपाय ते सोल कपाय अने नव नोकपाय, एम पच्चीश जेद थाय, ते थकी पण अनता कर्मनुं आववु थाय ठे. ते

## ॥ अथ श्री मनोरथभावना प्रारंभः ॥

### ॥ दोहा ॥

समरी सरसति नगवति, प्रणमी पास जिणंद ॥ नविक जीव-  
ना हित नणी, करू गुह प्रवध ॥१॥ श्रावक नित ध्यावे सदा, ती  
न मनोरथ सार ॥ संक्षेपे ते वर्णवुं, नविक जीव हितकार ॥२॥ करू  
बालावबोध नापामय, जिहा निश्रे व्यवहार ॥ अल्प जीव स्-  
मजे तुरत, समज्या होय सुखकार ॥३॥

### ॥ अत्र नाषा लिख्यते ॥

श्रावक पाठजी चार घडि रात्रि जेइ प्रजाते ऊठे, ऊठीने शी  
करणी करे ? तो के, मनने विषे त्रण मनोरथ विचारे ते त्रण म-  
नोरथ किया ? ते कहे ठे ? प्रथम आश्रव धकी मूकावानो विचार  
करे, १ वीजो किये दिवसे हु सर्वविरति चारित्र पामीश ? २ त्रीजो  
समाधि सयारो विचारे

हवे जे आश्रवथी निवर्त्तवु, ते आश्रव केवो ठे ? तो के, ते  
आश्रवना नाव धकी जीव ससारमा अनतो काल परिभ्रमण  
करे जे ससारने विषे सर्व जीव आश्रवने वश रह्या धका धर्म  
पामी शकता नथी ते आश्रव शायी थावे ठे ? तेनु कारण कहे  
ठे. ते आश्रवनां मूल हेतु चार ठे, अने उत्तर हेतु सत्तावन ठे ते-  
मा प्रथम मूल हेतुनो विवरो कहीए ठीए ? प्रथम मिथ्यात्व, २  
वीजो अप्रत, ३ त्रीजो कपाय, अने ४ चौथो जोग हवे जे मिथ्या  
त्वथी मूकावु, ते षणु मुक्केल ठे ज्या सूधी माहिथी मिथ्यात्व  
गयु नथी, त्या सूधी कोइ जीव समकित पामी शके नही,  
अने समकित विना कोइ जीवनु कार्य पण थाय नहि, ते कारण  
माटे प्रथम मिथ्यात्वने तजवु ते मिथ्यात्वना जघन्यथी पांच जेद

एथकी पण नारकीने विपे अनतगुणु अधिक ड.ख ठे ते कारण माटे हे चेतन ! तुं पण तेवां ड.ख अनंतीवार जोगवी आव्यो वु तना ठेदन चेदन महा आकरां ठे, ते सर्वे सिद्धांत साजलतां खवर पडशे अने इहा तो अल्प सुख ठे, अल्प आनखुं ठे, अल्प कृद्धि ठे, ते अल्प सुखने वास्ते अनताकाल सूधी अनंतां डःख जोगववां पडशे ते सर्व सक्षेपधी देखाडीए ठीए

जे क्रोध, मान, माया अने लोच, तथा पांच इन्द्रियोना तेवीश विषय तथा स्त्रीआदिकनां रूप पष्ठादिक, तेने विपे तु मग्न थाय ठे, पण ते तो घणा काल सूधी तने ड.खदाइ ठे अने पुत्र कलत्र स्वजन सवधी, ते तो स्वार्थना सगा ठे, पण तेमां कोइ तहारु नधी ज्या सूधी स्वार्थ पूरो थशे, त्यां सूधी ते सौ, तने सारो सारो कहेशे, पण स्वार्थ पूरो नहि थाय, तो तेज आज जवने विपे निदा करवा लागशे ते माटे हे चेतन ! तु जे महारुं महारु करे ठे अने पापकर्म वाधे ठे, परतु तेना घणा आकरा विपाक तहारे आगल जोगववा पडशे माटे हे चेतन ! एवो जे आश्रव, तेने तुं ठाड ॥ इति छव्य आश्रव ॥

तथा हे चेतन ! जे राग द्वेष ठे, ते निश्चे ज्ञाव आश्रव ठे, तेने तुं ठाडीने निज स्वरूपने विपे रमण कर, अने चारित्रनी खप कर, ए चारित्रने विपे अल्प ड.ख ठे, अने अनंतु सुख ठे श्या माटे के, जो तत्रवे मोह जाय, तो अनतोकाल सदाय सुखमां रहे फरीधी संसारमा आववु पडे नही कदापि देवलोकमां जाय, तो सागरोपम सूधी देवलोक सवधीयां सुख जोगवे ते देवलोकना सुख केवा ठे ? तो के, चक्रवर्ती आदे देइने सर्वनु सुख जेगु करीए, तो पण देवलोकना एरु सामान्य देवताना सुखने-तोले न आवे माटे चारित्र धर्म एवो ठे के, अनंतु सुख अने अल्प ड.ख, ते कारण माटे हे जव्य जीवो ! एवु जाणीने आ-

कषाय प्रसिद्ध वाक्य ठे, माटे इहा विवरो करयो नथी ॥३॥

हवे चोथो जोग, तेना पंदर जेद तेमां चार मनना, चार वचनना अने सात कायाना, एव पंदर जेद थाय, ए योग थकी अनंतां कर्म वधाय ठे ॥४॥

ए प्रकारे चार मूल हेतु अने सत्तावन उत्तर हेतु, ते थकी जीव संसारमा अनताकाल परिभ्रमण करे तथा तेथी केटलां-एक कर्मदल समय समय आवे ठे आ संसारने विषे अनता अजवि जीव ठे, ते अजवि थकी अनतगुणा तथा सिद्धने अनंत मे जागे समय समय जीवने एटला कर्म वधाय ठे ते कारण माटे एवु जाणाने, हे चेतन ! चार मूल हेतु थकी तु वेगलो रहे शा माटे के, कर्म वांयवा तो सुलज ठे, परतु जोगवता तेना विपाक घणा आकरा ठे तेनो सद्धेपथी विवरो लखीए ठीए

तिर्यचनी गतिने विषे पाच स्थावर, त्रण विकलेंछि, त्रिर्यच पचेछि, अने समूर्द्धिम गर्जज, ए समुच्चे लखीए ठीए ए सर्व सर्वनो अर्थ विचारी लेवो हे चेतन ! तु प्रत्यक्षपणे देखे ठे के, ए जीव विचारा अनाथ ठे ! एने कोइनु शरणु नथी, अहोनिश जयमाने जयमा रहे ठे, घणा ठेदन जेदन सहे ठे, एक एकना प्राणनो त्याग करावे ठे, ते विचारा रांकनी पेठे टलवले ठे, तेनी कोइ सार संज्ञाल करतु नथी तेने केटली जातनो जय ठे ? ते कहे ठे प्रथम तो तेने तेनी जातिना जीवो हणे ठे, तथा परजातिना तिर्यच ते पण हणे ठे, तथा मासआहारी पारधी लोक ते पण तेने प्राणरहित करे ठे तथा अहोनिश ताढ तडको पण खमे ठे, केम के, तेने उठवा पाथरवानु तथा रहेवानी जगा पण ठे नही तथा रोगादिक उपन्याथी महा वेदना जोगवे ठे, शरीरने विषे वेइछि जीव पडे, तेने कोइ काढनार ठे नही तेवी रीते हे चेतन ! तु प्रत्यक्षपणे देखे ठे अने तु पण एने विषे अनतीवार गयो तु, वली



तहारा ज्ञान दर्शननी शुद्धि कर. तेमां प्रथम ज्ञाननी शुद्धि कर, पठी दर्शननी शुद्धि कर प्रथम दर्शननी शुद्धि जोइए ते दर्शन, समकितने कहीए. इहां कोइ तर्क करे के, चारित्रना जावने विषे समकितनो जाव केम कहो ठो ? के, चारित्र.सातमे गुणवाणे ठे, अने समकित शुद्धि चोथे गुणवाणे ठे, तो निचला गुणवाणानी वात उपढ्या गुणवाणामां केम कहो ठो ? तेनो उत्तर एम कहेवो के, ए तर्क तमे ठीक कस्यो, पण चोथा गुणवाणा करतां सातमा गुणवाणे समकित शुद्धि विशेषे होय इया माटे के, घणी प्रकृतिनो क्य उपशम होय, तेढलो आत्मा विशेषे निर्मल होय. ते माटे इहां समकितनी जावना जाववी. ते श्री आचारांगजी सूत्रमां कहु ठे के, मुनि समकितनी जावना जावे. ते माटे ते जग्याए दूषण नथी

हवे समकितनी शुद्धि बतावे ठे व्यवहार समकित ते, देव अरिहत, गुरु सुसाधु अने केवली जापित धर्म, तेने सत्य करी माने, तेनी सदहणा राखे तेने व्यवहार समकित कहीए. तथा निश्चे समकित ते, जे सात प्रकृति उपसमावे तेने उपसम समकित कहीए तथा बीजे जेदे कांइक उपसमावे अने कांइक क्य करे, तेने क्यउपसम समकित कहीए. तथा सात प्रकृतिनो क्य करे, तेने क्हायिक समकित कहीए ते धणीने सदहणा केवी होय ? तो के, निश्चे देव ते महारो आत्मा सर्व गुणो करी सहित ठे, अने सर्व दोषे करीने रहित ठे निश्चे गुरु ते महारो आत्मा निश्चे धर्म ते महारा आत्मानो स्वजाव एवी रीते सदहे अहियां विचारणा घणी ठे, परंतु ग्रथ गौरवना नयथी लखी नथी तेने निश्चे समकित कहीए

हवे सक्षेपथी ज्ञाननी शुद्धि कहीए ठीए पांच ज्ञानना जेदने जाणो, पदुख्यने जाणो तथा पदुख्यना गुण पर्यायने जा-

श्रवने वेगलो करवो, ॥ इति प्रथम मनोरथ समाप्तम् ॥

हवे बीजा मनोरथमां श्रमणोपासक (श्रावक) एवु चिंतवे के, के दिवसे हुं आगारधर्म एटले ग्रहस्थपणु ठांडीने अणगार धर्म अगीकार करीश ? जे दिवस एवो आवशे, ते दिवस हुध न्य करीने मानीश ते अणगार धर्म केवो ठे ? तो के, जेने विपे पाच महाव्रत रह्या ठे, पाच सुमति ठे, त्रण गुप्ति ठे, पाच आश्रव गया ठे, पाच इच्छियो सवरी ठे, चार कपाय टाढ्या ठे, चार विकथा ठोडी ठे, चार सज्ञा जेनी पातञ्जी पत्नी ठे, त्रण गारवे करी रहित ठे, त्रण दमयी विरम्या ठे, त्रण विराधना जेणे तजी ठे, त्रण आराधना जेणे अगीकार करी ठे, ठकायना प्रतिपालक ठे, सात जय निवास्या ठे, आठ मद जीप्या ठे, आठ प्रवचन माताना धारक ठे, नवविध ब्रह्मचर्यना पाजक ठे, दशविध यति-धर्म जेणे अगीकार कस्यो ठे, तथा हे चेतन ! निश्चेचारित्र प्रगट थए थके, कढ्याण धाय श्या माटे के, व्यवहारचारित्र तो, अनवि जीवने पण होय, व्यवहार चारित्र तो आ जीव अनंतीवार आदरी चुक्यो, पण काइ काम आव्यु नहीं माटे हे चेतन ! तु तहारा स्वभाव थकी निश्चेचारित्रने प्रगट कर जे थकी मोक्ष रूपणी स्त्री मले ते निश्चेचारित्र कोने कहीए ? तो के, निश्चेचारित्र ते आत्मानु नाम ठे ते श्री जगवतीजी सूत्रमा कह्यु ठे ॥ “आया खलु सामाये” इति वचनात् ॥ तथा श्री उक्त-राध्यनजी सूत्रमा कह्यु ठे के, ॥ उक्तच “बहु सहावो धम्मो” इति वचनात् ॥ ते माटे आत्माने उंजख्या विना जे क्रिया करे, ते लेखे आवे नहीं ते वास्ते हे चेतन ! तु तहारा आत्मानी उंज-खाण कर के, आत्माना घरनु ज्ञानदर्शन ठे, तेने विपे जे स्थिर प्रणामे रहेवु, ते निश्चेचारित्र कहीए माटे हे चेतन ! तु प्रथम

क्रिया विना एकला ज्ञानवडे कार्य सिद्धि थाय नही ते श्री आ-  
 चारांगजी सूत्रमा कह्युं ठे के, क्रिया नय विशेष ठे अने ज्ञान नय  
 सामान्य ठे. माटे आत्मार्थिने वे पक्ष विचारवा जोइए. आत्मा-  
 र्थिए ए वातमा संदेह राखवो नही ॥ “ ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः ”  
 इति वचनात् ॥ हे चेतन ! निश्चे अने व्यवहार थकी एवं चारित्र  
 किये दिवसे प्रगट थशे ? अने आत्मा कर्म वंधथी किये दिवसे  
 मूकाशे ? अने आश्रव थकी किये दिवसे वेगला थइशुं ? जे दिवसे  
 वीतरागनी आणा प्रमाणे चारित्र धर्म अंगीकार करीशु, ने तेनो  
 निर्वाह करीशुं, ते दिवस लेखे करी मानीशुं. धन्य ठे ! ते पुरुषोने  
 के, जे वीतरागनी आज्ञा प्रमाणे चाले ठे, महारे एवो दिवस  
 क्यारे आवशे ? अने आ मोहजालथी हुं क्यारे बूटीश ? हे चे-  
 तन ! ए कोइ तहारुं नथी, एतो सउ सउना स्वार्थनुं सगुं ठे.  
 माटे तुं शेमा महारुं महारु करीने छःखी पाय ठे ! जे कर्मबंध  
 करीश, ते तहारे एकलानेज जोगववां पडशे, पण कोइ जाग लेवा  
 माने, तेना ~~माटे हे चेतन ! तुं चेत आ जोगवाइ फरी फरीने~~  
 निश्चे समकित ते, ~~अन ठे आर्यक्षेत्र, श्रावकनुं कुल, सजुरुनी~~  
 कित कहीए. त ~~ना वचननुं सांजलवुं, निरोगी काया अने पांच~~  
 करे, तेने ~~द्वय~~ पण, जो आवी जोगवाइ मले नहि चेत, तो तहारे  
 करे, तेने ~~द्वय~~ आवशे ? माटे हे चेतन ! हे जीव ! । ससार थकी विरम  
 तो के, नि ~~ार रूप समुद्रमां श्या वास्ते तणाय ठे ? साक्षात् धर्म~~  
 सर्व दोषे ~~धमां आव्यु ठे, ते उपर चढी वेश. के, जेम संसार रूप स-~~  
 र्म ते ~~र पार पामे ते थकी आत्मा अनंत सुखनो जोगदारी थशे.~~  
 चारण ~~रूपणी स्त्री मलशे जे रोग, शोग इत्यादिक छःख ठे, ते~~  
 श्रे ~~र टलशे जन्म जरा अने मरणना फेरा टलशे, एवो चारित्र~~  
 न ठे, ते तुं अंगीकार कर बीजे मनोरथे श्रावक एवी जावना जावे.  
 इति द्वितीय जावना समाप्तम्. ॥

ए, तेने सात नये करी तथा छव्यार्थिकना दश जेदे करी तथा, पर्यायार्थिकना ठ जेदे करी तथा आठ पद, अने पदकारकादिक जेदे करीने जाणपणु तेने ज्ञानशुद्धि कहीए तेने विषे जे स्थिर प्रणाम, तेने निश्चेचारित्र कहीए. निश्चेचारित्रने विषे रह्यो थको जीव एवी करणी विचारे के, हे चेतन ! तूं आत्मानी घात करीश नही, श्या माटे के, जो तूं तहारा आत्मानु रखोपुं नहि करे, तो तहारे अतता नव सूची जन्म मरण करवा पडशे ते कारण माटे प्रथम पोताना आत्माना गुणनु रखोपुं करवुं ते आत्माना गुण केवा ठे ? तो के, हे चेतन ! तु एक तु, बीजा अनेक ठे, ते पुजल ठे, ते पुजल तु नही ए पुजलनो स्वजाव तो समण, पमण अने विधसणनो ठे अने तहारो स्वजाव तो अक्षय ठे, तु अरूपी तु, पुजल तो रूपी ठे, तु तो अचल तु, पुजल तो चल ठे, तु अकल तु, पुजल तो कल ठे, तु अवेदी तु, तु अवेदी तु, तु अक्षय तु, तु अजर तु, तु अमर तुं, तु अफरशी तु, तूं अनंज्ञानमय तु, तु अनत दर्शनमय तु, तु अनत चारित्रमय, वैवर्हारचारित्र तो, मय तु, तु अनत उपयोगमय तु अने तु अन्ध्या जीव अन-निश्चे थकी निज आत्मा जावतो थको विचारे पुजो माटे हे चे छव्य, तेनो परिहार करतो थको जाव थकी पाच मर जे थकी दिक विचारे श्या माटे के, जे ज्ञान ठे, ते महोटी वी तो के, जगवतीजी सूत्रमा पण कद्यु ठे के, ज्ञानी सर्व थकी सूत्रमा ठे, माटे जे ज्ञान ठे, ते महोटो पदार्थ ठे, अने क्रिया ठे वी उत्त-न्य पद्दी ठे केमके, श्री जगवतीजी सूत्रमा कद्यु ठे के, "मो" कोड वर्षमां वेदन जेदनादिक खमी जेटलां कर्म खपावे, करे, कर्म ज्ञानी एक श्वासोच्छ्वासमा खपावे माटे ज्ञान ठे ते महत्-पदार्थ ठे, एवु साजली कोइ अजाण पुरुष कहेशे के, अमेर एक ज्ञानज ग्रहण करीशु क्रियानु शु काम ठे ? तेने उचर के,

संधारे वत्ते ठे, तेने वन्य ठे हुं पण एवो संधारो किये दिवसे पामीश ! जे दिवसे एवो संधारो पामीश, ते दिवस लेखे करीने मानीश. ए रीते श्रावकजी त्रण मनोरथ धारे एम श्रमणोपासक त्रण मनोरथ करतो थको अनंतां कर्मने निर्झरे.

वली ते पठी विचारे के, हे चेतन ! आज तहारे शो तप करवो ? इया माटे के, चार प्रकारना आहार करतां तने अनंतो काल थयो, तो पण कांइ तने तृप्ति वली नही ।। माटे तहारे तप करवो श्रेय ठे. केम के, जो तप नहि करे, तो चार प्रकारना आहार करवाथी तुं अति प्रमादने सेवीश काम कंदर्पने घणो वधारीश एथी अनेक प्रकारनी माठी गतियोने पाठो प्राप्त थइश अने जे आहार करीश, तेथी तो मात्र पुज्जल पोखाशे. पण कांइ आत्मानुं कडयाण थसे नही, अने जे पुज्जल ठे, ते तो अंते कांइ रहेवाना नथी अने पुज्जल पोखता जे कर्म बंधाणा हशे, ते तहारे थवदय जोगववां पडशे माटे हे चेतन ! तुं तप कर आज तहारे ठमासी तप करवो श्रेय ठे. वली विचारे के, जो महाराथी ठमासी तप नहि वनी आवे, तो पांचमासी तप करुं, एम अनुक्रमे विचारतो थको यावत् पोतानी शक्ति सारु नवकारशी, पोरशी आदिदेइने जेटली शक्ति होय, तेटला तपनो निश्चय करे. एम ज्ञावना ज्ञावतो थको श्रमणोपासक एम चितवे ॥ दोहा ॥ एम मनोरथ विधि, कही, श्रावकने हित हेत ॥ जणे गणे ने साज्जले, तस आतम होय श्वेत ॥ १ ॥ जब लग रवि सशि रहे, तव लग रहो ए ग्रथ ॥ मेरू परे अचल रहो, पसरो पोहवी सथ ॥ २ ॥ निश्चे व्यवहार रचना करी, ग्रंथ एह गुण ज्ञान ॥ नामे मनोरथ ज्ञावना, रत्नतणी ठे खाण ॥ ३ ॥ वढियार देश वणोद गाम कीयो श्रावक काज ॥ सवत जंगणीशे पांचमां चैतरे चंद रा ॥ ४ ॥ चतुर्दश भ्रगुवार सहि, कीधो ग्रथ विनाण ॥ वांचे

हवे त्रीजो मनोरथ कहे ठे त्रीजा मनोरथे श्रावण संधारो चितवे ते समाधि सधाराना वे जेद ठे एक व्यवहार अने बीजो निश्चे तेमा प्रथम व्यवहार थकी समाधि सधारो देखाडे ठे पोता-नु शरीर शिथिल थयु जाणो, आठखानो काल, पण नजिक आ-व्यो जाणे, त्यारे सधारानो मनोरथ करे पठी संधारानी जूमि (जमीन) पडिलेहीने प्रमाजें, पठी लघुनीति, वडीनीतिनी जूमि पडिलेहीने प्रमाजें प्रमार्जिने माननो सधारो करे, करीने ते स-थारा उपर वेसीने प्रथम सिद्ध जगवतने नमोवृणं करे, पठी अ-रिहतने नमोवृण करे, अथवा धर्माचार्यजीने करे नमोवृण करी-ने पठी अण्यथकी अने जावथकी अठार पापस्थानकने आलोवे, त्यां सधाराना वे जेद ठे एक पादोपगमन संधारो, ते जेम वृद्धनी माल कापेली पडी होय, ते जेम हाले चाले नहि, तेम तेज रीते सधारार्थी हाले चाले नही. ॥ १ ॥ बीजो सादो सधारो ते चार आहारने पञ्चख्ये एवी रीते सधारामा रह्यो थको पूर्वे जागेला पापने आलोवतो थको पडिक्कमतो थको तथा धर्माचार्या-दिकने नमस्कार करतो थको, तप सयमे करी आत्माने जावतो थको कालने अवसरे काल करे, तेने व्यवहार थकी समाधि सं-धारो कहीए अने निश्चे थकी समाधि संधारो ते पोताना आ-त्माने जागेजां कर्मनी वर्णानो विचार धर्मध्याने प्रवर्ततो थको तथा अण्य, गुण अने पर्यायनो विचार, ते जेदज्ञान, एवी रीते विचारतो थको कालने अवसरे काल करे, तेने निश्चे थकी समाधि सधारो कहीए इहा थणो विचार ठे, पण ग्रथ गौरवना जयथी लख्यो नथी ए रीते व्यवहार अने निश्चे सधारो कहीए. अण-इच्छाए सम दम प्रणाम सहित निज आत्माने जावतो थको अ-नियाणे एटले नियामे करीने रहित एवो समाधि सहित सधारो पणित मरण साथे ठे तेने धन्य ठे, तथा जे वर्तमान काले एवे

## वास्तुक पूजा.

(१९)

तासरे ॥ ए अपमंगलिक जाणीए, जिहां जीवहिंसानी राशरे ॥  
 शांति० ४ ॥ एह अगुन वास्तुक कही, होवे पापनी राशरे ॥  
 आ नव परनव छःख लहे, एम न करीए वासरे ॥ शांति० ५ ॥  
 मंगलीक नणी कीजीए, वास्तुक घरनुं जेहरे ॥ सरव मंगलमें  
 मंगल कह्युं, श्री जिन नाम ठे एहरे ॥ शांति० ६ ॥ घर मध्ये प-  
 धरावीए, श्रीजिनविंव सुखकाररे ॥ पीठ त्रण रची ऊपरे, थापना  
 कीजे मनुहाररे ॥ शांति० ७ ॥ श्री शांतिजिन रायनी, करवी  
 नगती उदाररे ॥ पंच पंच वस्तु मिलावीए, आगल धरो मनुहाररे  
 शांति० ८ ॥ पंच सनाथीआ कीजीए, कलश पंच ते नरीएरे ॥  
 प्रतेके प्रतेके ते करो, एम शांति गुण वरीएरे ॥ शांति० ९ ॥  
 अपमंगलीक होवे नहीं, महामंगलीक ते कहीएरे ॥ मुनि हुकम  
 श्री शांतिजी, रुद्रि सिद्धि सर्व लहीएरे ॥ शांति० १० ॥ काव्य  
 म् ॥ श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय ॥ जन्म जरा मृत्यु निवा-  
 रणाय ॥ श्रीमतजिनैशाय ॥ जलनीमे अजास्वाहाः ॥

## अथ बीजी पूजा.

दोहा.

श्री जिन थापन तिहां करे, चामर ठत्र सयुक्त ॥ ते आगल  
 पूजा करो, जेम कह्यु ठे सूत ॥ १ ॥ पूजा करता प्रनुतणी, रुद्रि  
 सिद्धि घर होय ॥ पुत्र परिवार वाधे घणो, वास्तुक कीजे सोय ॥ २ ॥

## ढाल १ बीजी.

जेम जेम ए गिरि जेटीएरे ॥ तेम तेम पाप पलाय ॥ सलूणा ॥ ए देशी ॥

स्नात्र नणावी प्रनु तणुरे, पूजा रचो मनुहार ॥ ॥ सलूणा ॥  
 आंगी रचो नव नव परेरे, दीपक जाक ऊमाल ॥ सलूणा ॥ श्री  
 शांतिजिन पूजीएरे, तिम तिम मंगलीक थाय ॥ सलूणा ॥ ए  
 आंकणी ॥ १ ॥ गर्ज थका मरगी हरेरे, एहवो गुण ठे जास ॥ सलू-

(१८)

वास्तुक पूजा

पढे निशि दिन सही, तस घर कोडि कड्याण ॥ ५ ॥ अल्पबोध  
रचना करी, शोधजो चतुर सुजाण ॥ मुनि हुकुम कहे पढता थका;  
सहेजे शिव वधु माण ॥ ६ ॥ इति श्रीमन् हुकुम मुनि विरचित-  
तृतीय मनोरथनावना समाप्तम् ॥

## श्री वास्तुक पूजा.

श्री गुरुभ्योनमः

दोहा

श्री शांति जिनेश्वर समरिये, पंचम चक्री जेह ॥ तीर्थकर  
सोलमा नमु, शांतिकरणा गुण गेह ॥ १ ॥ श्री सनात्र पूजा नली,  
करू स्तवना सार ॥ वास्तुकपूजा घर तणी, करता हरप अपार  
॥ २ ॥ प्रथम घर प्रवेशमां, पूजा नणावो उदार ॥ अवर वास्तुक  
दूर करो, जे मिथ्या उपचार ॥ ३ ॥ पूजा पूजादिक प्रते, जल  
कलसा सुखकार ॥ पाच नरी नवराविए, श्री जिन अगे धार  
॥ ४ ॥ फल फूल नैवेद्य तिम, वास दीप धुप जेह ॥ प्रभु आगल  
ते धोइए, शांति होए सत तेह ॥ ५ ॥

ढाल १ ली.

॥ श्री अरिहत पद ध्याइए ॥ ए देशी ॥

शांति जिनेश्वर पूजता, होवे शांति अपार रे ॥ वास्तुक घर माहे  
कीजीए, ए पूजा मनुहार रे ॥ शांति जिनेश्वर पूजीए ॥ १ ॥ वास्तुक  
दोय प्रकारनु, छव्य नाव ते जाणो रे ॥ छव्य वास्तुक दोय जे-  
दधी, शुन अशुन कहाणो रे ॥ शांति ० २ ॥ होमादिक घरमा  
करे, ब्राह्मण नोजन जासे रे ॥ कोला प्रमुख विदारतो, मनुष घात  
होय तास रे ॥ शांति ० ३ ॥ श्रीफन प्रमुख होमता, पचेंडी उरावी



असं व्यवहार निगोदमे ॥ मन० ॥ काल अनादी संत ॥ मन० ॥  
 पुनरपि पुनरपि उपन्यो ॥ मन० ॥ जोगवतो ड.ख अनंत ॥ म-  
 न० ३ ॥ कोइक कर्म विवर थकी ॥ मन० ॥ अकाम निर्जरा जाण  
 ॥ मन० ॥ व्यवहार राशीमां आवियो ॥ मन० ॥ धावरावि वखाण  
 ॥ मन० ४ ॥ वि ती चौरेंडीमां जम्यो ॥ मन० ॥ तेम असंझी  
 विचार ॥ मन० ॥ जलचर थलचर खेचरा ॥ मन० ॥ ठरपरि जु-  
 लपरि धार ॥ मन० ५ ॥ संझी पंघेंझीने विपे ॥ मन० ॥ नरक  
 तिर्यच धार ॥ मन० ॥ देव मनुष पण तिम थयो ॥ मन० ॥ पण  
 नही वास्तुक उदार ॥ मन० ६ ॥ जेह जेह वास्तुक जिहा करथु  
 ॥ मन० ॥ ते ते पाप उपचार ॥ मन० ॥ जीवहिसाथी सुख नही  
 ॥ मन० ॥ समजो सवि संसार ॥ मन० ७ ॥ ते कारण होम यज्ञ  
 तजो ॥ मन० ॥ तजो ब्रह्मजोज मूल ॥ मन० ॥ वीजे अंगे जां-  
 खीयुं ॥ मन० ॥ सातमी नरकनुं सूल ॥ मन० ८ ॥ वास्तुक करो  
 तुमे ज्ञानमां ॥ मन० ॥ स्व स्वजाव धार ॥ मन० ॥ जन्म मरण  
 जेहथी टले ॥ मन० ॥ पामे सुख उदार ॥ मन० ९ ॥ श्री शांति  
 विव पधरावीने ॥ मन० ॥ वास्तुक करो उदार ॥ मन० ॥ मुनि हु-  
 कम ए वास्तुकथी ॥ मन० ॥ होवे मंगलमाल ॥ मन० ॥ पूजा  
 त्रीजी संपूर्णाम्. ॥ काव्य प्रथम प्रमाणे ॥

पूजा ४ चोथी.

दोहा.

एम नव नव हुं जम्यो ॥ अगु-ध वास्तुक कीध ॥  
 हवे शुध वास्तुक आदरुं ॥ सदगुरु वचनथी लीध ॥१॥

ढाल ४ चोथी.

॥ ए गिरीवर दरशन जेह ॥ ए देशी ॥  
 सदगुरु सलीअारे ज्यारे ॥ पाम्यो वठित हुं त्यारे ॥ उपदेश

(३०)

वास्तुक पूजा.

णा ॥ सर्व उपख्व हरे सहीरे, आधी व्याधी नही तास ॥ सजू-  
णा ॥ श्री शांति० २ ॥ छव्य वास्तुक पूजा विपेरे ॥ पूजा जणा-  
वो एह ॥ सजूणा ॥ जथाशक्ति तुमे वावरोरे, स्वामीवच्चल गुण-  
गेह ॥ सजूणा ॥ श्री शांति० ३ ॥ एम वास्तुक पूजा करोरे ॥  
तजी अवर पद्द ॥ सजूणा ॥ थन्यमति कद्दु नवि करोरे ॥ सम-  
जी ज्ञान दद्द ॥ सजूणा ॥ श्री शांति० ४ ॥ छव्य वास्तुक एम  
जाखीयुरे, महा मगलिकनु घर ॥ सजूणा ॥ एणी विधि वास्तुक  
कीजीएरे ॥ होवे वंठित सर ॥ सजूणा ॥ श्री शांति० ५ ॥ हवे  
जाव वास्तुक दाखवुरे, आगमने अनुसार ॥ सजूणा ॥ समजी  
लेजो प्राणीथारे, ज्ञानी वचन सुखकार ॥ सजूणा ॥ श्री शांति०  
॥६॥ जाव वास्तुक जे करेरे ॥ तेह लहे जव पार ॥ सजूणा ॥  
सक्केपे ते वरणबुरे, ते सुणजो अधिकार ॥ सजूणा ॥ श्री शांति०  
॥७॥ जाव वास्तुक श्री शांतिजीरे, करी पाम्या शिव वास ॥ स-  
जूणा ॥ मुनि हुकम वास्तुक करेरे ॥ अद्दय पद उलास ॥ सजू-  
णा ॥ श्री शांति० ८ ॥ काव्य प्रथम प्रमाणे ॥ वीजी पूजा सपूर्णम् ॥

पूजा त्रीजी.

दोहा

वास्तुक पूजा जावथी, जाव माही ते सार ॥  
ते अधिकार हुं वरणबु, समजी लेजो विचार ॥१॥

ढाल ३ त्रीजी.

धन धन ते जग प्राणीथ्या मन मोहन मेरे ॥ एदेशी ॥  
वास वसो स्वजावमा मनमोहन मेरे ॥ तजी तुमे पर दूर ॥  
मनमोहन मेरे ॥ काल अनादी अनंतनी ॥ मन मोहन मेरे ॥ ते  
हथी जव ज्रमण कर्यु ॥ मन० ॥ चौगती ससार ॥ मन० ॥ ला-  
ख चौराशी योनी विपे ॥ मन० ॥ नाव्यो छ खनो पार ॥म० २॥

ढाल ५ पांचमी.

सोता रुपाके सोगटे सांही खेलत वाजी ॥ ए देशी ॥

वास्तुक पूजा घरतणी ॥ स्व स्वरूपमां लीजे ॥ असख्य प्रदेश ठे  
 आतमा ॥ तिहां कने कीजे ॥ स्व घर तो तेने कह्युं, खेत्रथी जाणा ॥  
 छव्यथी चेतन जांखीयो ॥ एम चित्तमां आण ॥ गा० १ ॥ कालथी  
 अमुरु लघु कह्यो ॥ तुमे समजो जाइ ॥ ठठांणवडीआ तिहां कने ॥  
 एम चित्तमे लाइ ॥ जावथकी ते जाणीए ॥ ज्ञानादिक गुण ॥  
 सदगुरु हेते जाखीया ॥ एम वास्तुक सूण ॥ गा० २ ॥ वास्तुक  
 पूजा तुमे करो ॥ श्री शांतिनुं नाम ॥ संतपणु तुमे पांमशो ॥ जां-  
 ख्यु शास्त्रे ते ताम ॥ वास वसो तुमे ते विपे ॥ जे गुणनुं गेह ॥  
 अघ्यावाध सुख तिहां कने ॥ पामशो तुमे तेह ॥ ३ ॥ अवेदी  
 अवेदी सदा ॥ अनेदी कहीए ॥ अखेदी ए आत्मा ॥ एम समजी  
 लहिए ॥ असंख्य प्रदेश ते देखता निर्मल ते जासे ॥ सिधतणा  
 ए साधरमी ॥ अक्य सुख वासे ॥ ४ ॥ संजावे तीहां कने ॥ नही  
 रागने द्वेष ॥ ए जाव चित्तमे धरो ॥ पेहेरो अक्य वेश ॥ बाहाज्य  
 घष्टि मत दियो ॥ दियो अंतरमांही ॥ तव पियो सुमता सुधा ॥ सं-  
 तरस ज्यांही ॥ ५ ॥ सरव जीव ते सारीखा ॥ सत्ताए देखो ॥  
 राग द्वेष कीनसे करो ॥ कोण परायो पेखो ॥ ज्ञानादिक गुण  
 अनतनो, स्वामी ते कहीए ॥ आतम सिध ते सारीखा ॥ जेद तेहमा  
 न लहिये ॥ ६ ॥ विजाव सर्व दूरे करो ॥ छ-खदाइ जाणी ॥  
 स्वजावमांही खेलीए ॥ शुद्ध जाव चित्त आणी ॥ ज्ञान दर-  
 शन चरण ते ॥ आतमने कहीए ॥ अनेद ज्ञान ते आदरो ॥  
 केवल तिहां लहिए ॥ ७ ॥ जथाख्यात जाणीए ॥ चारित्र तेह ॥  
 ते गुण तिहां प्रगटे ॥ अनंत विरज एह ॥ सलेशीकरण तिहां  
 करे ॥ प्रकृती बोतेर टाली ॥ प्रकृती तेरने टालतो ॥ निज गुण  
 अजुआली ॥ ८ ॥ बंधन ठेदी सरवथी ॥ शीव पंथे चालो ॥

(३१)

वास्तुक पूजा.

सुण्यो जब जास ॥ पाम्यो हुं ज्ञान उजास ॥ सदगुरु मलीअरे  
ज्यारे ॥ पाम्यो वळित हु त्यारे ॥ १ ॥ ए अ्यांकणी ॥ जाण्यो  
जब शत्रु जेहे ॥ राग द्वेष मोह तेह ॥ अंतरमांथी ते खशियुं ॥  
तव वैरागे मन ते वशियु ॥ सद० २ ॥ समकित तव ते पाम्यो ॥  
मिथ्यात्व ते दूरे वाम्यो ॥ गुणठाणु चोथु ते सार ॥ बीज चंड-  
सम उदार ॥ सद० ३ ॥ सुमति तव घरमा आवी ॥ कुमति तव  
दूरे जावी ॥ तव दीपक थयो घर माही ॥ दीगी वस्तु पोतानी  
॥ सद० ४ ॥ ज्ञानादिक गुण ते दीगा ॥ मुज मन लागे ते मीठा ॥  
अवरती नारी ते देखी ॥ ताकीदथी दूर उवेखी ॥ सद० ५ ॥  
सुधर्म बुद्धी तव आवे ॥ चोकडी दोय दूरे जावे ॥ पापनो ख-  
जानो खूटयो ॥ मोहनो परिवल लूटयो ॥ सद० ६ ॥ प्रवेश  
असंख्यनी रचना ॥ निर्मल करवा थड जचना ॥ संजम श्री  
वेगे आवी ॥ कारक समेत ते जावी ॥ सद० ७ ॥ गुणाठाणु सा-  
तमु तेह ॥ फरसता हूवो गुण गेह ॥ ठठे सातमे रमता ॥ हींचो-  
लाकारे करता ॥ सद० ८ ॥ प्रमत अप्रमत जाण ॥ सिधातमांही  
वखाण ॥ एम वास्तुक ज्यारे कीधी ॥ सदगुरु वचनथी लीधी ॥  
सद० ९ ॥ अपमगलिक सरवे नाठा ॥ करम दल पण घाठां ॥  
सरव मगलिक मांही एह ॥ दशवैकालिक ज्ञाखे तेह ॥ सद०  
१० ॥ ए वास्तुक पूजा कीजे ॥ मनवंठित फल तो लीजे ॥ मु-  
नि हूकम वास्तुक कीधु ॥ मनवळित कारज सीधुं ॥ सद० ११ ॥  
काव्य प्रथम प्रमाणो. पूजा चौथी सपूर्णांम् ॥

पूजा ५ पांचमी

दोहा

वास्तुक पुजा स्वगृहे ॥ करतां नवनिधि थाय ॥

पर वास्तुक दूरे करो ॥ सहेजे शिवपुर जाय ॥१॥

सुगुरु बहुश्रुत होय, तेमने कागल लखवानी रीत.

स्वस्तिश्री सुरतवंदरे महागुनस्थाने पूज्याराधे शुद्ध पु  
 णानंदमय, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र्यना जंमार, अखंड अवि-  
 नाशी, शुद्ध आत्मगुणे करी विराजमान, महा निर्मल, महा  
 दयालु, रूपाना जंमार, परम पुरुषोत्तम, परम निधान,  
 महा धिरजवत, शुद्ध इव्यगुणपर्यायनी रमणताना धारक,  
 आत्मगुणना जोगी, परजावना त्यागी, शुद्ध वैरागी, एम अनंत  
 आत्मगुणे करी विराजमान, मिथ्यात्वरूप अंधकार टालीने ध-  
 र्मनुरूप प्रकाश करवाने सूर्य समान, संसारी जीवने नवसमुद्र  
 माथी तारवाने जाज समान, कर्मरूप रोग टालवाने वैद्य समा-  
 न; एम शुद्ध आत्मगुणे करी विराजमान, धर्मधुरंधर महाराज  
 श्री श्री श्री १००८ वार श्री हुकममुनीश्वरजी महाराजनी  
 सेवामां श्री शिनोरथी लि आपना चरणकमलनी सेवाना  
 सेवक शा हरगोविंद वर्द्धमान विगेरे संघ समस्तनी १००८  
 वार त्रिविधे त्रिविधे वंदना अवधारजोजी महाराज तमारी  
 कृपादृष्टिथी सर्वे सघ सुखशातामा ठीए साहेवजी आप तो  
 त्रणे काल पोतानी कृष्टिए करी सुखीयाज ठो वीजु लखवानुं  
 कारण ए ठे जे, साहेवजीनी सुखशाताना समाचार घणा दिवस  
 थया मढ्या नथी, तेथी शाता सांजलवा अमारो आत्मा घणो  
 इहेठे. माटे लखवानु के, सेवक उपर कृपादृष्टि करीने आपनी  
 सुखशातानो पत्र सुरतना सघ पासे लखावशो. ते आपनी सु-  
 खशातानो पत्र वांड्याथी मने वाद्या जेटलो लाज थशे, एम मारा  
 मनमा निश्रे ठे महाराज! तमारा नामनु स्मरण करेथी सर्वे  
 विघ्न जाय, तो तमोने वादवा आवे तेने शांती हरकत पडे।  
 वीजु आप तो सेवक उपर सदा काल कृपादृष्टि राखो ठो, पण

(३४)

### वास्तुकपूजा

दोय जाग अगवाहना ॥ ते वासमा मालो ॥ एक समे-थिति  
तेहनी ॥ शिवपुर ते पोघो ॥ वास्तुक पूजा तिहा करो ॥ अह्य  
पद राचो ॥ ए ॥ एम वास्तुक जे करे ॥ पठे वासमा वशीए ॥  
ते सुख पामे झाश्वतां, शिवरमणी रशीये ॥ मुनि हुकम वास्तुक  
तणो ॥ एम करे उमेद ॥ जिनवाणी रुदीए धरी ॥ टाली मन-  
नो खेद ॥ १० ॥ काव्य प्रथम प्रमाणे पूजा पाचमी सपूर्ण ॥

॥ कलश ॥

गायो गायोरे श्री शातिजिनेश्वर गायो ॥ सत स्वरूप  
देखी थनोपम ॥ वास्तुक पूजा मेलायोरे ॥ श्री शातिजिनेश्वर  
गायो ॥ १ ॥ एम समजी जे वास्तुक करशे ॥ तस नव ड.ख  
ते जायो ॥ शाति जिनेश्वर शाति कारण ॥ वास्तुक पूजाए गायोरे  
॥ श्री शा० २ ॥ सवत अगणीस सत्तावीश वरसे ॥ फागण-  
मास कहायो ॥ सुद चोथने गुरुवारे ॥ ए पूजा रचायोरे ॥ श्री  
शा० ३ ॥ श्रद्धावान सु आवाक ॥ नेमा ज्ञाती कहायो ॥ मोदी  
गिरधरे पूजा रचावी ॥ वहू डव्य खरचायोरे ॥ श्री शा० ४ ॥  
गोधरपुरे श्री शाति जिनेश्वर ॥ परसाद सुंदर सोहायो ॥ संघ  
आग्रहथी रचना कीथी ॥ मुनि हुकम सुख पायोरे ॥ श्री शा०  
६ ॥ इति श्री वास्तुक पूजा सपूर्ण

इत्यादि अनेक गुणे करी विराजमान श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री महा मुनिराज्य महाराज श्री ७ हुकुममुनि महाराजा धरमना धुरंधर महामुनिनी चिरंजीवी घणी हजो एतान श्री शिनोरथी लि. आपनो आज्ञाकारी चरणकमलनो उपासक सेवक शा हरगोविंद वर्द्धमाननी १००००० वार त्रिविधे त्रिविधे आपनी पवित्र सेवामां वंदना अवधारशो अत्रे गुरु महाराजनी पसाए करी सुखशाता ठे आपनी सुखशातानो पत्र सेवक उपर कृपादृष्टि करी संघ पासे लखावशो, के मने आप साहेबना दर्शन जेटजो लाज मले, विशेष लखवानी विनंती ए ठे के, आपनी पवित्र सेवानो लाज मने आपो अमारा कमी पुन्यने लीधे आप साहेब दूर वशा करो ठो, तथा हमारा पुन्यमा स्वामी ठे धन ठे। जेने, के जे आपनी वाणी दिनप्रत्ये हर वखते मारा स्वामी ज्ञा-इथो विगेरेने जोग पडे ठे। धन ठे तेमने के, शंका पडे, ते तेज वखते खुजासानी साथे पूठा करे, तेथी थयेली शंका दूर थाय माटे तेमना पुन्यने धन्य ठे अमोने तो आप घणो उपगार करो ठो, ते कागलमा लखी शकाय नहीं, तेम अमारी जीजथी कही शकाय पण नहीं एवी अमोने सपूर्ण आशा रहे ठे वली नवीन ग्रंथो बने ते वखत पण, हुं दासने याद करशो एवी आशा राखु लु कृपादृष्टि विशेष राखशोजी वली आपना श्रावक ज्ञाइथो श्राविका वाइथो विगेरेने मारा प्रणाम पोचे. आ कागलमां मारी तुड बुद्धिने लीधे कांइ दोष नरेलुं लखाण थयु होय तो, आपनी पासे तथा संघ विद्यमाने मिञ्चामिडकडं देऊतुं संवत १९४३ ना श्रावण शुदि ५ ने वार जामे.



स्वस्तिश्री सुरतवदरे महाशुभस्थाने सर्वेशुभउपमा स-हित, परम पूज्यजाव, दयासागर, तरण तारण, सफरी जाज

अमे ससारी जीव होवाथी मन घणु चपल रहे ठे. तेथी अमोने धिरजरहे नही वीजु विनंती ए ठे के, मारो आत्मा आत्मधर्म पामे अने मोहजालमाथी वूटे, तो घणुं सारुं एज विनती. सं. १९४१ ना फागण शुदि ५



स्वस्तिश्री पार्श्वजिनप्रणम्य सुरतवंदर नगरे महाशुभ्र-स्थाने सु साधु पुन्य प्रचावक, देवगुरु भक्तिकारक, एकविध असंजमना टालणहार, द्विविध धर्मना प्ररूपक, त्रण तत्त्वना जाण, चार कपायना जीपक, पंच महाव्रतना पालणहार, ठकायना पीयर, सात जयना निवारक, आठ मदना टालणहार, नवविध ब्रह्मचर्यना पालणहार, दशविध यतिधर्मना पालणहार, अग्नीधार अगना जाण, बारे जेदे तपस्याना करणहार, तेर काठीआना निवारक, चवद गुणवाणाना जाणा, पदरजेदे सिद्धना जाण, सोल कपायना जीपक, सत्तर जेदे सजमना पालणहार, अठार सहस शीलगरथना धोरी, काठस्सगना अगणीश दोपना टालणहार, वीश विश्वानी दयाना पालणहार, एकवीश प्रकारे मिथ्यात्वना टालणहार, वावीश परीसहना जीपक, तेवीश विपयना टालणहार, चोवीश तीर्थ करनी आज्ञानाधारक, पच्चीश जावनाना जावीक, ठव्वीश सर्गना जाणा, साधुना सत्तावीश गुणे करी शोनीत चड्नी पेरे शीतल, सूर्यनी पेरे तेजवत, मेरुनी पेरे अचल, समुद्धनी पेरे गजीर, कल्पवृद्धनी पेरे सुखदायक, नहि माया, नहि ममता, सर्व परिग्रहना त्यागी, बेतालीश दोष रहीत शुद्ध आहारनी खपना करणहार, कर्मरूप रोग टालवाने वैद्य समान, संसारी जीवने जव समुद्धमांथी तारवाने जाज समान, परजावना त्यागी, स्वजावना जोगी, आत्मगुणे विराजमान, महा दयालु, रूपाना जदार, परम पुरुषोत्तम, परम निधान, अव्यावाध अविनाशी,



जे ज्ञाननो वधारो तथा आनद प्रगट थयो ठे, ते लखी शकाय तेम नथी वली तेमां तमो अमारी उपर कृपा करी बीजा नवा चोपडा मोकलावशो, एटले शी स्वामी रहेवानी ? घणोज ज्ञाननो उद्योत थशे, ने घणा जव्यजीवो प्रतिबोध पामशे, ते उपकार अमे भुलवाना नथी

आपे जे मने वे चोपडा आपेल ठे, ते वांचतां वांचतां चार अजाव प्रकरणा लक्षणनो विवरो लखेल ठे, तेमां पाने (३७०)मां लखेलुं ठे जे, श्रावक थइने उपदेश करे तो, सूत्र सिद्धांत तथा गुरुनो पण उथापक ठे तथा श्री जगवंतनी आज्ञानो पण उथापक ठे ए सपूर्ण सर्व प्रकारे निन्हव ठे. गृहस्थीने सांजलवानो धर्म ठे, पण वांचवा नणावा लोकोने संजलाववानो कह्यो नथी. जे साधु गृहस्थीने नणावे, तथा नणे, वखाणे तेने चार मासनु चारित्र जाय, ने गृहस्थीने जो नणे वखाणे तो, तेने चार मासना चौविहारा उपवासनु आलोयण आवे एटला कारण करे, ते अनंताजव रखडे ए प्रमाणे आपे चोपडामां लखेल ठे, ते वांचतां अत्रे अमोने तथा बीजा श्रावकोने घणीज मोटी शंका उत्पन्न थयेली ठे, ने ते अत्रे तपास करतां तो, श्रावक सिद्धांत नणे, तथा साधुजी नणावे तेमां कोइ जातनो दोष नथी. केम जे, श्री जगवतीजीमद्धे श्री महावीरस्वामीए श्री तुगीया नगरीना श्रावकने घणा वखाणेला ठे वली घणा हुंशीअार ने नणेला कह्या ठे ते जोतां तो, कोइ जातनो दोष लागवो जोइये नही.

वली घणाज सिद्धांतमद्धे एवु सांजल्युं ठे जे, चार गतिना जीवो मांहोमांही, एक बीजाने उपदेश करे ठे, ने तेथी जीव समकित पामे ठे, एवु घणे ठेकाणे सांजजीये ठीये, तो, ते जोतां कोइ जातनो दोष लागवो जोइये नही.

वली आपे तेज चोपडामां श्री सम्यक्द्वारमद्धे पाने १३५

समान, धर्मधुरंधर, प्रगटपुरंदर, बहुश्रुत, आत्मज्ञाविक, नव्यजी वने उपदेशना देवणहार, जैनमार्गने विषे सूर्यनीपेरे उद्योतना करणहार, चड्मानीपेरे शीतलताना उपजावनार, एवी अनेक गुन उपमाए करी विराजमान मुनिराज महाराज श्री ४ हुकुममुनिजीस्वामी आदेनी चिरजीवी घणी हजो, एतानश्री बोटादथी लि आपना दरशननो अजिलापी आपना चरणकमलमा सेवा वजाववा घणी आतुरतावंत, सेवक. गांधी रायचद वि. रतनशी विगेरे सर्वे श्रावकोए आपने त्रण प्रदक्षिणा देइ वंदना नमस्कार १००० वार करघो ठे, ते फुरसदनी वखते स्विकारी लेशोजी विशेष लखवानु ए ठे जे, आपना उपर प्रथम अमोए कागल लख्यो हतो, ने तेमा नवा चोपडा मोकलवा विनती करेली हती, जेथी तेना उत्तरमा आप साहेवे जणाव्यु हतु जे, नवा चोपडा सुधारीने थोडा रोजमा तैयार थयेथी मोकलवामा आवशे ए प्रमाणे लखेलु हतुं माटे नवा चोपडा तैयार धइ रह्या होय तो, चोपडा नग ४ मोकलावशो तेथी आपनो अतिशे गुण अमोने प्राप्त थशे ने अमो अज्ञानी बाल जीवने ज्ञान संपादन थशे वली प्रथमना आपना आपेला चोपडा १ वे अत्रे वाचीये ठीये वली सर्वेने उपदेश आपीये ठीये, ने वाची सजलावीये ठीये, जेथी ज्ञानना वधारानो पार रह्यो नथी. ने आपना अन्नूत ज्ञाननो रस चाखता जे स्वाद प्रगटे ठे, ते काइ कागलमा लखी शकातो नथी

आपे प्रथम जे सखस वाचत श्री राणपुरमधे तपास करवा फरमावेजु, ते अमोए राणपुरमधे तपास करी तो, ते सखस अहीया श्री राणपुरमधे नथी, पण श्री जुनागढ पासे राणपुर करीने बीजु गाम ठे, त्या होय तो आप तपास करावजो आपना चोपडा वाचता अमोने तथा अत्रेना श्रावकोने

ना दर्शननो लान लेवा चाहुतुं, ते फरसनाए वनशे हालमां थापना पसायधी जगवतीजी तथा उत्तराध्ययनजी तथा अंतगडजी तथा उपासकदशांग विगेरे बीजा चार जागना चोपमा वांच्या ठे. ने हवेथी आपना ठपावेला जे सात ७ चोपमा आख्या, ते वांचुं तुं, बीजा चोपमा कोइ जाण पुरुपने आप्या ठे, ते पण वांचे ठे. वली जोइशे तो मंगावीशुं कृपा राखजो. कागलनो उत्तर पाठो कृपा करीने लखावजो संवत १९४३ ना श्रावण शुदि ७ ने वार गरेठ दा. तमारो सेवक मगननी वंदणा नमस्कार वांचजो.

स्वस्तिश्री पार्श्वनाथ प्रणम्य सुरतवदर नगरे महाशुचस्थाने सुसाधु पुन्य प्रजावक, देव गुरु जित्तिकारक, एकविध अस्जमना टालणहार, द्विविध धर्मना प्ररूपक, त्रण तत्वना जाण, चार कपायना जीपक, पंच महाव्रतना पालणहार, ठकायनापीयर, सात जय निवारक, आठ मदना जीपक, नव विध ब्रह्मचर्यना पालणहार, दशविध जतिधर्मना पालणहार, अग्नीआर अंगना जाण, विनय पुन्य करणहार, वारे जेदे तपना करणहार, तेर काठीआना निवारक, चौद गुणठाणाना जाण, पंदरे जेदे सिध्नाजांण, सोल कपायना जीपक, सतरे जेदे संजमना पालणहार, अठार सहस सीलाग रथना धोरी, काठस्सगना अयोगीश दोपना टालणहार, बीश विश्वानी दयाना पालणहार, एकवीश प्रकारे मिथ्यात्वना टालणहार, बावीश परीसहना जीपक, तेवीश विषयना टालणहार, चोवीश तीर्थकरनी आह्वाना पालक, पचीश जावनाना जावीक, ठवीश दशाकडपना विहारना करणहार, सत्तावीश गुणे करी शोनीत, चड्मानीपेरे अचल, सूर्यनीपेरे तेजवंत, मेरुनीपेरे अचल, समुद्रनीपेरे लपट्टनीपेरे सुखदायक, नही माया, नही ममता,

पना बनावेला चोपमा वांचवाधी अमृतनो वरसाद वरसे ठे; जेमां सजीवन बुट्टीयो ठे ते बुट्टीयोनो रस पीवाधी अमर थड जवाय ठे, एवो अक्सर आव्या ठतां अहो समकित्ती जाइओ! कोइ भूलशी नही आवी जोगवइ पाठी फरीने मलवी डर्जने ठे, ने तमारा सुरतना आवकजीना पुन्यनुं बल घणु, जे आवा पुरुष तमारा क्षेत्रमां विराजे ठे! तेमना मुखनां व्याख्यान दिनप्रत्ये सांजजो ठो वली दर्शननो लाज पण ल्यो ठो आ मनखादेहना मेजामां सारमां सार वस्तु तमारा हाथमां आवी ठे, माटे खरी परीक्षा करीने जोज्यो, ने जे लोकनीआनी लाजे धुंधटो काढ्यो ठे, ते माथे ठेम्हो नाखीने पठी जोवाधी खबर पमशे जाइजी! एक-आत्म स्थिरता शिवाय बीजी सर्वे वाधजाल समजवी महारी वती गुरुजी महाराजने वदणा करी पूठवु जे ५४ मा पानानी ७ मी जीटीमां चौदपूर्वना जणनार नरके गया, एम लाव्या ठो, ने मारा वांचवामां कोइक शास्त्रमा एम आव्युं हतुं के, दशपूर्वधी ओठा जणनारा पमे ठे, अने पूरा चौदपूर्वना जणनारने आहारकजब्धि होय ठे, ने ते पाठा पमता नथी तो तेनुं केम ठे? ते महाराजश्रीने पूठी कोइ वखत लखज्यो बीजु कामकाज ज्ञान ध्यान वावतनु मारा उपर लखजो. मारा उपर कृपा ठे तेवी राखज्यो अहो हुकुममुनिजी महाराज! तमो अमने न मड्या होत तो, आवा छ खम काजमां अमारे कोण आधार हतो? आवी मोटी ससार रूपणी कतार अटवीसां अनंता का-जधी भूला पड्या हता, ते तमोए अमारो हाथ जालीने पूर्व दिशा-नो रस्तो बताव्यो के, जे दिशाए सूर्य उगे ठे, बाकीनी सर्व दि-शाए अधारु ठे आ हरख अमारा हैयामां मातो नथी, एवो तमे मोटो उपगार करयो ठे, पण हु राक माणस आपनो श्यो उपगार करु? आप मोटा उपगारी पुरुष ठो, हवे तो हुं आप-

ना बर्शननो लाज लेवा चाहुतुं, ते फरसनाए वनशे. हालमां आपना पसायथी जगवतीजी तथा उत्तराध्ययनजी तथा अंतगडजी तथा उपासकदशांग विगेरे बीजा चार जागना चोपमा वांब्या ठे. ने हवेथी आपना ठपावेला जे सात ४ चोपमा आव्या, ते वांचुं तुं, बीजा चोपमा कोइ जाण पुरुपने आप्या ठे, ते पण वांचे ठे. वली जोइशे तो मंगावीशुं कृपा राखजो कागलनो उत्तर पाठो कृपा करीने लखावजो संवत १९४३ ना श्रावण शुदि ८ ने वार गरेउ दा तमारो सेवक मगननी वंदणा नमस्कार वांचजो.

स्वस्तिश्री पार्श्वनाथ प्रणम्य सुरतवंदर नगरे महाशुनस्थाने सुसाधु पुन्य प्रजावक, देव गुरु न्तिकारक, एकविध असंजमना टालणहार, द्विविध धर्मना प्ररूपक, त्रण तत्वना जाण, चार कपायना जीपक, पंच महाव्रतना पालणहार, ठकायनापीयर, सात जय निवारक, आठ मदना जीपक, नव विध ब्रह्मचर्यना पालणहार, दशविध जतिधर्मना पालणहार, अशीआर अंगना जाण, विनय पुन्य करणहार, वारे जेदे तपना करणहार, तेर काठीआना निवारक, चौद गुणठाणाना जाण, पंदरे जेदे सिधनाजांण, सोल कपायना जीपक, सतरे जेदे संजमना पालणहार, अठार सहस सीलाग रथना धोरी, काठस्सगना अगोणीश दोपना टालणहार, वीश विश्वानी दयाना पालणहार, एकवीश प्रकारे मिथ्यात्वना टालणहार, बावीश परीसहना जीपक, तेवीश विपयना टालणहार, चोवीश तीर्थकरनी आहाना पालक, पचीश जावनाना जावीक, ठवीश दशाकल्पना विहारना करणहार, सत्तावीश गुणे करी शोचीत, चंड्मानीपेरे शीतल, सूर्यनीपेरे तेजवंत, मेरुनीपेरे अचल, समुदनीपेरे गंज्नीर, कल्पवृक्षनीपेरे सुखदायक, नही माया, नही ममता,

पना वनावेला चोपना वांचवाथी अमृतनो वरसाद वरसे ठे, जेमां सजीवन बुट्टीयो ठे ते बुट्टीयो नो रस पीवाथी अमर यइ जवाय ठे, एवो अक्सर आवा ठतां अहो समकित्ती जाइथो! कोइ भूलशो नही आवी जोगवइ पाठी फरीने मलवी डल्लज ठे, ने तमारा सुरतना आवकजीना पुन्यनुं वल घणु, जे आवा पुरुष तमारा क्षेत्रमां विराजे ठे! तेमना मुखनां व्याख्यान दिनप्रत्ये सांजलो ठो वली दर्शननो लाज पण ल्यो ठो आ मनखावेहना मेलामां सारमां सार वस्तु तमारा हाथमां आवी ठे, मोटे खरी परीक्षा करीने जोज्यो, ने जे लोंकनीआनी लाजे घुंघटो काढ्यो ठे, ते माथे ठेमो नांखीने पठी जोवाथी खबर पम्शो. जाइजी! एक-आत्म स्थिरता शिवाय बीजी सर्वे वाधजाल समजवी. महारी वती गुरुजी महाराजने वदणा करी पूठवु जे ५७ मा पानानी ८ मी जीटीमां चौदपूर्वना जणनार नरके गया, एम लाव्या ठो, ने मारा वांचवामां कोइक शास्त्रमा एम आव्युं हतुं के, दशपूर्वथी थोठा जणनारा पमे ठे, अने पूरा चौदपूर्वना जणनारने आहारकलब्धि होय ठे, ने ते पाठा पमता नथी तो तेनुं केम ठे? ते महाराजश्रीने पूठी कोइ वखत लखज्यो बीजु कामकाज ह्यान ध्यान वावतनु मारा उपर लखजो मारा उपर रुपा ठे तेवी राखज्यो अहो हुकुममुनिजी महाराज! तमो अमने न मढ्या होत तो, आवा उ खम काजमां अमारे कोण आधार हतो? आवी मोटी ससार रूपणी कतार अटवीसां अनंता कालधी भूला पड्या हता, ते तमोए अमारो हाथ जालीने पूर्व दिशानो रस्तो बताव्यो के, जे दिशाए मूर्य उगे ठे, वाकीनी सर्व दिशाए अधारु ठे. आ हरख अमारा हियामां मातो नथी, एवो तमे मोटो उपगार करयो ठे, पण हु राक माणास आपनो श्यो उपगार करुं? आप मोटा उपगारी पुरुष ठो, हवे तो हुं आप-

## वाजु वगाडतां गीखवानी रीत.

(४९)

३			४		
००	सं४२	००	००	भने	००
१	सी	३	००	सा	००
२	६	३	००	स	१
२	२	२	००	रे	२
३	५	१	००	४	२
४	७१	२	००	५१	३
५	६	२	००	६	४
६	५	३	००	७१	३
७	७	४	००	८	३
८	८	५	००	९	३
९	९	६	००	१०	३
१०	१०	७	००	११	३
११	११	८	००	१२	३
१२	१२	९	००	१३	३
१३	१३	१०	००	१४	३
१४	१४	११	००	१५	३
१५	१५	१२	००	१६	३
१६	१६	१३	००	१७	३
१७	१७	१४	००	१८	३
१८	१८	१५	००	१९	३
१९	१९	१६	००	२०	३
२०	२०	१७	००	२१	३
२१	२१	१८	००	२२	३
२२	२२	१९	००	२३	३
२३	२३	२०	००	२४	३
२४	२४	२१	००	२५	३
२५	२५	२२	००	२६	३
२६	२६	२३	००	२७	३
२७	२७	२४	००	२८	३
२८	२८	२५	००	२९	३
२९	२९	२६	००	३०	३
३०	३०	२७	००	३१	३
३१	३१	२८	००	३२	३
३२	३२	२९	००	३३	३
३३	३३	३०	००	३४	३
३४	३४	३१	००	३५	३
३५	३५	३२	००	३६	३
३६	३६	३३	००	३७	३
३७	३७	३४	००	३८	३
३८	३८	३५	००	३९	३
३९	३९	३६	००	४०	३
४०	४०	३७	००	४१	३
४१	४१	३८	००	४२	३
४२	४२	३९	००	४३	३
४३	४३	४०	००	४४	३
४४	४४	४१	००	४५	३
४५	४५	४२	००	४६	३
४६	४६	४३	००	४७	३
४७	४७	४४	००	४८	३
४८	४८	४५	००	४९	३
४९	४९	४६	००	५०	३
५०	५०	४७	००	५१	३
५१	५१	४८	००	५२	३
५२	५२	४९	००	५३	३
५३	५३	५०	००	५४	३
५४	५४	५१	००	५५	३
५५	५५	५२	००	५६	३
५६	५६	५३	००	५७	३
५७	५७	५४	००	५८	३
५८	५८	५५	००	५९	३
५९	५९	५६	००	६०	३
६०	६०	५७	००	६१	३
६१	६१	५८	००	६२	३
६२	६२	५९	००	६३	३
६३	६३	६०	००	६४	३
६४	६४	६१	००	६५	३
६५	६५	६२	००	६६	३
६६	६६	६३	००	६७	३
६७	६७	६४	००	६८	३
६८	६८	६५	००	६९	३
६९	६९	६६	००	७०	३
७०	७०	६७	००	७१	३
७१	७१	६८	००	७२	३
७२	७२	६९	००	७३	३
७३	७३	७०	००	७४	३
७४	७४	७१	००	७५	३
७५	७५	७२	००	७६	३
७६	७६	७३	००	७७	३
७७	७७	७४	००	७८	३
७८	७८	७५	००	७९	३
७९	७९	७६	००	८०	३
८०	८०	७७	००	८१	३
८१	८१	७८	००	८२	३
८२	८२	७९	००	८३	३
८३	८३	८०	००	८४	३
८४	८४	८१	००	८५	३
८५	८५	८२	००	८६	३
८६	८६	८३	००	८७	३
८७	८७	८४	००	८८	३
८८	८८	८५	००	८९	३
८९	८९	८६	००	९०	३
९०	९०	८७	००	९१	३
९१	९१	८८	००	९२	३
९२	९२	८९	००	९३	३
९३	९३	९०	००	९४	३
९४	९४	९१	००	९५	३
९५	९५	९२	००	९६	३
९६	९६	९३	००	९७	३
९७	९७	९४	००	९८	३
९८	९८	९५	००	९९	३
९९	९९	९६	००	१००	३

उपला कोठाने मथाले जे आंक करेला ठे तेनांज गायनने पण तेज आंक करेलाठे तेज रीते जे कोठाना आंकने गायननो आंक मलतो आवे तेज आंकवाला कोठाथी तेज गायन वागशे.

- १ सैयर सीदने वळावे मुने सासरे जो,
- २ हुंतो रहींतुं अजवेला तारे आसरे जो;
- ३ सैयर सीदने वळावे मुने सासरे जो
- ४ मने सासरे जवा नथी गमतु जो.

(४७)

# वाजु वगाडतां शीखवानी रीत

१

१०	सं१२	२०
१	सी	३
२०	६	३०
३	२	२०
४	१	१०
५	७	२०
६	२	३०
७	४	४०
८	३	५०
९	५	६०
१०	८	७०
११	९	८०
१२	१०	९०
१३	११	१००
१४	१२	११०

२

२०	३०	४०
२	तो	२
३	दी	३०
४	६	४०
५	७	५०
६	८	६०
७	९	७०
८	१०	८०
९	११	९०
१०	१२	१००
११	१३	११०
१२	१४	१२०
१३	१५	१३०
१४	१६	१४०
१५	१७	१५०
१६	१८	१६०
१७	१९	१७०
१८	२०	१८०
१९	२१	१९०
२०	२२	२००



## वाजु वगाडतां शीखधानी रीत

(५१)

३	द्वी	३
३	ल	२
२	धीपु	३
३	डा	३
८	र	७
७	मेये	७
०	मन	७
८	मे	६

२	मे	३
३	री	३
१	वे	१
०	धी	३
२	म	३
३	शी	३
३	भो	२
७	र	३
३	मन	७
३	मे	१

७	मनी	०
७	दील	७
६	म	८
७	र	८
०	इ	७
१	मु	७
७	सं	७
०	धुडा	७
८	या	६

- १ लैली लैली पुकारुं मेये वनमे,
- २ मोरी लैली वसी मोरे मनमे;
- ३ जानी दीलनर कु मुसे बुडाया,
- ४ आगे फुरकत में जीकु जलाया

(५०)

## वाजु वगाडतां शीखवानी रीत

१

०००	राम	०००
३	ह	२
०	मे	२
०००	कोम	००३
१	की	७
००१	और	००१
१	धर	३
२	मेरा	३
२	नाम	२

२

३	पी	१
०००	परी	०००
२	ये	२
३	के	२
३	दी	३
३	के	२
१	नहीं	००३
२	तु	०
२	ये	२
३	आ	२
३	राम	१

- १ राजा हु मे कोमका और इदर मेरा नाम,
- २ वीन परीयों के दीदके नहीं मुजे थाराम,
- १ सुनोरे मेरे देवरे दीलकु नहीं करार,
- २ जलद मेरे वास्ते सजा करो तैयार

## अथ श्री वारमास प्रारंभः

( जगत गुरु जिनवरने ज्ञजीए. ए देशी )

हुकुममुनि जाव करी जेठो, निर्मल ज्ञान नयने पेखो ॥  
 ॥हुकुम०॥ कारतगे कीरिया बहु पाले, अशुभ करम दूरे टाले॥  
 जैनधरम ए अजवाले ॥ हुकुम० ॥ १ ॥ मागशरे महारुं मन  
 मोह्युं, रुपानिधि सनमुख में जोयु ॥ दर्शन करी पाप मेलज  
 धोयु ॥ हु० २ ॥ पोसे प्रित प्रनुसें जागी, सुमता नारी जव जागी॥  
 प्रकृति सब कर्मोकी जागी ॥ हु० ॥ ३ ॥ माहा मासे तो मया  
 कीजे, जाचकने दान सदा दीजे ॥ नरन्नवनो लाहो लीजे ॥  
 ॥ हु० ॥ ४ ॥ फागुण फाग खेलुं तुमशुं, मुनिने चरणो हु न-  
 मशुं ॥ जावना जावी नित्य जजशु ॥ हु० ॥ ५ ॥ चैतरे चारित्र  
 बहु पाले, संयमना सत्तर जेदे आराधे ॥ शिवरमणीसे सुख  
 साधे ॥ हु० ॥ ६ ॥ वैशाखे व्रत पचमुं धारे, दोष वेतालीश दूरे  
 टाले ॥ साधुनी कीरिया बहु पाले ॥ हु० ॥ ७ ॥ जेठे प्राण-  
 जीवन मलीया, मनना संदेह सवि टलीया ॥ जाचक समकि-  
 तमा जलीया ॥ हु० ॥ ८ ॥ असाडे अंवरघटा ठाई, अमृत  
 सरखी वाणी पाई ॥ हुकुममुनि ठे बहु सुखदाई ॥ हु० ॥ ९ ॥  
 श्रावणे सयदा तो ज्ञारी, श्रावक श्राविका नर नारी ॥ जक्कि करे  
 गुरुनी बहु ज्ञारी ॥ हु० ॥ १० ॥ जाखे जाव ज्ञो जावुं, त-  
 पगच्च शिरोमणी पावु ॥ हुकुममुनि पाटे हुं गावुं ॥ हु० ॥ ११ ॥  
 आसोये पूरी मन आशे, वस्तु पदार्थ दीपक थाशे ॥ हर्षे गावे  
 जोइतोदासे ॥ हु० ॥ १२ ॥ इति ॥

पद ९ जुं,

( चोकामो चतुराई करीने. ए देशी )

आज सुपनामा गुरु मने मलीया, मननी शंका मेटीजीरे॥

(५२)

## वाजु वगाडता शीखवानी रीत

१			२			१			२		
३	आ	१	०१	पास	०३	०००	पावाते	०१	१	माये	३
४	अ	✱	०१	री	०४	३	घडथी	१	००	सोरे	००
००	भाव	०१	१	अ	३	०	३	०	३	ली	३
३	भो	१	३	०१५	०३	३	३	३	१	धो	४
३	२	२	३	३	३	२	१५	३	१	२	३
००	धनो	००		४		१	भा	०	२	धु	३
	३		१	भो	३	२	दा	३	३	गा	३
१	आ	३	२	२	३	३	का	३	३	२	३
२	स	३	३	ली	३	३	ली	२	१	पा	३
३	री	३	३	अ	३	३	२	१	२	पा	३
०	अ	१	०	०१५	०२	३	३	३	३	पा	३
०३	०१५	०२	३	३	१				३	ली	२
३	३	१							३	२	१

१ आज साव मोरलीनो,

२ वासरी वजायके

३ आज साव मोरलीनो

१ वासरी वजायके

२ मोरली वजायके

उपल्या कोठामा जमणी वाजु ✱ आवु फुल ठे ते कल  
खाली समजवी ने फकत डाजा हाथनी चोथी डाववी

१ पावा ते घडथी उतर्या माहा कालीरे,

२ माये सोले लीधो शणगर पावा वालीरे.

वर कांइ पायो, त्यारे मुनि सुरतमांही आया ॥ सकल संघ लो-  
कने मन जाव्या ॥ नविक० ॥ ६ ॥ शास्त्र जोयां एक पुराणी,  
पढे थया अध्यात्म ज्ञानी ॥ आत्म गुण आचार कांइ जाणी,  
॥ नविक० ॥ ७ ॥ मुनि ठे ज्ञानतणा शूरा, ज्ञानथी कर्म करे चू-  
रा ॥ समतामां संपूरण पूरा ॥ नविक० ॥ सुरासुरी मित्री इम  
बोले, गुरुजी नही कोइ तुम तोले ॥ मुनिना गुण कांइ केशूरी  
खेले ॥ नविक० ॥ ८ ॥ इति ॥

### पद ४ थुं.

चालो जइए आपणे वांदवारे लोल, आव्या श्री हुकुम-  
मुनि महाराजरे ॥ सोजागीलाल ॥ चालो जइए वांदवारे लाल ॥  
ए आंकणी ॥ जातां मन घणुं उल्लासरे लाल, वांदतां आणंद  
पूररे ॥ सो० ॥ वेसतां मनडुं ठरेरे लाल, सुणातां देशना मधु-  
रीरे ॥ सो० ॥ हुकुममुनिने० ॥ १ ॥ सिद्धांत सार मुनि वांच-  
तारे लाल, लागे अमृत साररे ॥ सो० ॥ आत्म स्वरूप सम-  
जावतारे लाल, खपे कर्म कठोर अपाररे ॥ सो० ॥ हुकुममुनिने० ॥  
२ ॥ ठत्रीश गुणे विराजतारे लाल, श्रुतज्ञानी जंमाररे ॥ सो० ॥  
एवा आचार्यने वांदतारे लाल, आवे नवसमुद्धनी पाररे ॥ सो० ॥  
हुकुममुनिने० ॥ ३ ॥ ज्ञानदीपक ए मुनिवरारे लाल, आत्म-  
ज्ञानी बहु ध्यानरे ॥ सो० ॥ जिनशासन पूजनिक खरारे लाल,  
समता सरूप गुणवानरे ॥ सो० ॥ हुकुममुनिने० ॥ ४ ॥ देव  
सकल आवे वांदवारे लाल, साथे पोतानो परिवाररे ॥ सो० ॥  
रत्नादिक आंगी रचेरे लाल, तेवारे विव जलकाररे ॥ सो० ॥  
हु० ॥ ५ ॥ एवा गुरु तने नही मलेरे लाल, आवा पंचम काल  
मजाररे ॥ सो० ॥ सुरपति मित्रिये समजावियारे लाल, ए शि-  
वरमणी नरताररे ॥ सो० ॥ हु० ॥ ६ ॥ माहरी वंदना मुनिने

बांह ग्रही वांसे बोलावी, सिद्ध सरूप जइ जेटीरे ॥ गुरुने० ॥  
 ॥ १ ॥ आरत रौड ध्यान मुकाव्यु, धर्म ध्यान धराव्युंजीरे ॥  
 गुह प्रणति निर्मल करावी, गुकल ध्यान वनाव्युंरे ॥ गुरुने० ॥  
 ॥ २ ॥ एक अखंमं ब्रम ठोमाव्यो, नहि शब्द समजावीजीरे ॥  
 विकल्पने विकार मिटाव्यो, मनमा महेरज लावीरे ॥ गुरु वदो-  
 जीरे ॥ ३ ॥ आहार नय दूरे काढ्यो, मैथुन निष्ठा अलगोजीरे  
 अति आणंद मनमां प्रगढ्यो, गुरु चरणे जइ वलग्योरे ॥ गुरुने०  
 ॥ ४ ॥ अगम अगोचर अज्ञय पद पामी, सुरता ज्ञाने जोया-  
 जीरे ॥ हुकुममुनि ते पद पाम्या, दर्शन देखी मन मोह्यारे ॥ गु-  
 रुने० ॥ ५ ॥ उत्तम सपनु जोइतो पाम्यो, गुरु आगल जइ  
 कीधुजीरे ॥ ए सपनानुं फल मने आपो, अविचल दान मने  
 दीधुरे ॥ गुरुने० ॥ ६ ॥ इति ॥

### पद ३ जु

( विमलगीरि रंग रसे सेवो, त्रिभुवन तीर्थ नही एवो ॥  
 ॥ विमलगीरि० ॥ ए देशी )

नविक जीव ज्ञाने करी जुओ ॥ हुकुममुनि जिनशासन  
 दीवो ॥ ए आकणी ॥ बालपणोथी वैरागी, एना मात पिता घणा  
 सोनागी ॥ जेपो क्रोध मान माया त्यागी ॥ नविक० ॥ १ ॥  
 काठीने वेशे देव मलीयो, आवी मारगमा ते नजीयो ॥ उपदेश  
 करीने ते वलीयो ॥ नविक० ॥ २ ॥ गया नही घेर पाठा फरी,  
 आव्या कांइ काठीयावाम जणी ॥ लीधी दीक्षा अधिर सतार  
 जाणी ॥ नविक० ॥ ३ ॥ वनमां जम्या बहु ब्रह्मचारी, वसे वाध  
 वरु जीहा जारी ॥ तप कीधा तिहा बहु जारी ॥ नविक० ॥ ४ ॥  
 जइ काष्ठसग करता, राजा मोह साथे कांइ लडता ॥  
 कर्म तप करीने हणता ॥ नविक० ॥ ५ ॥ अक्वस्था धि-

हाला मने करमे लीधो वीठी, वहाला तारी मोहजजाल मीठी  
 ॥ माराण ॥ ४ ॥ वहाला तारी वाणी मन धरती, वहाला तो हुं  
 ज्रवसायर तरती ॥ माराण ॥ ५ ॥ वहाला ते तो कर्म दूरे करीयो,  
 वहाला हु तो फोगटर्मा फरीयो ॥ माराण ॥ ६ ॥ वहाला तने देव  
 आवी नमीयो, वहाला हुतो मोहने वश पडीयो ॥ माराण ॥ ७ ॥  
 मधुरी वाणी मेह परे वरसे, तेथी खायक समकित फरसे ॥ मारा- ॥  
 ॥ ८ ॥ देवांगना रंग नाटक करती, सामा सामी फूदमीयो फरती  
 ॥ माराण ॥ ९ ॥ वहाला तु तो नव वेगे गिरि चमीयो, वहाला हु तो  
 तम शरणे पमीयो ॥ माराण ॥ १० ॥ वहाला मित्र सूर अनुस-  
 रीयो, वहाला तुम वचन हृदय धरीयो ॥ माराण ॥ ११ ॥ चेतन  
 धाय रूपकश्रेणी रसीयो, ठानी दीयो पर घेर जड वशीयो ॥ माराण ॥  
 ॥ १२ ॥ के सुर मन सम प्रणाम वशीयो, वहाला तुम गुण गा-  
 वाने रसीयो ॥ माराण ॥ १३ ॥ इति ॥

### पद ७ मु.

( मद् जरे कोयल टउकतीरे, वेठी आंवा माल ए देशी )  
 आवोने सुगुरु वांदवारे, चालो अमारी साथ ॥ वहाला ॥  
 वांदीने मोहनी परिहरोरे, मनहुं करो अम हाथ ॥ वहाला ॥  
 ए आकणी ॥ हकुममुनि माहरा गुरुरे, पच महाव्रतधार ॥ वहाला ॥  
 वशीश गुण जेहमां नरघारे, समतारस नरार ॥ वहाला ॥ आवो-  
 ने सुगुरु वांदवारे ॥ १ ॥ देता मधुरी देशनारे, साजलेठे नर ना-  
 र ॥ वाला ॥ अध्यात्म गुण पोखतारे, निज आत्म गुण आचार  
 ॥ वहाला ॥ आवोने ॥ २ ॥ मारगमां भुला नमेरे, जव अटवी  
 मोजार ॥ वहाला ॥ मार्ग तने लाधे नहीरे, नही आवे नव जेद  
 पार ॥ वहाला ॥ आवोने ॥ ३ ॥ तु जाणे जग माहरोरे, ताहरुं  
 को नवि थाय ॥ वहाला ॥ स्वारथना सहुए सगारे, अते एकीलो

(५६)

हज्येरे लाल, त्रिहु काल दिन रातरे ॥सो०॥ दाम सुरनी ए वीन-  
तीरे लाल, देजो धर्मलान टले घातरे ॥ सो० हु० ॥३॥

पद ५ मुं.

( राग गरवानी. )

मारा स्वामी कुमता तजजो, मुनि हुकुम वचन मन धरजो  
॥ ए आंकणी ॥ ज्ञानी गुरुनी जक्ति करजोरे, सुगुरुने पाये प-  
दजो ॥ मारा स्वामी कुमता तजजो ॥१॥ समता सरूप मुनि गुण  
वारी, क्रोध मानने तजजोरे ॥ मारा स्वामी० ॥२॥ ज्ञानसार  
मुनिनो सुणीने, लोच माया दूर करजोरे ॥ मारा० ॥ ३ ॥ आ-  
त्मध्यानकु नित नित ध्यावो, अपरमद निज रहेजोरे ॥ मारा०॥  
॥ ४ ॥ त्रयीश गुणे आचारज जाणी, नित नित वदन करजोरे  
॥ मारा० ॥ ५ ॥ ज्ञानदीपक मुनिवर पेखी, पच महावत मन  
धरजोरे ॥ मारा० ॥ ६ ॥ आप ठिड्कु नित नित धारो, पर-  
निदा दूरे करजोरे ॥ मारा० ॥ ७ ॥ मित्रीसुरी कहे धनमुनी  
सर, शिपरमणी सुख वरजोरे ॥मारा० ॥८॥ दासके सुर मुनि-  
पद ध्यावो, निज स्वरूपमा रमजोरे ॥ मारा० ९ ॥ इति ॥

पद ६ ठु.

( देशी गरवानी )

मारारे स्वामी देशना दिधो वहाला, हुकुममुनिजी ज्ञान म-  
तवाला ॥ मारारे स्वामी देशना दिधो वहाला ॥ ए आंकणी ॥  
धेलेरे थड निज घरमा हु जमती, धीजा कोइनी वाणी नथी ग-  
मती ॥ मारारे० ॥ १ ॥ वहाला मने कुमति मली दूती, तेणे  
मारु मनमु जीधु लूटी ॥ मारा० ॥ २ ॥ वहाला तमे गुणासागरे  
जरिया, वहाला तमे समता सरूपे दरिया ॥ ३ ॥ मारा० ॥ ४ ॥



## उपदेशमाला.

( श्री अरिहत पद ध्याए. ए देशी )

हुकुममुनिजी उपदीसे, देशना अमृत स्वादरे ॥ त्रविक  
जीव घट ऊतरे, अचिनव विपवादरे ॥ हुकुममुनिजी उपदीसे  
॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ रत्नचितामणी तुज कर ग्रहं, श्रावक कुल  
अवताररे ॥ दश दृष्टांते दोहिलो, मुश्केल मलवो गमाररे ॥ हुकुम० ॥  
॥ २ ॥ काय अनंत निगोदमा गयो, तेहना डःखतणो नही पाररे ॥  
गिणाती तेहनी लाधे नही, कविता करे सुउच्चाररे ॥ हुकुम० ॥ ३ ॥  
अकामनिर्जरा गुणे करी, चमियो उर्यो तुं गुणवंतरे ॥ तो  
निज गुण केम विसरे, लावे कोइ अगोचर ध्यानरे ॥ हुकुम० ॥  
॥ ४ ॥ लोने नम्यो तुं चोगति, मागणी मागण काजरे ॥ चा-  
हित कोइए थाण्युं नही, सरयो नही ताहरो काजरे ॥ हुकुम० ॥  
॥ ५ ॥ राग द्वेष तुज केमे पडयो, तेणे रखड्यो अनंतो कालरे ॥  
थिरताना पाडेमां एके धमी, कांइ ठोमे मोह जंजालरे ॥ हुकुम० ॥  
॥ ६ ॥ राग द्वेष परिणामें पमे, कर्म निकाचित वधरे ॥ शुज अ-  
शुज सेववुं पमे, कांइ ठोरु तुं कर्म संवधरे ॥ हुकुम० ॥ ७ ॥  
मान राखे मेरु समो, जगमां जाणु हुं शेठरे ॥ निज कारज न  
संपजे, उपाडे करमनी वेठरे ॥ हुकुम० ॥ ८ ॥ तुं कोनो कोण  
ताहरुं, जेद ज्ञाने करी मन धाररे ॥ तृष्णा राडने परिहरे, करे  
कांइ तत्व विचाररे ॥ हुकुम० ॥ ९ ॥ निराकार ए आतमा, तेने  
रुपी केम कहेवायरे ॥ चेतन अरूपी खरो, परसगतिये डःख  
खपायरे ॥ हुकुम० ॥ १० ॥ मिथ्यामतिने परिहरे, ए खोटी तज-  
जे वातरे ॥ मूल तत्व एक चेतना, माने निश्चे करी साक्षातरे ॥  
हुकुम० ॥ ११ ॥ शिक्षा रूपी ए आतमा, ध्याउं गाउं मन उ-  
ल्लासरे ॥ जेम चेतन परगट हुवें, पाम्यो शिवरमणी विलासरे  
॥ हुकुम० ॥ १२ ॥ विषय कपाय तजी करी, प्रमाद जाव करी

जाय ॥ वहाला ॥ आबोने ० ॥ ४ ॥ उपशम छःख बहु वेदतोरे,  
 चारे गति मोजार ॥ वहाला ॥ अक्सर पामी हु वीनवुरे, काज  
 तारुं कांइ सार ॥ वहाला ॥ आबोने ० ॥ ५ ॥ एवा मुनि तने नही  
 मलेरे, पाचमा आरा मोजार ॥ वहाला ॥ देव भावे जेहने वां-  
 दवारे, ज्ञानतणो नही पार ॥ वहाला ॥ आबोने ० ॥ ६ ॥ केसुर  
 नावे नावनारे, नाव आणी उल्लास ॥ वहाला ॥ चेतन महारा  
 ने वीनवुरे, निज घरे कांइ वास ॥ वहाला ॥ आबोने ० ॥ ७ ॥ इति ॥

### पद ८ मुं

राजानी राणीरे पाणीमा सचरघां, साथे ठे सखी केरो काइ  
 साथ जो ॥ वनमारे फरतो दीठो मरगलो, जाग्यु मन काइ तेहनी  
 साथजो ॥ राजानी राणीरे पाणीमा सचरघा ॥ ए देशी.)

उं सखी आवो सुगुरु वादवा, आवा हुकुममुनि अणगार  
 जो ॥ ज्ञानीरे ध्यानी ए ठे घणा, ठे समता गुण नमारजो ॥  
 चालोने सखीरे सुगुरु वादवा ॥ ए आकणी ॥ आ मुनि देतारे  
 काइ मधुरी देशनारे, सुणे ठे नविक नर नार जो ॥ सुणतां वैराग  
 मन वसे, ठोमो काइ मोहराजानो परिवारजो ॥ चालोने ० ॥ १ ॥  
 काया माया ठे काइ कारमी, कारमा ठे अथिर संसारजो ॥ ते-  
 हनेरे बाजी तु केम रह्यो, काइ पर रमणता पर कोइ निवारजो ॥  
 ॥ चालोने ० ॥ २ ॥ वाये रचेला जेम वादलां, जेम वाये काइ वि-  
 खरी जायजो ॥ संसार सरूप एम जाणीये, तजे कांइ मान मा-  
 याने कपायजो ॥ चालोने ० ॥ ३ ॥ उत्रीश गुणे ठेरे ए काइ  
 मुनिवारे, ठे काइ पच महाव्रत धारजो ॥ आवेरे वांदवाने काइ  
 देवतारे, एना गुणतणो नही पारजो ॥ चालोने ० ॥ ४ ॥ कहेतारे  
 केसुर चेतन माहरो, ते कांइ पर रमणता निवारजो ॥ मिलीयो  
 सुगुरु काइ साहेबोरे, वादे कांइ वार हजारजो ॥ चालोने ० ॥ ५ ॥ इति ॥

होय न्यारो ॥हुकुम०॥५॥ स्वनाव निज ठोमी परघेर जाता, वधे  
 अनंत ससारा ॥हुकुम० ॥ ६ ॥ आप हे हलवो पापाण वेइ  
 वूमे, केम करी आवे खायक ताहरो ॥हुकुम० ॥ ७ ॥ राग रगमां  
 आप मच्यो रहे, निज ज्ञान विसाररे ॥हुकुम०॥८॥ उपयोगवंत  
 थइ प्रमाद सेवे, न चढे रूपकश्रेणी अनुसारो ॥ हुकुम० ॥ ९॥  
 मित्रिसुरी कहे धन्य गुरुजी, जे पीये सुधारस पारो ॥हुकुम०॥  
 ॥१०॥ तुम उपदेसे अनुनव आवे, केशरी चेतन रहे कांइ न्या-  
 रो ॥हुकुम० ॥ ११ ॥इति ॥

### पद ११ मुं.

राग सोरठ.

ताहरा वीना सुनो माहारो देश ॥ हुकुममुनि ॥ ए आंकणी.  
 देश असुनो परजाए सुनी ॥ कोनो ले ए उपदेश ॥ हुकुम० ॥  
 ॥ १ ॥ परलस करतुज सादे जागे, राए मोहो न करे परवेस ॥हु-  
 कुम० ॥२॥ कुलटपणुं चेतन कांइ ठंमी, आप आवी नीज घर ब-  
 सेस ॥ हु० ॥ ३ ॥ आवक घेलानी वीनती सुणीने, गयो कांइ  
 सुरतथी परदेश ॥ हु० ॥ ४ ॥ साएण गामे देशना दीधी, गाम  
 आमोद कीधो परवेस ॥ हु० ॥ ५ ॥ मठ जेम जल बीना तलपे,  
 तेम देशना वीजोग नीरेस ॥ हु० ॥ ६ ॥ रत्नचिंतामण कर ग्रहे  
 तु, मुज क्रममा ए हरण करेश ॥ हु० ॥ ७ ॥ सुगुरु जाणी संगत  
 कीधी निर्दयपणु न जाणुं मे लेश ॥ हु० ॥ ८ ॥ साधु घरे नीज  
 दया दीसे, परघेर ते रमण न करेस ॥हु० ॥९॥ मुज नेह ठे घ-  
 रम स्नेहनो, ते केम हु अलगो करेश ॥ हु० ॥ १० ॥ रोम रोम  
 चीत उदास थइ वेगो, क्यारे मलशे गुरु उपदेश ॥ हु० ॥ ११ ॥  
 मित्रिसुरि कहेहुतो वदिश,सिध केशरीका हा चरणपमेश ॥हु० १२॥

दूरे ॥ निज स्वभावमा खेजीये, वाधे आणांद पूरे ॥ हुकुम० ॥  
 ॥१३॥ निज रुद्रि परगट करे, जेम होवे अक्षय जंदाररे ॥ जेम  
 खरचे तेम वधे घणु, थावे ज्ञान रमणता साररे ॥ हुकुम० ॥१४॥  
 उपयोगवत ए चेतना, साकार वलि निराकाररे ॥ ए वेठ जडे  
 चेतन कह्या, समज कांड हृदय मजाररे ॥ हुकुम० ॥१५॥ ज-  
 मनो उपयोग जम ठे, तेमा नही चेतन रूपरे ॥ ए अज्ञान दशा  
 दूरे करो, कायक थाए कांड पूरे ॥ हुकुम० ॥१६॥ द्वादश अंग  
 सिंशांतमा, अनुयोग कह्या ठे चाररे ॥ ते मडे एक निश्चय कह्यो,  
 बीजा त्रण व्यवहाररे ॥ हुकुम० ॥१७॥ उद्योतपणे शांत ध्यान  
 थइ, ध्याये शुक्ल ध्यान सरूपरे ॥ ठेद जेद मन गोपवी, वेसे थइ  
 निरंजन भूपरे ॥ हुकुम० ॥१८॥ वस्तु स्वभाव धरम कह्यो, वी-  
 तराग वाणी चित्त लावरे ॥ माटे विजावने परहरी, निज धर्ममा  
 आवरे ॥ हुकुम० ॥१९॥ गुरु मिलिया गौतमसमा, धर्मतणा जंम-  
 ररे ॥ जवि लेवाय तेम लेइ जियो, पाम्यो ते दधिजल पाररे ॥  
 ॥ हुकुम० ॥२०॥ मित्रि सुरी देशना सुणी, चित्त चमक्यो हृदय म-  
 जाररे ॥ सिद्ध केशरी उद्योत थइ, गुरुवचन कीधो निरधाररे ॥  
 ॥ हुकुम० ॥२१॥ इति ॥

### उपदेशमाजानु स्तवन.

तारो उपदेश जागे मने प्यारो, हुकुममुनि तारो उपदेश  
 जागे मने प्यारो ॥ ए आकणी ॥ कालअनादि मिध्यामति जमि-  
 यो, न जह्यो निज रूप विचारो ॥ हुकुम० ॥ १ ॥ काम क्रोध  
 लोभनी ए जपटी, चोगति ड.ख सहे विचारो ॥ हुकुम० ॥२॥ लोभ  
 मानके मदमे जरयो रहे, केम करी पावे दधि किनारो ॥ हुकुम० ॥  
 ३ ॥ आव्रत आवरण मनथी न ठामे, न जाणे तत्व विचारो  
 ॥ हुकुम० ॥४॥ पर रमणताय थिर नही वेसे, क्षयउपशम केम

(६३)

पद १३ मुं.

॥ पानीमे मीन पीआसीरे ए राग. ॥

जीनधरम मन पीआरो, सुणो सुणो उर सवी नीआरो ॥  
मुनी हुकुम आतमज्ञानीरे, सुखसागर सबमाही जाणीर ॥ जीन  
धरम मन पीआरो, तु का फरे उदासीरे ॥ आत्मज्ञानवीना सुनी  
कासीरे, नीश्रे ए धरम राखेरे, क्या आमोद क्या शीणोर दाखेरे  
॥ जीन० ॥ १ ॥ अरीहतनुं ध्यान करो जाइ, चवजल उतारे  
ताइरे ॥ कुगुरु ठोमो कुधरमरे, नहीं रखनो एम मैर ॥ जीन० ॥  
॥ ३ ॥ कुदेव नही नमनारे, सुगुरु ध्यान करनारे ॥ जीनधरम  
नहीं ठोमनारे, मुनी हुकुमशुं ध्यान रखनारे ॥ जीन० ॥ ४ ॥  
मुनीहुकुम ए गुरु साचा, सेज मले गुण जाचारे ॥ दास हरगो-  
वींद तुम बोलेरे, नहीं गुरुजी तुम तोलेरे ॥ जीन० ॥ ५ ॥

पद १४ मु.

मुनीहुकुमसे ध्यानरे, मोरी लागी लगवासे ॥ लागी लग-  
नवा ठोडी न लुटे, तुम पासे मुज प्राणरे ॥ मुनि हुकुमसे ध्यान  
मुज सेवक उपर कीरपा करीने, दीलजर दरशन देजोरे ॥ मुनि  
हु० ॥ मोरी० ॥ १ ॥ तुम आवी दीलमे जरीआ, जाग्य तुम ध्यान ली-  
जीए ॥ मु० मोरी० ॥ २ ॥ मन मारुठे तम ध्यानमारे, ज्ञानवाण  
मारोठो मोहनारे ॥ मुनि तुम कालज वधे खटकोठोरे, रसीक  
विद्या बसावोठो नेणनारे ॥ मुनि० मोरी० ॥ ३ ॥ तुम चरणे मारु  
चीत चटकेरे, मुने अथडातो ठेकाणे आणोरे ॥ मुनि ॥ मुने  
कीधु सेवामा रहेजो, एवो जरोंसो साचो जाण्योरे ॥ मुनि० मोरी० ॥  
॥ ४ ॥ तुम गुरुवीना सहु मीथ्यारे ॥ हाथ जोमकर अ-  
रज करतोरे ॥ मुनि ॥ वांदत जावथी हरगोवींदरे, गुरुस्तवना  
करतोरे ॥ मुनि० ॥ ५ ॥

## पद १७ मु

हुकुममुनि महाराजनी विनती

मोए एह अचुंवा आला, हुकुममुनि कीनेआकर नरमाला ॥  
 ॥ ए आंकणी ॥ आवक एक आमोदथी आला, उनका नाम  
 घेला धराला ॥ घेलाने कइ गुरु समजाला, सुरतसे वाहार नीका-  
 ला ॥ हुकुम ॥ १ ॥ दोए दीन साएणमे रखे, फेर उवासे वीहार  
 कीराला ॥ कीतेक दीन नरुचामे फीरीए, फीर आमोदे पधरा-  
 ला ॥ हु० ॥ २ ॥ धामधुम ए जगमे लगरही, जेसी अग्नीकी  
 जुवाला ॥ ठधी बीच जेम नाव जलतहे, कोण बुजावनवाला ॥  
 हु० ॥ ३ ॥ गगन घटमे एक सकर कुइ, उनका पाणी नीराला ॥  
 सतोपी काइ नरनर पीवे, परमादी जावे ठाला ॥ हु० ॥ ४ ॥  
 गगनममलमे गौआ वीआणी, धरती डधजमाला ॥ माखण  
 धासो वीरला पाया, ठासे जग नरमाला ॥ हु० ॥ ५ ॥ कोण गुरु  
 कोणइ चेला, कोण उपदेस देनेवाला ॥ नीराकार साकार थइ बे-  
 गो, अनुजोग नीशहे नहीं आला ॥ हु० ॥ ६ ॥ कोण जोगी कोण  
 इ जोगी, कीने खटरस जोग बनाला ॥ कीने जाकर जंगल वेठा,  
 पण परणती जेद न आला ॥ हु० ॥ ७ ॥ कोण इ रागी कोण  
 इ त्यागी, कोण लेख लखावनवाला ॥ कोण करता कोण अ क-  
 रता, करम जेद नहीं ज्वाला ॥ हु० ॥ ८ ॥ गले रुढमाला नरम  
 लगाया, जगत गुरु कहाला ॥ वेद पुराणका अरथ न समजे,  
 मानमे जोग गुमाला ॥ हु० ॥ ९ ॥ पर शजावमे आपही रमतो,  
 नीज ज्ञानादीक नहीं आला ॥ कोण हे ज्ञानी कोण अज्ञानी,  
 मुल चारीत्रना आला ॥ हु० ॥ १० ॥ मीत्रीसुरी मुनिहुकुम वदे,  
 जेने जेद ज्ञान सरवे आला ॥ सीध केशरी चीदानद वदे, जेने  
 थातमरूप उलखाला ॥ हु० ॥ ११ ॥

शरे ॥ ज्ञा० ॥६॥ नीज शरुप अगनी थकी, परगट करो दपिक  
 मुलरे ॥ ज्ञानादीक आवरण खसी, अजवालु थाशे कुलरे ॥  
 ॥ ज्ञा० ॥ ७ ॥ सुकल ध्यान मन आदरो, वंहचण करो मन सा  
 थरे ॥ नीज वस्तु सधरो करो, शीवरमणी आवतो रहे घेर ॥  
 ॥ ज्ञा० ॥७॥ मीत्रीसुरी वंदन करे, मुनीहुकुम वचन परमाणरे॥  
 पर रमणता जे परीहरे, संव केसरी थइ लीये नाणरे॥ ज्ञानी० ए॥

### पद १७ मुं

वसंत.

आइ हौरी पीतम मुज घेर नहींवसोरी ॥ ए आकणी ॥  
 गुरुजी हमारो वनमे जमतए, उपदेस कोहोनो लीएरी ॥ वनमे  
 सतकर ध्यान धरतए, मुज प्रीतम बनो एहेघोरी सखीरे प्रीतम  
 मुजघेर नहीं वसोरी ॥ १ ॥ मोहनी शरुपमा लपट रह्यो ए,  
 माया मनसे नवी ठोमी ॥ रात दीन परघेर जमतए, लोक ला-  
 ज न गणोरी ॥ सखीरे प्रीतम० ॥ २ ॥ वीहार करवा गरुजीकी  
 गोणी, हरखीत होइ रंडासोकेरी ॥ राग रंगमे थाप खेलावे, मान  
 मदरोखमेचोरी ॥ सखीरे प्रीतम० ॥ ३ ॥ हाल अनादी परघर  
 रमीनु, रीधी अनंती खोएरी ॥ समउपसम डख वालो वेठले,  
 तोए मोहनी सग न तजेरी ॥ सखीरे प्रीतम० ॥ ४ ॥ ज्ञान  
 गुलालकी धुम मचावु, अनुभव रग पीचकारी ॥ गुरु उपदेसे  
 नरनर ठांटुं प्रीतम जो नीज घेर डरेरी ॥ सखीरे प्रीतम० ॥५॥  
 मधलालम प्रीतमजी गोमत, जप दक्षेणी अममेरी ॥ सुधातम  
 आतमरस पोखे, सुन ध्यानमे रंग वजेरी ॥ सखीरे० ॥ ६ ॥ मी  
 त्रीसुरी कहे धन गुरुजी, वनमे फाग मचोरी ॥ बाध वरु वसंत  
 खेजतए, केसरीसीह मुख न दरेरी ॥ सखीरे प्रीतम मुजघेर  
 न वशोरी ॥

## पद १५ मुं.

रहो रहो मुनीहुकुम दो घनीआं, दो घनीआंरे दोय चार घ  
 मीयां रहो ॥ ज्ञानके पीआले बोहत मीसाले, पीवत मधु सेल  
 मीया. ॥ रहो ॥ १ ॥ ज्ञान सुज्ञान मीलाइ दीनु सामी, फूलडा बी  
 ठावुं तुम गावीए. ॥ रहो ॥ ससार ठोमी दीक्षा लीधी, थया साहे  
 वने सुखमीआ ॥ रहो ॥ २ ॥ वाघ वरु जोरींग नारी, ताहां मुनीये  
 तप कीधा नारे डुगरीए ॥ रहो ॥ ३ ॥ तुम गफाननी जाव बली  
 हारी, ताहां मुनी वेवा वइरागमीआ ॥ रहो ॥ ४ ॥ करजोडी व  
 दना करता, हरगोवीद तुम गुण गावमीआ रहो रहो मुनीहुकु  
 म दो घडीआ ॥ ५ ॥

## पद १६ मुं.

वीर जीनेश्वर उपदीशे ए देशी

ज्ञानी ध्यानी रीसावीए, वसो वन वगडानी मांथरे ॥ सु-  
 रता वसे करेकरी, मन घालु परवरती माहेरे ॥ ज्ञानी ध्यानी  
 रीसावीआ ॥ ए आकणी ॥ ज्ञानी ध्यानी वदन करी, ध्यानु  
 आतमध्यान जोइरे ॥ मीध्यामतीने परीहरो, नीज घरनी जो  
 वकराइरे ॥ ज्ञानी ० ॥ १ ॥ ज्ञान सुणी गुणे रमो, परनाव करो  
 काइ छरे ॥ परधी घर वसजे ए नहीं, नीज नारी सुअ्य नरपुररे  
 ॥ ज्ञा ० ॥ २ ॥ परपीमा सगत थउ, सहो दुःख अनंतु अपाररे ॥  
 तोए सनाव न पालटो, परमा शु देखोठो साररे ॥ ज्ञा ० ॥ ३ ॥  
 परवश तु ग्रहा वकी, वधन बोध काइ शअरे ॥ चोकी चले चो  
 पासधी, गाले काइ पीजर माएरे ॥ ज्ञा ० ॥ ४ ॥ रुपी वस्तु काइ  
 पारकी, एम जाणो मन नीरधाररे ॥ अरुपीने आदरो, लावो काइ  
 तत्व वीचाररे ॥ ज्ञा ० ॥ ५ ॥ मुन चारीत्र मन धरो, धीरता लइ  
 नीज अवासरे ॥ शाती गुणनीरे करी, जासे मेलमेल थासो आ



सण कारण नटकवुं, कांइ शास्त्र कहे वहेवाररे ॥ दरसणादीक  
 कर्म हणी, कांइ नीजसरूप जुहार ॥ प्रीतम० ॥ १२ ॥ मुजतत्व  
 ने नुनखी, रमणाता करो अम साथरे ॥ नीजगुण प्रगट करु,  
 देखामुं कांइ सीधनो साथ ॥ प्रीतम० ॥ १३ ॥ सीधरायनी हुं  
 बेटडी, सुमता ठे मारु नामरे ॥ सीवरमणीनी वेनमी ए, कांइ  
 लइजा तेणे गम ॥ प्रीतम० ॥ १४ ॥ मीत्रीसुरी वदन करे, सा-  
 चो हुकुममुनि नाथरे ॥ आतम सरूपने पेखतो, मनडु केसरी  
 तम साथरे ॥ प्रीतम० ॥ १५ ॥

### पद १ए मुं.

नवीकजीव मुनि हुकुम वंदो, जेथी तूटे नवतणो फंदो ॥  
 मल्या मुने गुरु आतम ज्ञानी, करी सीणोर संघ उपर मेरवानी ॥  
 सेवा नक्की साची जाणी, नवीक जीव मुनि हुकुम वंदो ॥ १ ॥  
 सपर वेंचणा करावी, के रुपी अरूपी नुनखावी के मोह मायाने  
 ठोडावी ॥ नवीक जीव० ॥ २ ॥ कीधो अमने तप बहु नारी,  
 के नादरवा सुद चौथथी नीरधारी, जाउ एमना तपनी बजीहारी  
 ॥ नवीक जीव० ॥ ३ ॥ के अठाइ नुनव नीत थावे, के इछइं-  
 छाणी वंदवा आवे, सरधावानने दरशन थावे ॥ नवीक० ॥ ४ ॥  
 के पुरव पुने गुरुजी मलीआ, के ज्ञानसागर आतम बरीआ अ-  
 ध्यातम पद्धतणा दरीआ ॥ नवीक० ॥ ५ ॥ के सुरपती मीत्री एम  
 बोले, के नही कोइ गुरुजीने तोले, के सेवक नाथो एम बोले ॥  
 ॥ नवीक० ॥ ६ ॥ करमचद आ कोहेथी वनाव्युं, के दीपचंदना  
 मनमां भाव्यु, के माफ मागीने पद वनाव्युं ॥ नवीक० ॥ ७ ॥  
 के नादरवा सुद पाचम पाखी, के अकल मारा प्रमाणे दाखी, उ-  
 लट मारा मननी नाखी ॥ नवीक० ॥ ८ ॥

(६६)

पद १८ मुं.

आत्मजावनी उपदेशमाला.

जेरवी.

तम परघेर मासोमाट, प्रीतम बोलोनी ॥ नीज घेर आवोतो  
वलीअरी, प्रीतम बोलोनी ॥ ए आकणी ॥ मुनि हुकुमनी जे व  
सत, हाइ सुणो जवीक नर नाररे ॥ कठण कर्म दूरे करे, काइ पावे  
चवजलपार ॥ प्रीतम० ॥ १ ॥ काल अनत एलेगयो नवी ठोमो  
मोहोनो साथरे ॥ मोहोए पीजर घालीउरे वरगणा रखे पाल  
साथ ॥ प्रीतम० ॥ २ ॥ समउपसम छ ख वेठीया, काइ दया न  
आवी मन साथरे ॥ परवथाए वेहेवारीनु काइ बधावे नीज  
हाथ ॥ प्रीतम० ॥ ३ ॥ अक्सर फरीअ न पामीए, काइ परस  
जेरे नही साथरे ॥ मानवजव अती दोअलो, काइ समजो रुदया  
साथरे ॥ प्रीतम० ॥ ४ ॥ काली कुवजा परहरी, काइ मनडु करो  
अमहाथरे ॥ मनथी नवीटको मनथी तीटको, धीरता लइ रहो  
अमसाथ ॥ प्रीतम० ॥ ५ ॥ पररमणता परीहरी, काइ बेसो  
हमारी साथरे ॥ घरमा न पेसे कोइ धर्सा, नीज दोलत करु तम  
हाथ ॥ प्रीतम ६ ॥ आले आतम साहेवा, काइ जोने लेखे लखांत ॥  
जमनो उपयोगी जम कहो, काइ साख पूरी सीद्धांत ॥ प्रीतम० ॥  
॥ ७ ॥ मुनि हुकुम सुणी देशना, परजाव तजो काइ नाथरे ॥  
परउपाजण वदना, काइ चौगती छ खना ठोठ ॥ प्रीतम० ॥ ८ ॥  
मद मदीरा थापे तजी, नीज रुपे थाव काइ सामरे ॥ कोण गो-  
री कोण वाहालो, जावो काइ समपरणाम ॥ प्रीतम० ॥ ९ ॥  
हागेरी हांगपद आदरो, काइ ठोमो माआ जजालरे ॥ आतम  
सरूप काइ उजखो, लावु सम ततकाल ॥ प्रीतम० १० ॥ पर-  
मादतजी उद्योत थइ, काइ ज्ञान जणो दीनानाथरे ॥ ज्ञानादीक  
रुमहणी, नीज ज्ञान करो तुम हाथ ॥ प्रीतम० ॥ ११ ॥ दर-

सण कारण नटकवुं, कांइ शास्त्र कहे वहेवाररे ॥ दरसणादीक  
 कर्म हणी, कांइ नीजसरूप जुहार ॥ प्रीतम० ॥ १२ ॥ मुलतत्व  
 ने नुलखी, रमणाता करो अम साथरे ॥ नीजगुण प्रगट करु,  
 देखामुं कांइ सीधनो साथ ॥ प्रीतम० ॥ १३ ॥ सीधरायनी हुं  
 बेटडी, सुमता ठे मारु नामरे ॥ सीवरमणीनी वेनमी ए, काइ  
 लइजा तेणे ठाम ॥ प्रीतम० ॥ १४ ॥ मीत्रीसुरी वदन करे, सा-  
 चो हुकुममुनि नाथरे ॥ आतम सरूपने पेखतो, मनडु केसरी  
 तम साथरे ॥ प्रीतम० ॥ १५ ॥

### पद १ए मुं.

जवीकजीव मुनि हुकुम वंदो, जेथी तूटे जवतणो फंदो ॥  
 मल्या मुने गुरु आतम ज्ञानी, करी सीणोर संघ उपर मेरवानी ॥  
 सेवा नक्ती साची जाणी, जवीक जीव मुनि हुकुम वंदो ॥ १ ॥  
 सपर वेचण करावी, के रुपी अरूपी नुलखावी के मोह मायाने  
 ठोडावी ॥ जवीक जीव० ॥ २ ॥ कीधो अमने तप बहु जारी,  
 के नादरवा सुद चोथथी नीरधारी, जाउ एमना तपनी वलीहारी  
 ॥ जवीक जीव० ॥ ३ ॥ के अठाइ नुभव नीत थावे, के इच्छ-  
 झाणी वंदवा आवे, सरधावानने दरशन थावे ॥ जवीक० ॥ ४ ॥  
 के पुरव पुने गुरुजी मलीआ, के ज्ञानसागर आतम वरीआ अ-  
 ध्यातम पद्धतणा दरीआ ॥ जवीक० ॥ ५ ॥ के सुरपती मीत्री एम  
 बोले, के नही कोइ गुरुजीने तोले, के सेवक नाथो एम बोले ॥  
 ॥ जवीक० ॥ ६ ॥ करमचद आ कोहेथी वनाव्युं, के दीपचंदना  
 मनमां भाव्यु, के माफ मागीने पद वनाव्यु ॥ जवीक० ॥ ७ ॥  
 के नादरवा सुद पांचम पाखी, के अकल मारा प्रमाणे दाखी, उ-  
 लट मारा मननी जाखी ॥ जवीक० ॥ ८ ॥

(६६)

पद १८ मुं.

आत्मजावनी उपदेसमाला.

चेरवी

तम परघेर मासोमाट, प्रीतम वोलोनी ॥ नीज घेर आवोतो  
वजीआरी, प्रीतम वोलोनी ॥ ए आकणी ॥ मुनि हुकुमनी जे व  
सत, हाइ सुणो जवीक नर नाररे ॥ कठण कर्म दूरे करे, काइ पावे  
जवजलपार ॥ प्रीतम० ॥ १ ॥ काल अनत एलेगयो नवी ठोमो  
मोहोनो साथरे ॥ मोहोए पींजर घालीउरे वरगणा रखे पाल  
साथ ॥ प्रीतम० ॥ २ ॥ समउपसम ड.ख वेठीया, कांइ दया न  
आवी मन साथरे ॥ परवथाए वेहेवारीउं काइ वधावे नीज  
हाथ ॥ प्रीतम० ॥ ३ ॥ अक्सर फरीअ न पामीए, काइ परस  
जेरे नही साथरे ॥ मानवजव अती दोअलो, काइ समजो रुदया  
साथरे ॥ प्रीतम० ॥ ४ ॥ काली कुवजा परहरी, काइ मनडु करो  
अमहाथरे ॥ मनथी नवीटको मनथी तीटको, धीरता लइ रहो  
अमसाथ ॥ प्रीतम० ॥ ५ ॥ पररमणाता परीहरी, काइ वेसो  
हमारी साथरे ॥ घरमा न पेसे कोइ धसी, नीज दोलत करु तम  
हाथ ॥ प्रीतम ६ ॥ आले आतम साहेवा, काइ लोने लेखे लखांत ॥  
जरुनो उपयोगी जरु कहो, काइ साख पूरी सीझात ॥ प्रीतम० ॥  
७ ॥ मुनि हुकुम सुणी देशना, परजाव तजो काइ नाथरे ॥  
परउपाजण वदना, काइ चौंगती ड खना ठोठ ॥ प्रीतम० ॥ ८ ॥  
मद मदीरा आपे तजी, नीज रुपे थाव काइ सामरे ॥ कोण गो-  
री कोण वाहालो, जावो काइ समपरणाम ॥ प्रीतम० ॥ ९ ॥  
हागेरी हींगपद आदरो, काइ ठोमो माआ जजालरे ॥ आतम  
सरूप काइ उंजखो, लावु सम ततकाल ॥ प्रीतम० १० ॥ पर-  
मादतजी उद्योत थइ, काइ ज्ञान जणो दीनानाथरे ॥ ज्ञानादीक  
रुमहणी, नीज ज्ञान करो तुम हाथ ॥ प्रीतम० ॥ ११ ॥ दर-

सण कारण नटकवुं, कांइ शास्त्र कहे वहेवाररे ॥ दरसणादीक  
 कर्म हणी, कांइ नीजसरूप जुहार ॥ प्रीतम० ॥ १२ ॥ मुलतत्व  
 ने ज्ञखी, रमणाता करो अम साथरे ॥ नीजगुण प्रगट करु,  
 देखामुं कांइ सीधनो साथ ॥ प्रीतम० ॥ १३ ॥ सीधरायनी हुं  
 बेटडी, सुमता ठे मारु नामरे ॥ सीवरमणीनी वेनमी ए, कांइ  
 लइजा तेणे ठाम ॥ प्रीतम० ॥ १४ ॥ मीत्रीसुरी वदन करे, सा-  
 चो हुकुममुनि नाथरे ॥ आतम सरूपने पेखतो, मनडु केसरी  
 तम साथरे ॥ प्रीतम० ॥ १५ ॥

### पद १९ मुं.

जवीकजीव मुनि हुकुम वंदो, जेथी तूटे जवतणो फंदो ॥  
 मल्या मुने गुरु आतम ज्ञानी, करी सीणोर संघ उपर मेरवानी ॥  
 सेवा नक्ती साची जाणी, जवीक जीव मुनि हुकुम वंदो ॥ १ ॥  
 सपर वेंचणा करावी, के रुपी अरुपी ज्ञखी के मोह मायाने  
 ठोडावी ॥ जवीक जीव० ॥ २ ॥ कीधो अमने तप बहु जारी,  
 के जादरवा सुद चौथथी नीरधारी, जाठ एमना तपनी वलीहारी  
 ॥ जवीक जीव० ॥ ३ ॥ के अठाइ जठव नीत थावे, के इइइ-  
 झाणी वंदवा आवे, सरधावानने दरशन थावे ॥ जवीक० ॥ ४ ॥  
 के पुरव पुने गुरुजी मजीआ, के ज्ञानसागर आतम वरीआ अ-  
 ध्यातम पद्धतणा दरीआ ॥ जवीक० ॥ ५ ॥ के सुरपती मीत्री एम  
 बोले, के नही कोइ गुरुजीने तोले, के सेवरु नाथो एम बोले ॥  
 ॥ जवीक० ॥ ६ ॥ करमचंद आ कोहेथी वनाव्युं, के दीपचंदना  
 मनमा भाव्युं, के माफ मार्गिने पद वनाव्युं ॥ जवीक० ॥ ७ ॥  
 के जादरवा सुद पांचम पाखी, के अकल मारा प्रमाणे दाखी, उ-  
 लट मारा मननी जाखी ॥ जवीक० ॥ ८ ॥

(६८)

उहो.

प्रणामु पास जीणदनेरे, जे ठे सुखदाता ॥ रटावली. ॥  
तम समरु वली सरस्वतीरे, जीन मुख वेती धार ॥ वली ॥  
गुरु चरणे सीसनामीनेरे, करु वाख्या अभ्यास ॥ वली ॥

पद २० मु

अरे हो मनवाजी ॥ मुनीहुकुम अध्यातम पासे जाजो ॥  
अरे मुज अरजलमी, स्नेह परीने एनी तुम संजलावजो ॥ जे  
जीनसासन पती नायकठे, सुर सगला जेने पायक ठे ॥ चारीत्र  
समकीत जेने खायक ठे ॥ अरे होमनवाजीण॥१॥ जस कंचन व-  
रणी काया ठे जस वजन सगला पायक ठे ॥ पुरा राधन केरा  
रायाठे ॥ अरेहोमनवाजीण॥२॥ जस चतुर्वी संग्र वीराजेठे, जस  
वाणी ज्ञान तणी खुव गाजे ठे ॥ माता अचरद जेने ठाजे ठे ॥  
॥ होण ॥३॥ तुम नवीक जीवना उपयोगी ठो, तुमे बहु सुतना  
सोहागी ठो ॥ उपदेश सुनी लेह लागीठे ॥ होण ॥४॥ तुम सेवा  
करवा रसीजुवु, पण गाम सीनोरमा वसीयोवु ॥ काम मोह मद  
करी फसीयोवु ॥ होण ॥५॥ पण साहेव मनमा धारुवुं, तुम आण  
सीर धरी चालुवु ॥ आत्म सुध करवा धारुवु ॥ हो मनवाण॥६॥  
साहेव अवगुणमा हु पुरोवु, पण सेवा करवाने पुरोवु ॥ पण एक  
वाते अधुरोवुं ॥ होण ॥ ७ ॥ सेवक नाथो एम बोले, कोइ नहीं  
मारा गुरुजीने तोले ॥ के दास हरीलाल ठे तुंम बोले ॥होण७॥

पद २१ मु

का जीवता मरोरे, मुख क्या जीवता मरो ॥ समरोनी श्री  
मुनीहुकम, नवसागर तरो ॥ आकाले ए ज्ञानी साचा, सेवना  
करो ॥ जेथी जन्म मरण टले, थाय मोहना मरो ॥ क्याण॥१॥

(५५)

मनप्रजेवने श्रवणी जेने, समकीत खायक खरो ॥ जवीक जीवने  
बुजवेठे, आप कहो तुम तरोही तरो ॥ क्यांण ॥२॥ आ संसारठे  
स्वप्नरुपी, क्यां अटवाइ मरो ॥ रागद्वेषने ठोरवोतो, जइ सीव-  
पुरमां जरो ॥ क्यांण ॥३॥ सर्व कोयने नाथो कहेठे, चीत गुरु  
सर्ण धरो ॥ दास बहेचरनी वीनती, रुदयमां धरो ॥ क्यां ॥४॥

पद २७ मुं.

मेरोही मन राखु केसो समजाय ॥ मेरोही ॥ आकणी. ॥  
वीथवीथ समजावुं नहीं समजत, सांजल सांजल डःख पाय ॥  
॥ मेरोही० ॥ १ ॥ मीठी मीठी वतीयां जुठी कहत मोए, रहे  
संसारमा जलचाय ॥ मेरोही० ॥ २ ॥ साची ताची वतीयां गुरु  
कु कहत मोय, अब केसो करु उपाय ॥ मेरोही० ॥३॥ मनकी  
गतीयां बोत चंचलहे, अब मांको कायन चाले उपाय ॥ मेरोही०  
॥ ४ ॥ नाथो कहतहे अबतो एसो, लाजतो मेरी गुरु हुकमके  
हाथ मांहे ॥ मेरोही मन राखु केसो समजाय मेरोही० ॥ ५ ॥

पद २३.

सहु सगने हुं कहुंठरे, सेवोने तमे हुकममुनी ॥ पुरव मने  
मल्याठरे, आपणने गुरुज्ञानी. ॥ ए टेक ॥ मदमे ठाका फरोठरे,  
करोठो तमे वदमाइ ॥ भाटे समजी चालोरे, नीकर जसो पस-  
ताइ ॥ सहु० ॥१॥ अनागीया नही सांजेरे, तेतो जसे मारा ॥  
वारेवारे कहुंठरे, मेलोनी वरवाना चारा ॥ सहु० ॥२॥ बेमां फे-  
रवाठो नाणुरे ॥ नथी जाणता रात वाणुं, आ संसारठे सपनुंरो।  
आवशे जवानुं टाणुं ॥ सहु० ॥ ३ ॥ जोवनीठ अटक लटकुरे,  
ठे चार दीननुं चटकु ॥ धीरता तो नथी रेतीरे, मन तारु तो जो-  
तां नटकु ॥ सहु० ॥४॥ काया तारी काचनो कुपोरे, परपोटानी  
पेरे फूटी जसे ॥ सगु तारु सुखनुं बेलीरे, सवारथनो अरथ धासे

॥ सहृ० ॥५॥ आ अवसर ठे रुमावानोरे ॥ समजु होय ते ची-  
 तमा धरे, नीकर जसे खोड्रे सगा रोड्ने रसे. ॥ सहृ० ॥६॥ गुरु  
 उपदेशे सज्जने कहुतुरे, समजोनी चेतनजी सोजागी ॥ माटे स-  
 मजोने चाडोरे, गुरुनी मने ले जागी ॥ सहृ० ॥ ७ ॥ माटे धरम  
 साधोरे, तो पडसो मोड्ने फांसे ॥ नाथो दास कहेठेरे, सेवतो  
 तेने तोज रसे ॥ सहृ० ॥८॥

### पद २४ मुं.

जेने सेवता ते सीय सुख थाय हुक. ॥ जेपी टूटे मोहनी  
 जाज हुक. ॥ आकणी. ॥ सावकना पुन उदे थया तारे, सुरत  
 तेडवा जायरे ॥ सठ सय उपर कीरपा करीने, पधारो मुनीराय  
 ॥ हुक० ॥१॥ पाचमे आरे ज्ञानी साचा, त्रण कालनुं ज्ञानरे ॥ जे  
 पुढे तेनो अर्थ बतावे, आतम ज्ञानी सुर ॥ हु० ॥२॥ सठ सा-  
 वक जाय वखाण साजलवा ॥ देशनावे माहाराजरे ॥ सीधात  
 शुणीने सुखीआ थड्ण ॥ त्या परजावना बहु थाअ ॥ हु० ॥३॥  
 आ काले ए साधु साचा, कंचन कांमनीना तागीरे ॥ हेवा नीमंध  
 मुनीवादेतोतो, एनी जावट ना जाय जागी. हुक० सेवो ॥ ४ ॥  
 पाच सुमति त्रण गुपतीजेने ॥ राग द्वेषना त्यागीरे, नवीक जीवने  
 उपदेश देठे ॥ जेनी सीवपुरमे लेहेजागी हुकम० सेवो० ॥ ५ ॥  
 तप कीधो हेमने बहु नार ॥ अछाड् थोठव थायरे ॥ इड्बोसठ  
 जेनी सेवा करेठे ॥ इदराणी मगलगाथ ॥ सेवो ॥ ६ ॥ पुजाठ  
 वीध वीध नणायने ॥ जुठव आरती थायरे, गाधवतीआकने नरत  
 करेठे ॥ शगराग ज्ञान न थाय हुक० सेवो ॥ ७ ॥ सुद जादरवा  
 चोथ वीवसथी ॥ तप आदरी माहाराजरे, वड पमवेनो पारणुं कीधु  
 स्या सामीवछज नील थाय हुकम ॥ ८ ॥ कर जोमीने नाथो  
 कहेठे, सामी मुजने तारोरे ॥ दास उपर ते वया करीने ॥ वीन-



तनी अथधारारे ॥ हुकुम सेवो ॥ ए ॥

पद १५ मुं.

विनती.

तारो नवारो वेश मनमा तारो नवारो वेश, ॥ ए टेक. स-  
मे समे तु कां जमेठे, अनुचवनीजन केमजेश ॥ मनमा ० १ ॥  
तुजसंगते चीदानंद नटके ॥ चौगती ड.ख लए वीसेस मनडा ० ॥  
॥ २ ॥ क्षीण मात्रस्थीर नवी वेस, जमतो अणंतो परदेस ॥ म ०  
॥ ३ ॥ काल अनतो परघेर रमीन, हवे काइ ठोमो परान्न देश ॥  
॥ ४ ॥ मोहनी रमणता अति कीधी, कीधो नही नीज घेर प्रवेश ॥  
मनमा ० ॥ ५ ॥ क्रोध मान केम दमे रम्यो बहु, समतासु रम्यो  
नहीं लेश मनमा ० ॥ ६ ॥ परणांता तुने वार न लागे, रहेनीमी-  
लेवडावो फरी वेश ॥ मनडा ० ॥ ७ ॥ पाचे छ्य इच्छा परवरतो  
सुख समकीत क्यारे लेश मनमा ० ॥ ८ ॥ प्रणती बदली जेद  
ठेद करे तु, कांइ कृपक श्रेणीए चमेश ॥ मनमा ० ॥ ९ ॥ कृमा  
वंत ते साधू कहीए, करम खपावतो फेरवो देश ॥ मनमा ० ॥  
॥ १० ॥ मुनी आधार विचरतो कहीए, स्थीर नवी रहे एरु देश ॥  
॥ मनमा ० ॥ ११ ॥ मीत्रीसुरी मुनी हुकुम वदे, जे सीवरमणी  
सुख लेश ॥ मनमा ० ॥ १२ ॥ सींधकेसरी चीदानंद वंदे, मनमुं  
सुख करी वेश ॥ मनमा तारो नवारो वेश ॥ १३ ॥

पद १६ मु.

होरी.

आइ वसत प्यारी, जुरत नीजघरकी नारी ॥ ए आंकणी ॥  
जुरत जुरत नइ हाले, चौगती ड.ख शनारी ॥ शम उपसम प्री-  
तम ड.ख साले, गुरुवीना कोण उपगार सखीरी जुरत नीजघर

कीनारी ॥ १ ॥ कुलट रामको सग न मेहेले, लोने काल अना-  
 वी जमेरी ॥ रागरग सोकनसे खेले, मान मदमेहे रहो मचोरी ॥  
 सखीरी. जुरत० ॥ २ ॥ कुसगते कुगती बाधे, सुसगते शुजकारी ॥  
 सुसगते सीखामणा लागे, बुटे करम काइ जारी ॥ सखीरी. जु-  
 रत० ॥ ३ ॥ मुज प्रीतमकु ताजनहींए, घेर घेर जमतो जीखारी ॥  
 मागणा मागत काइ न वेवे, करमगत ठे न्यारी ॥ सखीरी जुरत० ॥  
 ४ ॥ पर रमणता प्रीतम न ठाढे, प्रणमे बंध पमेरी ॥ प्र-  
 णाती जेदे नीकाचीत बांध्ये, ए सगती दोष न मटेरी ॥ सखीरी  
 जुरत० ॥ ५ ॥ नीगोदधकी हु बाल सगाती, तोय मुजने केम  
 अन गपोरी ॥ हु ड.खीयारी पोते ड.ख वेते, तोयलोलपीपणुं न  
 तजेरी ॥ सखीरी, जुरत० ॥ ६ ॥ वेटीहु हु सीवराजनी, हजुए  
 खुं हु बालकुमारी ॥ प्रेमे करी जे मुजने वरसे, लेशे सीवरमणी  
 सुखकारी ॥ सखीरी. जुरत० ॥ ७ ॥ हलवो थइ नीज घरमा पेसे,  
 आवरण नय गपोरी ॥ सुरवीर थइ थरीने जीते, नीज झाने  
 गुलाल बमेरी ॥ सखीरी. जुरत० ॥ ८ ॥ ठेव जेद मनशे करीने,  
 ह्यायक श्रेणीए चमेरी ॥ ध्यान शुकलनी ते ध्याता, अनुनव रंग  
 मचेरी ॥ सखीरी. जुरत० ॥ ९ ॥ देव थरीदित सुगुरु साचो, म-  
 नसे नीशे ठरेरी ॥ देवगुरुनी आणना लोपे, ह्यायक समकीत  
 ते लहेरी ॥ सखीरी. जुरत० ॥ १० ॥ मीघी शुरी मुनी हुकुम वंदे,  
 जे पच माहावृत घारी ॥ दास केशरी प्रीहुकालवदे हेना उपदे-  
 शनी बलीहारी सखीरी. जुरत० ॥ ११ ॥

पद २७ मुं.

होरी

थाइ होरी प्रीतम मुजघेर नहीं बसोरी ॥ ए थाकणी. ॥  
 गुरुजी हमारे बनमा जमत हे, उपदेश कोना लीपोरी ॥ बनमे

बसतकर ध्यान धरतहे ॥ मुज प्रीतम बनो ए अघोरी, सखीरी  
 प्रीतम मुजघरे नहीं वसोरी ॥ १ ॥ मोहनी सरुपमे लपट रहो  
 हे, माया मनसे नव ठोरी ॥ रात दीन परघर नमत हे, लोक  
 लाजन गणोरी ॥ सखीरी० ॥ २ ॥ वीहार करवा गुरुजीको जाणी,  
 हरखीत होइ रंभासो करी ॥ राग रंगमे आप खेलावे, मानमदमे  
 राखे मचोरी ॥ सखीरी० ॥ ३ ॥ काल अनादी परघेर रमीऊ,  
 रीधी अनंतीखोयरी ॥ सम उपसम छुख बोलावे, तोए मोहनी  
 सग न तजेरी ॥ सखीरी प्रीतम० ॥ ४ ॥ ज्ञान गुलालकी धुम  
 मचावुं, अनुभव रंग पीचकारी ॥ गुरुउपदेसे नरनर ठीठुं, प्रीतम  
 जोनीजोरे ठरेरी ॥ सखीरी प्रीतम० ॥ ५ ॥ मघजाल प्रीतम-  
 जी ठोडत, ह्यक श्रेणीए चमेरी ॥ सुधातम आतम रस पोखे,  
 गुन ध्याने मरदग बजेरी ॥ सखीरी प्रीतम० ॥ ६ ॥ मीत्रीसुरी  
 कहे धन गुरुजी, बनमे फाग मच्योरी ॥ वाघ वरु सेवत खेलत  
 ए केशरीके मुख चढयोरी ॥ सखीरी प्रीतम ॥ ७ ॥

### पद २० मुं.

आज बधाइ मारे रग बधाइ, गुरु हुकुममुनिकी होइ पधराइ ॥  
 ॥ ए आंकणी ॥ सकलसंग मीज समझुं कोनो धवल मंगल  
 गवाइ ॥ आज बधाइ० ॥ १ ॥ वाजते गाजते मुनिजी पधारे,  
 संग सकल परखदा चीतचाही ॥ आज बधाइ० ॥ २ ॥ देवलोक  
 मन हरख नयोहे, मोतीएन गहुली पुराइ ॥ आज० ॥ ३ ॥ व-  
 रसे मेघ जेम तरुवरफूले, देशना घटाघन ठाइ ॥ आज० ॥ ४ ॥  
 पररमणता चेतन ठडी, आवे कंइ नीजघेर वडाइ ॥ आज० ॥ ५ ॥  
 आगे चेतन बीजावमे रमतो, देशना सुणी थीर थाइ ॥ आज० ॥  
 ॥ ६ ॥ गुणाथाणादीक ज्ञाने चडेजे, नीज ज्ञानादीक चीतलाइ  
 ॥ आज० ॥ ७ ॥ मन मुजेसो मुनिवर कहीए, परधव्य इजा

परवाइ ॥ आज० ॥ ७ ॥ दीपक ज्ञाने समुद्र सोए, करे क्लेपक  
 श्रेणीये चढाइ ॥ आज० ॥ ८ ॥ परमाद सरवे दूर जयोहे, नीजस  
 उदासीनता आइ ॥ आज० ॥ ९ ॥ सम परीणामे दधीजल तरसे,  
 खायक तुवफल हाथ आइ ॥ आज० ॥ १० ॥ सुशतम अतम  
 रस पाइ, करे करमोसे लमाइ ॥ आज० ॥ ११ ॥ डवादश  
 अग वपांगजुखी, सरधा लघुता पाइ ॥ आज० ॥ १२ ॥ लोक  
 प्रवरता डुरेगइए, नीज ध्यान अगोचर थाइ ॥ आज० ॥ १३ ॥  
 मीत्रीशुरी गुरु पद सेवो, सीधकेशरी चीतलाइ ॥ आज० ॥ १४ ॥  
 मारे रग वधाइ ॥ १५ ॥ इति

### पद १९ सु.

#### शीखामण

साधुजी शीख सोहामणी, मन मोहन मेरे ॥ साजलजो  
 धरी कान, मनमोहन मेरे ॥ कहु शीखामण सोजती ॥ मन ॥ रु-  
 दय धरजो एक तान ॥ मन ॥ गाथा ॥ १ ॥ पच इंदरी वश करे ॥  
 ॥ मन ॥ ते अणगार कहासे ॥ मन ॥ ते माही एककु लही ॥ मन ॥  
 रश इंदरी सोहासे ॥ मन ॥ गाथा ॥ २ ॥ चारु जीतवी सोहली ॥  
 ॥ मन ॥ छजहो रसनो त्याग ॥ मन ॥ जेने रसतेठोमीड ॥ मन ॥  
 ते मुनीपर माहा जाग ॥ मन ॥ ३ ॥ जलवीशे जे माठलां ॥ मन ॥  
 रस साटे दे प्राण ॥ मन ॥ मघवाचारजी उपनो ॥ मन ॥ रश इंदरीथी  
 जाण ॥ मन ॥ ४ ॥ नगर बासे देवता ॥ मन ॥ नीज सीख प्रती-  
 बोध ॥ मन ॥ सीलगा चारज जोलथी ॥ मन ॥ न रही चारीत्रनी सोध  
 ॥ मन ॥ ५ ॥ श्रीवेपण ते ठोमीयो ॥ मन ॥ पर माटे रहेशे कठार ॥  
 ॥ मन ॥ हेरवोनद वोजावीड ॥ मन ॥ ठठासंग मोजार ॥ मन ॥  
 एम अनेके ते भुलीया ॥ मन ॥ रसना इडीने साथ ॥ मन ॥

(४५)

मुनीहुकुम कहेजेतेजे ॥ मन ॥ ते होंसे शीवशुदरी नाथ, मनमो  
हन मेरे ॥ ७ ॥

पद ३० मुं.

राग रामकली.

गुरु पद सेवन सीव सुखर ॥ वन ॥ सहजानंद विलाशरे,  
त्रीगुणातित स्वामी करे ॥ करमनो नाशरे ॥ गुरु ॥ १ ॥ गुरुजन  
जांखे ज्ञानते दाखे ॥ करे प्रनावनो नाशरे, जम चेतन दोभाग  
ज करीणो ॥ आपो आप नीरधाररे ॥ गुरु ॥ २ ॥ नीरावरणनी  
रज देखी, केज तेहनु ध्यानरे ॥ मुनी हुकम चेदानंद साहेव ॥  
प्रगटयुं उत्तम ज्ञानरे ॥३॥ प्रजातीकमवानो रीको ॥ सहज स  
जावमे आप वरते सदा त्यांहा काण कर्मनुं काठुज दीवु, एतो  
प्रवर्तीमे धर्म भ्रष्टमे परगट ॥ पण ते लागे बुचीवु ॥ सरी ॥ ४ ॥  
अजखना रुपमा रुपीझव कीहां ॥ तांहा अरुपी ध्यान दीवु,  
ध्यान गफा मांही संतोप आसन करी ॥ अगम सरुप लागेठे  
मीवु ॥ ५ ॥ जोजगतीहां ज्ञान इष्टि तणा लोकालोक स्वरुप  
दीवु ॥ मुनी हुकम नीराकार स्वरुपमां गुरु गमथी ते गुण गरी-  
वु ॥ ६ ॥ इति

पद ३१ मुं.

हुकममुनीजीमहाराजनीवंदनाना दोहरा

विनवुं श्री जीणंदने, करु मंन परीणाम ॥ जीव दशा छरे  
टले, पामे अवीचल धाम ॥१॥ सहस्र एकने वली, आठ वार नी-  
रधार ॥ आतम ज्ञानज पामवो, वंड हुं वारवार ॥२॥ खटसाखना  
ज्ञानथी, चीदानंद नरपुर ॥ एवुजाणी उपन्यो, आनंद मारे उर ॥३॥  
अज्ञानरुपी अंधकारथी, पमीसकां मन जाण ॥ ते तम आगल

करतां थामोदनगरे, दीठा आत्म ज्ञानीजी ॥ १५ ॥ चातुरमासे  
 वरसाकाले, रह्या ते स्थीर वासजी ॥ सेवक जनने पावन कीथा  
 आपी ज्ञान विज्ञासजी ॥ १६ ॥ तेमज तेस्थले, दासना पण ॥ संस  
 य डर पजाय अनीतजी ॥ नीत प्रवृती निवृती, जेद अजेद सारजी ॥  
 सत्य असत्य जीव निरजीव, धर्म अधर्म धारजी ॥ १७ ॥ स्व  
 स्वरुप परस्वरुप नीरुपण ॥ आपी घणां छटातोजी ॥ अजावने  
 मीध्यात बुद्धि, ज्ञाने पमामी सांतजी ॥ १८ ॥ लालशंकरनोजे  
 सुत, अध्यात्मीकनो दासजी ॥ शीप नमावी ठगन कहेढे, राखो  
 चर्ष पासजी ॥ १९ ॥ हालमां हु हणखी मध्ये, पुर्वजन्मे ब  
 धाणोजी ॥ साजा भणायु पेट पोपण, कर्म तणे वस पफीयोजी  
 ॥ २० ॥ सत मारगे धन मेलववु, न्याय एतु नाखेजी ॥ करजो-  
 नी दीन वीनती, सेवके तम थागेजी ॥ जंबुसर प्रगणानुं गाम,  
 महणखीनो महेताजी ॥ २१ ॥

### वारमासनुं. पद ३३ मु.

हुकुममुनी जाव करी जेटो, नीरमल ज्ञान नयणो पेखो ॥  
 ॥ हुकु० ॥ टेक ॥ कारतक करीथा वठ पाले ॥ असुन करम डरे  
 टाले जैन धरम अजुवाले ॥ हुकु० ॥ १ ॥ मागशर मन मारु मोयु  
 ॥ रुपा नीधी सनमुख जोठ ॥ दरशण करी पाप मेल धोठ ॥  
 ॥ हुकु० ॥ २ ॥ पोसे प्रीत अनुभव लागी, सुमता नारी जब जागी ॥  
 प्ररुती सब कर मुकी जार्गी ॥ हुकु० ॥ ३ ॥ माहा मासे तो मया कीजे,  
 जाचरुने दान सदा बीजे ॥ नर नवनो लावो लीजे ॥ हुकु० ॥ ४ ॥  
 फागुणो फाग खेलु तुमसु, मुनीने चरणो हु नमसु ॥ जावना जा-  
 वी नीत जजसु ॥ हुकु० ॥ ५ ॥ चैत्र चारीत्र वठ साधे, सजमना  
 सम जेद आराधे ॥ सीव रमणीसे प्रीत वाधे ॥ हुकु० ॥ ६ ॥ वड-  
 साखे वृत्त पचमु धारे, वेताज्जिशा दोष पुरे टाले ॥ साधुनी कीरी-

आ बड पाले ॥ हुकु०॥७॥ जेठे प्राणजीवन मलीआ, असुन  
 करम सरवे टलीआ ॥ जाचक सुमकीतमां नलीआ ॥हु०॥ ७ ॥  
 अशाडे अमर घटा थाए, अमृत सरखी वाणी पाए ॥ हुकुममु-  
 नीठे बहु सुखदाइ ॥ हुकु०॥९॥ श्रावण संप्रदा जारी ॥ श्रावक  
 श्रावीका सुमकीत धारी ॥ जगती करे गुरुनी बहु जारी ॥ हु० ॥  
 ॥१०॥ जादरवे जाव जलो लावुं, तप गछ सीरोमणी पावु ॥ मु-  
 नीना गुण सदा गावु ॥ हुकु०॥ ११ ॥ आसोमां आणंद थासे,  
 असुन करम सरवे जासे ॥ मुनीना वचन जे ध्यासे ॥ हुकु० ११ ॥  
 द्वादश मास करु सेवक, जोइतो मागे ए मेवा ॥ देजो अनुभव  
 नी सेवा ॥ हुकु०॥१३॥

### पद ३४ मुं.

मुनी हुकुममुनी मोरे दील वसीआ, दील वसीआ मोरे ॥  
 मन वसीआ. मुनी ॥ टेक. ॥ सासन सोनीत सबगुण संजुत  
 आनंद भगन अनुभव रसीआ ॥ मुनी० ॥१॥ आतम ज्ञान उ-  
 पदेश करा तुमे, सीव रमणीसे उलसीआ ॥ मुनी०॥१॥ कहे सो  
 नाराम करजोडी गुरु आगे, तुम दरीशन पातक खसीया ॥हु० ३

### पद ३५ मुं.

राग सोरठ

धीरताजबहु न आवे, मनमुतवहु न कोउन पावे ॥ सबही  
 कारज नास फल जाणो, फोगट कष्टकु ध्यावे थीर. ॥ आंकणी ॥  
 ज्ञान करो वा ध्यानक तुमे, करो चरचा बोली ॥ जबलग मनहु  
 थीर न आवे ॥ होवे थोरकी थोरी ॥ १ ॥ माहा डरधर दरस ठे  
 कारज, साधन मनको जाणो ॥ उलटु पलट धावेठे एतो, आप  
 मतेस पराणो ॥ ४ ॥ कबहुक केण माही चाले, कबहुकचालेउरो

मुनी हुकम कहे मन साधन वीण, दीसे संसार बोजो ॥ ४ ॥

पद ३६ मु.

चेतन मनकु समजावे, समज सगीमोरो ॥ वीन कारण तु  
उरां सोरां, कीहु जावेठे दारो ॥ १ ॥ आहट छहट ध्यान करता,  
पूरव पठम जावे ॥ नीज स्वभावकु वीचारी, अज्ञानपणु ते होवे  
॥ २ ॥ परभाव मांही सुख नहीं पावत, दोरु अनंत उगाहे ॥  
मुनी हुकम कहे नीज घेर रहेतां, सेजे सतोस लाहो ॥ ३ ॥

पद ३७ मु

मन तु क्यु नहीं पावे, ग्नान गुण फोगटमे जावे ॥ थती स  
सार अनादि एवी, ठोमी देतु जाखु तेवी ॥ मन ॥ १ ॥ मलण  
वीखरण, सभाव जेहनो ॥ वीणसे खीण खीणवे लेनो, ताको वी-  
चारतुं कहु आणे ॥ ज्व स्वरुप तुही जाणे ॥ मन ॥ २ ॥ विभाव  
जाणीने तागो, नीज गुण राखणमे लागो ॥ मुनी हुकम थीरता  
कीजे, सेहेज स्वभावमा लीजे ॥ मन ॥ ३ ॥

उहा पद ३८ मुं

शकल जाण तीजक घणी ॥ भुवन प्रकाशक जेह ॥ घट  
उद्योत करे, ज्ञानीजे, तसपद हु प्रणामेह ॥ १ ॥ ज्ञान उद्योत गुरु-  
थी वमो, गुरु पद वे महत ॥ दोय त्रण जीती सीधवर्या, प्रणमु  
वार अनंत ॥ २ ॥ जे सदगुरु सेव सदा, जीन गुणधर उपदेश ॥ अह  
नीस सेवे तस चरणे, पामे पद परमेश ॥ ३ ॥

मधुकर माधवने कहेजो ए देशी

सुमता कहे सुणज्यो स्वामी, तजी वीभाव आतमरामी ॥ हवे  
हुं, थइ वीरमी कामी, रसीया तुम साथे रमस्यु ॥ ४ ॥ ज्ञान अमृत



नोजन जमस्युं, नीज जमाम्नी पठे जमस्युं ॥ रसी ४ ॥ स्युं स्वामी  
 एवमा मोघा फरो, काढी नाखो मननो खतरो ॥ के अम साथे प्रीत  
 करो रसी ७ जीन आणामां सदा रहेस्युं ॥ रसी ॥ ५ ॥ एक धुतारो  
 मल्यो तम्हने, रीधी खोची लीधी तेहने ॥ जो जोइतो राखो अम-  
 ने रसीया ७ नीत्य उठी देवगुरु नमस्युं ॥ २० ॥ ६ ॥ तेहना दोयसु-  
 नट कहीजे, मोहनी नारीसु रसपीजे ॥ वीपेय कपायमां रही  
 प्रीजे २० ॥ ज्ञान अभ्यास सदा करस्युं ॥ २० ७ ॥ सासुना केण  
 थकी जाणुं, मुकाववा करशुं अमे आणुं ॥ २० ॥ आतमराम पती  
 तमसुं ॥ २० ८ ॥ संसार मांही नारीज घणी, कुमतीना ठे, घेरघेर  
 घणी ॥ आणां वहे सदा मोह तणीर ० ॥ आतमराम मांहे रमस्युं  
 ॥ २० ९ ॥ कुमती नारी नरकनी प्रीत, सुख नोगवे खर अनीत ॥  
 अंते थाये डखनी रीत ॥ २० ॥ खोटो आचार सदा तजसुं ॥ २०  
 १० ॥ महा डरगंधनी ए काय, ते देखी डरीजन रंगाय, जीमदी  
 वो पतंग मोह माया ॥ २० ॥ मायानुं संग नही करसु ॥ २० ११ ॥  
 जीम पाणी मांहे मुठी भरे, धुमाना वाचका नवी ठरे ॥ तीम नारी  
 ठे खोटी वीखरे ॥ २० ॥ मोहराय सामा लमस्यु ॥ २० १२ ॥ जाणी  
 ने संसार करु त्यागी, वैराग दीसा हवे जागी, जीन आणाधरवा  
 ताली लागी. ॥ २० ॥ संसारमांही नही परस ॥ २० १३ ॥ कीरीया  
 चारीत्र ज्ञानेमाच, चउदनीयम वृत तप जाच ॥ अनुचव ज्ञान  
 बीना काचा ॥ २० ॥ गुरुआणा सीरवहीस्युं ॥ २० १४ ॥ वार मास  
 जीन गुण अगे, सांजलता सवी डःखनासे ॥ मोहरायने तमाचो  
 लागे २० ॥ संसार थोमो हवे करस्युं ॥ २० १५ ॥ ढाल ॥ १ इति.

### पद ३९ मुं

वालहाजीनी वाटमी हमे जोस्युरे ॥ ए देशी ॥

कारतीक करजोमी वीनवेरे, समता नारी हवेरे ॥ सांजळ

तुं पीठ उठ हवे, सुझानी आपघर सजालोरे॥ घटउसीजाजु टाजो  
 वाल्हेसर आप घेर संजालोरे ॥१॥ मागशरमन मदीर रहीपेरे ॥ घर  
 मेली पर घेर नवी जइएरे, आतम स्वनावमांहे रमीए ॥सु॥ जावे  
 करी मन रमानो ॥वा० ३॥ पोशे ते शोक करे कायारे, तृप्ना ज-  
 जाल मायारे, झानी गुरु वखणे नाया ॥सु॥ ज्ञानमांही चीत ठारो  
 ॥वा० ३ ॥ माहामासे मलमेल धोइरे, अनादि ग्रथ हवे खोइरे ॥  
 घट अतरपरखेसोइ ॥ सु ॥ सवर जावमां चालो ॥ वा० ४ ॥ फा-  
 गुण मन फगवा मान्युरे, जीनवयणे जेद ववारे ॥ जीम लोह  
 काष्ट मन धाडु ॥ सु ॥ आतम अग नमावो ॥ वा० ५ ॥ चैतरे चीत  
 चोखु करइरे, ज्ञान अखरु धन नरस्युरे ॥ गरु चरणे सदा रहेसुं  
 ॥ सु ॥ परम गुरु मन धारो ॥ वा० ६ ॥ वैसाखे वेरीने जीपेरे, युग  
 सुता धारीठे दीजेरे ॥ सुकुकाष्ट जीम वालीजे ॥सु॥ आतम कारज  
 तुमे सारो ॥वा० ७ ॥ जेठमासे जीनगुण वीरातोरे, गुरुनो मार  
 सदा तु खातोरे ॥ खाइ पीइ हवे थयो मातो ॥ सु॥ जीन देहरे सदा  
 तुमे माहालो ॥७॥अखामे मेघ घणा वरसेरे, ज्ञान सखी साथे मन  
 हरखेरे ॥ कर्म काष्ट ध्याने वलसे ॥ सु० ॥ ध्यानघटा अनुसारो ॥  
 ॥ वा ० ॥ ए ॥ आवणे सवर मन धारीरे, नीश्रय ज्ञानसु  
 वीचारीरे ॥ आश्रय वध क्षय कारी ॥सु॥ क्षय उपसम तुमे करो ॥  
 ॥वा० १०॥ जादरवे ज्ञानमन जेदेरे, नव बीज तरुनो मुल ठेदेरे॥  
 सीवनारी रंगरस लवदो ॥सु॥ अनेक पुरुष तरुणीआलो॥वा० ११॥  
 वध उदय सताउदीर्णारे ॥ वीजाव मीटे तदा पुर्णारे, होय सुख अ  
 नत गुणा ॥सु॥ ज्ञान उदयम तुमे करो ॥वा०॥१२॥ आसोए सीव  
 पतीने जोयारे, घात घनघाती मेल खोयारे ॥ रवी जोतमे जोतरग  
 पया ॥ सु ॥ सीव वधु साथे माहालो ॥ १३ ॥

सुण सामलाने मनगीनी माहारे मंदीरे आवो. ए देशी  
 हारे सुणो जीन देवा महेर करी मुज उपर दया करो ए। आंकणी।  
 समकीत सरोवरे जइस्युं, घट अंतर ज्ञानमा जोइस्युं ॥ कारण का-  
 रजमां धरइस्युं ॥ सुण० ॥ १ ॥ स्फाटीक रत्न समभुमी ॥ १ ॥ पां-  
 खनी नव कमल रुची, जोतां हयमे लागु लागे खुची ॥ सुण० ॥ २ ॥  
 सुनट इटोएचणी, उपर मेली कीणी कागणी ॥ तस मधे सोहे  
 पर्म धणी ॥ सुण ॥ ३ ॥ कलोल तरंग नीर सोहे, ते देखी जवीय-  
 ण मन मोहे ॥ अनादी मेल ते हवे खोहे ॥ सु ॥ ४ ॥ पीपीलीदाढ  
 मांही जाण ॥ तेनीठे चउद जुदी माल, सात नीचे वली उवेमाल,  
 ॥ रासु ॥ ५ ॥ मुलकंद एकने पत्र घणां, माले माले होय तमणां ॥  
 पत्रनी संख्या संख्यातगुणां ॥ सु ॥ ६ ॥ एकेका पत्र माहे वासा,  
 आदी अनादी आवासा ॥ वधे घटे नही कोइ मासा ॥ सु ॥ ७ ॥  
 वासा एकेके अनंतगुणां, मधुजी माख्यो करे बमणांटा; अनुनवी  
 ज्ञाने जाणे रमणां ॥ सु ॥ ८ ॥ तसतले कुप हवे केहेस्युं, ज्ञानी  
 गुरुनी सेवा करस्युं ॥ जेथी जवजल उधरस्युं ॥ सु ॥ ९ ॥ सम  
 जागे कहीएकुपचाल, चारे दीसो जेला चारपाल ॥ तस मुखे त्रीखु-  
 णीठे माल ॥ सु ॥ १० ॥ कुपमाहे दोयठे सीरदार, तेनां सुनट  
 दोयत्रण च्यार ॥ साहमां सामी जमे जुजार ॥ सु ॥ ११ ॥ तसफाट  
 गयु गुणक जाण, वेजे करी लपटायु ठीन तीहां घणी लवदा-  
 शे जाल ॥ सु १२ ॥ तीहां एक जमरनु रेगण एजने चटको जरे  
 नमराण ॥ पांख्यो थइ उड्यु उंचाण ॥ सु ॥ १३ ॥ जीम लोह  
 चमकने वाजे तीम एल उनी अवर गाजे ॥ माथे आवास करी  
 ठाजे ॥ सु १४ ॥ एम कहे सुमता संसार मांहे, तुम जेवाने लइ  
 प्रही वांहे ॥ पोचामीए शीतल ठाही ॥ सु ॥ १५ ॥ तीहा जइ सं-

देसो कहेजो, तुम दासी प्रते नेह धरजो ॥ प्रीतम वालेशरने मल-  
ज्यो ॥ सु ॥ १६ ॥ सेहेज सजाव थकी जोड्यो, ज्ञान तरगमा  
सुम मोलो ॥ गुरु पसायथी थयो नोलो ॥ सु ॥ १७ ॥ संवत जे-  
गणी पचीसना, आसो सुदी आठमदीना ॥ बुधवारे गुरु बुधीए  
चीना ॥ सु १८ ॥ जवुसरना रहेवाशी, ठाणापतीठे चोमासी  
मुनी रवी वीजय सीव वासी ॥ सु १९ ॥ इति.

### कलस

इम सुमती नारी कहे, प्यारी जनरागी मन धरो ॥ समकी  
तमोहे रहो चीना अवर देवटाला सचरो, मीध्यात ठामी तीश्रेणी  
मामी जीन आणां नश्रिय आणा करो ॥ कुमती वारी सुमती  
नारी रवी ज्ञान सीव वरो इति

### पद ४९ मुं.

#### चोपाइ.

धारामा रत्न थनेक तणा, मुल गणाती नही ज्ञानी घणा ॥  
पाच ज्ञानमा केवल नाणा, तेथी अधीकुश्रुत जाण ॥ १ ॥ एह  
जाख्यो सीघातमां सार, तीथीमा कीधो आत्माप्यार ॥ ज्ञानसाथे  
लाग्यो मने सग, जीम सोहे चोल मजीवनो रंग ॥ २ ॥ ज्ञानी गु-  
रुनो हुवु दास, जेथी थाए ज्ञान प्रकास ॥ पठी तो सरवे करमने  
हाथ, एमा स्यु करे देव गुरु नाथ ॥ ३ ॥ एम करता जोचेतो चीत,  
जीम जमरी एलनी रीत ॥ ए छष्टांते गुरुनो न्याय, ते पामे सीव  
वधुना पाय ॥ ४ ॥ माहरी तो हजी वालक बुध, में काइ कर्युं नथी  
सुधरुथ ॥ ते माटे ज्ञानी गुरु जेह, सोधी लेज्यो गुणानो घेह ॥ ५ ॥  
४ लोक प्रवाह परमज्ञानी परमत्वच, परमदर्शन शोन्नकं ॥ परमदेवा  
परमस्वामी, सर्व सीध नसस्तुभ्य ॥ १ ॥ इति

## पद ४३ मुं. सर्वैया ३२ सा.

गुणके नीधान ज्ञान सागर, गुण धीरवान खचीते ज्ञान  
ध्यान सीव रंगतानहे, चन्द्र वीद्या गुण जाण मेरुपरे धीरवान ऐसे  
परम ज्ञानी कल्पव्रक्ष समान हे ॥ दयाके पालणहार पंच महाव्रत  
धार पंचकाम जीपनार ऐसे मुनीराज हे, ज्ञानी गुरुको दास कहे  
ज्ञान गुण परीसहे अवीचल हुकुममुनी सीव वासीहे ॥१॥

## पद ४४ मुं कवीत.

प्रगट प्रताप पाप अही मुकेजीम, संताप आप छव नीवारन ॥  
मद मोहकु दमन कर्मकुचुरकरन वेजोकु वीमारन, जवबीज दहन  
ज्ञान गुणी ध्याने लयनीन सीवनारी एकतन ॥ रवी इम कहे  
अखंम प्रतमो हुकुममुनी महाराज ज पराकुरन ॥ १ ॥

## पद ४५ मुं स्तवन.

जव संजव जिति जेदनं सुख संपत कुरणानी केतन वंत  
दीन तप क्रिया फलं, हुकुममुनीराज नमामीहं ॥ १ ॥ करुणा  
मय चारु लोचनं, सरणा यर्तजनार्ति मोचनं ॥ पतितो श्ररणा  
यतत् परीम् हुकुम ॥ २ ॥ निज तत्व पथाव बोधनं जनतायारचत  
एवं उगर्मम्, इति चित्त्य ग्रहित विग्रहं ॥ हुकम ३ ॥ विधि सभु  
मुखैर नीग्रह जव पाथोधि परिब्रंह्यकुज, अवीधारीर्यमनो नरप्रमं ॥  
हु ॥ ४ ॥ नीजपाद्य योज कीर्तनं, संत तंस्या अजव जीव गोचरं ॥  
इतीय कुरु ते कृत सावं ॥ हु ५ ॥ बहीरीक्षण लोकमानुसनी  
जदतं मकर्व सीनंमुनी, जजनीयद पदं जगत् गुरु ॥ हु ६ ॥  
सरणागत पाप पर्वतं नगणे व्यत् दीयसद्गुणम्, श्रणुमखोतुलं  
हीमन्यते ॥ हुक ॥ ७ ॥ जववारीधी मोक्ष साधनं गुरुराज प्रगटस्व,  
संगम् प्रकटी कृतवीन कृपावस्यं ॥ हुक ॥ ८ ॥ मुनीराज कृपयाः

कीरीआ तेर तागीरे, चेदानद सुचीत लागीरे ॥ सुध नावनो थयो  
 रागीरे, अनुभव परणती जागो ॥ नवी ॥ १४ ॥ चौदसे पुरव चवद  
 जाणोरे, अनुभव सहीत वखाणोरे ॥ परमानद रस कहाणोरे, ते  
 थयो सीव पुराणोरे ॥ नवी ॥ १५ ॥ पुरण मासीए पुरण आशोरे,  
 सुध स्वनावमां कीधो वासरे ॥ वीजावनो कीधो नासरे, सुखनी  
 परगटी नेरासरे ॥ नवी ॥ १६ ॥ मुनी हुकमे ए नाखीरे, अध्यात्म  
 नावे ए दाखीरे ॥ तीधी पदर कीधी ए साखीरे, गाता अमरीत  
 रस चाखी ॥ नवी ॥ १७ ॥ इति

### पद ४८ मु. गरवानी देशी

सुण दया नीधी, उत्तम कुल अवतरतो पार न पायो ॥ एटेक  
 प्रथम समकति सामायक कीधी, बीजी सुरतासे मानी लीधी ॥  
 गुरु तेनी बतावो मने वीधी ॥ सुण ॥ १ ॥ बीजी पोसानी वीधी  
 कही, सठ श्रावक मानी रहुजे सही ॥ गुरुतीमो फल ठेके काइ,  
 ॥ सुण ॥ २ ॥ तीजु प्रश्न मन तणु, कइक चारीत्र पाले मुनी गणु ॥  
 ते खुलासो बतावो थरज करुं ॥ सुण ॥ ३ ॥ कइक धन खरची  
 जात्रा करे, के ठे नवसागर सेजे तरे ॥ बतावो गुरुजी मो काजसरे  
 ॥ सुण ॥ ४ ॥ केठे पन्नामा पुजा जे करसे, थसुन करम सरवे हर  
 से ॥ गुरु ते केम मोदने वरसे ॥ सुण ॥ ५ ॥ धुपती जीन पुजा  
 कीधी, झाता सुत्रनी साखी वीधी ॥ उत्तम देवलोक पदवी लीधी  
 ॥ सुण ॥ ६ ॥ पुणीउ श्रावक समागम करता, वीर श्रेणीकनेतो  
 मोकलता ॥ गुरु उत्तमपद एकेम वरता ॥ सुण ॥ ७ ॥ जोइताराम  
 अरजी एवी करे, गुरु खुलासो बतावो काजसरे ॥ मुनी हुकमनी  
 भाण सीरधरे ॥ सुण ॥ ८ ॥ इति

## पद ४९ मुं. स्तवन.

मारग मुकोने कांना कहुवु क्यारनीरे. ए देशी ॥

हुकमराज मल्या मुनी ग्यानमारै, नए समजावे ज्वीजीव  
सानमारै ॥ हुकण ॥ टेक ॥ ड्व्य गुणपरजायने ध्यायठेरे, मुनी-  
राज बहु सुखीया धायठेरे ॥ हुण ॥ १ ॥ असंग करी आवलेनरम-  
लारे, सीध गती वांधे सवलारे ॥ हुकण ॥ ३ ॥ उपदेस मालामां  
कीरीया तेहनीरे, नीजअतर नरेस गुण गेहनीरे ॥ हुण ॥ चारीत्र वीना  
समकीत सुध नहींरे, उतराध्येनमा साखी कहीरे ॥ हुक ॥ वीनय  
करीने गुरुने जे सेवसेरे, अनुभव फल ते लेवसेरे ॥ हुक ॥ वीनय  
वीचार करो वउ जावथीरे ॥ मुनी हुकम वतावेठे नएथीरे ॥ हुक ॥  
पांचवदनामो जाव वदन कीजीएरे, उपयोग मनमां लीजीयेरे ॥  
॥ हुक ॥ ड्व्य जाव दोएनए सुधतारे, धनो ए पदने वउ सेवतारे  
॥ हुक ॥ सरधा जाव तत्वरमण लहारे, चेतन तव तदरुप कहीरे ॥  
॥ हुक ॥ करजोमी जोइतो गुण गायठेरे, ग्यान वीलास पदने ध्या-  
एठेरे ॥ हुकमराज मुनी मल्या ग्यानमारै ॥ इति.

## पद ५० मु गरवो.

चोकामा चतुराइ करीने ए देशी

भाज सपनामां गुरु मने मलीया, मननी सखा में तजीरे ॥  
वांही ग्रही पासे बोलाव्यो, सीधसला जइ नेटयोरे ॥ गुरुने वदो  
जीरे, गुरुने वदो आतम सुख कंदो ॥ गुरु जगत आधारजीरे ॥  
टेक आकणी ॥ आरभ्ये दुर कामो, नीझा मीधुन अजगोजीरे ॥  
अति आणंद मनमा प्रगटो, गुरु चरणे जइ वलगो ॥ गुरु ॥ ३ ॥  
आरत रुड् ध्यान मुकावुं, धरम ध्यान धरावुजीरे ॥ सुधनरपती  
नीरमल करीने, सुकल ध्यान वतावुं ॥ गुरुने व ॥ ४ ॥ अगम थ-  
गोचर अनेपद पामे, सुरता ग्याने जोयारे ॥ मुनी हुकम सरुप

रमता, दग्धन देखी मन मोया ॥ गुरु ॥ उत्तम सपनु जोइतो पा-  
म्यो, गुरु आगळ कीधुर्जारे ॥ ए सुपनानुं फल मुने आपोतो,  
अवीचल दान मने दीधुरे ॥ गुरु ॥

### पद ५१ मु. मनठत्रीशी लखीठे.

मनमतवाळु वस आणो, फारज सब होवे ॥ ते विना सब  
अलुणु जाणो, अनादि जोवे ॥ मन ॥ १ ॥ आंकणी ॥ जे जे  
गनानी नाम धरावे, जाणो नाण पाच ॥ जाणो खट अण्व ते  
वली, थीरतानी खाच ॥ मन ॥ २ ॥ अथवा तपसी नाम धरावे  
ठव अठमादीक करतो ॥ पण समजाव तीहा नहीए, परजाव  
नवी टलतो ॥ मन ॥ ३ ॥ चार अनुजोग ते जाणे, आगमनीरीत  
सजा करीने देसना देवे ॥ थीरन आवु चीत ॥ मन ॥ ४ ॥ करे  
क्रिया विधनी रीते, अवधी सर्वा टाले पण ॥ मनमुं ते ठामन  
आवे, वीखय मनमा माले ॥ मन ॥ ५ ॥ नीसप्रहीस्त जावे व-  
रते, नही तरसना केनी ॥ पण मनडु इच्छामा खेजे, जीहा तीहां  
लीनी ॥ मन ॥ ६ ॥ ए मनमानी गतीठे वाकी, थीरता नवी पावे  
इहाधी खेच्यु एम ते जावे ॥ आहट डुहट ध्यान ध्यावे ॥ मन ॥ ७ ॥  
खीणनमे राक ने खीणनमे राजा, खीणमा होवे सुरो ॥ कीणसु ए  
पाठो नवी टलतो, एम दीसे पुरो ॥ मन ॥ ८ ॥ वीण करणते जे  
दयाध्यावे, स्वारथ नही दीसे ॥ पण चपल पणुठे नारे ॥ तेथी  
धर्म रीसे ॥ मन ॥ ९ ॥ महामुनीस्वर जेकहेवाया, अध्यातम गुणी ॥  
आतम ज्ञाने कालखपावे, त्या चपलाइ सुणी मन ॥ १० ॥ नही  
रागकचन तस उपर, नहीं सजारामी ॥ बहु पेरे समजावे मनने,  
कहेनी अगन लागी ॥ मन ॥ ११ ॥ ध्यावे बहु ते ध्यान, करण  
तुपरजाव सर्वाटाली ॥ ठानु ठरकलुं करीने जावे, फोगट ए खा-  
ली ॥ मन ॥ १२ ॥ खीणमे देवलोकमे जावे, रीधी सब देखे



खीणमे नरकावास वीचारे, एम तीहां पेखे ॥ मन ॥ १३ ॥ द्वी  
 प समुद्र सरखे जोतो, जोतो अलोक तेमा ॥ क्षीणमे सीध  
 थानकते जोवे, करे रमत एमां ॥ मन ॥ १४ ॥ लोक थती माहीते  
 माले, सुख डःख सवी माने ॥ खीण उपजे ते आप सु करसो,  
 अध्यातमे क्रियाणे ॥ मन ॥ १५ ॥ अथवा ग्यानीकालनी वातो,  
 हुइ अण हुइ लेवे ॥ एम अगामी कालनी जाणो, फोगट ते होवे  
 ॥ मन ॥ १६ ॥ परसुखे वली सुखींन थावे, परडुखे डखींन ॥  
 एमा पोतानुं कारज नहीं कांड ॥ फोगट ते लुखीयो ॥  
 ॥ मन ॥ १७ ॥ परसुखे वली डखींन होवे, परडुखे सुखींन ॥  
 राग द्वेष दसाएमा जाणो, मनपरती सुखींन ॥ मन ॥ १८ ॥ जतन  
 करीने मनने राखे, जावतव आडु वीण कारण जातां फटकतु ॥  
 ते लागेठे हाडु ॥ मन ॥ १९ ॥ पुरुष माहा प्राक्रमी होवे, सुरण  
 पण जीते ॥ लाख फोजमा पाठो न हठे, पण मन नवी ठीते ॥  
 ॥ मन ॥ २० ॥ काल अनादीनुं ए बुटु, आहट डहट ध्यावे ॥  
 परजावे रगाणुठते, तेथी वसना आवे ॥ मन ॥ २१ ॥ मन वस  
 वीना ते कारज जुठु, तप जप सवी जाणो ॥ ग्यान ध्यान पण  
 न होवे, फोगट का ताणो ॥ मन ॥ २२ ॥ ते कारण मन वस कर  
 वाने उपाय कोइ करवो, वीजाव दसा डर करेतो ॥ होवे सुखे  
 धरवो ॥ मन २३ ॥ जीहा चिकट तीहां रज चोटे, संदेह एमा  
 नहि ॥ रागद्वेष दसा रहे जीहा, तीहा थीरता कोइ ॥ मन ॥ २४ ॥  
 जीहां पवन जकोर थइए, जल तुरंग चाले ॥ तीहां अगनान दसा  
 लीये मन परमे माले ॥ मन ॥ २५ ॥ जो पवन न सचरेतो, रहे  
 दीपक उरध ॥ तेम परजाव त्याग थकीए, मन थीरता पुरध ॥ मन  
 ॥ २६ ॥ ते कारण मन वस आणो, ते पण सवी खोडु ॥ कीधी  
 करणी फोगट जासे, ड.ख करशे मोडु ॥ २७ ॥ त्यागी न रागी नग्र  
 मुझाए जल तुरंग- तीहु अगनान दसा लीए मनपरमे-

उना काउसगे जेह मन फरवाथी सातमी नरक, तेम समजोएह॥  
 ॥मन१७॥तेमज मन पाछु फरवाथी पाम्या केवल नाए ॥ परसन  
 चंड राज रखीए, समजीलो सुजाण ॥ मन ॥ १९ ॥ मन साधु  
 तेणो सरवे साधु साचीछे वात, पण डर बुधी हाथ न आवे ॥ खो  
 टीठे जात ॥ मन ॥ २० ॥ बहु जतनाए ज्ञानी तेने थीर करवा चाहे  
 आरु अक्लु फरतु हीमे ॥ ए ड.ख चीत थाए ॥ मन २१ ॥ जे  
 जे पमीत जे जे ज्ञानी, मन वस कीधुं हशे ॥ पण मुजने परतीत  
 न आवे, मुजदीसे परवसे ॥ मन० ॥ २२ ॥ कोइक खीण कोइक  
 मुरत, थीरता ते पावे ॥ पण असातर रेहेवे नहीं, तेनुं ड.ख आवे  
 ॥मन२३॥जो स्वतंतर मनडु मारु, थीरता पद पावे ॥ तो हुं ए सरवे  
 मानु, नहींतो नवी समावे ॥ मन० ॥ २४ ॥ सवत जगणीस त्रीस  
 चतुरथी जेष्ट मासे, मनतणी ए रचना नाखी, नृगुकस्तपके ॥मन०॥  
 ॥ २५ ॥ ज्ञानध्याननी रचना लही, मनडु वस कीजे ॥ मुनी हुकुम  
 सेज स्वनावे नीज रीधी लीजे ॥मन० ॥ २६ ॥

### पद ५९ सु गरवो.

वनमा वागेरे रुमी वासजी, माहारु मन कांइ तेहमां जायजो  
 घरनो धयो कांइ सुजे नहीं, मन आकुल व्याकुल थायजो ॥वनमा॥  
 ॥ ए देशी ॥ सखी साजजरे वात कहु एक साजजी, आएवा  
 हुकुममुनि अणगारजो ॥ देतारे मधुरी देशना, जेने ज्ञान तणो  
 नहीं पारजो ॥ सखी साजलरे वात कहुं साजली ॥ ए आकणी ॥  
 महारे जाचु ठे कांइ वादवा, आवे साथे माहारो कोइ नाथजो ॥  
 परमादरे ठारु काइ प्रेमसु, करे रमणता अम साथजो ॥सखी०॥  
 ॥ १ ॥ काल अनादी कोइ एले गयो, जमीआ चारेगती मोहोजा-  
 रजो ॥ समसुख समरे ड ख बहु वेधीआ, आएवो नहीं नव नेहेनो  
 काइ पारजो ॥सांजल० ॥२॥ नरसुररे सुख एणे अनुनवा, पाम्यो

भ्रंती वारजो ॥ सुरपतीरे नरपती ए थयो ॥ मही नही तरपती  
 वगारजो ॥ सांनज ॥ ३ ॥ ठंमिरे संगत कांइ पारकी ॥ नीज  
 धरमां करे कांइ वासजो ॥ जावेरे जावे मुनी जावना ॥ आणी  
 कांइ मन उजासजो ॥ सखी ॥ ४ ॥ केशुर केहेतोरे गुरुजी मा  
 हरो, ठेठत्रीस गुण नीधानजो ॥ जावेरे सांनळ जावना, तजी  
 जोन माया ने मानजो ॥ सांनळ ५ ॥ इति.

### पद ५३ मुं. स्तवन राग सोरठ.

॥ दरसन लागेठे मारु मन उ पीतम दरसन लागे ठे  
 मारु मन ॥ ए आंकणी

सुंदर देहरु चीतामण केरु, फरता कांइ चौवीश जीणद ॥  
 उ प्रीतम ॥ १ ॥ वामादेवी नंद नमी जगवंदन, इंदरादीक कांइ  
 मोए नमंत ॥ उ प्रीतम ॥ २ ॥ चीता टालण डख नीवारण,  
 वंदु हुं पासजीणंद ॥ उ प्रीतम ॥ ३ ॥ मुगट बहु जारी आंगी व-  
 नी बहु सारी, परभु मुख पुनेम चंद ॥ उ प्रीतम ॥ ४ ॥ नाटारंन  
 थावे गुणीजन गावे, बाजत ताल मरदंग ॥ उ प्रीतम ॥ ५ ॥ अंग प-  
 खालु माहारु रुदय अजवालु, सुज ध्यान कांइ अंग जावंत ॥ उ ॥  
 प्रीतम ॥ ६ ॥ धुप ध्यान धरु हुं फुलमा वेरु, केसर कांइ तीलक  
 करंत उ प्रीतम ॥ ७ ॥ आरती वतारु जव नेहे नीवारु, जावे कांइ  
 सीफत थवंत ॥ उ प्रीतम ॥ ८ ॥ केसुर केहेठे परभु दरशाणवेतो,  
 सेहज हुसाहरे तरंत ॥ उ प्रीतम ॥ ९ ॥ इति.

### पद ५४ मुं. विनती.

जवीरु जीव रंगरसे वदो, पाप नीकाचीत नीकंदो ॥

जवीकजीव ॥ ए आंकणी.

मुनी इकमठे पद भारी, ठत्रीश गुणे आचारी ॥ हेतो संघ

(९४)

तणी जाउ बलीहारी ॥ जवीक ॥ १ ॥ गुरु मलीच्या मने मान्या,  
कुमती राणीजी डनाणां ॥ सुमताजी घणुं हरखाणा ॥ जवी ॥ २ ॥  
गुरु वचन चीतमां लावे, जीव अजीव तुने जजखावे ॥ नीज आ-  
तम नीज घेर थावे ॥ जवीक ॥ ३ ॥ आतम ध्यान तणा रसिया,  
नवग्रहो पगे पम्नीया ॥ सरवारथ सीधी वरीया ॥ जावी ॥ ४ ॥  
अध्यात्म गुणे जरिया, क्रोध माया डरे वरीया, समता सरुपना ठे  
दरीया ॥ जवी ॥ ५ ॥ ज्ञान दीपक तपना सुरा, सागर उंमम गंजीरा  
॥ कर्म कर्या हेने चकचुरा ॥ जवी ॥ ६ ॥ धन तात आत माए जाया,  
धनगुरुजी दसा पाया ॥ मोह लशकर जेने मीटाया ॥ जवी ॥ ७ ॥  
पच महावृत धारी, देव आवेठे बहु जारी ॥ वदेठे सहु नरनारी ॥  
जवीक ॥ ८ ॥ मीत्रीसुरी सुरपत नमीया ॥ जाव आणी मन उल-  
धीया, दास केसरीने मन ॥ वसीया जवीक ॥ ९ ॥ इति.

पद ५५ सुं.

स्तवन, राग पद्मवीज

चेतन केम खेले मधु वनमे, मेरा दु.ख नही तोरे तनमे ॥  
॥ चेतन ॥ लागीं लालच मधु वीड हेरी, गणो नही नव जय मनमे।  
आवा गमण डःखवेध बोले, जव अटवीके वनमे ॥ चेतन ॥ १ ॥  
परजावे तुं पीजर पेसे ॥ रमा मोहनी केरे सगमे, करतां करणी  
धाधे करम वध ॥ पड्योठे मोहराजाके फंदमे ॥ चेतन ॥ २ ॥  
ए फदधी तेने कोण ठोमावे, सुगुरु वीना कोण हे जगमे ॥ गुरु सेवे  
कांइ हुकममुनीने, धरे आतम ध्यान जे मनमे ॥ चेतन ॥ ३ ॥  
पून परजाव पुरवने जोगे, आव्यो ठे उत्तम कुलमे ॥ जव एजे ते  
केम गुमावे, उपयोगे खोजकर तेमने ॥ चेतन ॥ ४ ॥ लागीं रम-  
णता अनादी कालनी, अवसर ठोरु दीज एक पलकमे ॥ वीजाव  
सधजो काहोरु मनधी, सजावे रगे रमे कांइ घरमे ॥ चेतन ॥ ५ ॥

(९५)

करणीधी कछुकरम बंध ठे, पमेठे शुज असुज ए जगमे ॥ साता  
असाता अणती वेदना, वधेठे रुप धरीने तनमे ॥ चेतन ॥ ६ ॥  
कहेछे केसुर चेतन माहारा, धरीराखे मुनी गुण मनमे ॥ ७ ॥  
वे मुनी गुण समीर जावे, खायकवस कोइ तनमे ॥ चेतन ॥ ७ ॥

पद ५६ मुं.

भुजो केम नमतो मधु वनमे, तेरा दुःख नही तेरेकु तनमे  
॥ चेतन ॥ ए आंकणी.

नमीज भुजो अनादी कालनो, जव अटवीके मनमे ॥  
लागी नरमणता नमवा केरी, भुंमी मोहनी केरे ठंदमे ॥ चेतन ॥  
॥ १ ॥ असुध परणतीए वरते परघरे, माया मान नरो ए मनमे ॥  
बांधे कर्म बंध मन वचनधी, पमो रहे मोहराजाके फंदमे ॥ जुलो ॥  
॥ २ ॥ ए भुज ए अनादी कालनी, तरे वीना जागे कोण जगमे ॥  
तुइ गुरु नर तुइज चेलो, उनका खोज करे तनमे ॥ चेतन ॥ ३ ॥  
सुध उपजगे परजाव कहा, राखे सम परीणामे, मनमे वेरीकामे  
खामी मनने, ज्ञान रंगे रमे घरमे ॥ चेतन ॥ ४ ॥ केवल दरशन ग्दान  
अणतुं, ठे ए नीजघर केरे तनमे ॥ गया वीसरी ते वीजावे, संजावे  
वीचारी जुवे मनमे ॥ चेतन ॥ ५ ॥ वस्तु पर नही होवे तेरी, पुठे  
त्रीलोक जगमे ॥ राखे रमणता फोगट सानी, ग्दाने सत्रु हणो  
रणमे ॥ भुजो ॥ ६ ॥ सेवे सुगुरु हुकुममुनीने, धरे आतम धान  
मनमे ॥ मनने गोपी लावे सरदा, केसुर कहे खायक वस तनमे  
॥ चेतन ॥ ७ ॥ इति.

पद ५७ मु.

स्तवन, राग सोरठ.

सकता सरुपमां खेले मारा चेतन; हवे पर रमणाता काहा-

मेरे ॥ शुभ उपीजगे नीज घरमां रहीं, ज्ञानजंगमो करमेसेहं मां  
 मेरे ॥ सकता ॥ लागी रमणता पुदगलनी, परमादे मोहोएलीधो  
 कांइ घेहरीरे ॥ घेहरी करीने तने घालो पींजर, चौकी करमे वरगणां  
 मेहेलीरे ॥ सकता ॥ १ ॥ जोलो तुं कांइ जुलो जेमतो, रमेठे मो  
 हनी सधरे ॥ ते मोहनी रूपने ठांमी करीने; ज्ञाने रमे महारी  
 साथे रंगरे ॥ सकता ॥ २ ॥ पररमणतामां तुं जुलो पमीज; काज  
 अनादीं गुंमोव्योरे ॥ नाहाना वीधना रूप धरीने; करी नाटक बहु  
 नाच्योरे ॥ सकता ॥ ३ ॥ भुल ए ताहारी तु कांइ जागे; अक्सर  
 पामी खासोरे ॥ परजाव सधलो परीहरीने, नीज घरमां करो कांइ  
 वासोरे ॥ सकता ॥ ४ ॥ असुध परणातीने काहामी करीने; सुध प-  
 रणातीमां वरतोरे ॥ ज्ञान ध्यानमा करो रमणता, परजावथी छर  
 कांइ ठटकोरे ॥ सकता ॥ ५ ॥ तमे अलेसी थापे नीरंजन, परवी-  
 कार केम राखोरे, पर वीकारे सुगती दोहली, तेथी छर कांइ जागोरे ॥  
 सकता ॥ ६ ॥ तमे जोगेश्वर थापे जोगी, नीज जोग कांइ साधारे ॥  
 मन वचन कायाधीर करीने परजाव मुलथी काहामोरे ॥ सकता ॥  
 ॥ ७ ॥ दासी हुं तुं नीजघर केरी, मारु कहुं कांइ मानोरे ॥ सुध  
 उपीजगे परजावने कहामी, नाण दरशन कांइ आणोरे ॥ सकता ॥  
 ॥ ८ ॥ केसुर कहेठे सुर गुरु हमारा, देसना हेवी कांइ देतारे ॥  
 नामे जीनुं हुकममुनी ठे, ग्यान ध्यानमा रहेतारे ॥ सकता ॥ ९ ॥

### पद ५७ मुं.

स्तवन, राग जैरवी.

हमारै मन मेजा नही, तमारा मन नहीं हे ॥ ए आचली ॥  
 तुमेरी सध मेहेले मतीनी ॥ देसहै ॥ मन तुमेरा मोहोनी  
 सेहे लग रह्या, हमारै मन मेजा ॥ १ ॥ मोहनीने कांइ सब  
 जग घेहेरो, तुमे रुमी चार गतिमां भमिआ ॥ हमारै ३ ॥ परसग

[९४]

तमे रावण डःखे, जीनोहमे शतगदसे कपीया ॥ हमारे ३ ॥ पर  
संगत कांइ ठोरु माहरा चेतन, ग्नाने नीज घरमा रमीया ॥ हमारे ॥  
॥ ४ ॥ तम हो ज्ञानी आप नीरंजन, मेरेकु परजाव नवी सो-  
इया ॥ हमारे ५ ॥ सुध उपीजगे संमजावे वरते, आवी सीव  
रमणी वरीया ॥ हमारे ॥ ६ ॥ तमारा मन नहीं हरे, पुत्र केसुर  
कहेठे चेतने हमारा ॥ सदाकाले ग्नान ध्यानमा रमीया ॥  
हमारे मन मेला नहीं ॥ ७ ॥ इति

पद ५९ मु.

स्तवन, राग सोरठी.

जीनसासने एक दीपक प्रगटयो, हुकममुनी बहु ज्ञानी ॥  
उ चेतन ॥ तेहने मेरी कदर न जाणी ॥ परघेर जमे अज्ञानी,  
उ चेतन ॥ ए आंचली ॥ खट दरशन शास्त्रना ए वेदी ॥ खट ड्यना  
ए ठे जेदी ॥ उ चेतन ॥ १ ॥ नाश्वयनयना ए ठे जोगी ॥ वसे  
सदागम ब्रह्मचारी जोगी ॥ ओ चेतन ॥ २ ॥ शकल गुण पंढीताए  
पुराण ॥ मोहनी मारी करो चकचुरण ॥ ओ चेतन ॥ ३ ॥ अध्या  
त्तमरागी अनुभवना सोभागी ॥ मान मायाना ठे त्यागी ॥ ओ  
चेतन ॥ ४ ॥ चेतन तु सुरो नथी काइ नये अधुरो ॥ मोहनी  
संघ अणत पुदगल पुरो ॥ ओ चेतन ॥ ५ ॥ पर परयंतीए अणंत  
संसारी ॥ सम उपसम सहे डःख जारी ॥ ओ चेतन ॥ ६ ॥ चेतन  
तु अवीनासी ठे सीव पुरवासी ॥ मोहनीए मती गइ ठे काइ नासी ॥  
ओ चेतन ॥ ७ ॥ विवेक धरी काइ देवगुरु जावे ॥ सरधादाए समकीत  
काइ पावेरे ॥ ओ चेतन ॥ ८ ॥ केसुर काइ माहामुनी गुण गावे ॥  
वादीना ह्य खपावे ॥ ओ चेतन ॥ ९ ॥

रीको ज्ञान ॥ ए तो ज्ञाने थया मत्तवाल ॥ हेनो श्रावक लामला  
 व हेना ग्रथनी शोचा बहु रखेनी ॥ सखी ॥ ६ ॥ गुरुने रंवे देव परी  
 वार ॥ हेना ज्ञान तणो नही पार ॥ बोले मीत्री शुरी नार ॥ गुस्सग  
 तणा ह्योधार ॥ केशुरने गुरुसें बहुरे बनी ॥ सखी ॥ ७ ॥

पद ६३ मु

गरवा.

सांजलरे तुं सजनी माहरी ॥ सुगुरु वदन रुं लागेजी ॥ हु-  
 कम मुनीने पाय पमता ॥ जव जयनो छ.ख जागे ॥ सांजल सज  
 नी ॥ ए आंचणी ॥ गुरु वदनने हु गइजी ॥ देशना मधुरो मन्ने ला-  
 गेजी ॥ तीज आतम गुण आचार सुणीने ॥ ज्ञान दशाए मन  
 लागे ॥ सांजल ॥ १ ॥ वादी करी काठसगे रहीजी ॥ मुनी शमता  
 सरुप गुण धारीजी ॥ प्रीतम महारो परधेर जमतो ॥ परसग तन  
 नीवारी ॥ सांजला ॥ २ ॥ वेसता मनहु उरेजी ॥ गुरु गुण बहु उपगारी-  
 जी ॥ कुमताजी रीसावी बेसे ॥ हरखे सुमता नारी ॥ सांण ॥ ३ ॥  
 ग्रथ सुणी ज्ञान रमेजी ॥ पर रमणता काहामेजी ॥ क्रोध मात्र मा  
 या ठामी ॥ जगमो करम सध माने ॥ सा ॥ ४ ॥ ज्ञान दीपक जी  
 नसासन दीवो ॥ तारण जग सनसारीजी ॥ अज्यातम गुणवा  
 छी पोखे ॥ लोत्र माया मन मारी ॥ सा ॥ ५ ॥ ज्ञानसार मुनी  
 ग्रथ सुणीने ॥ मनमु थाए वेरागीजी ॥ नीज आतम तीज धेर  
 पधारो ॥ समकीत लेए सोजागी ॥ सा ॥ ६ ॥ अरुपी केम रूपी  
 थयोजी ॥ पर सगत नवी त्यागेजी ॥ खट छव्यनी वहेचण क  
 रता ॥ ज्ञान थाए वमनागी ॥ सा ॥ ७ ॥ चेदानद अवीनाशी क-  
 हावे ॥ घर रुपे अणत घणा नारेजी ॥ सध न ठामे मोहेनी केरो  
 ॥ काहा सेवेरे सीव नारी ॥ सा ॥ ८ ॥ मीत्रीशुरी कइ वंदन  
 करतो ॥ देवाने साचो मारग जे आचारीजी ॥ केशुर तेहेने नीत  
 नीत वदे ॥ चरण कमल परीवारी ॥ सांजल ॥ ९ ॥



॥ अथ ॥

॥ श्रावकस्य पंचप्रतिक्रमणादि सूत्रम् ॥

१ ॥ प्रथम नवकार पंचमंगलरूप ॥

॥ नमो अरिहंताण ॥१॥ नमो सिद्धाणं ॥२॥ नमो आय-  
रियाणं ॥३॥ नमो उवप्रायाण ॥४॥ नमो लोए सबसाहूणं ॥५॥  
एसो पच नमुक्कारो ॥६॥ सबपावप्पणासणो ॥७॥ मगजाणं च  
सवेसिं ॥८॥ पढमं हवइ मंगल ॥९॥ इति ॥१॥

२ ॥ अथ पंचिदिअ ॥

॥ पंचिदिअ सवरणो ॥ तह नवविह वंजचेर गुत्ति धरो ॥  
चउविह कसाय मुक्को ॥ इथ अठारस गुणेहि संजुत्तो ॥१॥ पंच-  
महवप जुत्तो ॥ पंच विहायार पालण समठो ॥ पंच समिउ  
तिगुत्तो ॥ उचीस गुणो गुरु मज्झ ॥२॥ इति ॥२॥

३ ॥ अथ खमासमण ॥

॥ इत्तामि खमासमणो वंदिउ ॥ जावणिज्जाए निसीहि-  
आए ॥ मउएण वंदामि ॥ इति ॥३॥

४ ॥ अथ सुगुरुने शाता सुखपट्टा ॥

॥ इत्तकारि सुहराइ सुहदेवसी ॥ सुख तप शरीर निरावा-  
ध ॥ सुख सजम जात्रा निर्वहो ठोली ॥ स्वामी शाता ठेजी ॥  
जात पाणीनो लान्न ठेजो जी ॥ इति ॥४॥

५ ॥ अथ इरिया वहियं ॥

॥ इत्ताकारेण सदिसह जगवन् ॥ इरियावहियं पडिक्कमामि ॥  
इत्तं इत्तामि पडिक्कमिउं ॥१॥ इरियावहियाए विराहणाए ॥ २ ॥  
गमणागमणे ॥३॥ पाणकमणे वीयकमणे हरियकमणे ॥ उंसा उ-  
त्तिंग पणग दग मट्टी मक्कमा संताणा संकमणे ॥४॥ जे मे जीवा

विराहिया ॥५॥ एगिंदिया वेइदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचिदि-  
या ॥ ६ ॥ अजिहया वक्तिया लेसिया सघाइया सघट्टिया परिया-  
विया ॥ किलामिया उदविया गणानुठाणं संकामिया जीवियाउ  
ववरोविया ॥ तस्स मिहामि उक्कड ॥४॥ इति ॥५॥

६ ॥ अथ तस्स उत्तरी ॥

॥ तस्स उत्तरी करणेण ॥ पायच्चित्तकरणेणं ॥ विसोहीकरणे  
ण ॥ विसल्लीकरणेण ॥ पावाण कम्माण ॥ निग्घायणघाए ॥ ग  
मि काउस्सग्ग ॥ ७ ॥ इति ॥ ६ ॥

७ ॥ अथ अन्नञ उससिएणं ॥

॥ अन्नञ उससिएणं नीससिएण खासिएण ठीएण जना  
इएणं उहुएण वायनिसग्गेण नमलिए पित्तमुह्वाए ॥ १ ॥ सुहु-  
मेहि अगस चालेहि ॥ सुहुमेहि खेलसचालेहि ॥ सुहुमेहि दिञ्जि  
चालेहि ॥ २ ॥ एवमाइएहि आगारेहिं ॥ अजग्गो अविराहिउं ॥  
हुक्क मे काउस्सग्गो ॥३॥ जाव अरिहताणं जगवताणं नमुक्कारे-  
णं न पारेमि ॥ ४ ॥ तावकायं वाणेण मोणेण जाणेण अप्पाण  
वोसिरामि ॥५॥ इति ॥७॥

८ ॥ अथ लोगस्स ॥

॥ लोगस्स उक्कोअग्गेरे ॥ धम्म तिच्चयरे जिणे ॥ अरिहते  
किञ्जस्स ॥ चउवीसपि केवली ॥२॥ वसन मज्जिअ च वदे ॥ सं-  
जव मज्जिण दण च सुमइं च ॥ पउमप्पह सुपास ॥ जिणं चचद-  
प्पह वदे ॥१॥ सुविहिं च पुप्फदत ॥ सीअल सिङ्गंस वासुपुज्जं  
च ॥ विमल मणत चजिण ॥ धम्म सति च वदामि ॥३॥ कुथु  
अरं च महि ॥ वदे मुणिसुव्वय नामि जिण च ॥ वदामि रिठ्ठेमि ॥  
पास तह वइमाण च ॥४॥ एव मए अजिथुअ्रा ॥ विहुय रय म-  
जा पहीण जरमरणा ॥ चउवीसपि जिणवरा ॥ तिच्चयरा मे प-

सीयंतु ॥५॥ कितिय वंदिय महिया॥जे ए लोगस्त उत्तमासिद्ध  
 आरुगवोहिलाभं ॥ समाहिवर मुत्तम दिंतु ॥६॥ चदेसु निम्मज  
 यरा ॥ आइचेसु अहिय पयासयरा ॥ सागर वर गंजीरा ॥ सिद्धा  
 सिद्धि मम दिसंतु ॥७॥ सबलोएण ॥ इति ॥८॥

ए ॥ अथ सामायिकनुं पञ्चखाण ॥

॥ करेमि जते सामाइय सावळं जोगं पञ्चखामि ॥ जाव  
 नियमं पञ्जुवासामि ॥ उविहं तिविहेणं मणेण वायाए काएणं ॥  
 न करेमि, न कारवेमि, तस्त जते पडिक्कमामि निदामि गरिहा  
 मि, अप्पाण वोसिरामि ॥ इति ॥ ए ॥

१० ॥ अथ सामायिक पारवानुं ॥

॥ सामाइयवयजुत्तो ॥ जाव मणे होइ नियम संजुत्तो ॥  
 विन्नइ असुहं कम्मं ॥ सामाइय जत्तिआ वारा ॥ १ ॥ सामा-  
 इयमि उ कए ॥ समणो इव सावत्तं हवइ जम्हा ॥ एएण का-  
 रणेण बहुसो सामाइय कुळा ॥ २ ॥ सामायिक विधि लीधुं  
 विधिं पारिउं ॥ विधि करता जे कोइ अविधि हुत्तं होय ते सविहुं  
 मन वचन कायाये करी ॥ मिडामि डक्कडं ॥ इति ॥ १० ॥

११ ॥ अथ जगचिंतामणि चैत्यवंदन ॥

॥ इत्थाकारेण सदिसह जगवन् ॥ चैत्यवंदन करुं ॥ इत्थं ॥  
 जगचिंतामणि जगनाह ॥ जग गुरु जगरस्कण ॥ जगवंधव जग-  
 सत्तवाह ॥ जग नाव विअस्कण ॥ अठावय सवविअ ॥ रुव  
 कम्मठ विणासण ॥ चउवीसपि जिणवर ॥ जयंतु अप्पडिहय-  
 सासण ॥ १ ॥ कम्मभूमिहि ॥ कम्मचूमिहि ॥ पढम संवयणि ॥  
 उक्कोसय सत्तरिसय ॥ जिणवराण विहरत लप्पइ ॥ नव कोडिहिं  
 केवलिण॥कोडि सहस्स नव साहु गम्मइ॥सपइ जिणवर वीसमुणि॥  
 विहुकोमिहिं वरणाण॥समणह कोमिसहसइअ ॥ थुणि जिअनि-

विराहिया ॥५॥ एगदिया वेइदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया ॥ ६ ॥ अजिहया वत्तिया लेसिया सघाइया सघट्टिया परिया विया ॥ किलामिया उदविया ठाणानुठाण संकामिया जीवियानु ववरोविया ॥ तस्स मिच्चामि डक्कड ॥४॥ इति ॥५॥

### ६ ॥ अथ तस्स उत्तरी ॥

॥ तस्स उत्तरी करणेण ॥ पायच्चित्तकरणेण ॥ विसोहीकरणेण ॥ विसल्लीकरणेण ॥ पावाण कम्माणं ॥ निग्वायणछाए ॥ वामि काउस्सग्ग ॥ ७ ॥ इति ॥ ६ ॥

### ७ ॥ अथ अन्नञ्ज उससिएण ॥

॥ अन्नञ्ज उससिएण नीससिएणां खासिएण ठीएण जजाइएणं उहुएण वायनिसग्गेण जमलिए पित्तमुच्चाए ॥ १ ॥ सुहुमेहि अगस चालेहि ॥ सुहुमेहि खेलसचालेहि ॥ सुहुमेहिं दिठ्ठिसंचालेहिं ॥ २ ॥ एवमाइएहि आगारेहिं ॥ अजग्गो अविराहिउ ॥ हुक्क मे काउस्सग्गो ॥ ३ ॥ जाव अरिहताण जगवताणं नमुक्कारेण न पारेमि ॥ ४ ॥ तावकायं ठाणेण मोणेण जाणेण अप्पाण वोसिरामि ॥ ५ ॥ इति ॥ ७ ॥

### ८ ॥ अथ लोगस्स ॥

॥ लोगस्स उक्कोअगरे ॥ धम्म तिच्चयरे जिणे ॥ अरिहते कित्तइस्स ॥ चउवीसपि केवली ॥ १ ॥ उसज मज्जिअ च वदे ॥ संजव मज्जिण दण च सुमइं च ॥ पउमप्पह सुपास ॥ जिण चचदप्पह वदे ॥ २ ॥ सुविहिं च पुप्फदत ॥ सीअल सिक्कल वासुपुक्क च ॥ विमल मणत चजिण ॥ धम्म सति च वंदामि ॥ ३ ॥ कुथुअरं च मज्जि ॥ वदे मुणिसुव्वय नामि जिण च ॥ वदामि रिठ्ठनेमिं ॥ पास तह वइमाण च ॥ ४ ॥ एव मए अज्जिथुअया ॥ विहुय रय मला पहीण जरमरणा ॥ चउवीसपि जिणवरा ॥ तिच्चयरा मे प-

२४ ॥ अथ जावंति चेद्द्व्यां ॥

॥ जावति चेद्द्व्यां ॥ उद्द्व्यथ अहेथतिरिथ लोएथ ॥  
सद्वां ताइ वदे ॥ इहसंतो तच्च संतां ॥१॥ इति ॥१४॥

२५ ॥ अथ जावंत केविसाहू ॥

॥ जावंत केवि साहू ॥ नरहेरवय महाविदेहे थ ॥ सवेसि  
तेसिं पणु ॥ तिविहेण तिदंम विरयाणं ॥१॥ इति ॥

२६ ॥ अथ परमेष्ठिनमस्कार ॥

॥ नमोऽर्हस्तिश्चाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः इति ॥१६॥

२७ ॥ अथ उपसर्गहरस्तवन ॥

॥ उपसर्गहर पासं ॥ पासं वंदामि कम्मघणमुक्क ॥ विस-  
हरविसनिन्नासं ॥ मगदकल्लाणाआवास ॥ १ ॥ विसहरफुलिगमं-  
तं ॥ कठे धारेइ जो सया मणु ॥ तस्स गहरोगमारी ॥ डुठजरा  
जति उपसामं ॥ २ ॥ चिठउदूरेमंतो ॥ तुझ पणामो वि बहुफलो  
होइ ॥ नरतिरिएसुवि जीवा ॥ पावतिन डुक्क दोगचं ॥ ३ ॥ तुह-  
सम्मत्ते लहे ॥ चिंतामणि कप्पपायवप्पहिए ॥ पावति अविग्घेण ॥  
जीवा अयरामर ठाण ॥ ४ ॥ इथ संयुत्तमहायस ॥ नत्तिप्परनिप्प  
रेणाहित्थएण ॥ ता देव दिक्क वोहि ॥ नवेभवे पासजिणचंद ॥  
॥ ५ ॥ इति ॥ १७ ॥

२८ ॥ अथ जयवीयराय ॥

॥ जय वीथराय जगगुरु ॥ होउ मम तुह पभावनं जयवं ॥  
नवनिवेत्तं मग्गा ॥ एु सारिआ इठ फलसिद्धी ॥ १ ॥ लोगविरु-  
द्ध्वात्तं ॥ गुरुजणपूथा परत्तकरण च ॥ सुहगुरुजोगोतवय ॥ ए  
सेवणा आनव मखमा ॥ २ ॥ वारिक्कइ जइवि निआ ॥ ए वंध-  
णं वीयराथ तुहसमए ॥ तहवि मम हुक्क सेवा ॥ नवे नवे तुम्ह  
चलणाण ॥ ३ ॥ डुक्कत्तं कम्मत्तं ॥ समाहि मरणां च वोहि

च विहाणि ॥ १ ॥ जयउसामी जयउ सामी ॥ रिसह  
 सचुंजि ॥ उज्जित पहु नेमिजिण ॥ जयउ वीर सच्चरि मम  
 ण ॥ नरुअर्वाहिं मुणिसुवय ॥ मुहरिपास उह उरिअखंडण ॥  
 अवर विदेहि तिअयरा ॥ चिहुं दिसि विदिसि जि केवि ॥ तीअ  
 णगय सपइअ ॥ वंडं जिण सवेवि ॥३॥ सत्ताणवइ सहस्सा ॥ ल-  
 खा उप्पन्न अठकोमीउ ॥ वत्तीसयवासिअइं ॥ तिअलोएचेइए  
 वेदे ॥४॥ पनरस कोमि सयाइ ॥ कोडी वायाल लक्क अरुवन्ना ॥  
 वत्तीस सहस असिइ ॥ सासयविवाइं पणमामि ॥५॥ इति ॥११॥

१२ ॥ अथ जकिचि ॥

॥ ज किचि नाम तिअं ॥ सग्गे पायाजि माणुसे लोए ॥  
 जाइ जिण विवाइ ॥ ताइं सवाइं वदामि ॥१॥ इति ॥१२॥

१३ ॥ अथ नमुत्तुणं वा शक्रस्तव ॥

॥ नमुत्तुण अरिहताण, जगवताण ॥१॥ आइगराण, ति  
 अयराणं, सय सवुक्षाणं ॥२॥ पुरिसुतमाण, पुरिससीहाण, पु  
 रिसवरपुडरीअण, पुरिसवरगंधहत्तीण ॥३॥ लोगतुत्तमाण, लो-  
 गनाहाणं, लोगहिअण लोगपईवाणां, लोगपज्जोअगराण ॥४॥  
 अजयदयाण, चरुवुदयाण ॥ मग्गदयाण, सरणादयाणं, बोहिद  
 याण ॥५॥ धम्मदयाणा, धम्मदेसियाण ॥ धम्मनायगाणं, धम्म-  
 सारहीणं, धम्म वरचाउरतचक्कवट्टीण ॥६॥ अप्पडिहय वर नाण  
 दसण धराण, विअट्ट उउमाणं ॥७॥ जिणाण जावयाण, ति-  
 न्नाण तारयाणं, बुद्धाण बोहयाणां, मुत्ताण मोअगाण ॥८॥  
 सब्ब्रूणां सब्बदरिसिण, सिव मयल मरुअ मणत मरुक्कय मवा-  
 वाह मपुणाराविति ॥ सिद्धि गइ नाम धेय ॥ वाण संपत्ताण,  
 नमो जिणाण, जिअ जयाण ॥९॥ जेअ अईअ सिद्धा ॥ जेअ  
 नविस्संति णागए काजे ॥ सपइअ वट्टमाणा ॥ सवेतिविहेण व-  
 दामि ॥१०॥ इति ॥१३॥

१४ ॥ अथ जावंति चेद्ग्राहं ॥

॥ जावंति चेद्ग्राहं ॥ उद्दृश्य अहेत्यतिरिच्य लोएच्य ॥  
सवाइं ताइं वंदे ॥ इहसंतो तच्च संताइं ॥१॥ इति ॥१४॥

१५ ॥ अथ जावंत केविसाहू ॥

॥ जावंत केवि साहू ॥ नरहेरवय महाविदेहे अ ॥ सधेसिं  
तेसिं पणुं ॥ तिविहेण तिमं विरयाणं ॥१॥ इति ॥

१६ ॥ अथ परमेष्ठिनमस्कार ॥

॥ नमोऽर्हत्सिःश्याचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः इति ॥१६॥

१७ ॥ अथ उपसर्गहरस्तवन ॥

॥ उवसग्गहरं पासं ॥ पासं वंदामि कम्मघणमुक्कं ॥ विस-  
हरविसनिन्नास ॥ मगज्जकल्लाणआवासं ॥ १ ॥ विसहरफुलिगमं-  
तं ॥ कठे धारेइजो सया मणुं ॥ तस्स गहरोगमारी ॥ उठजरा  
जति उवसामं ॥ २ ॥ चिठउदूरेमंतो ॥ तुस्स पणामो वि बहुफलो  
होइ ॥ नरतिरिएसुवि जीवा ॥ पावतिन इस्स दोगच्च ॥३॥ तुह-  
सम्मत्ते लद्धे ॥ चिंतामणि कप्पपायवप्पहिए ॥ पावति अविग्घेण ॥  
जीवा अयरामर ठाण ॥ ४ ॥ इअ संथुंउमहायस ॥ नत्तिपूरनिप्प  
रेणहिअएण ॥ ता देव दिक्क बोहि ॥ नवेभवे पासजिणचंद ॥  
॥ ५ ॥ इति ॥ १७ ॥

१८ ॥ अथ जयवीयराय ॥

॥ जय वीअराय जगगुरु ॥ होउ मम तुह पभावउं जयव ॥  
नवनिवेउं मग्गा ॥ ए सारिआ इउ फलसिद्धी ॥ १ ॥ लोगविरु-  
द्धाउं ॥ गुरुजणपूथा परच्चकरणं च ॥ सुहगुरुजोगोतवय ॥ ए  
सेवणा आज्ञव मखमा ॥२॥ वारिक्कइ जइवि निअ्या ॥ ए वध-  
णं वीयराअ तुहसमए ॥ तहवि मम हुक्क सेवा ॥ नवे नवे तुम्ह  
चलणाणं ॥ ३ ॥ इस्सक्कउं कम्मक्कउं ॥ समाहि मरणां च बोहि

जाज्ञोथ ॥ संपङ्कतं महएथ ॥ तुह नाह पणाम करणेण ॥ ४ ॥  
 सर्व मगलमागढ्यं ॥ सर्वकल्याणकारणम् ॥ प्रधान सर्वधर्माणां ॥  
 जैन जयति शासनम् ॥ ५ ॥ इति ॥ १७ ॥

१९ ॥ अथ अरिहत चेइआणं ॥

॥ अरिहत चेइआण ॥ करेमि काठस्सग्गं ॥ १ ॥ वंदेण  
 वत्तिआए, पूथण वत्तिआए ॥ सक्कार वत्तिआए, सम्माण वत्ति  
 आए ॥ बोहिलान्न वत्तिआए ॥ निरुवसग्ग वत्तिआए ॥ २ ॥ स-  
 षाए मेहाए धीईए ॥ धारणाए अणुप्पेहाए ॥ वट्टमाणीए वामि  
 काठस्सग्ग ॥ ३ ॥ अन्नञ्ज ० ॥ इति ॥ १९ ॥

२० ॥ अथ कल्लाणकद स्तुति ॥

॥ कल्लाणकद पढम जिणाद ॥ संतिं तन्ननेमिजिण मुणिं-  
 द ॥ पास पवास सुगणिक्कठाण ॥ नतीइ वदे सिरि वद्धमाणा ॥  
 अपार ससारसमुदपार ॥ पत्ता सिव दितु सुइक्कसार ॥ सवे जि-  
 णदा सुरविंदवदा ॥ कल्लाणरट्ठीणविसाजकंदा ॥ २ ॥ निवाणम  
 ग्गे वरजाणकप्प ॥ पणासिया सेस कुवाइदप्प ॥ मयंजिणाण स-  
 रण बुहाण ॥ नमामि निच्च तिजगप्पहाण ॥ ३ ॥ कुदिडुगोस्कीर-  
 तुरसावन्ना ॥ सरोजहन्ना कमले निसन्ना ॥ वाएसिरी पुब्बयवग्ग  
 हन्ना ॥ सुहायसाअम्ह सया पसन्ना ॥ ४ ॥

२१ ॥ अथ स्नातस्यानी स्तुति ॥

॥ स्नातस्याप्रतिमस्य मेरुशिखरे, शब्द्याविन्नो जैशवे ॥ रू-  
 पालोकनविस्मयाहतरस, भ्रात्या त्रमच्चक्षुषा ॥ तन्मृष्ट नयनप्र-  
 नाधवलित, क्षीरोदकाशकया ॥ वक्र यस्य पुन पुन. सजयति,  
 श्रीवर्द्धमानो जिन ॥ १ ॥ हंसासाहतपद्मरेणुकपिशङ्गीरार्णवा-  
 न्चोभृतै ॥ कुत्रैरप्सरसा पयोवरन्नरप्रस्पर्द्धिनि कांचनै. ॥ येषा  
 ददररत्नशैलशिखरे जन्मान्नियेक कृत ॥ सर्वै. सर्वसुरासुरेश्वर-



गणैस्तेषां नतोऽहं क्रमात् ॥ १ ॥ अर्हद्भक्तप्रसूतं गणधररचितं  
द्वादशांगं विशालं, चित्रं बहुर्थयुक्तं मुनिगणावृपनैर्वारितं बुद्धिम-  
द्भिः ॥ मोक्षाग्रद्वारचूतं व्रतचरणफलं ह्येयनावप्रदीपं, नक्त्या नि-  
त्यं प्रपद्ये श्रुतमहमखिलं सर्वलोकैकसारम् ॥ ३ ॥ निष्पंकवयोम-  
नीलद्युतिमलसदृशं बालचञ्जलदंष्ट्रं, मत्तं घंटाखण्डेण प्रसृतमदजलं  
पूर्यन्तं समन्तात् ॥ आरूढो दिव्यनागं विचरति गगने कामदः  
कामरूपी, यक्षः सर्वानुभूतिर्दिशतु मम सदा सर्वं कार्येषु सिद्धि-  
म् ॥ ४ ॥ इति श्रीमहावीरजिनचतुर्दशीस्तुतिः ॥ ११ ॥

११ ॥ अथ संसारदावानी स्तुतिः ॥

॥ संसारदावानलदाहनीर ॥ समोहधूलीहरणे समीरं ॥  
मायारसादारणासारसीरं ॥ नमामि वीर गिरिसारधीरं ॥ १ ॥ ज्ञा-  
वावनाम सुरदानवमानवेन ॥ चूलाविलोलकमलावलि मालिता-  
नि ॥ सपूरितान्जिनतलोकसमीहितानि ॥ कामं नमामि जिनरा-  
जपदानि तानि ॥ २ ॥ बोधागाधं सुपदपदवीनीरपूरान्जिरामं ॥  
जीवाहिसाविरलजहरीसंगमागाहदेहे ॥ चूलावेलं गुरुगममणी  
संकुलं दूरपार ॥ सारं वीरागमजलनिधिसादर साधुसेवे ॥ ३ ॥  
आमूलालोलधूलीवहुलपरिमलालीढलोलालिमाला ॥ ऊंकारारा  
वसारामलदलकमलागार जूमिनिवासे ॥ ठायासंज्ञारसारे वरक-  
मल करे तारहारान्जिरामे ॥ वाणीसंदोहदेहे नव विरहवरं देहिमे  
देविसारम् ॥ ४ ॥ इति ॥ १२ ॥

१२ ॥ अथ पुष्करवरदी ॥

पुष्करवरदीवट्टे ॥ धायइसमे अ जंबु दीवे अ ॥ नरहे रवय  
विदेहे ॥ धम्माइगरे नमसामि ॥ १ ॥ तमतिमिरपम्लविद्धं, सण  
स्स ॥ सुरगणनरिंदमहिअस्स ॥ सीमाधरस्स वट्टे ॥ पप्फोडिअ-  
मोहजाजस्य ॥ २ ॥ जाई जरामरणसोगपणासणास्स ॥ कल्लाण

पुस्कलविसाजसुहावहस्त ॥ को देवदाणव नरिदगणचिथ्यस्त ॥  
 धम्मस्त सार मुयलपत्र करे पमाय ॥ ३ ॥ सिद्धेनो पयत्त एमो  
 जिणमए, नंदी सया सजमे ॥ देव नाग सुवन्न किन्नर गणा, स्त  
 प्रुथ्य चावच्चिए ॥ लोगो जत्त पइच्छिज जगमिण, तेलुकमच्चसुरं ॥  
 धम्मो वट्टत्त सासत्त विनयत्त, धम्मत्तरं वट्टत्त ॥ ४ ॥ सुथ्यस्त जग  
 वत्त करेमि कात्तस्सग्ग वदणवन्तिथ्याए० ॥ इति ॥ २३ ॥

२४ ॥ अथ सिद्धाणं बुद्धाणं ॥

॥ सिद्धाणं बुद्धाण, पारगयाणा परपरगयाणं ॥ लोअग्ग मु-  
 वगयाणं, नमो सया सव्वसिद्धाणां ॥ १ ॥ जोदेवाणवि देवो, जं देवा  
 पज्जली नमसाति ॥ त देव देव महिथ्य, सिरसा वदे महावीरं ॥ २ ॥  
 इक्कोवि नमुक्कारो, जिणवरवसहस्त वद्धमाणास्त ॥ ससारसाग-  
 रात्त, तारेइ नर व नारिं वा ॥ ३ ॥ उज्जित सेल सिहरे, दिस्का  
 नाणा निसीहिथ्या जस्त ॥ तं धम्मचक्क वट्टि, थरिठ्ठनेमि नमंसा  
 मि ॥ ४ ॥ चत्तारि अठ दसदो, ग वदिया जिणावरा चत्तवीस ॥  
 परमठ निठ्ठियठा, सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥ ५ ॥ २४ ॥

२५ ॥ अथ वेयावच्च गराणं ॥

॥ वेयावच्चगराणा सतिगराण ॥ सम्मदिठ्ठि समाहि गराण ॥  
 इति ॥ २५ ॥ करेमि कात्तस्सग्गं ॥ अन्नत्त० ॥

२६ ॥ अथ जगवानादि वंदन ॥

जगवान् ह ॥ आचार्यं ह ॥ उपाध्यायं हं ॥ सर्वसाधुं हं ॥  
 इति ॥ २६ ॥

२७ ॥ अथ देवसिथ्य पडिक्कमणे गणं ॥

॥ इत्थाकारेणा सदिसह जगवन् ॥ देवसिथ्य पडिक्कमणे  
 गण ॥ इत्त सव्वस्तवि देवसिथ्य उच्चित्तिथ्य ॥ उप्पासिथ्य उच्चित्ति-  
 थ्य ॥ तस्स मित्तामि उक्कडं ॥ इति ॥ २७ ॥


## १८ ॥ अथ इत्थामि ठामि ॥

॥ इत्थामि ठामि काठस्सग्ग ॥ जो मे देवसिन्नु अइआरो  
 कत्तं ॥ काइत्तं वाइत्तं माणसिन्नु ॥ उस्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो ॥  
 अकरणिक्को इत्थान्नु ॥ इत्थिचित्तिन्नु अणायारो ॥ अणित्थिअव्वो ॥  
 असावगपात्तग्गो ॥ नाणो दंसणे चरित्ता चरित्ते ॥ सुए सामाइए  
 तिन्ह गुत्तीणं ॥ चउन्ह कसायाणं ॥ पचन्हमणुव्वयाणं ॥ तिन्हं  
 गुणव्वयाणा ॥ चउन्हं सिक्कावयाणा ॥ वारसविहस्स सावगधम्मस्स ॥  
 जं खमित्थं जं विराहित्थं ॥ तस्स मित्थामि इत्थं ॥ इति ॥ १८ ॥

## ॥ अथ अतिचारनी आठ गाथा ॥

॥ नाणांमि दसणमित्थं, चरणंमि तवमितहय विरियंमि ॥  
 आयरणं आयारो, इत्थएसो पंचहा नणिन्नु ॥ १ ॥ काले विणए  
 बहुमाणे, उवहाणे तहय निन्हवणे ॥ वंजण अत्त तडजए, अठ-  
 विहो नाणमायारो ॥ २ ॥ निस्संकित्थं निक्कखिअ, निव्वित्तिगि-  
 त्ता अमूढ दिठीअ ॥ उववूह थिरी करणे, वत्तल्लपजावणे अठ  
 ॥ ३ ॥ पणिहाणजोगजुत्तो, पचहिं समिईहि तीहि गुत्तीहि ॥ एस  
 चरित्तायारो, अठविहो होइ नायव्वो ॥ ४ ॥ वारसविहांमि वि तवे,  
 सप्पितरवाहिरे कुसलदिठे ॥ अगिलाड अणाजीवी, नायव्वो सो  
 तवायारो ॥ ५ ॥ अणसणमूणोअरिया, वित्ती संखेवणं रसच्चान्नु ॥  
 कायकिलेसोसंली, ए याय वयो तवो होई ॥ ६ ॥ पायत्तितं वि-  
 णन्नु, वेयावच्चं तहेव सद्यान्नु ॥ जाण उस्सग्गो विय, अप्पित्तरन्नु  
 तवो होई ॥ ७ ॥ अणगूहिअ वलविरिन्नु, पडिक्कमइ जो जहुत्त-  
 मात्ततो ॥ जुजइअ जहायाम, नायव्वो वीरिआयारो ॥ ८ ॥  
 ॥ इति ॥ १९ ॥

## ॥ अथ सुगुरुवांदणां ॥

॥ इत्थामि मा  इत्थं, जावणिक्काए निसीहियाए

अणुजाणह मे मिठगहं निसीहि ॥ अहो काय काय सफासं,  
 खमणिङ्को ने किलामो ॥ अण्पकिलताणं बहु सुनेण ने, दिसवो  
 वड्कतो जत्ता ने ॥ जवणिङ्काव ने, खामेमि खमासमणो ॥ देवसि  
 अं वड्कम्म आवसिआए, पड्कमामि खमासमणां ॥ देवसि-  
 आए, आसायणाए ॥ तितीसन्नयराएज किंचि मिट्ठाए, मण्डक-  
 डाए वयड्कडाए ॥ कायड्कमाए कोहाए, माणाए, मायाए, लोना  
 ए, सब्बकालिआए ॥ सब्ब मिट्ठोवयाराए, सब्बधम्माड्कमणाणा  
 आसायणाए जो मे अड्धारो कञ्ज, तस्स खमासमणो पडिक्क-  
 मामि ॥ निंदामि गरिहामि अण्पाण वोसिरामि ॥ १ ॥ वीजी  
 वारने वादणे आवसिआए ए पद न कहेवुं, अने रात्रीयें राड्ठ-  
 वड्कंतो, तथा चउमासीयें चउमासी वड्कंतो, पस्कीये पस्को  
 वड्कंतो, सब्बरीये सब्बरो वड्कंतो ॥ एवी रीते पाठ कहेवो,  
 ॥ इति ॥ ३० ॥

॥ अथ देवसिअं आलोचं ॥

॥ इट्ठाकारेण सदिसहनगवन् देवसिअ आलोचं इत्तं ॥  
 आलोएमि जामेण ॥ इति ॥ ३१ ॥

॥ अथ सातलाख ॥

॥ सात लाख पृथिवीकाय ॥ सात लाख अण्पकाय ॥ सात  
 लाख तेजकाय ॥ सात लाख वाजकाय ॥ दश लाख प्रत्येक वन-  
 स्पतिकाय ॥ चउद लाख साधारण वनस्पतिकाय ॥ वे लाख  
 वेईड्य ॥ वे लाख तेंद्रिय ॥ वे लाख चौरिड्य ॥ चार लाख  
 देवता ॥ चार लाख नारकी ॥ चार लाख तिर्थच पचेन्द्रिय ॥ चौद  
 लाख मनुष्य ॥ एवकारे चौराशी लाख जीवायोनिमांहि, महारे  
 जीवें जे कोइ जीव हण्यो होय हणाव्यो होय हणता प्रत्ये अनु-  
 मोयो होय, ते सबे हु मन वचन कायार्थे करी तस्स मिट्ठामि  
 ड्कड ॥ इति ॥ ३२ ॥

## ॥ अथ अठार पापस्थानक ॥

॥ पहले प्राणातिपात, वीजे मृपावाद, त्रीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, पांचमे परिग्रह, ठठे क्रोध, सातमे मान, आठमे माया, नवमे लोभ, दशमे राग, इग्यारमे द्वेष, बारमे कलह, तेरमे अभ्याख्यान, चौदमे पैगून्य, पन्नरमे रति अरति, शोलमे परपरिवाद, सत्तरमे माया मृपावाद, अठारमे मिथ्यात्वशल्य, ए अठार पाप-स्थानमांहि, म्हारे जीवें जे कोइ पाप संव्युं होय, सेवराव्युं होय, सेवतां प्रत्ये अनुमोद्युं होय, ते सबे हु मनें, वचने, कायायें करी तस्त मिञ्चामि डकड ॥ इति ॥ ३३ ॥

## ॥ अथ सबस्सवि ॥

॥ सबस्सवि देवसिअ छच्चित्तिअ, उप्पासिअ छच्चिठ्ठिअ ॥ इञ्चामि कारेण सदिसह जगवन् इञ्चंण ॥ तस्त मिञ्चामि डकडं ॥ इति ॥ ३४ ॥

## ॥ अथ श्रावक वंदिता सूत्र ॥

॥ वदिन्तु सब सिद्धे, धम्मयारिएअ सब साहूअ ॥ इञ्चामि पडिक्कमिअ, सावगधम्मइ आरस्त ॥ १ ॥ जो मे वयाइआरो, नाणे तहदसणे चरित्ते अ ॥ सुहुमो अ वायरो वा, त निदे तं च गरिहामि ॥ २ ॥ उविहे परिग्गहमि, सावज्जे बहुविहे अ आरंजे ॥ आरावणे अ करणे, पडिक्कमे देसिअ सब ॥ ३ ॥ ज वद्धमिदि एहि, चउहि कसाएहि अप्पसञ्जेहि ॥ रागेण व दोसेण व, त निदे तं च गरिहामि ॥ ४ ॥ आगमणे निग्गमणे, ठाणे चंक्रमणे अ-णान्णे ॥ अज्जिअगे अ निअगे, पडिक्कमे ॥ ५ ॥ सका कंख वि-गिञ्चा, पसस तह सयवो कुलिंगीसु ॥ सम्मत्तस्त इआरे, पडिक्क-मे ॥ ६ ॥ ठक्कायसमारंजे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा ॥ अत्तठाय परठा, उजयठा चव तं निदे ॥ ७ ॥ पचएहमणुव याणं, गुणवयाणं च तिएह मइयारे ॥ सिक्काणं च चउएहं, पडिक्कमे ॥

॥ ७ ॥ पढमे अणुवयमि, धूलग पाणाइवाय विरईत्त ॥ आयरि-  
 अ मप्पसत्ते इत्त पमायप्पसगेणं ॥ ९ ॥ वहवध ठविट्टेए, अइ  
 न्तरे नत्त पाण वुट्टेए ॥ पढम वयस्स इत्थारे, पडिक्कमे० ॥ १० ॥  
 वीए अणुव यमि, परिधूलगथलिअवयणाविरइत्त ॥ आयरिअ-  
 मप्पसत्ते, इत्त पमायप्पसगेण ॥ ११ ॥ सहस्सा रहस्स दारे, मो-  
 सुवएसे अ कूडलेहेअ ॥ वीय वयस्स इत्थारे, पडिक्कमे० ॥ १२ ॥  
 तइए अणुवयमि, धूलग परदवहरणाविरइत्त ॥ आयरिअ मप्पसत्ते  
 इत्त पमायप्पसगेण ॥ १३ ॥ तेनाहडप्पत्तगे, तप्पडिक्कवे विरु-  
 गमणेअ ॥ कूमतुल कूममाणे, पडिक्कमे० ॥ १४ ॥ चत्तवे अणुव-  
 यमि, निच्च परदारगमणा विरइत्त ॥ आयरिअ मप्पसत्ते, इत्त  
 पमायप्पसगेण ॥ १५ ॥ अपरिग्गहिआ इत्तर, अणग वीवाहतिव  
 अणुरागे ॥ चत्तव वयस्स इत्थारे, पडिक्कमे० ॥ १६ ॥ इत्तो अणु-  
 वए, पचममि आयरिअ मप्पसत्तमि ॥ परिमाण परिट्टेए, इत्त  
 पमायप्पसगेण ॥ १७ ॥ धण धन्न खित्त वट्टू, रूप सुवत्तेअ कु-  
 विअ परिमाणे ॥ उपए चत्तप्पयमि, पडिक्कमे० ॥ १८ ॥ गमण-  
 स्सत्त परिमाणं, विसासु उमृ अहेअ तिरिअच ॥ बुद्धिसइत्थतरश्श  
 पढममि गुणवए निदे ॥ १९ ॥ मज्झमिअ मत्तमिअ, पुप्फेअ फलेअ  
 गधमत्तेअ ॥ उवत्तगे परित्तगे वीर्यमि गुणवए निदे ॥ २० ॥  
 सच्चित्ते पडिवट्टे, अपोल उप्पोलि अच आहारे ॥ तुत्तोसाहि न-  
 रक्कणाया, पडिक्कमे० ॥ २१ ॥ इगाली वणसामी, जामी फोमी  
 सुवत्तए कम्मं ॥ वाणिज्ज वेवय द, त लक्करस केस विसविस  
 य ॥ २२ ॥ एव खु जतपिड्डण, कम्म निड्डणं च दवदाणं ॥ स  
 रदह तलाय सोत्त, अत्तई पोत्तच वज्जिज्जा ॥ २३ ॥ सत्तग्गि मुसल  
 जत्तग तणकठे मत मूल जेसत्ते ॥ दित्ते दवाविएवा, पडिक्कमे० ॥  
 ॥ २४ ॥ न्हाणु वट्टण वत्तग, विलेवणे सइरूव रस गधे ॥ वत्ता-  
 १५९, पडिक्कमे० ॥ २५ ॥ कंदप्पे कुकुइए, मोहरि अहिग-

रण नोग अइरिने ॥ दंमंमि अण्ठाए, तइअंमि गुणवए निदे ॥  
 ॥१६॥तिविहे डप्पणिहाणे, अणवठाणे तथा सइ विहूणे ॥ सामाइथ  
 वितह कए, पढमे सिस्कावए निदे ॥१७॥ आणवणे पेसवणे सदे  
 रुवे अ पुगलखेवे ॥ देसावगासिअंमि, वीए सिस्कावए निदे  
 ॥१८॥ सथारुच्चारविही, पमाय तह चव जोयणाजोए ॥ पोसह  
 विहि विवरीए तइए सिस्कावए निदे ॥१९॥ सच्चित्ते निस्खिवणे,  
 पिहिणे ववएस मन्तरे चव ॥ कालाइक्कमदाणे, चउठे सिस्कावए  
 निदे ॥२०॥ सुहिए सुअ अहिए सुअ, जामे थसजएसु अणुक-  
 पा ॥ रागेणव दोसेणव, त निदे तंच गरिहामि ॥२१॥ साहूसु  
 सविजागो नकउं तव चरणकरणजुत्तेसु ॥ संते फासु अ दाणे,  
 तं निदे तं च गरिहामि ॥२२॥ इहलोए परलोए, जीविअ मरणे  
 अ आसंस पजगे ॥ पंचविहो अइअरो, मा मद्य हुक्क मरणते  
 ॥२३॥ काएणा काइअस्स, पमिक्कमे वाडअस्स वायाए ॥ मणसा  
 माणसिअस्स, सब्वस्स वयाइअरस्स ॥२४॥ वंदणावय सिस्का-  
 गा, र्वेसु सन्ना कसाय दमेसु ॥ गुत्ती सुअ समिईसुअ, जो थइ  
 आरो अ त निदे ॥२५॥ सम्मद्विठी जीवो, जइ विहुपावं समा-  
 यरे किंचि ॥ अण्पोसि होइ वधो, जेणन निदं धसं कुणाइ ॥२६॥  
 तं पिहुसपडिक्कमण, सप्प रिअ्राव सवत्तरगुण च ॥ खिप्पं उव-  
 सामेइ, वाहिव्व सुसिस्किउं विज्जो ॥२७॥ जहा विसं कुठ गयं,  
 मंत मूल विसारया ॥ विज्जाहणांति मत्तेहि, तो त हवइ निविसं  
 ॥२८॥ एवं अठविह कम्मं, राग दोस समज्जिअं ॥ आलोअंतो  
 अनिंदतो खिप्पं हणइ सुसावउं ॥२९॥ कयपावोधि मणस्सो, था-  
 लोइअ निदिअ गुस्स गासे ॥ होइ अइरेग लहुउं, उहरिअ नस्व  
 नारवहो ॥३०॥ आवस्सएणा एएण, सावउं जइवि वहुउं होइ ॥  
 डस्साण मत्त फिरिअं, काही अचिरेणा कालेण ॥३१॥ आलोअणा  
 बहुविहा, नयसंनरिअ्या पमिक्कमणकाले ॥ मूल गुण उत्तरगुणे, तं

॥ ७ ॥ पढमे अणुवयमि, थूलग पाणाइवाय विरईत्त ॥ आयरि-  
 अ मप्पसठे इत्त पमायप्पसगेण ॥ ९ ॥ वह्वंय ठविठेए, अइ  
 नारे जत्त पाण वुठेए ॥ पढम वयस्स इत्थारे, पडिक्कमे० ॥ १० ॥  
 वीए अणुव यमि, परिथूलगअलिअवयणाविरइत्त ॥ आयरिअ-  
 मप्पसठे, इत्त पमायप्पसगेण ॥ ११ ॥ सहस्ता रहस्स दारे, मो-  
 सुवएसे अ कूडलेहेअ ॥ वीय वयस्स इत्थारे, पडिक्कमे० ॥ १२ ॥  
 तइए अणुवयमि, थूलग परदवहरणाविरइत्त ॥ आयरिअ मप्पसठे  
 इत्त पमायप्पसगेण ॥ १३ ॥ तेनाहडप्पत्तगे, तप्पडिरूवे विरूद  
 गमणोअ ॥ कूमतुल कूममाणे, पडिक्कमे० ॥ १४ ॥ चउठे अणुव-  
 यमि, निअ परदारगमणा विरइत्त ॥ आयरिअ मप्पसठे, इत्त  
 पमायप्पसगेण ॥ १५ ॥ अपरिग्गहित्था इत्तर, अणग वीवाहित्तिव  
 अणुरागे ॥ चउत्त वयस्स इत्थारे, पडिक्कमे० ॥ १६ ॥ इत्तो अणु-  
 वए, पचममि आयरिअ मप्पसत्तमि ॥ परिमाण परिठेए, इत्त  
 पमायप्पसगेण ॥ १७ ॥ धण धन्न खित्त वद्धू, रूप्प सुवन्नेअ कु-  
 विअ परिमाणे ॥ डुपए चउप्पयमि, पडिक्कमे० ॥ १८ ॥ गमण-  
 स्सत्त परिमाणो, विसासु उरुं अहेअ तिरिअच ॥ वुडिसइत्थतरअ  
 पढममि गुणवए निदे ॥ १९ ॥ मज्झमिअ मसमिअ, पुण्फेअ फलेअ  
 गधमल्लेअ ॥ उवन्नोणे परिन्नोणे वीयंमि गुणवए निदे ॥ २० ॥  
 सच्चित्ते पडिवधे, थपोज डुप्पोलि अच आहारे ॥ तुठोसाहि न  
 स्काणया, पडिक्कमे० ॥ २१ ॥ इगाली वणसामी, जामी फोमी  
 सुवक्काए कम्म ॥ वाणिक्का चेवय द, त लस्करस केस विसविस  
 य ॥ २२ ॥ एव खु जतपिड्डण, कम्म निड्डठण च दवटाणां ॥ स  
 रदह तलाय सोस, असई पोसंच वज्जिक्का ॥ २३ ॥ सत्तग्गि मुसल  
 जतग तणकठे मत मूल जेसक्के ॥ दिन्ने दवाविएवा, पडिक्कमे० ॥  
 ॥ २४ ॥ न्हाणु वट्टण वन्नग, विलेवणे सदरूव रस गधे ॥ वट्टा-  
 न्हाणु, पडिक्कमे० ॥ २५ ॥ कदप्पे कुक्कुइए, मोहरि अहिग-



॥ अथ नमोस्तु वर्धमानाय ॥

श्रुत्वामो अणुसाधि, नमो खमासमणाय ॥ नमोर्हत् ॥ न-  
मोस्तु वर्धमानाय, स्पर्धमानाय कर्मणा ॥ तज्जयावाप्तमोहाय,  
परोहाय कुतीर्थिनां ॥ १ ॥ येषां विकचारविंदराज्या, ज्यायः क्रम-  
कमलावलिं दधत्या ॥ सदृशैरिति संगतं प्रशस्यं, कथितं संतु शि-  
वाय ते जिनेष्वा ॥ २ ॥ कपायतापार्दितजंतुनिवृत्तिं, करोतियो  
जैनमुखांबुदोद्गत ॥ सशुक्रमासोन्नववृष्टिसन्निभो, दधातु तुष्टिं  
मयि विस्तरौ गिरा ॥ ३ ॥

॥ अथ विशाललोचन ॥

॥ विशाललोचनदलं, प्रोद्यदतांगुकेसरं ॥ प्रातर्वीरजिनैश्चस्य,  
मुखपद्मं पुनातु वः ॥ १ ॥ येषामग्निपेककर्म कृत्वा, मत्ता हर्षजरात्  
सुखं सुरेन्द्राः ॥ तृणमपि गणयन्ति नैव नाक, प्रातः संतु शिवाय  
ते जिनेष्वाः ॥ २ ॥ कलंकनिर्मुक्त ममुक्तपूर्णतं, कुतर्कराहुग्रसनं  
सदोदयं ॥ अपूर्वचङ्गं जिनचङ्गनापितं, दिनागमे नोमि बुधैर्नम-  
स्कृतं ॥ ३ ॥

॥ इति ॥ ३९ ॥

॥ अथ सूत्रदेवक्षेत्रदेवस्तुति ॥

॥ सुत्र देवयाए करेमि काउस्सगं ॥ सुत्रदेवया जगवई,  
नाणा वरणीअ कम्म संघायतेसि खवेउ सययं, जोसि सुत्रसा-  
यरे भत्ती ॥ १ ॥

॥ अथ खित्तदेवयाए करेमि ॥

॥ जीसे खित्ते साहू, दंसण नाणेहिं चरण सहिएहिं ॥ सा-  
हति मुक्कमगं, सा देवी हरउडरिआई ॥ १ ॥ ॥ इति ॥ ४१ ॥

॥ अथ कमलदलस्तुतिः ॥

॥ कमलदलविपुलनयना, कमलमुखी कमलगर्जसमगौरी ॥  
कमले स्थिता जगवती, ददातु श्रुतदेवता सिद्धिं ॥ १ ॥ इति ॥ ४२ ॥

च गरिहामि ॥४२॥ तस्त धम्मस्स केवलि पन्नत्तस्स ॥ अप्पुच्छि-  
 ङ्गमि आरा, हणाए विरज्जमि विराहणाए ॥ तिविहेण पम्भिकतो,  
 वंदामि जिणे चउव्वीस ॥४३॥ जावंति चेइत्थाइ० ॥४४॥ जावंत  
 केवि साहू० ॥४५॥ चिर संचिय पाव पणासणाइ, नवसय सह  
 स्स महणीए ॥ चउव्वीस जिण विणिग्गय कहाइ, वोलतु मे दि  
 अहा ॥४६॥ मम मगल मरिहता, सिद्धा साहू सुअ्यं च धम्मो अ॥  
 सम्मदिठी देवा, दिंतु समाहि च वोहि च ॥४७॥ पम्भिसिद्धाणं  
 करणे, किच्चाण मकरणे पम्भिकमाण ॥ असइहणे थ तहा, वि-  
 वरीय परूवणाए अ ॥४८॥ खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खम  
 तुमे ॥ मिची मे शव्वन्नूएसु, वेर मद्य न केणइ ॥४९॥ एव महं  
 आलोइथ, निदिथ गरहिअ डगठिअ शम्म ॥ तिविहेण पम्भिकतो,  
 वंदामि जिणे चउव्वीसं ॥५०॥ इति ॥३५॥

॥ अथ अप्पुच्छिं ॥

॥ इत्थाकारेण सदिसह जगवन्, अप्पुच्छिंमि, अप्पिंत्तर  
 देवसिथं खामेअं ॥ इत्थ खामेमि देवसिअ जं किचि अपत्तिअं, प  
 रपत्तिअ ॥ नत्ते पाणे विणाए वेअ्यावच्चे, थालावे सलावे उच्चासणे  
 समासणे अतरजासाए, उवारिजासाए जकिचि ॥ मज्जा विणय  
 परिहीणं, सुहुमवा वायरवा ॥ तुप्पे जाणह, अह न याणामि ॥  
 तस्त मिच्चामि डक्कम ॥ इति ॥ ३६ ॥

॥ अथ आयरिअ उवद्याए ॥

॥ आयरिअ उवद्याए, सीसे साहम्मिए कुलगणे अ ॥ जे मे  
 केइ क साया, सव्वे तिविहेणाखामेमि ॥ १ ॥ सव्वस्स समण स-  
 यस्स, जगवत्तं अज्जि करिअ सीसे ॥ सव्वं खमावइत्ता, खमा-  
 भि सव्वस्स अहयपि ॥ २ ॥ सव्वस्स जीव रासिस्स, जावत्तं  
 धम्म निहिअ निअचित्तो ॥ सव्व खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स  
 अहयपि ॥ ३ ॥

नमस्ते जगवति, विजये सुजये परापरैरजिते ॥ अपराजिते ज  
 मत्या, जयतीति जयावहे जवति ॥ ७ ॥ सर्वस्यापि च संघस्य,  
 नञ्कल्याणमंगलप्रददे ॥ साधूनां च सदा शिव, सुतष्टिपुष्टिप्रदे  
 जीयाः ॥ ८ ॥ जघानां कृतसिद्धे, निवृत्ति निर्वाणजननि सत्वाना-  
 म् ॥ अन्नयप्रदाननिरते, नमोस्तु स्वस्तिप्रदे तुभ्यं ॥ ९ ॥ नक्तानां  
 जतूनां, गुजावहे नित्यमुद्यते देवि ॥ सम्यग् दृष्टीनां धृति, रतिम  
 तिवृद्धिप्रदानाय ॥ १० ॥ जिनशासननिरतानां, शांतिनतानां च  
 जगति जगतानां ॥ श्रीसंपत्कीर्तियशो, वर्धनिजयदेवि विजयस्व  
 ॥ ११ ॥ सलिलानलविपविपधर, उष्ट्रहराजरोगरणजयतः ॥ राक्ष-  
 सरिपुणामारी, चौरैतिश्वापदादिभ्यः ॥ १२ ॥ अथ रक्ष रक्ष सुशिवं,  
 कुरु कुरु शांति च कुरु कुरु सदेति ॥ तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टि, कुरु कुरु  
 स्वस्ति च कुरु कुरु त्व ॥ १३ ॥ जगवति गुणवति शिवशां, ति  
 तुष्टि पुष्टि स्वस्तीह कुरु कुरु जना नां उ मिति नमो नमो  
 ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीः ॥ यः ह्रीं ह्रीं फुट् फुट् स्वाहा ॥ १४ ॥ एवं यन्ना  
 माक्षर, पुरस्सरं सस्तुता जया देवी ॥ कुरुते शांति नमतां, नमो  
 नमः शांतये तस्मै ॥ १५ ॥ इति पूर्वसूरिदर्शित, मंत्रपदविद्विप्तः  
 स्तवः शांतिः ॥ सलिलादिजयविनाशी, शांत्यादि करश्च नक्तिमतां  
 ॥ १६ ॥ यश्चैनं पठति सदा, गृणोति जावयति वा यथायोग्यं स  
 हि शांतिपदं यायात्, सूरिश्रीमानदेवश्च ॥ १७ ॥ उपसर्गाः क्षयं  
 यांति, त्रिद्यते विघ्नवल्लयः ॥ मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिने-  
 श्वरे ॥ १८ ॥ सर्वमंगलमंगल्यं, सर्वकल्याणकारणं ॥ प्रधानं स-  
 र्वधर्माणां, जैन जयति शासनं ॥ १९ ॥ इति जघुशांतिस्तवः ॥ ४४ ॥

॥ अथ चञ्कसाय ॥

॥ चञ्कसाय पद्मिभङ्गुब्जूरणु, उक्ताय मयणा वाण मुसुमू-  
 रणु ॥ सरस पित्रंगु वन्नगयगामिउ, जयउ पासु जुवणत्तयसा-

॥ अथ भुवणदेवयादिस्तुति ॥

॥ भुवण देवयाए करोमि काञ्चस्सग्ग० ॥ यस्या क्षेत्रं समा-  
श्रित्य, साधुनि साध्यते क्रिया ॥ सा क्षेत्रदेवता नित्य, भूयान्नः  
सुखदायिनी ॥ १ ॥

॥ इति ॥ ४३ ॥

॥ अथ ज्ञानादिगुणयुतानां ॥

॥ ज्ञानादिगुणयुतानां, नित्य स्वाध्याय सयमरत्नानां ॥ वि-  
दधातु भुवनदेवी, शिव सदा सर्वसाधूनाम् ॥ १ ॥ ॥ इति ॥ ४४ ॥

॥ अथ अट्टाङ्गेषु मुनिवदन ॥

॥ अट्टाङ्गेषु दीव समुदेषु, पन्नरत्तसु कम्म भूमीसु ॥ जावत  
केविसाहू, रयहरण गुड्ड पडिग्गह धारा ॥ पचमहव्वयधारा, अ-  
ठारस सहस्स सीलंग धारा ॥ अस्सकयायारचरित्ता, ते सव्वेस्सिसा  
मण्णसा मण्णण वंदामि ॥ १ ॥ इति ॥ ४५ ॥

॥ अथ वरकनक ॥

॥ वरकनकशखविष्णुम, मरकतयनसन्निभविगतमोह ॥ स-  
त्तशत जिनाना, सर्वामरपूजितं वदे ॥ १ ॥ ॥ इति ॥ ४६ ॥

॥ अथ लघुशांतिस्तव ॥

॥ शांति शांतिनिशात, शात शाता शिवं नमस्कृत्य ॥ स्तोतु-  
शांतिनिमित्तं, मन्त्रपदै. शातये स्तौमि ॥ १ ॥ उमिति निश्चितव-  
चसे, नमो नमो जगवतेऽर्हते पूजां ॥ शांतिजिनाय जयवते, यशस्वि-  
ने स्वामिने दमिना ॥ १ ॥ सकलातिशेपकमहा, सपत्तिसमन्विताय  
शस्याय ॥ त्रैलोक्यपूजिताय च, नमो नम शांतिदेवाय ॥ ३ ॥  
सर्वामरसुसमूह, स्वामिक सपूजिताय निजिताय ॥ भुवनजनपा-  
लनोद्यत, तमाय सतत नमस्तस्मै ॥ ४ ॥ सर्वद्वरितौ घनाशन,  
कराय सर्वाशिवप्रशमनाय ॥ उष्ट ग्रहचूतपिशा च, शाकिनीनां  
प्रमथनाय ॥ ५ ॥ यस्येति नाम मन्त्र, प्रधानवाक्योपयोगकृततोपा ॥  
विजया कुरुते जनहित, मिति च नुता नमत तं शांति ॥ ६ ॥ नवतु

नमस्ते जगवति, विजये सुजये परापरैरजिते ॥ अपराजिते ज-  
 मत्यां, जयतीति जयावहे जवति ॥ ४ ॥ सर्वस्यापि च संघस्य,  
 नङ्कळ्याणमंगलप्रददे ॥ साधूनां च सदा शिव, सुतष्टिपुष्टिप्रदे  
 जीया ॥ ७ ॥ नव्याना कृतसिद्धे, निवृत्ति निर्वाणजननि सत्वाना-  
 म् ॥ अन्नयप्रदाननिरते, नमोस्तु स्वस्तिप्रदे तुभ्यं ॥ ९ ॥ नक्तानां  
 जंतूनां, गुणावहे नित्यमुद्यते देवि ॥ सम्यग् दृष्टीना धृति, रतिम  
 तिवुद्धिप्रदानाय ॥ १० ॥ जिनशासननिरतानां, शातिनताना च  
 जगति जगतानां ॥ श्रीसपत्कीर्तियशो, वर्धनिजयदेवि विजयस्व  
 ॥ ११ ॥ सलिलानलविपविपधर, उष्ट्रहराजरोगरणजयत ॥ राहू-  
 सरिपुगणामारी, चौरैतिश्वापदादिभ्यः ॥ १२ ॥ अथ रक्ष रक्ष सुशिवं,  
 कुरु कुरु शांति च कुरु कुरु सदेति ॥ तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टि, कुरु कुरु  
 स्वस्ति च कुरु कुरु त्व ॥ १३ ॥ जगवति गुणवति शिवशां, ति  
 तुष्टि पुष्टि स्वस्तीह कुरु कुरु जना नां न मिति नमो नमो  
 ॐ ॐ ॐ ॐ ॥ य. ह ॐ ॐ ॐ ॐ स्वाहा ॥ १४ ॥ एव यन्ना  
 माह्वर, पुरस्सरं संस्तुता जया देवी ॥ कुरुते शांति नमतां, नमो  
 नमः शांतये तस्मै ॥ १५ ॥ इति पूर्वसूरिदर्शित, मंत्रपदविदर्शितः  
 स्तव. शांतेः ॥ सलिलादिजयविनाशी, शात्यादि करश्च नक्तिमतां  
 ॥ १६ ॥ यश्चैनं पठति सदा, शृणोति जावयति वा यथायोग्यं स  
 हि शांतिपदं यायात्, सूरिश्रीमानदेवश्च ॥ १७ ॥ उपसर्गाः कृत्यं  
 यांति, त्रिद्यते विघ्नवह्नयः ॥ मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिने-  
 श्वरे ॥ १८ ॥ सर्वमंगलमागढ्यं, सर्वकळ्याणकारण ॥ प्रधानं स-  
 र्वधर्माणां, जैन जयति शासनं ॥ १९ ॥ इति लघुशांतिस्तव ॥ ४४ ॥

॥ अथ चक्रसाय ॥

॥ चक्रसाय पद्मिभङ्गुङ्गु रणु, उक्तय मयण वाण मुसुमू-  
 रणु ॥ सरस पित्र्यगु ५ मित्र, जयत्र पासु चुवणत्तयसा-

मिठ ॥ १ ॥ जसु तणु कंति कमप्पसिणि-वुठ, सोहइ फण मणि  
किरणालि-वुठ ॥ न नव जलहर तमिल्लय लविठ ॥ सो जिणु  
पासु पयवुठ वठिठ ॥२॥ इति चउकसाय ॥४८॥

अथ नरहेसरनी सद्याय ॥

॥ नरहेसर बाहुवली, अन्नयकुमारो अ ढंढण कुमारो ॥  
सिरिउ अणियाउत्तो, अइमुत्तो नागदत्तो अ ॥१॥ मेअऊ पू  
लिजदो, वयररिसि नदिसेण सीहगिरि ॥ कयवन्नोअ सुकोसल,  
पुमरिउ केसि करकडू ॥२॥ हल्ल विहल्ल सुदसण, साल माहा  
साल सालिजदो अ ॥ नदो दसन्ननदो, पसन्नचदो अ जसन्नदो  
॥३॥ जवुपहु वकचूलो, गयसुकमालो अवंतिसुकु मालो ॥ धन्नो  
इजाइपुत्तो चिजाइपुत्तो अ वाहु मुणी ॥४॥ अऊगिरि अऊरसि  
अ, अऊसु हवी उदायगो मणगो ॥ कालवसूरि सवो, पजुन्नो  
मूलदेवो अ ॥५॥ पन्नवो विन्हुकुमारो, अइकुमारो दढप्पहारी  
अ ॥ सिऊस कूरगडू अ, सिऊनव मेहकुमारो अ ॥६॥ एमाइ  
महा सत्ता, दितु सुह गुणगणेहि सऊत्ता ॥ जेसि नामगहणे,  
पावपवधा विलय जति ॥७॥ सुलसा चदन वाला, मणोरमा  
मयणारेहा दमयती । न मयासुदरी सीया, नंदा नदा सुनदा य  
॥८॥ रायमई रिसिदत्ता, पन्नमावइ अजणा सिरी देवी जिठ  
सुजिठ मिगावइ, पनावइ चिल्लणा देवी ॥९॥ वनी सुदरी रुपि  
णि, रेवइ कुती सिवा जयंतीय ॥ देवइ दौवइ धारणी कलावई  
पुफ्फचूलाय ॥१०॥ पन्नमावइ य गोरी, गधारी लक्कमणा सुसी  
माय ॥ जवुवइ सच्चनामा, रुपिणि कन्हठ महिसीउ ॥ ११ ॥  
जक्काय जक्कदिन्ना, नूअ तह चव नूअदिन्नाय ॥ सेणा वेणा  
रेणा, नअणीउं पूलिजदस्स ॥१२॥ इचाइ महासइत्तं, जयंति अ-  
कलकसीलकलिथाउ ॥ अऊवि वऊइ जासि, जस पमहो ति-  
हुअणे सयल ॥१३॥ इति सत्ता सतीउंनी सद्याय ॥४९॥

## ॥ अथ मन्हजिणाणं सद्याय ॥

॥ मन्हजिणाण आणां, मिच्च परिहरह धर सम्मत्तं ॥ ठव्वि  
ह थावस्सयंमि, उक्कुत्तो होइ पइ दिवसं ॥ १ ॥ पव्वेसु पोसह-  
वय, दाण सील तवो अ नावो अ ॥ सद्याय नमुक्कारो, परोवया  
रोअ जयणाअ ॥ २ ॥ जिणपूआ जिणथूणिणां, गुरुथुअ साहम्मि  
आण वच्चल्लं ॥ ववहारस्स य सुद्धि, रहजुत्ता तिच्चजुत्ताय ॥ ३ ॥ उव  
सम विवेक सवर, ज्ञासासमिई ठजीव करुणाय ॥ धम्मिअ जण  
ससग्गो, करणदमो चरिण परिणामो ॥ ४ ॥ संघोवरि बहु माणो,  
पुत्तय लिहणं पजावणा तिच्चे ॥ सद्धाण किच्च मेअं, निच्च सुगुरुव  
एसेण ॥ ५ ॥ इति ॥ ५० ॥

## ॥ अथ तीर्थवंदना ॥

॥ सकल तीर्थ वंदूं करजोच्च, जिनवरना में मंगल कोच्च ॥  
पहेळें स्वर्गे लाख वत्रीश, जिनवर चैत्य नमु निशदीश ॥ १ ॥ वी  
जे लाख अठाविश कक्षां, त्रीजे वार लाख सर्दह्या ॥ चौथे स्वर्गे  
अड लख धार, पाचमे वदू लाख ज चार ॥ २ ॥ ठठे स्वर्गे सहस  
पचास, सातमे चालिस सहस प्रासाद ॥ आठमें स्वर्गे ठ हजार,  
नव दशमे वदूं शत चार ॥ ३ ॥ अग्यार वारमे त्रणशे सार ॥ न  
वयैवेयकें त्रणशें अठार ॥ पांच अनुत्तर सर्वे मली लाख चोराशी  
अधिका वली ॥ ४ ॥ सहस सत्ताणु त्रैविश सार, जिनवर भुवन  
तणो अधिकार ॥ लांवा शो जोजन विस्तार, पचास उचा बोहो  
तेर धार ॥ ५ ॥ एकशो एंशी विंव परिमाण, सत्ता सहित एक चै  
त्यें जाण ॥ शो कोड बावन कोड सनाल, लाख चोराणुं सहस  
चैआस ॥ ६ ॥ सातशे उपर साठ विशाल, सवि विंव प्रणमुं त्रण  
काज ॥ सात कोमने बोहोतेर लाख ॥ जुवनपतिमा देवल जाख  
॥ ७ ॥ एकसो एंशी विंव प्रमाण, एक एक चैत्ये संख्या जाण ॥ तेरशें  
कोम नेव्याशीकोड, साठ लाख वदू करजोड ॥ ८ ॥ वत्रीशेने उगणसाठ,

तिर्गलोकमा चैत्यनो पाठ ॥ त्रण लाख एकाणुं हजार, त्रणसैं  
 वीश ते विंव जुहार ॥ ९ ॥ व्यतर ज्योतिपिमा वली जेह, शाश्व  
 ता जिन वंदू तेह ॥ रिपज चंज्ञानन वारिखेण, वर्द्धमान नामें  
 गुणशेण ॥ १० ॥ समेत शिखर वदू जिन वीश, अष्टापद वंदू  
 चोवीश ॥ विमलाचल ने गढ गिरनार, आद्यु उपर जिनवर जुहार  
 ॥ ११ ॥ शंखेश्वर केशरियो सार, तारंगे श्री अजित जुहार ॥ अं  
 तरीक वरकाणो पास, जीरावलौने धनण पास ॥ १२ ॥ गाम न-  
 गर पुर पाटण जेह, जिनवर चैत्य नमु गुणगेह ॥ विहर मान  
 वदू जिन वीश, सिद्ध अनत नमु निश दीश ॥ १३ ॥ अष्टीदी  
 पमां जे अणगार, अठार सहस सिलांगना धार ॥ पच महाव्रत  
 समिती सार, पाले पलावे पचाचार ॥ १४ ॥ बाह्य अप्रितर तप  
 उजमाल, ते मुनि वंदू गुणमाणि माल ॥ नित नित उठी कीर्ति  
 करू, जीव कहे नवसायर तरू ॥ १५ ॥ इति ॥ ५१ ॥

॥ अथ सकलार्हत् ॥

॥ सकलार्हत्प्रतिष्ठान, मधिष्ठान शिवश्रियः ॥ नूर्भुवस्व-  
 स्वयीशान, मार्हत्य प्रणिदध्महे ॥ १ ॥ नामाकृतिः स्वयं चै, पुनत  
 स्वजगज्जन ॥ क्षेत्रे काले च सर्वस्मि, ब्रह्मत समुपास्महे ॥ २ ॥  
 आदिम पृथिवीनाथ, सादिमं नि.परियह ॥ आदिम तीर्थनाथं च,  
 रूपनस्वामिनं स्तुम ॥ ३ ॥ अर्हतमजित विश्व, कमलाकर जा-  
 स्कर ॥ अम्लानकेवलादर्शं सक्रातजगत स्तुवे ॥ ४ ॥ विश्वचव्य-  
 जनाराम, कुल्यातुल्याजयतु ताः ॥ देशनासमये वाच, श्रीसज  
 चजगत्पते ॥ ५ ॥ अनेकातमताज्ञोधि, समुल्लासनचक्ष्मा ॥  
 दद्यादमदमानंद, जगवाननिनदन ॥ ६ ॥ द्युसत्किरीटशाणायो,  
 तेजिताग्निन खावलि ॥ जगवान् सुमतिस्वामी, तनोत्वग्निमता  
 नि व ॥ ७ ॥ पद्मप्रजप्रज्ञोर्देह, ज्ञास पुष्पतु वः श्रिय ॥ अत-  
 रंगारिमधने, कोपाटो पादिवारुणा ॥ ८ ॥ श्रीसुपार्थजिनैश्चाय,



महेंद्रमहितांग्रये ॥ नमश्चतुर्वर्णसंघगगनाज्ञोग ज्ञास्वते ॥ ९ ॥  
 चंद्रप्रज्ञप्रज्ञोश्चंद्र, मरीचि निचयोज्ज्वला ॥ मूर्त्तिर्मूर्त्तिसितध्यान  
 निर्मितेवश्रियेऽस्तुवः ॥ १० ॥ करामलकवद्विश्वं, कलयन्केवल-  
 श्रिया ॥ अचित्यमाहात्म्यनिधिः, सुविधिबोधयेऽस्तु वः ॥ ११ ॥  
 सत्वानां परमानंद, कंदोद्भेदनवांबुदः ॥ स्याद्वादामृतनिस्यंदी,  
 शीतलः पातु वो जिनः ॥ १२ ॥ ज्वरोगार्त्तजंतूना, मगदंकारद-  
 र्शनः ॥ निःश्रेयसश्रीरमणः, श्रेयांस श्रेयसेऽस्तु वः ॥ १३ ॥  
 विश्वोपकारकी भूत, तीर्थकृत्कर्मनिर्मितिः ॥ सुरासुरनरैः पूज्यो,  
 वासुपूज्यः पुनातु वः ॥ १४ ॥ विमलस्वामिनोवाचः कतकहृदोद-  
 सोदराः ॥ जयंति त्रिजगच्चेतो, जलनैर्मल्यहेतवः ॥ १५ ॥ स्व-  
 यंभूरमण स्पर्द्धि, करुणारसवारिणा ॥ अनतजिदनता वः, प्रय-  
 च्छतु सुखश्रियं ॥ १६ ॥ कल्पद्रुमसधर्माण, मिष्टप्राप्तौ शरीरिणां  
 चतुर्धा धर्मदेष्टारं, धर्मनाथमुपास्महे ॥ १७ ॥ सुधासोदरवाग्ज्यो  
 र्त्सना, निर्मलीकृतदिङ्मुखः ॥ मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै, शांति-  
 नाथजिनोऽस्तुव ॥ १८ ॥ श्रीकुंधुनाथो जगवान्, सनाथोतिश-  
 यर्द्धिनिः ॥ सुरासुरनृनाथाना, मेकनाथोऽस्तु वः श्रिये ॥ १९ ॥  
 अरनाथस्तु जगवा, श्रुतार्थारनज्ञोरविः ॥ चतुर्थपुरुषार्थश्री विलासं  
 वित्तनोतु वः ॥ २० ॥ सुरासुरनराधीश, मयूरनववारिदं ॥ कर्म  
 हून्मू लनेहस्ति, मल्ल मल्लिमज्जिष्टुमः ॥ २१ ॥ जगन्महामोहनिद्रा,  
 प्रत्यूषसमयोपमं ॥ मुनिसुव्रतनाथस्य, देशनावचनं स्तुमः ॥ २२ ॥  
 जुवतो नमतां मूर्द्धि, निर्मलीकारकारिणं ॥ वारिष्ठवाइव नमेः,  
 पांतु पादनखांशवः ॥ २३ ॥ यद्दवंश समुद्धं, कर्मकक्षुताश-  
 नः ॥ अरिष्टनेमिर्जगवान्, भूयाद्वोऽरिष्टनाशनः ॥ २४ ॥ कमठे  
 धरणीवे च, स्वोचित कर्म कुर्वति ॥ प्रभुस्तुल्यम नोवृत्ति, पार्श्व  
 नाथः श्रियेऽस्तु वः ॥ २५ ॥ श्री मते वीरनाथाय, सनाथायाद्भुत-  
 श्रिया ॥ महानं दसरोराज, मरालायाहृते नमः ॥ २६ ॥ कृता

सति सकलाण, विगय तमा विहुअरया ॥ अजि उतम तेअ  
 गुणहिं महामुणि, अमिअ वजा विकल कुला ॥ पणामामि ते  
 नवन्नय मूराण, जग सरणा मम सरण ॥ १३ ॥ चित्तलेहा ॥ देव  
 दाणाविंद वंदं सूरवद हठ तुठ जिठ परम, लठ रूव धंत रूप पट्ट  
 सेअ सुअ निअ धवल ॥ दंतपति सति सति किन्ति मुत्ति जूत्ति  
 गुत्ति पवर, दित्त तेअ वंदधेअ सबलोअ जाविअ प्पजावणे अ  
 पइसमे समाहि ॥ १४ ॥ नारायण ॥ विमल ससिकलाइरे अ सो  
 म, वित्तिमिर सूर कराइरे अ तेअ ॥ तिअसवइ गणाइरे अ रूवं,  
 धराणिधर प्पवराइरे अ सार ॥ १५ ॥ कुसुमलया ॥ सत्ते अ सया  
 अजिअ, सारीरे अ वजे अजिअ ॥ तव संजमेअ अजिअ, एस  
 थुणामि जिणं अजिअ ॥ १६ ॥ जुअगपरिरिगिअ ॥ सोमगुणेहिं  
 पावइ नतं नवसरय सती, ते अ गुणेहिं पावइ नत नवसरयरवी ॥  
 रूवगुणेहिं पावइ नत तिअस गणवइ, सारगुणेहिं पावइ नतं धर  
 णिधरवइ ॥ १७ ॥ खिज्जिअय ॥ तिअवर पवत्तय तमरयरहिअं,  
 धीरजणा थुअच्चिअ चुअ कलिकलुसं ॥ सतिसुहप्पवत्तयं तिगरण  
 पयणं, सतिमहमहा मुणि सरण मुवण मे ॥ १८ ॥ जलिअयं ॥  
 विणणय सिररइ अजलि, रिसिगण सथुअं धिमिअ ॥ विवुहाहि व  
 धाणवइ नरवइ, थुअ महिअच्चिअं वहु सो ॥ अइ रुगय सरय  
 दिवायर, समहिअ सप्पज तवसा ॥ गयणगण वियरण समुइअ,  
 चारणा वदिअं सिरसा ॥ १९ ॥ किसलयमाला ॥ असुर गरुल  
 परि वदिअ, किन्नरोरगन मंसिअ ॥ देव कोडिसयसंधुअं, समण  
 सधपरिवदिअ ॥ २० ॥ सुमुह ॥ अजय अणह अरयं अरुयं  
 अजिअ अजिअ पयणं पणामे ॥ २१ ॥ विज्जुविलसिअं ॥ आग  
 यावर विमाण, दिव कणग रह तुरय पहकर सएहिं हुजिअं ॥  
 सत्तन्नमो अरण ख्वुजिअ, लुजिअ चल कुमल गय तिरीन सोह  
 मज्जलिमाला ॥ २२ ॥ वेड्डणं ॥ ज सुरसंवा सासुर सधा वेर

विठ्ठा नति सुजुत्ता, आयर भूसिञ्च संनमपिंमिञ्च सुवुसु वि-  
 ह्निञ्च सव्वलोया ॥ ऊत्तम कचण रयण परूविञ्च नासुर भूसण  
 नासुरिञ्चगा, गाय समोणय नत्तिवसा गय पंजलिपेसियसीस पणा  
 मा ॥ २३ ॥ रयणमाला ॥ वदिऊणयोऊणतो जिणं, तिगुणमेवय  
 पुणोपयाहिणं ॥ पणमिऊणय जिण सुरासुरा, पमुइञ्चा सन्नव  
 णाइतो गया ॥ २४ ॥ खित्तयं ॥ तं महामुणिमहपि पंजलि, राग  
 दोस नय मोह वंङ्किञ्च ॥ देवदाणाव नरिड वदिञ्चं, सति मुत्तम  
 महातव नमे ॥ २५ ॥ खित्तयं ॥ थंवरतरविञ्चारणिञ्चाहि, ललि  
 थहस बहुगामिणिञ्चाहि ॥ पीण सोणिथण सालिणिञ्चाहिं, स  
 कल कमल दललोञ्चणिञ्चाहि ॥ २६ ॥ दीवय ॥ पीण निरतर  
 थणनरविणमिय गायलयाहि, मणिकंचण पसिडिलमेहल सोहि  
 ञ्चसोणि तडाहिं ॥ वरखिखिणिनेउर सतिलय वलय विभूसणि  
 याहि, रइकर चउर मणोहर सुंदर दसणिञ्चाहि ॥ २७ ॥ चित्तक  
 रा ॥ देवसुदरीहि पाय वदिञ्चाहि वंदिञ्चाय जस्स ते सुविक्रमाकमा  
 ञ्चप्पणो निमालएहि मणोफूणप्पगारएहि केहि केहि वी ञ्चवंग  
 तिलय पत्तलेह नामएहि चिडएहि संगय गयाहि नत्ति सन्निविठ  
 वदणागयाहि हुत्ति ते वदिञ्चा पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नारायण ॥ तम  
 ह जिणचद, अजिञ्चं जिञ्चमोहं ॥ धुञ्चसव्वकिलेस, पयण पण  
 मामि ॥ २९ ॥ नंदिञ्चय ॥ थुञ्चवदिञ्चस्सा रिसिगण देवगणेहिं,  
 तो देव बहुहि पयण पणमिञ्चस्सा ॥ जस्स जगुत्तमसासणथस्सा,  
 नत्तिवसा गयपिंमिञ्चञ्चाहि ॥ देव वरउरसा बहुञ्चाहि, सुरवर  
 रइगुण पंमिञ्चञ्चाहि ॥ ३० ॥ नासुरयं ॥ वस सद तंति ताल मे  
 लिए तिउस्कराजिराम सद मीस एकएञ्च, सुइसमाणणेञ्च सुइ  
 सङ्गगीथ पाय जालवंदि आहि ॥ वलय मेहला कलावनेउराभि  
 राम सद मीसए कए थ देवन दिञ्चाहिं ॥ हाव नाव विप्रम प्प-  
 गारेएहिं नच्चिउणथग्द्वारएहि वदिञ्चाय जस्स ते सविक्रमाकमा ॥

तयतिलोश्च सव्व सत्त संतिकारय पसत सव्व पाव दोश मेसहं न  
 मामि सतिमुत्तम जिण ॥ ३१ ॥ नारायणं ॥ उत्त चामर पडाग  
 जूअ जव ममिथ्या, जयवर मगर तुरय सिरि वट्ट सुलंठणा ॥  
 दीवसमुह मदरदिसाग यसोहिथ्या, सच्चिअवसहसी हरहचक्करं  
 किया ॥ ३२ ॥ जलिअय ॥ सहावलठा समप्पइठा, अदोस ड्ढा  
 गुणेहि जिठा ॥ पसायसिठा तवेण पुठा, सिरीइ इठा रिसीहि जु-  
 ठा ॥ ३३ ॥ वाणवासिथ्या ॥ ते तवेण धुअसव्वपावया, सबलो  
 अहिथ मूल पावया ॥ सधुआथजिअसति पायया, हुतु मे सिव  
 सुहाणदायया ॥ ३४ ॥ अंपरातिका ॥ एव तव वल विठल, थुअ  
 मए अजिअ सति जिणजुअल ॥ ववगय कम्म रयमज, गइगय  
 सासयं विठल ॥ ३५ ॥ गाहा ॥ त बहुगुणप्पसाय, मुक्क सुहेण  
 परमेण अविसाय ॥ नासेठ मेविसायं, कुणउथ्य परिसाविअ प-  
 साय ॥ ३६ ॥ गाहा ॥ त मोएउ थनदि, पावेउथ्य नदिसेणमज्जि-  
 नदि ॥ परिसा विय सुहनदि, मम य दिसठ सजमेनदि ॥ ३७ ॥  
 गाहा ॥ पक्किअ चाउम्मासे, सबउरिए अक्खस जणिअव्वो ॥  
 सोअव्वो सव्वेहि, उवसग्ग निरवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो पढइ  
 जोय निसुणइ, उन्नं कालपि अजिअ सतियय ॥ न हु हुति  
 तस्स रोगा, पुव्वुप्पन्ना विनासति ॥ ३९ ॥ जइ इठह परम पय,  
 अहवा किंनि सुविउड भुवणे ॥ ताते लुकुअरणो, जिणवयणे आ-  
 यर कुणह ॥ ४० ॥ गाहा ॥ इति श्री अजितशातिस्तवन ॥ ५३ ॥  
 ॥ अथ महोटी शाति ॥

॥ नो नो नव्या शृणुत वचन प्रस्तुतं सर्वमेतत्, येयात्रा-  
 या त्रिभुवनगुरोररार्हता नक्तिनाज ॥ तेषा शातिर्नवतु नवताम-  
 हंदादिप्रजावा, दारोग्यश्रीधृतिमातिकरी क्लेशविध्वसहेतु. ॥ १ ॥  
 नो नो भव्यलोका इह हि नरतैरावतविदेह सन्नवाना समस्त-  
 जन्मन्यासनप्रकं पानतरमवधिना विज्ञाय ॥ सौधर्मा

धिपतिः सुधोषा घटा चालनानंतरं ॥ सकलसुरासुरेभ्यः सह समा-  
गत्य ॥ सविनयमर्हद्भट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनकाद्रिशृंगे ॥ वि-  
हितजन्मान्निपेकःशातिमुद्घोषयति ॥ यथा ततोह कृतानुकारमि-  
तिकृत्वा ॥ महाजनो येन गतः संधा ॥ इति नव्यजनैः सह  
समेत्य स्नात्रपीठे स्नात्र विधाय ॥ शातिमुद्घोषयामि ॥ तत्पू-  
जायात्रास्नात्रादि महोत्सवानंतरमिति कृत्वा ॥ कर्णं दत्वा निश-  
म्यतां निशम्यता स्वाहा ॥ ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयतां प्रीयतां  
जगवतोर्हतः सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनस्त्रिलोकनाथा स्त्रिलोकमहिता  
स्त्रिलोकपूज्या स्त्रिलोकेश्वरा स्त्रिलोकोद्योतकराः ॥ ॐ रूपज्ञ,  
अजित, संजव, अजिनदन, सुमति, पद्मप्रज्ञ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रज्ञ  
सुविधि, शीतल, श्रेयास, वासुपूज्य, विमल, अनत, यर्म, शाति,  
कुथु, अर मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्श्व, वर्धमानांताः  
जिनाःशांताः शातिकरा जवंतु स्वाहा ॥ ॐ मुनयो मुनिप्रवरा  
रिपुविजयञ्जर्निह क्रातारेषु छर्गमार्गेषु रक्षंतु वो नित्यं स्वाहा ॥  
ॐ ह्रीं श्रीं धृति, मति, कीर्त्ति, काति, बुद्धि, लक्ष्मी, मेधा, विद्या,  
साधन, प्रवेश, निवेश नेषु ॥ सुगृहीतनामानो जयंतु ते जिनंद्रा  
जुरोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रशृखला, वज्राकुशी, अप्रतिचक्रा, पुरुषदत्ता,  
काली, महाकाली, गौरी, गांधारी, सर्वास्त्रामहाज्वाला, मानवी,  
वैरोद्या, अञ्जना, मानसी, महामानसी, पौमश विद्या देव्यो  
रक्षतु वो नित्यं स्वाहा ॥ ॐ आचार्योपाध्यायप्रज्ञतिचातुर्वर्ण्यस्य ॥  
श्री श्रमणसंधस्य शातिर्जवतु तुष्टिर्जवतु पुष्टिर्जवतु ॥ ॐ ग्रहा-  
श्वंडसूर्यागारकबुधबृहस्पतिशुक्रशनिश्ररराहुकेतुसहिताः सलोक  
पाला सोम यम वरुणकुबेर वासवादित्यस्कंद विनायको पेटा.  
येचान्येपि ग्रामनगरक्षेत्रदेवतादयस्ते सर्वे प्रीयतां प्रीयतां ॥ अ-  
क्षीणकोशकोष्ठागारा नरपतयश्च जवतु स्वाहा ॥ ॐ पुत्र, मित्र,  
भ्रातृ, कलत्र, सुदृढ, स्वजन, सवधि, वधवर्ग महिताः ॥ ॐ

चामोदप्रमोदकारिण अस्मिंश्च भूममलायतन निवासी साधु साध्वी  
 श्रावक श्राविकाणा रोगोपसर्ग व्याधि ह्र स्व छर्निहृदौर्मनस्योपश  
 मनाय शांतिर्भवतु ॥ ॐ तुष्टि, पुष्टि, कृष्टि, वृष्टि, मांगल्योत्सवा ॥  
 सदा प्राड्भूतानि पापानि शाम्यतु छरितानि ॥ शत्रव. पराङ्मुखा  
 भवतु स्वाहा ॥ श्रीमते शातिनाथाय, नम शातिविधायिने ॥  
 त्रैलोक्यस्यामराधीश, मुकुटाभ्यर्चिताग्रये ॥ १ ॥ शाति. शांतिकर  
 श्रीमान्, शांति दिशतु मे गुरु. ॥ शांतिरेव सदा तेषा, येषां शाति  
 गृहे गृहे ॥ २ ॥ उन्मृष्ट रिष्ट छष्ट, ग्रहगति ह्र. स्वप्न छर्निमिच्छादि ॥  
 सपादितहित, सप न्नामग्रहण, जयति शाते ॥ ३ ॥ श्रीसंघजग  
 ज्ञानपद, राजाधिपराजसन्नि वेशाना ॥ गोष्टिकपुरमुख्याना,  
 व्याहरणैर्व्याह रञ्जाति ॥ ४ ॥ श्री श्रमणसघस्य शातिर्भवतु ॥  
 श्री जनपदाना शातिर्भवतु ॥ श्री राजाधिपाना शातिर्भवतु ॥  
 श्री राजसन्निवेशाना शातिर्भवतु ॥ श्री गोष्टिकाना शातिर्भवतु ॥  
 श्री पौरमुख्याना शातिर्भवतु ॥ श्री पौरजनस्य शातिर्भवतु श्री  
 ब्रह्मलोकस्य शातिर्भवतु ॥ ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ श्री पार्श्वनाथा  
 य स्वाहा ॥ एषा शाति प्रतिष्ठा यात्रास्नात्राद्यवसानेषु ॥ शाति  
 कलश गृहीत्वा, कुकुम चदन कर्पूरागरु धूप वास कुसुमाजलिस-  
 मेत स्नात्रचतुष्टिकाया श्री सघसमेत शुचिशुचिवपु. पुष्पव-  
 स्रचंदनाञ्जरणालरुत पुष्पमाला कठे कृत्वा शातिमुद्योपयित्वा ॥  
 शातिपानीय मस्तके दातव्यमिति ॥ नृत्यति नृत्य मणिपुष्पवर्ष,  
 सृजति गार्पति च मगलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठति मंत्रान,  
 कल्याणान्नाजो हि जिनाज्ञिपेके ॥ १ ॥ शिवमस्तु सर्वजगत,  
 परहितनिरता नवतु चूतगणा ॥ दोषा प्रयातु नाश, सर्वत्र  
 सुखीभवतु लोका ॥ २ ॥ अह तिद्ययरमाया शिवादेवी तुम्हनयर  
 निवासिनी ॥ अम्हेशिव तुम्ह शिव अशियोपशम शिव नवतु  
 न्वाहा ॥ ३ ॥ उपसर्गा दय याति, त्रिद्यते विघ्नवल्लय. ॥ मन,

प्रसन्नातामेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे ॥ ४ ॥ सर्वं मंगलमंगल्यं, सर्वं  
कल्याणकारणं ॥ प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं ॥ ५ ॥  
इति बृहद्वाति स्तवः ॥ ५४ ॥

### ॥ अथ संतिकरस्तवन ॥

॥ सतिकरं सतिजिणं, जगसरणं जयसिरीइ दायारं ॥ स-  
मरामि नत्त पालग, निवाणी गरुडकय सेव ॥ १ ॥ ॐ सनमो  
विष्णोसहि पत्ताण संति सामिपायाण इणो स्वाहा मंतेणं, सवा  
सिव डरिअहरणाण ॥ २ ॥ ॐ संति नमुक्कारो, खेलोसहि माइ  
लद्धि पत्ताणं ॥ सो इण्णी नमो सवो, सहि पत्ताण च देइसिरीं ॥ ३ ॥  
वाणी तिहुअण सामिणि, सिरिदेवी जस्कराय गणिपिमगा ॥ गह  
दिसिपाज्ज सुरिंदा, सयावि रक्कंतु जिणजत्ते ॥ ४ ॥ रक्कंतु मम  
रोहिणी, पन्नत्ती वज्जसिख लाय सया ॥ वज्जकुसि चक्केसरि, नर-  
दत्ता कालि महाकाली ॥ ५ ॥ गोरी तह गंधारी, महजाला  
माणथीअ वइरुट्टा ॥ अत्तुत्ता माणसिआ, महा माणसिआज  
देवीत्त ॥ ६ ॥ जस्का गोमुह मह जस्क, तिमुह जस्केसु तुंवरु कु-  
सुमो ॥ मायग विजय अजिआ, वज्जो मणुत्त सुरकुमारो ॥ ७ ॥  
वम्मुह पयाल किन्नर, गरुलो गंधव तहय जस्किदो ॥ कुवेर वरुणो  
निठ्ठी, गोमेहो पासमायंगो ॥ ८ ॥ देवीत्त चक्केसरि, अजिआ  
डरि आरी कालि महाकाली ॥ अच्चुआ सता जाला, सुतारया-  
सोअ सिरिवत्ता ॥ ९ ॥ चम्मा विजयकुसिप, न्नात्ति निवाणि अच्चुआ  
धरणी ॥ वइरुट्टवत्तगधा, रि अंब पत्तमवाई सिद्धा ॥ १० ॥ इअ-  
त्तिव रक्कण रया, अत्तेवि सुरासुरी चत्तहावि ॥ वंतर जोइणी  
पमुहा, कुणंतुरक्कंसयाअम्हं ॥ ११ ॥ एवं सुदिठि सुरगण, सहित्त  
संयत्तसति जिण चंदो ॥ मज्जवि करेत्तरक्कं, मुणिसुदरसूरिधुअम  
हिमा ॥ १२ ॥ इअसतिनाहसम्म, दिठि रक्क सरइ ति कालंजो ॥  
सवोवदव रहित्त, स लहइ सुहसंपयं परम ॥ १३ ॥ तवगत्तगयण-

दिणायर, जुगवर सिरि सोमसुदरगुरुण ॥ सुपसाय लङ्गणहर,  
विद्या सिद्धिजनइसीसो ॥ १४ ॥ इति सतिकर स्तवनम् ॥५५॥

### ॥ अथ श्रीपादिकादिअतिचार ॥

॥ नाणामि दसणमिअ, चरणामि तवमि तहय विरियमि ॥  
आयरण आयारो, इय एसो पचहा जणित्त ॥ १ ॥ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार ॥ ए पंचविध आचारमाहि अनेरो जे कोइ अतिचार पढ्ठ दिवसमाहि सूक्ष्म वादर जाणता अजाणता हुत्त होय, ते शवि हुं मने, वचने, कायाये करी तस्त मित्रामि उक्कडं ॥ १ ॥

तत्र ज्ञानाचारे आठ अतिचार ॥ कालेविणए बहुमाणे, उवहाणे तहप निन्हवणे ॥ वजण अत्ततत्तए, अठविहो नाणमायारो ॥ १ ॥ ज्ञान काल वेलाये जण्यो गुण्यो नहीं. अकाले भण्यो, विनयहीन, बहुमानहीन, योगउपधान हीन, अनेराकन्हें जणी अनेरो गुरू कह्यो देव गुरू वादणे, पडिक्कमणे, सञ्जाय करता जणता, गुणता कूडो अत्तर कानो मात्रायें अधिको उठो जण्यो, सूत्र कूडु कहु अर्थ कूमो कह्यो तत्तजय कूडा कहां जणने विसारया साधु तणे धर्म काजे काजो अणउत्तरये मामो अणपडिलेहे, वसतिअणशोधे, अणपवेसे, असजाइ, अणोजाइ, माहे श्री दशवैकालिकप्रमुख सिद्धांत जण्यो गुण्यो, श्रावकतणे धर्म अविरावजि, पडिक्कमणा, उपदेशमाला प्रमुख सिद्धांत जण्यो गुण्यो, काल वेला काजो अणउत्तरये पडिग्गे ज्ञानोपगरण, पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नोकरवाजी, सापमा, सापमी, दस्तरी, वही, उलिया प्रमुख प्रत्ये पग लाग्यो थूरु लाग्यु थूके करी अत्तर माज्यो उंशीसे धरयो कनेठता आहार निहार कीधो ज्ञानज्य नकृता उपेक्षा कीधी प्रज्ञापराधे विणसतो विणशयो विणसतो उवेख्यो ठती शक्तिये सार सजाल न कीधी ज्ञानवत-



प्रत्ये द्वेष, मत्सर चिंतव्यो. अवज्ञा आशातना कीधी कोइप्रत्ये जणातां, गणाता अंतराय कीधो आपणा जाणपणा तणो गर्व चितव्यो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यवज्ञान, केवल ज्ञान, ए पंचविधज्ञान तणी असद्वहणा कीधी कोइ तोतमो बोवडो हस्यो वितर्क्यो, अन्यथा प्ररूपणा कीधी ॥ ज्ञानाचारव्रत विपश्ये अनेरो जे कोइ अतिचार पक्क दिवस ॥ १ ॥

दर्शनाचारे आठ अतिचार ॥ निस्संकिय निकखिय, निवितितिगिन्ना अमूढदिठीथ ॥ उववूह थिरीकरणो, वज्जल पनावणे अठ ॥ १ ॥ देव गुरू धर्म तणेविपे नि.शंकपणु न कीधु तथा एकात निश्चय न कीयो, धर्म सवधीया फल तणे विपे नि.संदेह बुद्धि धरी नहीं साधु साधवीनां मल मलिन गात्र देखी डगढा निपजावी. कुचारित्रीया देखी चारित्रीया उपर अजावहुज मिथ्यात्वी तणी पूजा प्रनावना देखी मूढदृष्टिपणुकीधु तथा संघमाहे गुणवत तणी अनुपवृहणा कीधी, अस्थिरीकरण, अवात्सल्य, अप्रीति, अजक्ति निपजावी अवहुमान कीधुं तथा देवद्वय, गुरुद्वय, ज्ञानद्वय, साधारणद्वय, ज्ञात उपेक्षित प्रज्ञापराधे विणाश्या विणासता उवेख्या ठती शक्तिये सार संजाल न कीधी. तथा साधर्मिक साधे कलह कर्मबंध कीधो अधोती, अपृष्ट मुखकोश पाखेदेवपूजा कीधी विवप्रत्ये वासकूपी, धूपधाणु, कलशतणो ठवको लाग्यो विव हाथकी पाड्यु. उसास नि.सास लाग्यो. देहरे, उपासरे, मलश्लेष्मादिक लोह्युं. देहरामाहे हास्य, खेज, केजि, कुतूहल, आहार निहार कीधां पान, सोपारी, निवेदीआं खाधा ठवणहारी हाथकी पानी. पमिलेह्युं विसारधु जिनचुवने चोराशी आशातना, गुरु गुरुणी प्रत्ये तेत्रीश आशातना कीधी होय गुरुवचन तहत्ति करी पमिवज्युं नहीं ॥ दर्शनाचारव्रत विपश्यो अनेरो जे कोइ अतिचार पक्क दिवस ॥१॥

चारित्राचारे थाठ अतिचार ॥ पाणिहाण जोगजुतो, पचहिं  
 समिईहि तिहि गुत्तिहि ॥ एस चरिन्नायारो, अठविहो होइ नायवो  
 ॥ १ ॥ ईर्या समिति ते अणजोए हिंम्या. ज्ञापा समिति ते सा  
 वद्य वचन बोळ्या एपणा समिति ते तृण, मगल, अन्न पाणी  
 असूजतु बीधु थादाननममत्त निस्केवणा समिति ते आसन,  
 शयन, उपकरण मातरु प्रमुख अणपूजी जीवाकुल भूमिकायें  
 मूक्षु जीधु पारिष्ठापनिका समिति ते मलमूत्रश्लेष्मादिक अण  
 पूजी जीवाकुल भूमिकायें परठव्यु मनोगुत्ति, मनमां आर्न  
 रौद्ध्यान ध्याया वचनगुत्ति, सावद्य वचन बोळ्या कायगुत्ति  
 शरीर अणपडिलेत्तुं हलाव्यु अणपूजे वेठा. ए अष्टप्रवचन  
 माता ते, सदैव साधुतणे धमें अने आचकतणे धमें, सामायिक  
 पोसह लीधे, रूडीपेरें पाल्या नहीं खडणा विराधना हुइ ॥ चा  
 रित्राचार व्रत विपश्च अनेरो जे कोइ अतिचार पद्द दिवसमाहीं  
 सूक्ष्म वादर जाणता अजाणता हुत्त होय, ते सवि हु मने वचनें  
 कायार्थेंकरी तस्त मिठामि डक्कम ॥ ३ ॥

विशेषत आचकतणे धमें श्रीसम्यक्त्व मूल वारव्रत, सम्य-  
 क्त्व तणा पाच अतिचार ॥ शंकाकखविगिठ्ठा ० ॥ शका श्रीअ-  
 रिहंततणा वल, अतिशय, ज्ञानलक्ष्मी, गात्रीर्यादिक गुण, शा-  
 श्वती प्रतिमा, चारित्र्याना चारित्र, श्रीजिनवचन तणो सदेह  
 कीधो ॥ आकांक्षा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, क्षेत्रपाल, गोगो,  
 आसपाल, पादरदेवता, गोत्रदेवता, ग्रहपूजा, विनायक, हनुमत  
 सुग्रीव, वाली, नाह, इत्येवमादिकदेश, नगर, गाम, गोत्र, नगरी,  
 जूजूआदेव, देहराना प्रजावदेखी रोग आतक कष्ट आवे इह  
 लोक परलोकार्थें पूज्या मान्या सिद्धविनायक जीराठजाने  
 मान्यु इठ्यु वौद्ध, सारव्यादिक सन्यासी, जरडा, नगत, लिंगिया,  
 जोगीया, जोगी, दरवेश, अनेरा दर्शनीयातणो कष्ट, मत्र, चम-

त्कार देखी परमार्थ जाण्याविना नूलाव्या, मोहिया. कुशाख  
 शीखायां, सांजल्या, आश्र, संवहरी, होलि, वखेव, माहिपूनम,  
 अजापडवो, प्रेतवीज, गौरीत्राज, विनायकचोथ, नागपांचमी,  
 जिजणा ठी, शीलसातमी, ध्रुवआठमी, नौली नौमी, अहवा  
 दशमी, व्रतअग्यारशी, वज्रवारशी, धनतेरशी, अनंतचउदशी,  
 अमावास्या, आदित्यवार, उत्तरायण, नैवेद्यकीधां. नवोदक, याग,  
 जोग, उतारणांकीधां कराव्यां, अनुमोद्यां. पिपलेपाणी घाल्यां,  
 घलाव्या घरवाहिरक्षेत्र, खले, कूवे, तलावे, नदीये, ड्हे, वाविये,  
 समुडे, कुमे, पुण्यहेतुस्नान कीधां, कराव्यां, अनुमोद्या, दानदीधां.  
 ग्रहणा, शनिश्वर, माहमासे नवरात्री, नाहायां. अजाणना धाप्यां  
 अनेराइ व्रत व्रतोलं कीधां; कराव्यां ॥ वितिगिज्जा धर्म संबंधीआं  
 फल तणे विपे सदेहे कीधो. जिन अरिहत धर्मना आगर, वि-  
 श्वोपकार सागर, मोक्षमार्गना दातार, इस्या गुणजणी न मान्या,  
 न पूज्या. महासती, माहात्मानां इह लोक परलोक संबंधीया  
 जोग वाठित पूजा कीधी. रोग, आतक कष्ट आवे खीण वचन  
 जोग मान्या. माहात्मानां जात, पाणी, मल शोभा तणी निदा  
 कीधी. कुचारित्रिया देखी, चारित्रिया उपर कुनाव हुज. मिथ्या-  
 त्वी तणी पूजा प्रजावना देखी प्रशंसा कीधी. प्रीति मांमी. दा-  
 क्षिण्य लगे तेहनो धर्म मान्यो, कीधो ॥ श्री सम्यक्त्वव्रत विपयिन  
 अनेरो जे कोइ अति चार, पढ दिवसमाहिण ॥ १ ॥

पहेले स्थूलप्राणातिपात विरमणाव्रते पाच अतिचार ॥  
 वहबंधविद्येण ॥ द्विपद चतुष्पद प्रत्ये रीशवशे गाढो घाव  
 घाड्यो. गाढे बंधने वाध्यो. अधिक चार घाड्यो. निर्लाठिन कर्म  
 कीधा चारापाणो तणी वेलाये सार संजाल न कीधी लेहणे  
 देणे किणाहि प्रत्ये जंवाव्यो. तेणे नूखे आपण जम्या. कन्हे रही  
 मराव्यो. बंधीखाने घलाव्यो. इ. लया धान्य तावमे नाख्यां, दला-

मूर्त्ता लगे संक्षेप न कीथो. माता, पिता, पुत्र, स्त्रीतणे लेखे कीथो. परिग्रह परमाण लीधुं नहीं, लेइने पढिउं नहीं. पढवु विसारयुं. अलीधुं मेळ्युं नियम विसारया ॥ पांचमे परिग्रह परिमाणव्रत विपयिउं अनेरो जे कोइ अतिचार पद्द दिवसमांहि ॥ ५ ॥

ठठे दिग्परिमाणव्रते पांच अतिचार ॥ गमणास्सय परिमाणे ॥ ऊर्ध्वदिशि, अधोदिशि, तियग्दिशिजे जावा आववात्तणा नियम लेइ जांग्या अनानोगे विस्मृत लगे अधिक भूमि गया. पाठवणी आधी पाठी मोकली वहाणा व्यवसाय कीथो वर्षाकाले गामतरु कीधु भूमिका एरुगमा सखेपी, बीजीगमा वधारी ॥ ठठे दिग्परिमाणव्रतविपयिउं अनेरो जे कोइ अतिचार पद्द दिवसमांहि ॥ ६ ॥

सातमे जोगोपजोग विरमणा व्रते जोजन आ श्री पांच अतिचार अने कर्म हुती पंदर अतिचार एव वीश अतिचार ॥ सचित्ते पम्बिबडे ॥ सचित्त नियम लीधे, अधिक सचित्त लीधुं ॥ अपकाहार, डपकाहार, तुडोपाधि तणु नदण कीधु उला, उबी, पोरु, पापनी खाया ॥ सच्चित्त दवविगइ, वाणाह तंबोल वड कुसुमेसु ॥ वाहण सयण विलेवण, वंनदिसि न्हाण नत्तेसु ॥ १ ॥ ए चवद नियम दिनगत रात्रिगत लीधा नहीं. लेइन जाग्या वावीश अचक्ष्य, बत्रीश अनंत कायमांहि आड, मूला, गाजर, पिंन, पिमालू, कचूरो, सूरण, कुलि, आंबली, गलो, बाघरडां खा रा वाशी कवोल, पोली, रोटलो, त्रण दिवसनं उंदन लीधुं मधु, महुडा, माखण, माटी, वेगण, पीलु, पीचु, पपोटा, विप, हिम, करहा, घोलवडा, अजाण्या फल टिवरु, गुंदा, महोर, अथाणं, आम्वलबोर, कचु मीवु, कोठिवडा  
रात्रि जोजन कीधा लगन  
शीराव्यां. तथा कर्मत. प

कोठिवडा  
दिवस वि-

वणकम्मे, साडिकम्मे, नाडिकम्मे, फोडिकम्मे, ए पांचकर्म ॥  
 दंतवाणिजे, लस्कवाणिजे, रसवाणिजे, केसवाणिजे, विसवा-  
 णिजे, ए पांच वाणिज्य ॥ जतपिल्लणकम्मे, निल्लंछणकम्मे, द-  
 वग्गि दावणाया, सरदह तलाय सासणया, अ्सइ पोसणाया, ए  
 पांच सामान्य ॥ ए पांच कर्म, पांचवाणिज्य, पांच सामान्य, एवं  
 पन्नर कर्मादान बहुसावद्य, महारंज, रांगण, लीहाला, कराव्या.  
 इंट, निजाडा पचाव्यां धाणी, चणा, पक्कान्न करी वेच्यां. वाशी  
 मांखण तवाव्यां. तिल वोहोरया. फागणमास उपरांत राख्या  
 दलीदो कीधो अंगीठा कराव्या श्वान, विलामा, गूमा, सालहि,  
 पोशया अनरा जे कांइ बहु सावद्य खरकर्मादिक समाचरथा. वा-  
 शी गार राखी लीपणे, धूपणे, महारंज कीधो. अणशोध्या चूला  
 संधुक्या घी, तेल, गोल, ठाशतणां जाजन उघाडां मूक्यां. तेमांहि  
 माखी, कुत्ति, उंदर, धीरोली पमी कीमी चमी, तेनी जयणा न  
 कीधी ॥ सातमे जोगोपजोग विरमणव्रत विपयिनु अनेरो जे  
 कोइ अतिचार पक्क दिवसमांहि ॥ ७ ॥

आठमे अनर्थदंम विरमणव्रते पांच अतिचार ॥ कंदप्पे  
 कुकुइए० ॥ कंदर्पलगे विटचेष्टा, हास्य, खेल, कुतूहल कीधा.  
 पुरुष स्त्रीना हाव जाव, रूप, गृगार, विपयरस वखाण्या. राज  
 कथा, जक्तकथा, देशकथा, स्त्रीकथा कीधी. पराइ तांत कीधी तथा  
 पेशुन्यपणुं कीधुं आर्त्तरीइ ध्यान ध्यायां. खांमां, कटार, कोश, कु-  
 हाडा, रथ, उखल, मुशल, अग्नि घरटी, निसाह, दातरडां, प्र-  
 मुख अधिकरण मेली दाक्षिणलगे माग्यां आप्यां. पापोपदेश  
 दीधो. अष्टमी, चतुर्दशीये खांमवा दलवातणा नियम जांग्या  
 मूरखपणा लगे असबंध वाक्य बोल्या प्रमादाचरण सेव्यां अंधोले  
 नाहणे, दातणे, पग धोथणे, खेलपाणि, तेल ठाव्या. जीलणे  
 जील्या. जुवटे रम्या हिचोले हिच्या नाटक प्रेक्षणाक जोयां.

गुण मनहर ॥ निर्जरावली नमे अहनिश ॥ नमो० ॥३॥ पुंमरीक  
 गणपति सिद्धि साधी, कोडि पण मुनि मनहरं ॥ श्री विमल गि  
 रिवर गृग सिद्धा ॥ नमो० ॥४॥ निज साध्य साधन सुर मुनिवर,  
 कोडि नत ए गिरिवर ॥ मुक्ति रमणी वर्या रगे ॥ नमो० ॥ ५॥  
 पाताल नर सुरलोक माही, विमल गिरिवर तोपर ॥ नहि अधिक  
 तीरथ तीर्थपति कहे ॥ नमो० ॥६॥ इम विमल गिरिवर शिखर  
 मंमण, डुख विहमण ध्याईये ॥ निज शुद्ध सत्ता साधनार्थ, परम  
 ज्योतिने पाइये ॥ ७ ॥ जित मोह कोह विठोह निझा, परमपद  
 स्थित जयकर ॥ गिरिराज सेवाकरण तत्पर, पद्मविजय सुहित  
 करं ॥ ८ ॥ इति ॥ ७३ ॥

॥ अथ सिद्धाचलनुं चोथु चैत्यवंदन ॥

॥ श्रीशत्रुजय सिद्धखेत्र, दीठे डर्गति वारे ॥ नाव धरीते  
 जे चढे, तेने नवपार उतारे ॥१॥ अनत सिद्धनो एह ठाम, सकल  
 तीरथनो राय ॥ पूर्व नवाणु रिखनदेव, ज्या ठविआ प्रभुपाय  
 ॥२॥ सूरजकुम सोहामणो, कविम जद्ध अजिराम ॥ नाजिराया  
 कुलममणो, जिनवर करु प्रणाम ॥३॥ इति चतुर्थे चैत्ये ॥ ७४ ॥

॥ अथ श्रीपरमात्मानुं पांचमुं चैत्यवंदन ॥

॥ परमेसर परमात्मा, पावन परमिठ ॥ जय जगगुरु देवा  
 धिदेव, नयणे मे दिठ ॥१॥ अचल अकल अविकार सार, करु  
 णारस सिधु ॥ जगती जन आधार एक, नि.कारण बंधु ॥ २ ॥  
 गुण अनत प्रभु ताहारा ए, किमही जाय ॥ राम प्रभु  
 जिन ध्यानथी, चिदानंद थाय ॥ ३ ॥ ॥७५॥

॥ अथ

(३४९)

वीनतडी, प्रेम धरीने एणिपरे तुमे संजलावजो ॥ ए आंकणी  
॥ जे त्रणभुवननो नायक ठे ॥ जस चौसठ इंद्र पायक ठे ॥  
नाण दरिसण जेहने खायक ठे ॥ सुणो० ॥१॥ जेनी कंचनव-  
रणी काया ठे ॥ जस धोरी लंठन पाया ठे ॥ पुंडरीगिणि नग-  
रीनो राया ठे ॥ सुणो० ॥ २ ॥ वार पर्यदा मांहि विराजे ठे ॥  
जस चोत्रीश अतिशय ठाजे ठे ॥ गुण पांत्रीस वाणीए गाजे ठे  
॥ सुणो० ॥३॥ नविजनने ते पम्नि वोहे ठे ॥ तुम अधिक शि-  
तल गुण सोहे ठे ॥ रूप देखी नविजन मोहे ठे ॥ सुणो० ॥४॥  
तुम सेवा करवा रसीतुं ॥ पण नरतमां दूरे वसीतुं ॥ महा-  
मोहराय कर फसीतुं बु ॥ सुणो० ॥५॥ पण साहिवचित्तमां धरीयो  
ठे ॥ तुम आणा खड्ग कर ग्रहीयो ठे ॥ पण काईक मुजथी मरीयो  
ठे ॥ सुणो० ॥ जिन उत्तम पुठ हवे पूरो ॥ कहे पद्मविजय थार्ड  
गूरो ॥ तो वाधे मुज मन अति नुरो ॥ सुणो० ॥७॥ इति ॥

॥ अथ द्वितीय श्री सुबाहुजिनस्तवनं ॥

॥ चतुरसनेही मोहना ॥ ए देशी ॥

॥ स्वामी सुबाहु सुहकरु, भूनंदा नंदन प्यारो रे ॥ निसढ  
नरेसर कुल तिलो, किपुरपानो नरतारो रे ॥ स्वामी० ॥१॥ कपि-  
लंठन नलिना बती, विप्र विजय अजोध्यानाहो रे ॥ रगे मलिये  
तेहश्यु, एह मणुप जनमनो लाहोरे ॥ स्वा० ॥२॥ ते दिन सवि  
एजे गया, जिहां प्रभुशुं गोठ न वाधीरे ॥ जक्ति दूतीकाये मन  
हरयुं, पण वात कही ठे आधीरे ॥ स्वा० ॥३॥ अनुभव मित्र  
जो मोकलो, तो ते सयली वात जणावेरे ॥ पण तेहविण मुऊन  
विसरे, कहोतो पुत्र विचार ते आवेरे ॥ स्वा० ॥ ४ ॥ तेणे ज३  
वात सवे कही, प्रनुमद्वया ते ध्यानने टाणेरे ॥ श्रीनयविजय  
विबुधतणो, इम सेवक सुजसवखाणेरे ॥ स्वा० ॥५॥ इतिस्तवनं । ७ ॥

॥ तृतीय श्रीदेवजसाजिनस्तवनं ॥

॥ महाविदेह क्षेत्र शोहामणुं ॥ ए देशी ॥

॥ देवजशा दरिसण करो, विघटे मोह विजाव लालरे,  
 प्रगटे शुद्धस्वभावता, आनंद ले हरी दाव लालरे ॥ देव० ॥ १ ॥  
 स्वामी वसो पुस्करवरे, जवुनरते दास लालरे ॥ क्षेत्र विचेद  
 वणो परम्यो, केम पोहोचे उल्लास लालरे ॥ देव० ॥ २ ॥ होवत  
 जो तनु पांखडी, तो आवत नाथ हजूर लालरे ॥ जो होवत  
 चित्त थांखडी, देखत नित्यप्रभु नूर लालरे ॥ देव० ॥ ३ ॥ शा-  
 सन नक्त जे सुरवरा, वीनवुं शीश नमाय लालरे ॥ कृपा करो  
 मुज ऊपरे, तो जिनवंदन थाय लालरे ॥ देव० ॥ ४ ॥ पूतुं पूर्व  
 विराधना, शी कीधी एणे जीव लालरे ॥ अविरति मोहटली  
 नहि, दीवे आगम दीव लालरे ॥ देव० ॥ ५ ॥ आतमतस्व स्व-  
 जावने, बोधन शोधन काज लालरे ॥ रत्नत्रयी प्राप्तितणो, हेतु  
 कहो महाराज लालरे ॥ देव० ॥ ६ ॥ तुज सरिखो साहिव मले,  
 ज्ञाने नवन्नमटेव लालरे ॥ पुष्टालंवन प्रभु जही, कोण करे परसेव  
 लालरे ॥ देव० ॥ ७ ॥ दीन दयाल कृपाल तु, नाथ नविक आ-  
 धार लालरे ॥ देवचक्षु जिन सेवना, परमामृत सुखकार लालरे  
 ॥ देव० ॥ ८ ॥ इति ॥

॥ अथ चोथु वीश विहरमाननु स्तवन ॥

॥ राग रामकली ॥ सीमंथर युगमथर बाहु, चोथा स्वामी  
 सुबाहु ॥ जवुद्धीप विदेहे विचरे, केवल कमला नाहुरे ॥ १ ॥  
 नविका विहरमान जिनवदो ॥ आतम पाप निकंदोरे ॥ न० ॥  
 ए आकणी ॥ सुजात स्वयंप्रज रूपनानन, अनतवरिज चित्त  
 धरीये ॥ सुरप्रज श्री विशाल वज्रंधर, चंज्ञानन धातकीयेरे ॥  
 ॥ नवि० ॥ २ ॥ चक्षुवाहु जुजगने ईश्वर, नेमिनाथ वीरसेन ॥



देवजश चञ्जशाजितवीरिय, पुस्करद्वीप प्रसन्नरे ॥ न० ॥ ३ ॥  
 आठमी नवमी चौवीश पचवीशमी, विदेहे विजय जयवता ॥  
 दश लाख केवली सौ कोड साधु, परिवारे गहगहंतारे ॥ न० ॥ ४ ॥  
 धनुख पाचशे उंची सोहे, सोवन वरणी काया ॥ दोप रहित सुर  
 महि महीतल, विचरे पावन पायारे ॥ न० ॥ ५ ॥ चोराशी लाख  
 पूरव जिन जीवित, चोत्रीश अतिशयधारी ॥ समवसरण वेठा प-  
 रमेश्वर, पडिवोहे नर नारीरे ॥ न० ॥ ६ ॥ खिमाविजय जिन करु-  
 णासागर, आप तरघा पर तारे ॥ धर्मनायक शिवमारगदायक,  
 जन्म जरा छुख वारेरे ॥ न० ॥ ७ ॥

॥ अथ श्रीसिद्धाचलजीनुं स्तवन ॥

॥ आंखनीयेरे मे आज, शत्रुजो दीगेरे ॥ सवा लाख ट-  
 कानो दहामोरे, लागे मुने मीगेरे ॥ ए आंकणी ॥ सफल थयो  
 मारा मननो ऊमाहो ॥ वाला मारा ॥ जवनो संशय जाग्योरे ॥  
 नरक तिर्यच गति दूर निवारी, चरणो प्रभुजीने लाग्योरे ॥ शत्रुं०  
 ॥ १ ॥ मानवजवनो जाहो लीधो ॥ वा० ॥ देहमी पावन कीधीरे ॥  
 सोना रूपाने फूजडे वयावी, प्रेमे प्रदक्षिणा दीधीरे ॥ शत्रुं०  
 ॥ २ ॥ डधमे पखाली ने केसर घोली ॥ वा० ॥ श्री आदीश्वर पू-  
 ज्यारे ॥ श्री सिद्धाचल नयणो जोतां, पाप मेवासी ध्रुज्यारे ॥ शत्रुं०  
 ॥ ३ ॥ स्वमुखसुधर्मा सुरपति आगे ॥ वा० ॥ वीरजिणद इम बो-  
 लेरे ॥ त्रणभुवनमा तीरथ मोटुं, नहि कोइ शत्रुंजा तोलेरे ॥ शत्रुं०  
 ॥ ४ ॥ इइ सरिखा ए तीरथनी ॥ वा० ॥ चाकरी चित्तमां चाहेरे ॥  
 कायानी तो कासल टाले, सुरज कुममा नाहेरे ॥ शत्रुं० ॥ ५ ॥  
 कांकरे काकरे श्रीसिद्ध खेत्रे ॥ वा० ॥ साधु अनता सीधारे ॥  
 ते माटे ए तीरथ मोटुं, उद्धार अनता कीधारे ॥ शत्रुं० ॥ ६ ॥ नानि  
 राया सुतनयणो जोता ॥ वा० ॥ मेह अमारिस वूठयारे ॥ षडयरतन  
 कहे आज मारे पोते, श्रीआदीश्वर श्रुठयारे ॥ शत्रुं० ॥ इतिस्तवनं० ॥

(३५२)

॥ अथ षष्ठ श्रीसिद्धाचल स्तवनं ॥

॥ जशोदा मावमी ॥ ए देशी ॥

॥ जात्रा नवाणु करीये विमलगिरि ॥ जात्रा नवाणु करीये  
॥ ए आकणी ॥ पूरव नवाणुवार शेत्रुजगिरि ॥ रिखजजिणंद  
समोसरीये ॥ वि० ॥ १ ॥ कोमि सहस नव पातक जुटे ॥ शेत्रु-  
ज साहामो मग नरीये ॥ वि० ॥ २ ॥ सात ठठ दोय अठम त-  
पस्या, करी चढीये गिरिवरीये ॥ वि० ॥ ३ ॥ पुमरीक पद जपीये  
हरखे, अव्य वसाय गुन वरीये ॥ वि० ॥ ४ ॥ पापी अनव्य न न-  
जरे देखे, हिसक पण उदरीये ॥ वि० ॥ ५ ॥ जुइ सथारो ने नारी  
तणो सग, दूरधकी परिहरीये ॥ वि० ॥ ६ ॥ सचित परिहारीने  
एकल आहारी, गुरु साथे पद चरीये ॥ वि० ॥ ७ ॥ पम्किमणा  
दोय विधिगुं करीये, पाप पमल विखरीये ॥ वि० ॥ ८ ॥ कलिकाले  
ए तीरथ मोहोदु, प्रवहण जिम नव दरीए ॥ वि० ॥ ९ ॥ उत्तम  
ए गिरिवर सेवता, पद्म कहे नव तरीये ॥ विमल० ॥ १० ॥

॥ अथ सप्तम सिद्धाचल स्तवनं ॥

॥ चालो चालोने राज, श्रीसिद्धाचलगिरिये ॥ ए आंकणी ॥  
श्री विमलाचलतीरथ फरसी ॥ आतम पावन करीये ॥ चालो०  
॥ १ ॥ इण गिरिऊपर मुनिवर कोमी, आतम तत्व निपायो ॥  
पूर्णानद सहज अनुनवरस, महानद पद पायो ॥ चालो० ॥ २ ॥  
पुमरिक पमुहा मुनिवर कोमि, सकल विजावे गमायो ॥ जेदा जेद  
तत्व परिणतिथी, ध्यान अजेद उपायो ॥ चालो० ॥ ३ ॥ जिनवर  
गणधर मुनिवर कोमी, ए तीरथ रग राता ॥ शुद्ध शक्ति व्यक्ते  
गुण सिद्धि, त्रिजुवन जनना त्राता ॥ चालो० ॥ ४ ॥ ए गिरि  
फरदये नव्य परीक्षा, उर्गतिनो होय वेद ॥ सम्यक दरिसण नि-  
र्मल कारण, निज आनद अजेद ॥ चालो० ॥ ५ ॥ सवत अढार

चुम्भोत्तरा वरसे, शुद्धि मागाशिर तेरशीये ॥ श्री सूरतथी ऋक्ति  
हरखथी, संघ सहित उल्लसीये ॥ चालो ॥ ६ ॥ कचरा कीका  
जिनवर ऋक्ति, रूपचञ्जलीएइ ॥ श्रीश्रीसंघने प्रनु नेटाव्या,  
जगपति प्रथम जिणंद ॥ चालो ॥ ७ ॥ ज्ञानानंदी त्रिचुवनवदित,  
परमेश्वर गुणनीना ॥ देवचद पद पामे अद्भुत, परम मंगल लय  
लीना ॥ चालो ॥ ८ ॥ इति ॥ ७२ ॥

॥ अथ अष्टम सिद्धाचल स्तवनं ॥

॥ विमलाचल नितु वंदीये, कीजे एहनी सेवा ॥ मानु हाथ  
ए धर्मनो, शिवतरु फल लेवा ॥ वि० ॥ १ ॥ उल्लज्ज जिनगृह  
ममली, तिहा दीपे उत्तंगा ॥ मानु हिमगिरि विभ्रमे, थाइ अ-  
वरगंगा ॥ वि० ॥ २ ॥ कोइ अनेरुं जग नहीं, ए तीरथ तोले ॥  
एम श्रीमुख हरिआगले, श्री सीमंधर बोले ॥ वि० ॥ ३ ॥ जे  
सघलां तीरथ करथा, जात्रा फल लहीये ॥ तेहथी ए गिरि नेटतां,  
शतगणु फल लहीये ॥ वि० ॥ ४ ॥ जनम सफल होय तेहनो, जे  
ए गिरि वंदे ॥ सुजस विजय सपद लहे, ते नर चिर नदे ॥ वि०  
॥ ५ ॥ इति ॥ ७३ ॥

॥ अथ पचतीर्थ थोयो ॥

॥ श्लोक ॥ ॥ श्रीशत्रुंजयमुख्यतीर्थतिलक श्रीना-  
जिराजागज, वदे रैवतशैल मौलिमुकुटं श्रीनेमिनाथं यथा ॥ तारगे  
अजितं जिन नृगुपुरे श्रीसुव्रत स्तनने, श्रीपार्श्व प्रणमामि सत्य-  
नगरे श्रीवर्द्धमान त्रिधा ॥ १ ॥ वदेऽनुत्तरकल्पतटप भुवने त्रैवेय-  
कव्यंतरा, ज्यौतिष्यामरमंदराश्विसती स्तीर्थकरानादरान् ॥ ज-  
बूपुष्करधातकीपु रुचके नदीश्वरे कुंभले, ये चान्येऽपि जिना नमामि  
सतत तान्कृत्रिमाऽकृत्रिमान् ॥ २ ॥ श्रीमद्वीरजिनस्यपद्मदृढतो  
निर्गम्यते गौतम, गगावर्तनमेत्य या प्रविन्दिदे मिथ्यात्ववैताढ्यक

(३५२)

॥ अथ षष्ठ श्रीसिद्धाचल स्तवन ॥

॥ जशोदा मावनी ॥ ए देशी ॥

॥ जात्रा नवाणु करीये विमलगिरि ॥ जात्रा नवाणु करीये  
॥ ए आकणी ॥ पूरव नवाणुवार शेत्रुजगिरि ॥ रिखजजिणद  
समोसरीये ॥ वि० ॥ १ ॥ कोमि सहस्र नव पातक त्रुटे ॥ शेत्रु-  
ज साहामो मग नरीये ॥ वि० ॥ २ ॥ सात ठठ दोय अठम त-  
पस्या, करी चढीये गिरिवरीये ॥ वि० ॥ ३ ॥ पुमरीक पद जपीये  
हरखे, अर्ध वसाय गुन धरीये ॥ वि० ॥ ४ ॥ पापी अनव्य न न-  
जरे देखे, हिसक पण उद्धरीये ॥ वि० ॥ ५ ॥ जुड सथारो ने नारी  
तणो सग, दूरथकी परिहररीये ॥ वि० ॥ ६ ॥ सचित परिहारीने  
एकल आहारी, गुरु साये पद चरीये ॥ वि० ॥ ७ ॥ पम्किमणा  
दोय विधिगु करीये, पाप पमल विखरीये ॥ वि० ॥ ८ ॥ कलिकाले  
ए तीरथ मोहोटु, प्रवहण जिम नव दरीए ॥ वि० ॥ ९ ॥ उत्तम  
ए गिरिवर सेवता, पद्म कहे नव तरीये ॥ विमल० ॥ १० ॥

॥ अथ सप्तम सिद्धाचल स्तवनं ॥

॥ चालो चालोने राज, श्रीसिद्धाचलगिरिये ॥ ए आंकणी ॥  
श्री विमलाचलतीरथ फरसी ॥ आतम पावन करीये ॥ चालो०  
॥ १ ॥ इण गिरिकपर मुनिवर कोमी, आतम तत्व निपायो ॥  
पूर्णानद सहज अनुचवरस, महानद पद पायो ॥ चालो० ॥ २ ॥  
पुमरिक पमुहा मुनिवर कोमि, सकल विजावे गमायो ॥ जेदा जेद  
तत्व परिणतिथी, ध्यान अनेद उपायो ॥ चालो० ॥ ३ ॥ जिनवर  
गणधर मुनिवर कोमी, ए तीरथ रग राता ॥ शुद्ध शक्ति व्यक्ते  
गुण सिद्धि, त्रिजुवन जनना त्राता ॥ चालो० ॥ ४ ॥ ए गिरि  
फरश्ये नव्य परीक्षा, इर्गतिनो होय ठेद ॥ सम्यक दरिसण नि-  
र्मल कारण, निज ध्यानद अनेद ॥ चालो० ॥ ५ ॥ सवत अदार

चुम्भोत्तरा वरसे, शुदि मागाशिर तेरझीये ॥ श्री सूरतथी ऋक्ति  
हरखथी, संघ सहित उल्लसीये ॥ चालो० ॥ ६ ॥ कचरा कीका  
जिनवर ऋक्ति, रूपचंझजीएछ ॥ श्रीश्रीसंघने प्रजु जेटाव्या,  
जगपति प्रथम जिणंद ॥ चालो० ॥ ७ ॥ ज्ञानानदी त्रिजुवनवदित,  
परमेश्वर गुणजीना ॥ देवचंद पद पामे अद्भुत, परम मंगल लय  
लीना ॥ चालो० ॥ ७ ॥ इति ॥ ७१ ॥

॥ अथ अष्टम सिद्धाचल स्तवनं ॥

॥ विमलाचल नितु वंदीये, कीजे एहनी सेवा ॥ मानु हाथ  
ए धर्मनो, शिवतरु फल लेवा ॥ वि० ॥ १ ॥ उक्कज जिनगृह  
मंमली, तिहां दीपे उत्तगा ॥ मानु हिमगिरि विभ्रमे, आइ अ-  
वरंगंगा ॥ वि० ॥ २ ॥ कोइ अनेरुं जग नहीं, ए तीरथ तोले ॥  
एम श्रीमुख हरिआगले, श्री सीमंधर बोले ॥ वि० ॥ ३ ॥ जे  
सघलां तीरथ करधा, जात्रा फल लहीये ॥ तेहथी ए गिरि जेटतां,  
शतगणु फल लहीये ॥ वि० ॥ ४ ॥ जनम सफल होय तेहनो, जे  
ए गिरि वंदे ॥ सुजस विजय सपद लहे, ते नर चिर नंदे ॥ वि०  
॥ ५ ॥ इति ॥ ७३ ॥

॥ अथ पंचतीर्थ थोयो ॥

॥ श्लोक ॥ ॥ श्रीशत्रुंजयमुख्यतीर्थतिलकं श्रीना-  
जिराजांगज, वदे रैवतशैल मौलिमुकुटं श्रीनेमिनाथं यथा ॥ तारगे  
अजितं जिन नृगुपुरे श्रीसुव्रत स्तजने, श्रीपार्श्व प्रणमामि सत्य-  
नगरे श्रीवर्द्धमान त्रिधा ॥ १ ॥ वदेऽनुत्तरकल्पतल्प भुवने त्रैवेय-  
कव्यंतरा, ज्यौतिष्यामरमंदराच्चिवसतीं स्तीर्थकरानादरान् ॥ ज-  
बूपुंकरधातकीपु रुचके नदीश्वरे कुंमले, ये चान्येऽपि जिना नमामि  
स्रतत तान्कृत्रिमाऽकृत्रिमान् ॥ २ ॥ श्रीमद्वीरजिनस्यपद्महृदतो  
निर्गम्यते गौतमं, गमावर्तनमेत्य या प्रविजिदे मिथ्यात्ववैताढ्यक

(३५४)

॥ उत्पत्ति स्थितिसंहतित्रिपथगा ज्ञानांबुदा वृद्धिगा, सीमे कर्ममलं  
हरत्वविकलं श्रीद्वादशांगी नदी ॥ ३ ॥ शक्रशंकरवियहाश्वघरण  
ब्रह्मेन्द्रशात्यंविका, दिक्पाला. सकपद्भिर्गोमुखगणेश्वकेश्वरी नारती  
॥ येऽन्ये ज्ञानतप. क्रियाव्रति विधिश्चीतीर्षयात्रादिपु, श्रीसधस्य तुरा  
चतुर्विध सुरास्ते संतु नञ्करा ॥४॥ इति श्री पचतीर्थ स्तुति. ॥७४॥

॥ अथ शखेश्वरपार्श्वजिन स्तुतिः ॥

॥ शखेश्वर पासजी पूजिये, नरनवनो लाहो लीजीये ॥  
मन वठित पूरण सुरतरु, जयवामा सुत थलवेसरु ॥ १ ॥ दोय  
राता जिनवर अति नला, दोय बोला जिनवर गुणानिला ॥ दोय  
लीला दोय सामल कहा, शोले जिन कचन वर्ण लहा ॥ २ ॥  
आगम ते जिनवरे जाखीयो, गणधर ते हड्ढे राखीयो ॥ तेहनो  
रस जेणे चाखीयो, ते हुनु शिव सुख साखीयो ॥ ३ ॥ धरणीधर  
राय पद्मावती, प्रभु पार्श्वतणा गुण गावती ॥ सहु सधना संकट  
चूरती, नयविमलनावठित पूरती ॥ ४ ॥ इति ॥ ७५ ॥

॥ अथ सवायो प्रारन ॥

॥ तत्र प्रथम श्री विनयअध्ययननी सवाय ॥

॥ श्रीनेमीसर जिनतणुजी ॥ ए देशी ॥

पवयण देवी चित्त धरीजी, विनय वखाणीश सार ॥  
जवुने पूढे कह्यो जी, श्री सोहम गणधार ॥ १ ॥ न्रविक जन  
विनय वहा सुखकार ॥ ए आकणी ॥ पहिले अभ्ययने कह्यो जी,  
उत्तराध्ययन मऊार ॥ सधला गुणमां मूलगोजी, जे जैनशासन  
सार ॥ २ ॥ न्रवि० ॥ नाण विनयथी पामीयेजी, नाणे दरिसण  
गुह ॥ चारित्र दरिसणथी हुए जी, चारित्रथी पुण सिह ॥ ३ ॥  
न्रवि० ॥ गुरुनी आण सदा वरेजी, जाणे गुरुनो जाव ॥ विनय-  
वत गुण रागीनजी, ते मुनि सरल स्वनाव ॥ ४ ॥ नाव० ॥ क-

एनुं कुंमुं परिहरीजी, विष्टागु मन राग ॥ गुरुझेही ते जाणवाजी,  
 सूर उपमा लाग ॥ ५ ॥ नवि० ॥ कोह्या काननी कूतरीजी,  
 ताम न पामीरे जेम ॥ शील हीण अकह्यागराजी, आदर न लहे  
 तेम ॥ ६ ॥ नवि० ॥ चङ्गतणीपेरे उजलीजी, कीरति तेह लहंत ॥  
 विषय कपाय जीती करीजी, जे नर शील वहंत ॥ ४ ॥ नवि० ॥  
 विजय देव गुरुपाटवीजी, श्री विजयसिंह सुरीद ॥ शिष्य उदय  
 वाचक ऋणोजी, विनय सयलसुखकंद ॥ ७ ॥ नवि० ॥ इति ॥ ७६ ॥

### ॥ अथ द्वितीय शिखामण सव्वाय ॥

॥ जीव वारुं बुं मोरा वालमां, परनारीथी प्रीति म जोरु ॥  
 परनारीनी संगत नही नली, तारा कुलमां लागशे खोड ॥ जीव०  
 ॥ १ ॥ जीव आ संसार ठे कारमो, दीसे ठे आल पपाल ॥ जीव  
 एहवुं जाणी चेतजो, आगल माठीडे नाखी ठे जाल ॥ जीव०  
 ॥ २ ॥ जीव मात पिता नाइ बेनमी, सह कुटुंब तणो परिवार ॥  
 जीव वेती वारे सहु सगुं, पठे लांवा कीधा जूहार ॥ जीव०  
 ॥ ३ ॥ देहेली लगे सगो आंगणो, शेरीअ लगे सर्गिमाय ॥ जीव  
 सीम लगे साजन नलो, पठे हस एकीजो जाय ॥ जीव० ॥ ४ ॥  
 जीव जातां थकां नवि जाणीयुं, नवि जाण्यो वार कुवार ॥ जीव  
 गाडु नरीयु ईंधणे, वली खोखरी हांमली सार ॥ जीव० ॥ ५ ॥  
 जीव आठम पाखि न उंनखी, जीव बहुलां कीधां पाप ॥ जीव  
 सुमति विजय मुनि एम ऋणे, जीव आवागमण निवार ॥  
 जीव० ॥ ६ ॥ इति ॥ ७७ ॥

### ॥ अथ अनार्थी मुनिनी सव्वाय ॥

श्रेणिक रयवामी चढ्यो, पेखीयो मुनि एकंत ॥ वररूप  
 कांते मोहीज, राय पूठे ए कहो ने विरतंत ॥ १ ॥ श्रेणिकराय हुंरे  
 अनार्थी निबंध ॥ तिण मे लीघोरे साधुजीनो पंथ ॥ श्रेणिक०

(३५६)

॥ ए आकणी ॥ इण्णे कोसवी नयरी वसे, मुज्ज पिता परिधलधन  
॥ परिवार पूरे परिवरयो, हुं हुं तेहनोरे पुत्र रतन श्रे० ॥ १ ॥  
एक दिवस मुज्ज वेदना, उपनी में न खमाय ॥ मात पिता जूरी मरे,  
पण समाधि किये नवि थाय ॥ श्रे० ॥ ३ ॥ गोरनी गुणमणि उरडी,  
चोरनी अबला नार ॥ कोरडी पीमा मे सही, कोणे न कीधी मोर-  
नी सार ॥ श्रे० ॥ ४ ॥ बहु राज्य वैद्य बोलाविया, कीधला कोमि  
उपाय ॥ वावनाचदन चरचिया, तोहि पणरे समाधि न थाय ॥  
श्रे० ॥ ५ ॥ जगमाहि को केहनो नहीं, ते नणी हुरे अनाथ ॥ वीत-  
रागना धरम सारिखो, नहि कोइ बीजेरे मुक्तिनो साथ ॥ श्रे० ॥  
॥ ६ ॥ वेदना जो मुज्ज उपशमे, तो लेछं सजम नार ॥ इम चितवतां  
वेदन गइ, व्रत लीधु में हर्ष अपार ॥ श्रे० ॥ ७ ॥ कर जोमी राय  
गुण स्तवे, धन धन ए अणगर ॥ श्रेणिक समकित पामीयो, वादी  
पोहोतोरे नगर मजार ॥ श्रे० ॥ ८ ॥ मुनि अनाथी गुण गावता,  
तूटे कर्मनी कोम ॥ गणि समय सुदर तेहना, पाय वदेरे बे कर जोम  
॥ श्रे० ॥ ९ ॥ इति अनाथी सद्याय ॥ ८८ ॥

॥ अथ श्रीनेम राजकुलनी सद्याय ॥

॥ नदी जमुनाके तीर, ऊडे द्योय पखीया ॥ ए देशी ॥ पि-  
उजी पिठजीरे नाम, जपु दिन रातियां ॥ पिउजी चाळ्या परदेश,  
तपे मोरी ठातीया ॥ पग पग जोती वाट, वालेसर कव मिले ॥  
नीर विठोह्या मीन के, ते ज्यु टलवले ॥ १ ॥ सुंदर मदिर सेज ॥  
साहिव विण नवि गमे ॥ जिहारे वालेसर नेम, तिहा मारुं मन नमे ॥  
जो होवे सज्जन दूर, तोहि पासे वसे ॥ किहां सायर किहा चद, देखी  
मन उल्लसे ॥ २ ॥ नि. स्नेहीशु प्रीत, म करजो को सही ॥ पतं-  
ग जलावे देह, दीपक मनमे नहीं ॥ वाला माणसनो विजोग,  
महोजो केहने ॥ सालेरे साल समान, हइआमा तेहने ॥ ३ ॥  
विरह व्यथानी पीड, जोवन वय अति दहे ॥ जेनो पियु परदेश



ते, माणस डःख सहे ॥ झुरी झुरी पजर कीध, काया कमलज  
जिसी ॥ हजीए न आव्या नेम, मली नयणे हसी ॥४॥ जेने  
जेहशुं रग, टाळ्यो ते नवि टले ॥ चकवा रयणी विजोग, ते तो  
दिवसे मले ॥ आवा केरो स्वाद, लिवू ते नवि करे ॥ जे नाह्या  
गगा नीर, ते ठिल्लर किम तरे ॥ ५ ॥ जे रम्या मालती फूल, ध-  
तूरे केम रमे ॥ जेहने घीयशुं प्रेम, ते तेले किम जमे ॥ जेहने  
चतुरशु नेह, ते अवरनेशुं करे ॥ नव जोवन तजी नेम, वैरागी  
थै फरे ॥ ६ ॥ राजुल रूप निधान, पोहोती सहसावने ॥ जइ वां-  
द्या प्रचुनेम, संजम जेइ एक मने ॥ पाम्या केवल ज्ञान, पोहोती  
मननी रली ॥ रूपविजय प्रभु नेम, जेठे आशा फजी ॥७॥ इति ७७

॥ अथ आउखानी सद्याय ॥

॥ आउखु तूटाने सांधो को नहीरे, तिण कारण मकरो जीव  
प्रमादरे ॥ जरा आव्याने सरणुं को नहीरे, हिंसा ठोडीने दया पा-  
खरे ॥ आउ० ॥ १ ॥ कुटुव कवाला नारी कारणेरे, मूरख संख्यां  
बहुलां पापरे ॥ चोरतणी परे ठमी झूरशेरे, सहिश इहलोक पर-  
लोक संतापरे ॥ आ० ॥ २ ॥ उंचां चणाव्यां मदिर मालियांरे,  
देवे धरतीमे उंमी नीवरे ॥ एक दिन अण जाण्युं उगी चालबुंरे,  
सुख ड ख सहेशे आपणो जीवरे ॥ आ० ३ ॥ चक्रवर्ति हरिवल  
राणो केशवोरे, जो जो वली इंद्र सुरानो नाथरे ॥ उगी उगीने  
उवेही आथम्यारे, जो जो कोइ अचरिज वाली वातरे ॥ आ०  
॥ ४ ॥ अधिर संसार तजी मुनि नीसरथारे, करता मुनि नवला  
बिहाररे ॥ नारंमपखीनी दीधी उपमारे, न धरे ममता नेह ल-  
गाररे ॥ आ० ॥ ५ ॥ चारित्र पाले रूमी रीतगुरे, देवे मुनि अपनो  
उपदेशेरे ॥ तिको मुनिवर सीधासि मोक्षनेरे, जश जेइ इहलोक  
परलोकरे ॥ आ० ॥ ६ ॥ शब्द रूप देखी समता धरोरे, मकरो  
मुनि नण्यानुं अजिमानरे ॥ रुपिचोधमल सूत्र देखीनेरे, जोड

कीधी जालोर मजाररे ॥ आ० ॥ ७ ॥ इति १० ॥

॥ अथ तिजयपहुत्त प्रारजोय ॥

॥ तिजयपहुत्त पयासव, अठ महापाडिहेर जुत्ताण ॥ समयक्कित्त विद्याण, सरेमि चक्क जिणादाण ॥ १ ॥ पणवीसाय असीआ, पन्नरस पन्नास जिणवर समुहो ॥ नासेठ सयल डुरियं, नविआण नत्ति जुत्ताण ॥ २ ॥ वीसा पणयाला विय, तीसा पन्नत्तरी जिणवरिदा ॥ गह भूअ रक्क साइणि, धोरुवसग्ग पणासतु ॥ ३ ॥ सित्तिरि पणतीसाविय, सठी पचेव जिणगणो एसो ॥ वाहि जज जलण हरि करि, चोरारि महानय हरठ ॥ ४ ॥ पणपन्ना य दसेव य, पन्नछी तहय चेव चाजीसा ॥ रक्कतु मे सरीर, देवासुर पणमिआ सिद्धा ॥ ५ ॥ उँ हरहुह. सरसुस, हरहुह तहचेव सरसुस आलिहिय नाम गप्पं, चक्क किर सवत्तं नद ॥ ६ ॥ उँ रोहिणियपन्नती, वज्जसिखला तहय वज्जअकुसिआ ॥ चक्केसरि नरदत्ता, कालि महाकालि तह गोरी ॥ ७ ॥ गधारी महजाला, माणवि वइरुह तहय अत्तुता ॥ माणसि महमाणसिआ, विद्यादेवीत्त रक्कतु ॥ ८ ॥ पचदस कम्म नूमिसु, उप्पन्न सत्तरि जिणाणसय ॥ विविह रयणाइवन्नो, वसोहिअ हरठ डुरिआइ ॥ ९ ॥ चठत्तीस अइसय जुआ, अठ महापाडिहेर कयसोहा ॥ तिच्चयरा गयमोहा, जाएअवा पयत्तेण ॥ १० ॥ उँ वरकणय संख विहुम, मरगय घण सन्निहं विगयमोहं ॥ सत्तरिसय जिणाण, सवामर पूइ अ वंदे॥स्वाहा ॥ ११ ॥ उँ नवणवइ वाणावतर, जोइसवासी विमाणवासीअ ॥ जे केवि डठ देवा, ते सवे उवसमतु मम॥स्वाहा॥ १२ ॥ चदण कप्पूरेण, फलए लिहिकाण खालिअ पीअ ॥ एगतराइ गहभूअ, साइणि मुग्ग पणासेइ ॥ १३ ॥ इअ सत्तरिसय जत, सम्म मंत डवारि पडिलिहिय ॥ डुरिआरि विजयवत, निप्रत निच्चमचेह ॥ १४ ॥ इति ॥ ११ ॥

॥ अथ नमिऊणनामक स्मरणं लिख्यते ॥

॥ नमिऊण पणाय सुरगण, चूनामणि किरण रंजित्य मु-  
 णिणो ॥ चलणजुअल महाजय, पणासण संयवं बुद्धं ॥ १ ॥  
 सडिय कर चरण नह मुह, निवुमु नासा विवन्न लायन्ना ॥ कुठ  
 महा रोगानल, फुलिंग निदट्ट सवंगा ॥ २ ॥ ते तुह चलणा राहण,  
 सल्लिअंजलि मेय वुद्धियञ्जाया ॥ (उञ्जाहा) वण दवदद्धा गिरिपा,  
 यव व पत्ता पुणोलत्ति ॥ ३ ॥ उवाय खुप्पिय जजनिहि, उप्पम  
 कल्लोल नीसणारावे ॥ सत्तत नय विसतुल, निव्यामय मुक्कवा-  
 वारे ॥ ४ ॥ अविदल्लिअ जाणवत्ता, खणोण पावंति इत्थिअं कूलं  
 ॥ पासजिण चण्ण जुअल, निच्चचिअ जे नमंति नरा ॥ ५ ॥  
 खर पवणुद्धुअ वणदव, जालावलि मिलिय सयल डम गहणे ॥  
 मञ्जत मुह मय बहु, नीसणरव नीसणंमि वणे ॥ ६ ॥ जगगुरु-  
 णो कमजुअजं, निवाविअ सयल तिहुअणानोअं ॥ जे सजरति  
 मणुअा, न कुणइ जलणो नय तेसिं ॥ ७ ॥ विलसंत जोग नीसण,  
 फुरिअारुण नयण तरल जीहाल ॥ उग्गजुअंग नवजल, य सञ्जहं  
 नीसणायार ॥ ८ ॥ मन्नाति कीरु सरिस, दूर परिट्टुठ विसम विस-  
 वेगा ॥ तुह नामस्कर फुदसि, दमत गुरुअा नरा लोए ॥ ९ ॥  
 अडवीसु निल्ल तक्कर, पुलिद सद्दूल सदचीमासु ॥ नयविहुर  
 वुन्नकायर, उल्लुरिअ पहिअ सञ्जासु ॥ १० ॥ अविनुत्तविहव-  
 सारा, तुहनाह पणाम मत्तवावारा ॥ ववगय विग्घासिग्घ, पत्ता  
 हिय इत्थिय ठाण ॥ ११ ॥ पक्कलि आनलनयणं, दूरविथारिय-  
 मुह महाकाय ॥ नह कुलि सघायविअलिअ, गइदकुंनञ्जलानोअं  
 ॥ १२ ॥ पणय ससंजम पत्थिय, नहमणिमाणिक पन्थिअ पडिमस्स  
 ॥ तुह वयणपहरणधरा, सीहं कुदपि न गणति ॥ १३ ॥ ससिध  
 वल दंतमुत्तल, दीहुरुत्तलाल वट्टि उञ्जाहं ॥ महुपिंग नयण जु-  
 अलं, ससजिज नयण ॥ १४ ॥ नीमं महागइंद, अञ्जा-

सन्नपि ते नवि गणंति ॥ जे तुम्ह चलण जुअल, मुणिवइ तुग  
समल्लीणा ॥१५॥ समरम्मि तिस्क खग्गा, निग्घाय पविद्ध उद्धुय  
कवधे ॥ कुतविणिज्जिन्न करि कलह, मुक्कसिक्कार पठरमि ॥१६॥  
निज्जिय दप्पुद्धर रिउ, नरिद निवहा नमा जस ववल ॥ पावंति  
पाव पसमिण, पासजिणा तुह प्पन्नावेण ॥ १७ ॥ रोग जल  
जलण विसहर, चोरारि मइद गय रण नयाइ ॥ पासजिणा नाम  
सकी, नणेणा पसमति सवाइ ॥१८॥ एव महा नयहर, पासजि-  
णिदस्स संथवमुअार ॥ नविय जणाणदयर, कल्लाण परपर नि-  
हाणं ॥१९॥ रायनय जस्क रस्कस, कुसुमिणा इस्सवण रिस्क  
पीमासु ॥ सज्जासु दोसु पये, उवसग्गे तहय रयणीसु ॥ २० ॥  
जो पढइ जो अ निसुणाइ, ताणं कइणो य माणानुगस्स ॥ पासो  
पाव पसमेठ, सयल भुवणच्चिअ चलणो ॥२१॥ उवसग्गते क  
मठा, सुरम्मि जाणाउं जो न तचलिउं ॥ सुर नर किन्नर जुवईहि,  
सधुउं जयउ पासजिणो ॥ २२ ॥ एअस्स मअयारे, अठारस  
अस्करोहि जो मतो ॥ जो जाणाइ सो जायइ, परम पयच्च फुम  
पास ॥२३॥ पासह समरण जो कुणइ, सतुठे हिययेण ॥ अउ-  
त्तर सय वाहि नय, नासइ तस्स दूरेण ॥२४॥ इति श्रीमहान-  
यहरनामक स्मरण सपूर्णम् ॥९१॥

॥ अथ नक्तामर स्मरण प्रारंभ ॥

॥ नक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रज्ञाणा, मुद्योतक दलितपापत-  
मोवितान ॥ सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुग युगादा, बालवन नवजले  
पतता जनानाम् ॥ १ ॥ य सस्तुत सकलवाङ्मयतत्वबोधा,  
इन्द्रतवुद्धिपटुनि सुरलोकनाथे ॥ स्तोत्रैर्द्विगत्रितयचित्तहरैरुदा-  
रैः स्तोष्येकिजाहमपि त प्रथम जिनेद्धम् ॥२॥ बुद्ध्या विनापि  
विवुधार्चितपादपीठ, स्तोतु समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽह ॥ बालं  
विहाय जलसस्थितमिडुविव, मन्यः क इच्छति जनः सहसा य-

हीतु ॥ ३ ॥ वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांककांतान्, कस्तेद्धम-  
 सुरगुरुप्रतिमोपि बुद्ध्या ॥ कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्र, कोवा  
 तरीतुमलमवुनिधि जुजाभ्यां ॥ ४ ॥ सोऽहं तथापि तव जक्तिव-  
 शान्मुनीश, कर्तुं स्तव विगतशक्तिरपि प्रवृत्त. ॥ प्रीत्यात्मवीर्यमवि  
 चार्यमृगोमृगेऽ, नाभ्येति किनिजशिशो. परिपालनार्थ ॥ ५ ॥  
 अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम, त्वन्नक्तिरेव मुखरीकुरु ते वलान्मां  
 यत्कोकिलः किल मधौ मधुर विरोति, तच्चारुचूतकलिकानिकरै-  
 कहेतुः ॥ ६ ॥ त्वत्सस्तवेन नवसंततिसन्निवत्, पाप कृणात्कृ-  
 यमुपैति शरीरनाजा ॥ आकातलोकमलिनीत्रमशेषमाशु, सूर्या-  
 गुन्निन्नमिव शार्वरमधकारम् ॥ ७ ॥ मत्वेति नाथ तत्र संस्तवनं  
 मपेद, मारभ्यते तनुवियापि तव प्रजावत् चेतोहरिष्यति सतां न  
 लिनीदलेषु, मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदविडः ॥ ८ ॥ आस्तां तव  
 स्तवनमस्त समस्तदोषं, त्वत्संकथापि जगता हरितानिहति ॥  
 दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रज्ञैव, पद्माकरेषु जलजानि विकाशनां-  
 जि ॥ ९ ॥ नात्यन्ततनुवनभूषणभूत नाथ, भूतैर्गुणैर्जुवि नवत्तम  
 जिष्टवंतः तुल्यानवति नवतोननु तेन किवा, भूत्याश्रितं यद्ग्रह  
 नात्मसमं करोति ॥ १० ॥ दृष्ट्वा नवंतमनिमेपविलोकनीय, ना-  
 न्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु ॥ पीत्वा पयःशशिकरद्युतिः-  
 ग्धसिधोः द्वार जल जलनिधेरशितुं कश्चेत् ॥ ११ ॥ यः शात-  
 रागरुचिनिः परमाणुनिस्त्व, निर्मापितस्त्रिजुवनैकललामभूत ॥  
 तावतएव खलु तेप्यणव. पृथिव्यां, यत्ते समानमपर नहि रूपम-  
 स्ति ॥ १२ ॥ वक्रं क ते सुरनरोरगनेत्रहारि, नि.शेष निर्जितज-  
 गन्त्रितयोपमानम् ॥ विव कलक मलिन क निशाकरस्य, यद्वासरे  
 नवति पांडु पलाशकल्पम् ॥ १३ ॥ सपूर्णमंमलशशांककला क-  
 लाप, शुभ्रागुणास्त्रिभुवन तव लघयति ॥ ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर  
 नाथमेक, कस्तान्निवारयति सचरतोयथेष्टम् ॥ १४ ॥ चित्र किमत्र

यदि ते त्रिदशागनाग्नि, नीत मनागपि मनोन विकारमार्गम् ॥  
 कल्पान्त कालमरुता चलिताचलेन, कि मदराञ्छिशिखर चलित  
 कदाचित् ॥ १५ ॥ निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर रुस्न जगत्त्र-  
 यमिद प्रकटीकरोपि ॥ गन्धोन जातु मरुता चलताचलाना, दी-  
 पोऽपरस्त्वमसिनाथ जगत्प्रकाश. ॥ १६ ॥ नास्त कदाचिदुप  
 यासि न राहुगम्य स्पटीकरोपि सहसा युगपङ्कगति ॥ नान्नोव-  
 रोदरनिरुद्धमहाप्रनाव. सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीञ्छ्लोके ॥ १७ ॥  
 नित्योदय दलितमोहमहाप्रकार, गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदा  
 ना ॥ विभ्राजते तव मुखाब्जमनद्वपकृति, त्रियोतयङ्गादपूर्व  
 शशाकृत्रिम् ॥ १८ ॥ किशर्वरीषु अशिनान्नि विवस्वता वा, यु-  
 ध्मन्मुखेददलितेपुतमस्सु नाथ ॥ निष्पन्नशालियनशालिनि जीव-  
 लोके, कार्यैक्रियङ्कनधरैर्जलनारनत्रै १ एज्ञान यथा त्वयिविजाति  
 कृतावकाश, नैव तथा हरिहरादिषु नायकेषु ॥ तेज.स्फुरन्मणिषु  
 याति यथा महत्त्व, नैवतु काचशकले किरणाकुलेषु ॥ २० ॥ मन्ये  
 वर हरिहरादयएव दृष्टा, दृष्टेषुषुषु हृदय त्वयि तोपमेति ॥ कि  
 वीक्षितेन नवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ नवा  
 तरेपि ॥ स्त्रीणा शतानि शतशोजनयति पुत्रान्, नान्या सुत त्वद-  
 पम जननी प्रसूता ॥ सर्वादिशो दधति ज्ञानि सहस्र रश्मि, प्रा-  
 च्येव दिग्जनयति स्फुरदशुजालम् ॥ २२ ॥ त्वामामनन्ति मुनय  
 परम पुमास, मादित्यवर्णममल तमस परस्तात् ॥ त्वामेवसम्यगु  
 पलभ्य जयति मृत्यु, नान्य शिव शिवपदस्य मुनीञ्छ्लपथा ॥ २३ ॥  
 त्वामव्यय विन्नुमचित्यमसख्यमाद्य, ब्रह्माण्णमीश्वरमनतमन  
 गक्रेतुम् ॥ योगीश्वर विदितयोगमनेकमेक, ज्ञानस्वरूपममल प्रवदति  
 सत ॥ २४ ॥ बुद्धस्त्वमेव विबुवार्षितबुधिविधात्, त्वं शकरोसि भुवन  
 त्रयशंकरत्वात् ॥ वातासि वीर शिवमार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्त त्वमे  
 - जगवन पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ तुभ्य नमस्त्रिभुवनात्तिहरायनाथ,

तुभ्यं नमः क्वितितत्त्वामलभूपणाय ॥ तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमे-  
 श्वराय, तुभ्यं नमोजिनं ज्वोदधिशोपणाय ॥३६॥ कोविस्मयोऽत्र  
 यदि नाम गुणैरशोषे, स्वसश्रितो निरवकाशतया मुनीश ॥ दोषै-  
 रुपात्तविविधाश्रयजातगर्वैः, स्वप्रातरेपि न कदाचिदपीद्वितोसि  
 ॥३७॥ उच्चैरशोकतरुसश्रितमुन्मयूख, माजाति रूपममलं जव-  
 तोनितातम् ॥ स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितान, विवं रवेरिव  
 पयोधरपार्श्ववर्ति ॥ ३८ ॥ सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे,  
 विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् ॥ विवं वियद्विलसदंशुलता  
 वितान, तुगोदयाद्दिशिरसीव सहस्ररश्मेः ॥३९॥ कुदावदातच-  
 लचामरचारुशोभं, विभ्राजते तव वपुः कलधौतकांतम् ॥ उद्यच्च-  
 शांकशुचिनिर्जरवारिधार, मुच्चैस्तट सुरगिरेरिवशातकौभम् ॥४०॥  
 तत्रत्रय तव विजाति शशाककात, मुच्चैःस्थितस्थगितभानुकरप्र-  
 तापम् ॥ मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं, प्रख्यापयत्त्रिजगतः  
 परमेश्वरत्वम् ॥ ३१ ॥ उन्नद्धहेमनवपंकजपुंजकाति, पर्युल्लसन्न-  
 खमयूखशिखान्निरामौ ॥ पादौ पदानि तव यत्र जिनेऽधत्तः,  
 पद्मानि तत्र विवृथाः परिकल्पयति ॥ ३२ ॥ इत्थं यथा तवविचू-  
 तिरभूज्जिनेऽध, धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य ॥ यादृक्प्रजा  
 दिनरुतः प्रहताधकारा, तादृक्कृतोयहगणस्य विकाशिनोपि ॥३३॥  
 श्रयोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल, मत्तन्नमद् भ्रमरनादविवृद्ध  
 कोपम् ॥ ऐरावताभमिभमुद्धत मापतंतं, दृष्ट्वा भयं ज्वतिनो  
 ज्वदाश्रितानाम् ॥३४॥ जिनेऽनकुंजगलज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ता-  
 फलप्रकरभूपितभूमिभागः ॥ वद्धक्रमः क्रमगत हरिणाविपोऽपि,  
 नाक्रामति क्रमयुगाचलसश्रित ते ॥३५॥ कल्पांतकाल पवनोद्ध-  
 तवद्विकल्पं, दावानलं ज्वलितमुज्वलमुत्फुलिगम् ॥ विश्वजिघत्सु-  
 मिव संमुखमापतंतं, त्वन्नामकीर्तनजलं समयत्यशेषम् ॥ ३६ ॥  
 रक्तेक्षणं समदकोकिलकवनीलं, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतंतं

॥ आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशक, स्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य  
 पुत. ॥ ३४ ॥ वद्वगत्तरगगजगर्जित भीमनाद, माजौ बल बलध-  
 तामपि भूपतीना ॥ उद्यद्विवाकरमयूखशिखापविर्धं, त्वत्कीर्तना-  
 त्तमइवाशु निदामुपैति ॥ ३७ ॥ कुंताग्रभिन्नगजशोणित यारिवाह,  
 वेगावतारतरणातुरयोधनीमे ॥ युद्धे जय विजितडुर्जयजेयपद्मा,  
 स्वत्पादपकजवनाश्रयिणो लज्जते ॥ ३९ ॥ अंचोनिधौ क्षुभितभी-  
 पणनक्रचक्र, पाठीनपीठत्रयदोल्बणवाडवाग्रौ ॥ रगत्तरगशिखर-  
 स्थितयानपात्रा, स्वास विहाय जवत. स्मरणाद्ब्रजति ॥ ४० ॥  
 उद्भूतनीपणजलोदरन्नारभुग्रा, शोभ्यादशामुपगताश्रुतजीवि-  
 ताशा ॥ त्वत्पादपकजरजोमृतदिग्धदेहा, मर्त्या जवति मकरध्व-  
 जतुल्यरूपा. ॥ ४१ ॥ आपादकठमुशुखलवेष्टितागा, गाढ वृह-  
 न्निगडहोतिनिघृष्टजया ॥ स्वन्नाममत्रमनिश मनुजा स्मरंत  
 सद्यः स्वयविगतबंधनया जवति ॥ ४२ ॥ मत्तद्विपेक्षमृगराजदवा-  
 नलाहि, सग्रामवारिधिमहोदरवधनोच्च ॥ तस्याशु नाशमुपयाति  
 नयन्नियेव, यस्तावक स्तवमिम मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तोत्रस्त्रज  
 तवजिनेषु गुणैनिवद्धा, नक्तया मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पा ॥  
 धत्तेजनो य इह कठगतामजस्र, त मानतुगमवशा समुपैति लक्ष्मी  
 ॥ ४४ ॥ इति नक्तामर स्तोत्र संपूर्ण ॥

॥ अथ श्रीकल्याणमंदिरस्तोत्र प्रारभ्यते ॥

॥ वसततिलकावृत्तम् ॥

कल्याणमंदिरमुदारमवद्यजेदि, ज्रीतानयप्रदमनिदितमघ्नि-  
 पद्म ॥ ससारसागरनिमङ्कदशोपजंतु, पोतायमानमजिनम्य जि-  
 नेश्वरस्य ॥ १ ॥ यस्य स्वय सुरगुरुर्गिरिमाबुराशे स्तोत्र सुविस्तृत-  
 मतिर्न विभुर्विधातु ॥ तीर्थेश्वरस्यकमठस्मयधूमकेतो, स्तस्याहमेप  
 किल सस्तवन करिष्ये ॥ २ ॥ युग्मम् ॥ सामान्यतोऽपि तव वर्ष-



यितुं स्वरूप, मस्माद्दशाःकथमधीश जवंत्यधीशाः ॥ धृष्टोपि कौ-  
 शिकशिशुर्यदि वा दिवाधो, रूपं प्ररूपयति किं किल धर्मरश्मेः  
 ॥३॥ मोहक्यादनुन्नवन्नपि नाथ मर्त्यो, नूनं गुणान्गणयितुं न  
 तवहमेत ॥ कल्पान्तवातपयसःप्रकटोऽपि यस्मा, न्मीयेत केन  
 जलधेर्ननु रत्नराशि. ॥४॥ अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जमाशयोऽपि,  
 कर्तुस्तवं वसदसंख्यगुणाकरस्य ॥ बालोऽपि किं न निजबाहुयुग-  
 वितत्य, विस्तीर्णताकथयति स्वधियांबुराशोः ॥ ५ ॥ ये योगिना-  
 मपि न याति गुणास्तवेश, वक्तु कथं जवति तेषुममावकाशः ॥  
 जाता तदेवमसमी क्वितकारितेयं, जल्पतिवा निजगिरा ननु  
 पक्षिणोऽपि ॥६॥ आस्तामचित्यमहिमा जिन संस्तवस्ते, नामापि  
 पाति जवतो जवतो जगंति ॥ तीघ्रातपोपहतपांधजनान्निदाघे,  
 प्रीणाति पद्मसरसः सरसो निलोऽपि ॥७॥ हृद्वार्त्तिनि त्वयि विज्ञो  
 शिथिलीजवति, जंतो. कृष्णेन निविन्ना अपि कर्मबंधाः ॥ सद्यो  
 जुजंगममया इव मध्यजाग, मभ्यागते वनशिखमिनि चंदनस्य  
 ॥८॥ मुच्यत एव मनुजाः सहसा जिनेष, रौडैरुपध्वशतैस्त्वयि-  
 वीक्षितेऽपि ॥ गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे, चौरैरिवाशु  
 पशवः प्रपलायमानैः ॥९॥ त्वं तारकोजिन कथं जविनां त एव,  
 त्वामुद्वहतिहृदयेन यदुत्तरत. ॥ यद्वा द्यतिस्तरति यज्ज्जमेपनून,  
 मंतर्गतस्य मरुतः स किलानुजावः ॥१०॥ यस्मिन् हरप्रनृतयोऽपि  
 हतप्रजावा, सोऽपि त्वयारतिपति. कृषित. कृष्णेन ॥ विध्या पिता  
 हुतजुजः पयसाथ येन, पीत न किं तदपि डर्शरवाडवेन ॥११॥  
 स्वामिन्ननल्पगरिमाणामपि प्रपन्ना, स्वां जंतवः कथमहो हृदये  
 दधानाः ॥ जन्मोदधि लघु तरंत्यतिलाघवेन, चित्त्यो न हत महतां  
 यदि वा प्रजावः ॥१२॥ कौषस्त्वया यदि विज्ञो प्रथमं निरस्तो,  
 ध्वस्तास्तदा वत कथं किल कर्मचौरा. ॥ श्लोपत्यमुत्रयदिवा शि-  
 शिरापि लोके, नीलधुमाण विपिनानि न किं हिमानी ॥ १३ ॥

स्वा योगिनो जिन सदा परमात्मरूप, मन्वेपयति हृदयाञ्जुलको-  
 शदेशे ॥ पृतस्य निर्मञ्जरुचेर्यदिवा किमन्य, दक्षस्य सन्नवि पद  
 ननु कर्णिकाया ॥ १४ ॥ ध्यानाङ्गिनेश भवतोन्नविन. क्षणेन, देहं  
 विहाय परमात्मदशा व्रजति ॥ तीव्रानलाहुपलजावमपास्य लोके,  
 चामीकरत्वमचिरादिव धातुनेदा. ॥ १५ ॥ श्रंत.सदैव जिन यस्य  
 विनाव्यसेत्व, जव्यै. कथ तदपि नाशयसे शरीर ॥ एतत्स्वरूपमथ  
 मध्यविवर्तिनो हि, यद्विग्रहं प्रशमयति महानुजावा ॥ १६ ॥  
 आत्मा मनीषिजिरयति त्वदनेद्व्युक्ष्या, ध्यातो जिनेऽ नवतीह नव-  
 त्रजाव. ॥ पानीयमप्यमृतमित्यनुचित्यमान, किं नाम नो विप.  
 विकारमपाकरोति ॥ १७ ॥ त्वामेव वीततमस परवादिनोपि, नूनं  
 विज्ञो हरिहरादिधियाप्रपन्ना ॥ किं काचकामलिजिरीश सितोऽपि  
 शखो, नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण ॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये  
 सविधानुजावा, दास्ता जनो नवति ते तरुरप्यशोक ॥ अभ्युद्गते  
 दिनपतौ समहीरुहोपि, किं विवोधमुपयाति न जीवलोक.  
 ॥ १९ ॥ चित्र विज्ञो कथमवाङ्मुखवृंतमेव, विष्वक् पतत्यविरला  
 सुर पुष्पवृष्टि ॥ त्वद्वोचरे सुमनसा यदिवामुनीश, गच्छति नून-  
 मथएव हि वधनानि ॥ २० ॥ स्थाने गज्जीरहृदयोदधिसज्जवाया.,  
 पीयूषता तवगिर. समुदीरयति ॥ पीत्वा यत परमसंमदसग भाजो,  
 जव्या व्रजति तरसाप्यजरामरत्व ॥ २१ ॥ स्वामिन् सुदूरमवनम्य  
 समुत्पततो, मन्ये वदति गुचयः सुरचामरौघा ॥ येऽस्मै नति  
 विदधते मुनिपुगवाय, ते नूनमूर्धगतय खलु शुद्धजावा ॥ २२ ॥  
 श्याम गज्जीरगिरमुज्वलहेमरत्न, सिंहासनस्थमिह नव्यशिखरि-  
 नस्त्वा ॥ आलोकयति रत्नसेन नदतमुच्चै, श्रामीकराङ्गिरीरसीव  
 नवाबुवाहम् ॥ २३ ॥ वज्रधृता तवशित्युतिमंडलेन, लुप्तदृष्ट-  
 विरशोकतरुर्बभूव ॥ सान्निध्यतोऽपि यदिव तव वीतराग, नीरा-  
 गता व्रजति कोन सचेतनोपि ॥ २४ ॥ जोजो. प्रमादमवधूय नज-

ध्वमेन, मागत्य निर्वृतिपुरि प्रतिसार्धवाहम् ॥ एतन्निवेदयति  
 देव जगन्त्रयाय, मन्ये नदन्नाजिनजः सुरड्डजिस्ते ॥ १५ ॥ उद्योतितेपु  
 न्नवता भुवनेषु नाथ, तारान्वितो विधुरय विहृताधिकारः ॥ मुक्ता-  
 कलापकलितोऽसितातपत्र व्याजाञ्चिधा घृततनु ध्रुवमभ्युपेतः ॥  
 ॥ १६ ॥ स्वनेन प्रपूरितजगत्त्रयपिडितेन, कांतिप्रताप यशसामिव  
 सचयेन ॥ माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण जगवन्न-  
 जितोविज्ञासि ॥ १७ ॥ दिव्यसृजोजिन नमस्त्रिदशाधिपाना, मुत्सृ-  
 ज्यरत्नरचितानपि मौलिवंधान् ॥ पादौ श्रयंति भवतो यदिवा  
 परत्र, त्वत्संगमे सुमनसो न रमतएव ॥ १८ ॥ त्वं नाथ जन्मजलधे  
 विपराद्मुखोपि, यत्तारयस्यसुमतो निजष्टष्टलग्नान् ॥ युक्तं हि पा-  
 र्थिव निपस्य सतस्तवैव, चित्र विज्ञो यदसि कर्मविपाक गून्यः  
 ॥ १९ ॥ विश्वेश्वरोऽपि जनपालक उर्गतस्त्व, किंवाह्वर प्रकृतिरप्य-  
 लिपिस्तमीश ॥ अज्ञानवत्यपि सदैव कथंचिदेव, ज्ञान त्वयि  
 स्फुरति विश्वविकाशहेतु ॥ २० ॥ प्राग्भारसंचृत नजांसि रजांसि  
 रोपा, डड्ढापितानि कमठेन शठेन यानि ॥ ठायापि तैस्तव न  
 नाथ हताहताशो, यस्तस्त्वमीजिरयमेव पर डुरात्मा ॥ २१ ॥  
 यद् गर्ज्ज्जर्जितवनौषमदन्ननीमं, भ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधा-  
 रम् ॥ दैत्येन मुक्तमथ डस्तरवारि दध्रे, तेनैव तस्य जिन डस्तर-  
 वारिकृत्यम् ॥ २२ ॥ ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्यमुग्ध, प्रालवञ्च-  
 ज्यदवक्रविनिर्दग्निः ॥ प्रेतव्रज. प्रतिनवतमपीरितोय सोऽस्था.  
 ऽनवत्प्रतिनव नवड. खहेतुः ॥ २३ ॥ धन्यास्त एव भुवनाधिप ये  
 त्रिसध्य, माराधयति विधिवद्विधुतान्यकृत्या. ॥ नक्तयोह्नसत्पुल-  
 कपक्षमलदेहदेशाः पादद्वयं तव विज्ञो जुवि जन्मनाजः ॥ २४ ॥  
 अस्मिन्नपारनववारिनिधौ मुनीश, मन्ये न मे श्रवणगोचरतां  
 गतोऽसि ॥ आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमत्रे, किवा विपद्विपधरी  
 सविधं समेति ॥ २५ ॥ जन्मातरेऽपि तव पादयुगं न देव, मन्ये

मया महितमीहित दानदक्षम् ॥ तेनेह जन्मनि मुनीश पराजवाना,  
जातो निकेतनमह मयिताशयानाम् ॥३६॥ नून न मोहतिमिरा-  
वृत जोचनेन, पूवे विजोसकृदपि प्रविलोकितोऽसि ॥ मर्मोविधो  
विधुरयति हि मामनर्थाः प्रोद्यत्प्रवधगतयः कथमन्ययेते ॥३७॥  
थ्याकीर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि, नून न चेतसि मया  
विधृतोऽसि नन्या ॥ जातोऽस्मि तेन जनवाधव उःखपात्रं, यस्मा-  
क्रियाः प्रतिफलति न जावशून्या ॥३८॥ त्व नाथ उ खिजनव-  
त्सल हे शरण्य, कास्य पुण्यवसत यशिता वरेण्य ॥ नक्त्या नते  
मयिमहेश दया विधाय, उ स्वाकुरोहजनतत्परतांविधेहि ॥३९॥  
नि सख्यसारशरणशरणशरण्य, मामाद्यसादितरिपुप्रथितावदातम्  
॥ त्रत्पादपकजमपि प्रणिधानवध्यां, वध्यांऽस्मिचेन्नुवनपावन हा  
हतोऽस्मि ॥ ४० ॥ देवेभ्यश्च विदिताखिलवस्तुसार, ससारतारक  
विनोभुवनाविनाथ ॥ त्रायस्व देव करुणाहृद मा पुनीहि, सीदं  
तमद्य भयदव्यसनावुराशो ॥४१॥ यद्यस्ति नाथजनवदग्निसरोहाणा,  
नक्ते फल किमपि सततिसचिताया ॥ तन्मे त्वदेकशरणस्य  
शरण्य भूया, स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र नवातरेऽपि ॥४२॥ इत्य समा  
हितवियो विधिवङ्गिनेऽ, साङ्गैल्लसत्पुलककचुकितागजागा, ॥  
त्वद्विनिर्मलमुखावुजवु-द्वलक्षा, ये संस्तव तव विजो रचयति न-  
व्या ॥४३॥ जननयनकुमुदचक्ष, प्रभास्वरा, स्वर्गसपदो भुक्ता  
॥ ते विगलितमलनिचया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यते ॥ युग्मम् ॥४४॥  
इति श्रीकल्याणमदिरसपूर्णम् ॥

॥ अथ बृहन्नाति स्तवनामक नवम स्मरण प्रारब्ध ॥

॥ नो नो नव्या शृणुत वचन प्रस्तुत सर्वमेतत्, ये यात्रा  
या त्रिभुवनगुरोरार्हता नक्किनाज ॥ तेषा शातिर्भवतु भवताम  
हृदादिप्रजावा, दारोग्यश्रीधृतिमतिकरी क्लेशविध्वसहेतु ॥ १ ॥  
॥ गद्य ॥ नो नो नव्यलोकाइह हि नरतैरावत विदेहसजवा

ना समस्ततीर्थकृतां जन्मन्यास नप्रकंपानतरमवधिना विज्ञाय  
 सौधर्माधिपतिः सुयोपाधंटाचालनानतरं सकलसुरासुरेभ्यः सहस्र  
 मागत्य सविनयमर्हद्भ्रष्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनकाङ्घ्रिशृगे विहि  
 तजन्मान्निपेकः शान्तिमुद्घोषय तियथा । ततोऽहकृतानुकारमिति  
 कृत्वा महाजनोयेनगतः सपंथाः इति नव्यजनैः सह समेत्य स्नात्र  
 पीठे स्नात्रं विधाय शान्तिमुद्घोषय यामितत्पूजायात्रास्नात्रादिमहो  
 त्सवानंतरमिति कृत्वा कर्णं दत्वा निशम्यतां निशम्यता स्वाहा ॥ ॐ  
 पुण्याहं पुण्याहं प्रीयंता प्रीयंतां जगवतोर्हतः सर्वज्ञा. सर्वदर्शिन  
 स्त्रिलोकनाथास्त्रिलोकमहिता स्त्रिलोकपूज्यास्त्रिलोकेश्वरास्त्रिलोको  
 द्योतकराः ॥ ॐ ऋषन्न अजितसन्नव अचिनंदन सुमति पद्मप्रन्न  
 सुपार्श्व चंद्रप्रन्न सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनंत  
 धर्म शान्ति कुथु अर मल्लि मुनिसुव्रत नमि नेमि पार्श्व वर्द्धमाना  
 ताजिनाः शान्ताःशान्तिकरा नवंतु स्वाहा ॥ ॐ मुनयोमुनि प्रवरा  
 रिपुविजय छर्जिङ्गकांतारेपुड्गर्माणेपुरद्वंतुवोनित्यंस्वाहा ॥ ॐ ह्रीं  
 श्रीं धृति मति कीर्त्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्यासाधन प्रवे  
 शननिवेशनेषु सुगृहीतनामानो जयतु ते जिनेष्वा. ॥ ॐ रोहिणी  
 प्रज्ञप्ति वज्रशृङ्खला, व्रजाकुशी अप्रतिचक्रा पुरुषदत्ता काली म  
 हाकाली गौरी गाधारी सर्वास्त्रा महाज्वाला मानवी वैरुद्या अद्भुता  
 मानसी माहामानसी षोडश विद्यादेव्यो रक्षतु वोनित्यं स्वाहा ॥  
 ॐ आचार्योपाध्याय प्रभृति चातुर्वर्णस्य श्री श्रमणसंघस्य शान्ति  
 र्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु ॥ ॐ महाशंभु सूर्यागारक बुध बृहस्पति  
 शुक्र शनैश्वर राहु केतु सहिताः सलो कपालाः सोम यम वरुण  
 कुबेर वासवादित्य स्कंद विनायकोपेताः येचान्येऽपि ग्रामनगरक्षेत्र  
 देवतादयस्ते सर्वे प्रीयतां प्रीयतां अक्षीणकोशकोष्टागारानरपतय  
 श्र नवतु स्वाहा ॥ ॐ पुत्र मित्र भ्रातृ कलत्र सुहृद् स्वजन संबंधि  
 बधुवर्गसहिता नित्य चामोद प्रमोदकारिणश्चास्मिंश्च नृमंमलायत

ननिवासि साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणा रागापसगव्याधि उ.ख  
छर्निद्धदौर्मनस्योपशमनायशातिर्नवतु ॐ तुष्टि पुष्टि कृष्टि वृष्टि  
मागढयोत्सवा सदा प्राङ्मूर्तानि पापानि शाम्यतु डरितानि ॥  
शत्रव पराङ्मुखा नवतु स्वाहा ॥ श्रीमते शातिनाथाय, नमः  
शातिविधायिने ॥ त्रैलोक्यस्यामराधीश, मुकुटान्यर्चिताग्रये ॥ १ ॥  
शाति शातिकर श्रीमान्, शाति दिशतु मे गुरु ॥ शातिरेव सदा  
तेषा, येषा शातिर्गृहे गृहे ॥ २ ॥ उन्मृष्ट रिष्टष्ट, ग्रहगतिश्च स्वप्रष्ट  
निमित्तादि ॥ सपादितहितसंप, चामग्रहणा जयति शाते ॥ ३ ॥  
श्रीसद्यजगङ्गानपद, राजाधिपराज्यसन्निवेशानाम् ॥ गोष्टिरुपुर मु-  
ख्याना, व्याहरणोर्व्याहरेञ्जातिम् ॥ ४ ॥ श्री श्रमणसद्यस्य शातिर्न-  
वतु, श्रीपौरजनस्य शातिर्नवतु, श्रीजनपदाना शांतिर्नवतु, श्रीरा-  
जाधिपाना शातिर्नवतु, श्रीराज्यसन्निवेशानां शातिर्नवतु, श्री  
गोष्टिकाना शातिर्नवतु, श्रीपुरमुख्याणा शातिर्नवतु श्रीब्रह्मलोक  
स्य शातिर्नवतु, ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ श्रीपार्श्वनाथाय स्वाहा ॥  
एषा शातिप्रतिष्ठा यात्रा स्नात्राद्यवसानेषु शातिकलश गृहीत्वा  
कुकुमचन्दनकर्पूरागरुधूप वासकुसुमाजलिसमेत स्नात्रचतुष्पिका  
या श्रीसद्यसमेत शुचिशुचिवष् पुष्पवस्त्रचदनाचरणालकृत,  
पुष्पमाला कठे कृत्वा शातिमुद्धोषयित्वा शातिपानीय मस्तके  
दातव्यमिति ॥ नृत्यति नित्य मणिपुष्पवर्ष, सृजति गायतिच  
मंगलानि ॥ स्तोत्राणि गोत्राणि पठति मन्त्रान्, कल्याण जाजोहि  
जिनाजिपेके ॥ १ ॥ शिवमस्तु सर्वजगत, परहितनिरता नवतु  
भूतगणा ॥ दोषा प्रयातु नाश, सर्वत्र सुखीनवतु लोका ॥ २ ॥  
अह तिष्ठपर माया, सिवा देवी तुम्ह नथर निवासिनी ॥ अम्ह  
सिव तुम्ह सिव, असिवोवसम सिव नवतु स्वाहा ॥ ३ ॥ उपसर्गा  
क्षय याति, छिद्यते विघ्नवल्लय ॥ मन, प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने  
जिनेश्वरे ॥ ४ ॥ सर्वमगलमागढय, सर्वकल्याण कारणम् ॥ प्रधान

सर्वधर्माणा, जैनंजयति शासनम ॥ ५ ॥ इति बृहज्जातिनामकं  
नवमस्मरणं समाप्तम् ॥ ९ ॥

॥ अथ श्रीरत्नाकरसूरिकृत श्रीरत्नाकरपंच विंशिका  
प्रारंभः ॥ उपजातिच्छंदः ॥

॥ श्रेयःश्रियां मगलकेलिसद्म, नरेद्धदेवेंडनतांघ्रिपद्म ॥ स-  
र्वज्ञ सर्वातिशय प्रधान, चिरंजय ज्ञानकलानिधान ॥ १ ॥ जग-  
त्त्रयाधार कृपावतार, ह्वारिसंसारविकारवैद्य ॥ श्रीवीतरागत्वयि  
मुग्धजावा, द्विज्ञ प्रज्ञोविज्ञपयामि किञ्चित् ॥ २ ॥ किं बालली  
लाकलितो नवाल, पित्रोः पुरो जडपति निर्विकल्प ॥ तथा यथार्थ  
कथयामि नाथ, निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे ॥ ३ ॥ दत्त न दानं  
परिशीलितंच, न शालिशीलं न तपोऽन्नितप्तं ॥ शुचो न ज्ञावो-  
प्यनवद्भवेऽस्मिन् विचो मया ज्ञांतमहो मुधैव ॥ ४ ॥ दग्धोग्निना  
क्रोधमयेन दष्टो, छुष्टे न लोनाख्य महोरगेण ॥ ग्रस्तोऽन्निमानाज  
गरेण माया, जालेन बद्धोऽस्मि कथं नजे त्वा ॥ ५ ॥ कृतं मया  
ऽमुत्र हित न चेह, लोकेऽपि लोकेश सुख नमेऽभूत् ॥ अस्माद्दशां  
केवलमेव जन्म, जिनेशजङ्गे नवपूरणाय ॥ ६ ॥ मन्ये मनो यन्न  
मनोऽवृत्तं, त्वदास्यपीयूषमयूखलाज्ञात् ॥ क्षुतमहानं दरस कठोर,  
मस्माद्दशां देव तदश्मतोऽपि ॥ ७ ॥ त्वत्तः सुद्ध. प्राप्यमिदं मया-  
प्तं, रत्नत्रयं भूरि नवध्रमेण ॥ प्रमादनिज्ञावशतो गत तत्, कस्याग्र-  
तो नायक पूत्करोमि ॥ ८ ॥ वैराग्यरगोपरवंचनाय, धर्मोपदेशो  
जनरंजनाय ॥ वादाय विद्याऽध्ययनं च मेऽभूत्, कियद्द्रुवे हास्यकरं  
स्वमीश ॥ ९ ॥ परापवादेन मुख सदोप, नेत्र परस्त्रीजनवीक्षण  
॥ चेतः परापयविचितनेन, कृतं नविष्यामि कथं विज्ञोह् ॥ १० ॥  
विमंभितं यत्स्मरघस्मरार्ति, दशावशात्स्वं विपयाधलेन ॥ प्रकाशितं  
तन्नवतोऽह्यैव, सर्वज्ञ सर्व स्वयमेववेत्सि ॥ ११ ॥ ध्वस्तोऽन्यम

त्रै. परमेष्ठिमंत्र , कुशाखवाक्यैर्निहितागमोक्तिः ॥ कर्तुं वृथा कर्म  
 कुदेवसंगा, दवांविही नाथ मतिभ्रामो मे ॥ १२ ॥ विमुच्य ह्य-  
 लक्ष्यगत जवत, घ्याता मया मूढधिया हृदंत ॥ कटाक्षवद्वोज-  
 गजीरनाजि, कटीतटीयाः सुदृशां विलासाः ॥ १३ ॥ लोलेक्षणा  
 वक्रनिरीक्षणेन, यो मानसो रागलवोविलग्र. ॥ न शुद्धसिद्ध-  
 तपयोधिमध्ये, धौतोप्यगात्तारक कारण कि ॥ १४ ॥ अंगं न चंग  
 न गणो गुणानां, न निर्मल कोपि कलाविलास. स्फुरत्प्रजा न ॥  
 प्रजुता च कापि, तथाप्यहकारकदर्शिताऽहं ॥ १५ ॥ आयुर्गल-  
 त्याशु न पापवृद्धिर्गत वयो नो विषयान्जिज्ञाप ॥ यत्नश्च नैपज्य  
 विधौ न धर्मे, स्वामिन्महामोहविभवना मे ॥ १६ ॥ नाऽत्मा न  
 पुण्य न जवो न पाप, मया विटाना कटुगोरपीय ॥ आधारि कर्णे  
 त्वयि केवलार्के, पुर स्फुटे सत्यपि देव विड्मा ॥ १७ ॥ न देव  
 पूजा न च पात्रपूजा, न श्राद्धधर्मश्च न साधु धर्मः ॥ लब्ध्वापि  
 मानुष्यमिदं समस्त, कृतं, मयाऽरण्यविलापतुल्यं ॥ १८ ॥ चक्रे  
 मया सत्स्वपिका कामधेनु, कल्पञ्चुचितामलिपु स्पृहार्ति. ॥ न जैन-  
 धर्मे स्फुटशर्मदेऽपि, जिनेशमे पश्य विमूढजावं ॥ १९ ॥ सन्नो-  
 गलीला न च रोगकीला, धनागमोनो निधनागमश्च ॥ दारा न  
 कारा नरकस्यचित्ते, व्यचिति नित्य मयकाऽधमेन ॥ २० ॥ स्थितं  
 न साधो हृदि साधुवृत्तात्, परोपकारान्न यशोऽर्जित च ॥ कृतं न  
 तीर्थोद्धरणदिकृत्य, मया सुधा हारितमेव जन्म ॥ २१ ॥ वैरा-  
 ग्यरगो न गुरुदित्तेषु, नडर्जनाना वचनेषु ज्ञाति ॥ नाऽध्यात्म-  
 लेशो मम कोपि देव, तार्थ कथं कार मयं जवाब्धि ॥ २२ ॥  
 पूर्वं जवेऽकारि मया न पुण्य, मागामिजन्मन्यपि नो करिष्ये ॥  
 यदीदृशोऽहं मम तेन नष्टा, भूतोऽवजाविजवत्रयीश ॥ २३ ॥ कि  
 वा सुधा ऽहं बहुधा सुधाभुक्, पूज्यत्वदये चरित स्वकीय ॥ जल्पामि  
 यस्मात् त्रिजगत्स्वरूप, निरूपकस्त्व कियदेतदत्र ॥ २४ ॥ शार्दूल



विक्रीडितउदः ॥ दीनोऽधारधुरंधरस्त्वदपरो नास्ते मदन्यः कृपा,  
पात्रं नात्र जने जिनेश्वर तथाप्येतां न याचे श्रियं ॥ कित्वर्हन्निद-  
मेव के केवलमहो सद्बोधिरत्न शिवं, श्रीरत्नाकरमंगलैक निलय  
श्रेयस्कर प्रार्थये ॥ ३५ ॥

### ॥ अथ सामायिक पारवानो विधि ॥

॥ खमासमण देइ ॥ इरियावहिपमिक्कमवाथी यावत् लो-  
गस्स सुधी कही ॥ खमा० ॥ इत्ता० ॥ मुहपत्ती पडिलेहुं एम  
कही मुहपत्ती पमिलेही, खमासमण देइ ॥ इत्ता० ॥ सामायिक  
पारु ॥ यथाशक्ति ॥ वली खमा० इत्ता० ॥ सामायिक पारुं ॥  
तहत्ति कही पठी जमणो हाथ चवला उपर अथवा कटासणाउ-  
पर थापी एक नवकार गणी “सामाज्यवयजुत्तो” कहिये ॥ पठी  
जमणो हाथ थापना सामो सबलो राखीने एक नवकार गणी  
उठवुं ॥ इति सामायिक पारवानो विधि समाप्त ॥ ९६ ॥

### ॥ अथ सामायिक लेवानो विधि ॥

॥ प्रथम उंचें आसने पुस्तक प्रमुख मूकी श्रावक श्राविका  
कटासणा, मुहपत्ती, चवलो लेइ, शुद्ध वस्त्र, जग्या पूजा, कटासणा  
उपर वेसी, मुहपत्ती मावा हाथमां मुख पासे राखी, जमणो हाथ  
थापनाजी सन्मुख राखी, एक नवकार गणी, पचिदिअ कहीये;  
अने जो आगलथी ते स्थानके आर्याप्रमुखनी स्थापना करेली  
होय, तो तिहा पंचिदिय न कहेवुं, पठी इत्तामि खमासमण देइ,  
इरियावहिया तथा तस्स उत्तरी अने अन्नउत्तसीएणं कही, एक-  
लोगस्सनो अथवा चार नवकारनो काउस्सगग करी पारी, प्रगट  
लोगस्स कही, खमासमण देइ, “इत्ताकारेण संदिसह जगवन्  
समायिक मुहपत्ती पडिलेहुं ॥ इत्त ॥ एम कही मुहपत्ति तथा  
अंगनी पमिलेहणाना पचाश बोल कही, मुहपत्ती पमिलेहीये;

पठी खमासमण देइ, “ इच्छाकारेण सदिसह जगवन् सामायिक, सदिसाहु ॥ इच्छ ” कही खमा० इच्छा० ॥ सामायिक ठाठ ” इच्छं एम कही, वे हाथ जोडी, एक नवकार गणी, इच्छाकारी जगवन् पसाय करी, सामायिक दम्क उधरावोजी तेवारे वमिल, करेमि जते कहे, पठी खमासमण देइ इच्छा० ॥ वेसणे सदिसाहु ॥ इच्छं ॥ खमा० ॥ ॥ इच्छा० ॥ वेसणे ठाठ ॥ इच्छ ॥ खमा० ॥ इच्छा० ॥ सज्जाय सदिसाहु ॥ इच्छ ॥ खमा० ॥ इच्छा० ॥ सज्जाय करु ॥ इच्छं ॥ एम कही त्रण नवकार गणावा ॥ पठी वे घडी सज्जाय धर्मध्यान करवु इति ॥ ए७ ॥

॥ अथ पञ्चस्काण पारवानो विधि ॥

प्रथम “ इरियावहियाए ” पडिक्कमी, यावत् “जगचितामणि” नु चैत्यवदन “ जयवीयराय ” सुधी करवु ॥ पठी “मन्हजिणाणं”नी सज्जाय कही मुहपत्ति पडिलेहवी ॥ पठी खमासमण देई इच्छाकारेण सदिसह जगवन् पञ्चस्काण पारु यथाशक्ति “ इच्छामि० इच्छा० पञ्चस्काण पारुथु “ तहत्ति ” एम कही, जमणो हाथ कटासणा अथवा चवला ऊपर थापी, एक “ नवकार ” गणी, पञ्चस्काण करयुं होय तेनु नाम कहीने पारु ते जखीये ठैये:—” उग्गए सूरे नमुक्कार सहिअ पोरिसि, साढपोरिसि, गठिसहिअं मुठिसहिअ, पञ्चस्काण करयु चउविहार आविल, निवी, एकासण, वेअ्रासण पञ्चस्काण ५, फासिअं, पालिअ, सोहिअ, तीरिअं ५, जच

खमा० होय, त्या खमा देवु  
दिसह जगवन् कहेवु, तथा ए जे  
क्रिया करवा आश्रपी समजवी,  
कारेण सदिसह भगवन् ॥  
सदिसह तथा इरियावहि पमिक्क  
समजो लेवु.

न आराहिअ, तस्स मिञ्चामि उक्कडं एम कही एक नवकार ग-  
णवो ॥ इति ॥ एण ॥

॥ अथ पमिलेहण करवानो विधि ॥

॥ नवकार पंचिदिअ कही, इरियावहियाए कहेवुं, थापना  
होय तो नवकार पंचिदिअ न कहेवो, पठी तस्सउत्तरी कही एक  
लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउस्सग्ग करी, प्रगट लोगस्स  
कही, ऊने पगे वेसी मुहपत्ती, चवलो, कटासणु, उत्तरासणु,  
धोतीयु, कदोरो आदिनु पमिलेहण करवुं; पठी काजो काहामी,  
जीव कलेवर सचित्त आदि जोवु; पठी काजो काहाडनार थाप-  
नाजी सामो ऊनो रही, इरियावही पमिक्कमी, काजो परउववा  
जग्गा शोधी, त्रणवार अणुजाणह जस्सग्गो कही, काजो परउ-  
वीने पठी त्रणवार “वोसिरे” कहे ॥ इति ॥ एण ॥

॥ अथ देव वादवानो विधि ॥

॥ प्रथम इरियावही पमिक्कमवाधी मांडीने यावत् लोगस्स  
कही, पठी उत्तरासण नाखो, चैत्यवंदन “नमुञ्जुणं” कही “ज-  
यवीअरायअान्नवमखंमा” सुधी अमधु हाथ जोमी कहे, वली  
फरी “चैत्यवंदन” कहीने “नमुञ्जुण” कही, जावत् चार थोयो  
कहीये ठेये तिहा सुधी वधुं कहेवुं, पठी “नमुञ्जुण” कही, वली  
चार थोयो कहीये, त्या सुधी वधु कहेवुं, पठी “नमुञ्जुणं” तथा  
वे “जावंती” कही, स्तवन कही अउधुं “जयवीअराय अान्नव-  
मखंमा” सुधी कही, पठी “चैत्यवंदन” कही, “नमुञ्जुणं” कही,  
आखो “जय वीरराय” कहेवो. इहां सवारे देव वादवा, तेमां  
“मन्हजिणाणं”नी सज्जाय कहेवी, अने मध्याने तथा सांजे  
देव वादवामा सज्जाय न कहेवी ॥ इति ॥ देव वादवानो विधि  
समाप्त ॥ १०० ॥

पठी खमासमण देइ, “ इच्चाकारेण सदिसह जगवन् सामायिक, सदिसाहुं ॥ इच्च ” कही खमा० इच्चा० ॥ सामायिक गज ” इ-  
 च्छं एम कही, वे हाथ जोडी, एक नवकार गणी, इच्चाकारी जगवन्  
 पसाय करी, सामायिक दम्क उधरावोजी तेवारे वमिल, करेमि-  
 जते कहे, पठी खमासमण देइ इच्चा० ॥ वेसणे सदिसाहु ॥ इच्छं ॥  
 खमा० ॥ ॥ इच्चा० ॥ वेसणे गज ॥ इच्च ॥ खमा० ॥ इच्चा० ॥  
 सज्जाय सदिसाहु ॥ इच्च ॥ खमा० ॥ इच्चा० ॥ सज्जाय करु ॥  
 इच्छं ॥ एम कही त्रण नवकार गणावा ॥ पठी वे घडी सज्जाय  
 धर्मध्यान करवु इति ॥ ए७ ॥

॥ अथ पञ्चस्काण पारवानो विधि ॥

प्रथम “ श्रियावहियाए ” पडिकमी, यावत् “जगचिताम-  
 णि” नु चैत्यवदन “ जयवीरराय” सुयी करवु ॥ पठी “मन्हजि-  
 णाण”नी सज्जाय कही मुहपत्ति पडिलेहवी ॥ पठी खमासमण  
 देइ इच्चाकारेण सदिसह जगवन् पञ्चस्काण पारु यथाशक्ति “ इ-  
 च्चामि० इच्चा० पञ्चस्काण पारु “ तहति ” एम कही, जमणो  
 हाथ कटासणा अथवा चवला ऊपर थापी, एक “ नवकार ”  
 गणी, पञ्चस्काण करशुं होय तेनु नाम कहीने पारवु ते लखीये  
 वैये:—” उगए सुरे नमुक्कार सहिअ पोरिसि, साढपोरिसिं, ग-  
 तिसहिअ मुठिसहिअ, पञ्चस्काण करशु चउविहार, आविल,  
 निवी, एकासणं, वेआसणु पञ्चस्काण करशुतिविहार पञ्चस्काण,  
 फासिअं, पालिअ, सोहिअ, तीरिअ, किट्टिअ, आराहिअं, जच

खमा० होय, त्या खमासमण देवु इच्चा० होय, त्या इच्चा कारेण स-  
 दिसह जगवन् कहेवु, तथा ए सर्व विधि जे लख्यो वे, ते स्थापनाजी सन्मुख  
 क्रिया करवा आश्रयी समजवो, परनु साक्षात् गुरु विराजमान होय तो इच्चा-  
 कारेण सदिसह भगवन् सज्जाय सदिसाहु, एम शिष्य कहे तेवारे गुरु कहे  
 सदिसह तथा श्रियावहि पम्कमवाना आदेशवा गुरु पम्कमेह कहे, एम सर्व  
 स्थानके समजी लेवु.

न आनन्दितस्तस्मिन्निदानि इहं एम कही एक नवकार य-  
एवो । इति ।

### ॥ अथ श्रियावही कर्मानो विधि ॥

॥ नवकार श्रियावही कही, श्रियावहीनाए कहेंवुं, थापना  
होय तो नवकार श्रियावही न कहेंवो, पठी तस्तवत्तरी कही एक  
लोगस्त श्रियावही नवकारानो काउस्तग करी, प्रगट लोगस्त  
कही, ऊहे श्रियावही नुह्यनी, चवतो, कटासणुं, उत्तरासणुं,  
धोतीरुं, कटोरे अदिनुं पमिकेण करवुं; पठी काजो काहामो,  
जीव कजेव रुचित आदि जोवुं; पठी काजो काहाडनार थाप-  
नाजी तामो कनो रही, श्रियावही पमिकमी, काजो परतववा  
जग्या शोयी, त्रणवार अणुजाणह जस्तगो कही, काजो परत-  
वीने पठी त्रणवार "वोसिरे" कहे ॥ इति ॥ एण ॥

### ॥ अथ देव वांदवानो विधि ॥

॥ प्रथम श्रियावही पमिकमवाधी मांडीने यावत् लोगस्त  
कही, पठी उत्तरासण नाखो, चैत्यवदन "नमुच्चुणं" कही "ज-  
यवीअरायआनवमखंमा" सुधी अमधु हाथ जोमी कहे, वली  
फरी "चैत्यवदन" कहीने "नमुच्चुणं" कही, जावत् चार थोयो  
कहीये ठेये तिहा सुधी वधुं कहेवुं, पठी "नमुच्चुणं" कही, वली  
चार थोयो कहीये, त्या सुधी वधु कहेवुं; पठी "नमुच्चुणं" तथा  
बे "जावती" कही, स्तवन कही अडधु "जयवीअराय आनव-  
मखमा" सुधी कही, पठी "चैत्यवदन" कही, "नमुच्चुणं" कही,  
आसो "जय वीअराय" कहेवो इहां सवारे देव वादवा, तेमां  
"मन्हुजिणाण" नी सज्जाय कहेवी, अने मध्याने तथा सांजे  
देव वादवामा सज्जाय न कहेवी ॥ इति ॥ देव वांदवानो विधि  
समाप्त ॥ १३३ ॥

## ॥ अथ देवसि प्रतिक्रमणविधि ॥

॥ प्रथम सामायिक लीजे, पठी पाणी वावरयु होय तो, मुहपत्ति पडिलेहवी, अने आहार वावरयो होय तो, वांदणा वे देवा, त्या बीजा वादणामा “आवसियाए” ए पाठ न कहेवो ॥ पठी यथाशक्ति पञ्चस्काण करवु ॥ पठी खमासमण देई इच्छाकारेण सदिसह जगवन् चैत्यवंदन करु “इत्त” एम कही, वडेराए अथवा पोते चैत्यवदन कहेवु ॥ पठी जाकिंचि कही नमुत्तुण कहेवु ॥ पठी ऊजा धईने अरिहत चेइयाणं० अन्नत्त० कही एक नवकारनो काउस्तगग करी पारीने, जेने वनेरा हुकुम आपे, ते घणीये “नमोऽर्हत्” कहीने प्रथम थोय कहेवी ॥ पठी प्रगट लोगस्त कही, सबलोए अरिहत चेइयाण कही, एक नवकारनो काउस्तगग पारी, बीजी थोय कहेवी ॥ पठी पुस्करवरदी कही “सुअस्त जगवत्त करोमि काउस्तगग वंदणवत्तिआए” कही, एक नवकारनो काउस्तगग करी, त्रीजी थोय कहेवी ॥ पठी सिद्धाणं बुद्धाणं० वेयावच्चगराणं० करोमि काउस्तगगं अन्नत्त० नो पाठ कही, एक नवकारनो काउस्तगग करी, पारी “नमोऽहेत्” कही, चौथी थोय कहेवी ॥ पठी वेशी हाथ जोमीने “नमुत्तुणं” कही, खमासमण देई, जगवानह कहेवु, वली बीजु खमासमण देई, “आचार्यह” कहेवु, वली त्रीजु खमासमण देई, “उपाध्यायह” कहेवु, वली चौथु खमासमण देई, “सर्वस्त साधुभ्योऽह” कहेवु, एरीते चार खमासमण देवा पूर्वक जगवानादि चारने थोय वदन करीये ॥ पठी खमासमण आपी इच्छाकारेण सदिसह जगवन् “देवसिप्रतिक्रमणे ठाउ” एम कही, जमणो हाथ चवला अथवा कटासणा कपर थापीने, इत्तं सबस्तवि देवसिअ० नो पाठ कही ऊजा धई, करोमि जते, इच्छामि ठामि काउस्तगग जो मे देवसिअ० तस्तउत्तरि० कही अतिचारनी आठ गाथानो काउस्तगग करवो, जो

आठ गाथा न आवन्ती होय तो आठ नवकारनो काउस्सग  
 करवो, ते पारीने प्रगट लोगस्स कहेवो ॥ पठी वेशीने त्रीजा आ-  
 वश्यकनी मुहपत्ति पडिलेहीने वांदणां वे देवां ॥ पठी ऊजा थईने  
 इञ्जाकारेण सदिसह जगवन् देवसिथ अलोउं इञ्ज आलोएमि  
 कही जो मे देवसिउ कहेवुं, पठी सात लाख० कही, अठार पा-  
 पस्थानक आलोइने, "सवस्सवि देवसिय" कहेवुं ॥ पठी नीचे वेशी,  
 जमणो ढींचण उजो राखी, एक नवकार गणी, करेमि जते  
 इञ्जामि पम्किमिउ कही वादिता सूत्र सपूर्ण केहीने वादणा वे  
 देवा ॥ पठी खमासमण देई इञ्जाकारेण सदिसह जगवन् अप्पु-  
 च्छिहं अप्पितर देवसियं खामेउं एम कही, अप्पुच्छिउ खामीने  
 वादणां वेवार देवा ॥ पठी ऊजा थई "आयरिय उवञ्जाए" कही,  
 करेमि जते इञ्जामि वामि काउस्सगं जो मे देवसिउ० कही  
 "तस्स उत्तरी" कही, वे लोगस्सनो अथवा आठ नवकारनो का-  
 उस्सग करी पारीने प्रगट लोगस्स कहेवो ॥ पठी सबलोए अरि-  
 हंतवेइआण कही, एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउ-  
 स्सग पारीने पठी पुस्करवरदी, सुअस्स जगवन्, करेमि काउस्सगं  
 वंदण० अन्नञ्ज० कही, एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो का-  
 उस्सग पारीने पठी सिद्धाण वुधाण कही, सुअ देवयाए करेमि  
 काउस्सग अन्नञ्ज० कही, एक नवकारनो काउस्सग पारी, "न-  
 मोऽर्हेत्त०" कही, पुरुपे "सुअदेवया" नी पहेली थोय अने स्त्रीये  
 "कमलदल" नी पहेली थोय कहेवी ॥ पठी खित्तदेवयाए करेमि  
 काउस्सग० कही, एक नवकारनो काउस्सग पारी "नमोऽर्हेत्त०"  
 कही खित्तदेवयानी बीजी थोय स्त्रीये तथा पुरुपे कहेवी ॥ पठी  
 प्रगट एक नवकार गणी, वेशीने ठछा आवश्यकनी मुहपत्ति  
 पडिलेही वांदणां वे देईने, इञ्जाकारेण सदिसह जगवन् सामायिकं,  
 चउविसत्तो, वदनक, काउस्सग, पञ्चस्काण, करशुं वे





कही अनुक्रमे चार थोयो कहीये ठैये, तिहां सुधी सर्व कहेवु ॥  
 पठी नमुञ्चण कही जगवान् आदि चारने चार खमासमणे वांद  
 वा ॥ पठी जमणो हाथ ऊपधि ऊपर थापी “अडाइजेसु” कहे-  
 वु ॥ पठी इशानखूणनी सन्मुख श्री सीमंधरस्वामीनु चैत्यवंदन  
 स्तवन, जयवीरराय, काउस्सग्ग थोय पर्यंत कहीये तिहां सुधी  
 सर्व करवुं ॥ पठी खमासमण देई श्रीसिद्धाचलजीनुं “चैत्यवंदन,  
 स्तवन, जयवीरराय, काउस्सग्ग थोय पर्यंत कहीये” ठैये तिहां  
 सुधी सर्व करवु ॥ पठी सामायिक पारवाना विधिनी रीते सा-  
 मायिक पारवा सुधीनो सर्व विधि करवो ॥ इतिराइप्रतिक्रमणवि-  
 धिःसमाप्त ॥१०१॥

### ॥ अथ पस्कि प्रतिक्रमण विधि ॥

प्रथम दैवसिकप्रतिक्रमणमां वंदित्तु कही रहिये तिहां सुधी  
 सर्व केहेवुं, पण चैत्यवदन सकजाइहेतनुं केहेवु, अने थोयो रना  
 तस्यानी केहेवी पठी स्वमासमण देईने इच्चाकारेण संदिसह  
 जगवन् देवसिअं आलोइअ पडिक्कंता इच्चाकारेण ॥ पस्कि मु-  
 हपत्ति पम्हिलेहुं. एम कही मुहपत्ति पडिजेहिये पठी वांदणां वे  
 दीजे, पठी इच्चाकारे० सवुद्धा खमणेणां अप्पुठिउह अप्पितर प-  
 स्किअं खामेव इच्चं खामेमि पस्किअं पनरस दिवसाण, पनरस  
 राइआणं, जांकिचि अपत्तिय० ॥ कही इच्चाकारेणसं ॥ पस्किअं  
 आलोएमि इच्चं आलोएमि जो मे पस्किउं अइआरो कउं कही  
 इच्चाकारेणसं० ॥ पस्की अतिचार आलोउं एम कही अतिचार  
 कहिये पठी एवंकारे श्रावकतणे धर्मे श्रीसमकित मूल वारव्रत,  
 एकशो चोवीश अतिचार मांहे जे कोइ अतिचार पद्ध दिवसमाहे  
 सूक्ष्म वादर जाणतां अजाणता हुउं होय ते सब्बे हुं मने वचने  
 कायाये करी मिच्चांमि उकमं ॥ सब्बस्सवि पस्किअ उच्चित्तिय,  
 उप्पासिय उच्चिठ्ठिय, इच्चाकारेण संदिसह जगवन् तस्स मिच्चांमि

स्सग्ग, जो मे राइत्त, तस्सत्तरी, कही, एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउस्सग्ग पारी प्रगट लोगस्स कहीने सबलोए अरिहतचेइयाण० कही एक लोगस्स अथवा चार नवकारनो काउस्सग्ग करवो ॥ पठी पुक्खवरदी० सुअस्स० वंदणा० कही अतिचारनी आठ गाथा अथवा गाथा न आवमे तो आठ नवकारनो काउस्सग्ग पारी सिद्धाणं बुधाणा कही वेसीने त्रीजा आवश्यकनी मुहपत्ति पडिलेही वांदणा वे देवा ॥ पठी ऊजा थई इत्थाकारेण सदिसह जगवन् राइय आलोउं इत्तं आलोएमि जो मे राइत्त अइआरो कत्त० कही " सातजाख " नो पाठ कही, अठार पापस्थानक आलोई सबस्सवि राइयनो पाठ कहेवो॥पठी वेशीने जमणो हींचण ऊजो राखी एक नवकार गणी, करेमि जते इत्तामि पम्भिमिउ कही वदिता सूत्र सपूर्ण कही वे वार वादणा देवा वली अप्पठित्तह अप्पितर राइय खामीने फरी वे वार वादणा देवा ॥ पठी ऊजा थईने आयरिय उवज्जाए करेमि जते इत्तामि गामि काउस्सग्ग जो मे राइत्त कही तस्स उत्तरी कही तप चितामणि करतां न आवडे तो चार लोगस्स अथवा शोल नवकारनो काउस्सग्ग करी प्रगट लोगस्सग्ग कही ठाआ आवश्यकनी मुहपत्ति पडिलेहीने वादणा वे वार देवा ॥ पठी सकल तीर्थवदन करीने यथाशक्तिये पच्चस्काण करवु ॥ पठी इत्थाकारेण सदिसह जगवन् सामायिक, चउविसत्तो, वदनक, पम्भिमणा, काउस्सग्ग, पच्चस्काण करयु ठेजी एम आवश्यक संनारवा॥पठी पच्चस्काण करयु होय तो करयुठेजी धार्यु होयतो धार्युठेजिकहेवु पठी इत्तामो अणुसत्ति नमो खमासमणाणं कही नमोऽहत्त कहीये ॥ पठी विशाल लोचन, नमुहुण, अरिहत चेइयाण, कही एक नवकारनो काउस्सग्ग पारीनमोऽहत्त कही कल्लाणकदनी प्रथम धोय कहेवी ॥ पठी लोगस्स, पुक्खवरदी, सिद्धाण बुधाणं,

कही अनुक्रमे चार थोयो कहीये ठैये, तिहां सुधी सर्व कहेवुं ॥  
 पठी नमुद्दण कहीं जगवान् आदि चारने चार खमासमणे वांद  
 वा ॥ पठी जमणो हाथ ऊपधि ऊपर थापी “अडाइजेसु” कहे-  
 वु ॥ पठी इशानखूणनी सन्मुख श्री सीमंधरस्वामीनु चैत्यवंदन  
 स्तवन, जयवीयराय, काउस्सग्ग थोय पर्यंत कहीये तिहां सुधी  
 सर्व करवुं ॥ पठी खमासमण देई श्रीसिद्धाचलजीनुं “चैत्यवंदन,  
 स्तवन, जयवीयराय, काउस्सग्ग थोय पर्यंत कहीये ठैये तिहां  
 सुधी सर्व करवुं ॥ पठी सामायिक पारवाना विधिनी रीते सा-  
 मायिक पारवा सुधीनो सर्व विधि करवो ॥ इतिराइप्रतिक्रमणवि-  
 धिःसमाप्त ॥१०३॥

### ॥ अथ पस्कि प्रतिक्रमण विधि ॥

प्रथम दैवसिकप्रतिक्रमणमां वंदित्तु कही रहिये तिहां सुधी  
 सर्व केहेवु, पण चैत्यवंदन सकलाइहेतनुं केहेवु, अने थोयो स्ना  
 तस्यानी केहेवी पठी खमासमण देईने इच्चाकारेण संदिसह  
 जगवन् देवसिअं आलोइअ पडिक्कता इच्चाकारेण ॥ पस्कि मु-  
 हपत्ति पडिलेहुं. एम कही मुहपत्ति पडिलेहिये पठी वांदणां वे  
 बीजे, पठी इच्चाकारे० सवुद्धा खमणेणं अप्पुठिन्ह अप्पितर प-  
 स्किअं स्वामेउं इउं स्वामेमि पस्किअं पनरस दिवसाणं, पनरस  
 राइआणं, जांकिचि अपत्तिय० ॥ कही इच्चाकारेणस ॥ पस्किअं  
 आलोएमि इउं आलोएमि जो मे पस्किउं अइआरो कउ कही  
 इच्चाकारेणसं० ॥ पस्की अतिचार आलोउं एम कही अतिचार  
 कहिये पठी एवंकारे आवकतणे धर्मे श्रीसमकित मूल वारव्रत,  
 एकशो चोवीश अतिचार मांहे जे कोइ अतिचार पद्द दिवसमाहे  
 सूक्ष्म वादर जाणतां अजाणतां हुउं होय ते सबे हुं मने वचने  
 कायाये करी मिच्चामि उकरु ॥ सबस्सवि पस्किअ उच्चित्तिअ,  
 उप्पासिय उच्चिठ्ठिअ, इच्चाकारेण संदिसह जगवन् तस्स मिच्चामि

इक्ष्म इक्ष्मकारि जगवन् पसानु करि पस्कि तपप्रसाद करोजी  
 एम वञ्चार करीने आवी रीते कहिये.—चउद्येण एक उपवास,  
 वे आंग्रिल, त्रण नीवि, चार एकामणा, आठ वेआसणा, वे ह-  
 जार सद्याय, यथाशक्ति तप करी प्रवेश करयो होय तो पइठी  
 कहीये, अने करवो होय तो तहत्ति कहीये, तथा न करयो होय  
 तो अणवोड्या रहीये पठी वादणा वे दीजे पठी इच्छाका० ॥  
 पत्ते अखामणेणं अप्पुच्छिंहं अप्पितर पस्किअ स्वामेउं इत्तं स्वा-  
 मेमि पस्किअं पनरस दिवसाण पनरस राइआण जकिचि अ-  
 पत्तिय० पठी वादणा वे दीजे पठी देवसिअ आलोइअ पडि-  
 क्कता इच्छाका० ॥ जगवन्० पस्किअं पम्पिक्कमु समपम्पिक्कमामि  
 इत्तं एम कही करेमि जते समाइय० ॥ कही इच्छामि पम्पिक्कमिउं  
 जो मे पस्किअं० केहेवु पठी खमासमण देइ इच्छाकारेणासदि० ॥  
 पस्किसूत्र पढु एम कही त्रण नवकार गणी साधु होय तो प-  
 स्किसूत्र कहे अने साधु न होय तो त्रण नवकार गणीने श्रावक  
 वदित्तु कहे पठी सुअदेवयानी थोय कहेवी पठी हेवा वेसीजमणो  
 दिवण उचो राखी एक नवकार गणी करेमि जते० इच्छामि पडि०  
 ॥ कही वदित्तु कहेवु पठी करेमि जते० इच्छामि ठामि काउस्सग्ग  
 जो मे पस्किअं० तस्सउत्तरी ॥ अन्नइ० ॥ कहीने बार लोगस्सनो  
 काउस्सग्ग करवो ते लोगस्स चदेसु निम्मलयरा सुधी कहेवा  
 अथवा अरुतालीश नवकारनो काउस्सग्ग करी पारवो पारीने  
 प्रगट लोगस्स कही मुहपत्ति पम्पिलेहिने वादणा वे दीजे, पठी  
 इच्छाका० ॥ समात्त खामणेण अप्पुच्छिंहं अप्पितर० ॥ पस्किअं  
 ० ॥ स्वामेउं इत्तं स्वामेमि पस्किअ एक पस्काणं पनरस दिवसा  
 ण पनरस राइयाण जकिचि अपत्तिय कही पठी खमासमण  
 देइने इच्छाका० ॥ पस्कि खामणा खामु एम कही खामणा चार  
 खामवां पठी देवसि प्रतिक्रमणामा वदित्तु कहा पठी वे वादणा

देइने तिहांथी ते सामायिक पारीये तिहां सुधी सर्व देवसीनी पेठे जाणवुं. पण सुअदेवयानी थोयोने ठेकाणे ज्ञानादिनी थोयो कहेवी स्तवन अजित शांतिनुं कहेवु. सध्यायने ठेकाणे उवसग्गह रं तथा संसारदावानी थोयो चार कहेवी. अने लघुशांतिने ठेकाणे मोहोटी शांति कहेवी ॥ इति पस्किप्रतिक्रमणविधि. ॥१०३॥

॥ अथ चउमासी प्रतिक्रमण विधिः ॥

॥ ए उपर कह्या मुजव पस्किना विधि प्रमाणे करवुं पण एटलुं विशेष जे वार लोगस्सना काउस्सग्गने ठेकाणे वीश लोगस्सनो काउस्सग्ग करवो अने पस्किना आगारने ठेकाणे चउमासीना कहेवा तथा तपने ठेकाणे ठठेणं वेउपवास, चार आंघिल, ठ नीवि, आठ एकासणां, शोल वेआसणा, चार हजार सध्याय, ए रीते कहीए ॥ इति ॥१०४॥

॥ अथ संवत्सरी प्रतिक्रमण विधिः ॥

॥ एपण उपर लख्या मुजव पस्किना विधि प्रमाणे करवुं; पण वार लोगस्सना काउस्सग्गने ठेकाणे चालीश लोगस्स अथवा एकशोनेशाठ नवकारनो काउस्सग्ग करवो. अने तपने ठेकाणे अठम जत्त एटले त्रण उपवास, ठ आघिल, नव नीवि, वार एकासणा, चोवीस वेआसणां, अने ठ हजार सध्याय ए रीते कहेवुं ने पस्किना आगारने ठेकाणे संवत्सरीना आगार केहेवा ॥ इति संवत्सरीप्रतिक्रमण सं० ॥१०५॥

॥ अथ श्रीपादिकादि अतिचार ॥

॥ नाणंमि ढंसणमिअ, चरणमि तवमि तहय विरियंमि ॥ आवरणं आचारो, इअ एसो पंचहा जणित्तं ॥ १ ॥ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ए पंचविध आचरमांहि अनेरो जे को अतिचार पद्ध दिवस मांहे सूक्ष्म वादर,

जाणतां अजाणता हुं हुं ॥ ते सवि हु मन, वचन, कायाये  
 करी मित्रामि इकम ॥ १ ॥ तत्र ज्ञानाचार आठ अतिचार,  
 कालेविणए बहुमाणे, उवहाणे तहय निद्रवणे ॥ वंजण अठ  
 तडनए, अठविहो नाणमायारो ॥ २ ॥ ज्ञान कालवेलाये नएयो  
 गुण्यो, विनयहीन, बहुमानहीन, योगउपधानहीन, अनेरा कने  
 नणी, अनेरो गुरु कह्यो देववदन वादणे, पढिकमणे सद्याय क-  
 रता, नणाता, गुणाता, कूमो अक्षर, काना मात्रे, आगलो उंगो  
 नण्यो, सुत्र अर्थ विहू कूना कहा ॥ साधु तणे धर्मे काजो मामो,  
 अणपडिजेहा, काजो अणउक्षरिउ असज्जाइ उणोजा मांहि  
 दशवैकालिकप्रमुख सिद्धांत नएयो गुण्यो ॥ श्रावकतणे धर्मे  
 पविरावलि पढिकमणासूत्र, उपदेशमाला प्रमुख कालवेला काजो,  
 अण उक्षरिये पठव्यो ज्ञानइव्य नक्षित उपेक्षित प्रज्ञापराध  
 विणासियो, विणासता उवेखियो, सार संजाल न कीधी, तथा  
 ज्ञानोपगरण पाटी, पोधी, उवणी, कवली, नोकारवाली, सांपना,  
 सांपनी, दस्तरी, वही, उलिया प्रत्ये पग लाग्यो, थूक लाग्युं, थूके  
 करी अक्षर माज्यो, कने ठते आहार नीहार कीधो, ज्ञानवत  
 प्रत्ये द्वेप, मत्सर अंतराय, अवज्ञा कीधी ॥ आपणा जाणवातणो  
 गर्व चितव्यो, ज्ञानाचारवत विपइउ अनेरो जे को अतिचार ५०  
 ॥ १ ॥ दसणाचार आठ अतिचार ॥ निस्संकिय निकस्विय, नि-  
 वितिगिन्ना अमूढ दिछीअ ॥ उववूह थिरीकरणे, वज्जुलपनावणे  
 अठ ॥ ३ ॥ देव गुरु धर्मतणे विपे निस्सकपणु न कीधु, तथा  
 एकात निश्चय न कीधो, धर्म सवधिया फलतणे विपे निस्सदेह  
 बुद्धि धरी नही, तपोधन तपोधनी प्रत्ये मलमलिन गात्र देखी  
 उगंठा कीधी, मिथ्यात्वीतणी पूजा प्रजावना देखी मूढदृष्टिपणु  
 कीधु, तथा सध माहि गुणवततणी अनुपवृहणा कीधी, अस्थि-  
 रीकरण अवाउळय अमीति अजक्ति कीधी, तथा देवइव्य गुरु

इव्य साधारणइव्य नद्वित उपेक्षित प्रज्ञापराध विणास्यो,  
 विणासतो उवेख्यो, ठती शक्ते सार संज्ञाल न कीधी, तथा सा-  
 धर्मिकशुं कलह कर्मवध कीधो, अधोती अष्टपट मुखकोश पाखे  
 देवपूजा कीधी, वास कूपी धूपघाणु कलसतणो उपको लाग्यो,  
 देहरा पोसालमांहि मलश्लेष्म लुह्यां, हास्य क्रेली कुतूहल कीधा,  
 जिनजुवने चोरासी आशातना गुरुप्रत्ये तेत्रीश आशातना, व-  
 वणहारी हाथ थकुं पड्युं, पडिलेहवुं विसारथुं, गुरुवचन तहत्ति  
 करी पमिवज्यु नही, दसणाचारव्रविपइनुं अनेरो जे कोइ अति-  
 चार. पद्दण ॥२॥ चारित्राचार आठ अतिचार ॥ पणिहाण जो  
 गजुचो, पंचहिं समइहिं तिहिं गुत्तीहि ॥ एस चरित्तायारो, अठ-  
 विहो होइ नयवो ॥४॥ इर्या समिति, जापासमिति, एणसासमिति,  
 आदानजांडनिस्केवणासमिति, पारिछावणियासमिति, मनोगुप्ति,  
 वचनगुप्ति, कायगुप्ति, ए अष्टप्रवचनमाता साधुतणो धर्मे सदैव,  
 श्रावकतणो धर्मे सामायिक पोसह लीधे, रूमीपेरे चितव्या नही,  
 खंमणा विराधना कीधी, चारित्राचार व्रतविपइयो अनेरो जे  
 को अ० प० ॥ ३ ॥

॥ विशेषतः श्रावकतणो धर्मे सम्यक्त्व मूल वारव्रत, स-  
 म्यक्त्वतणा पांच अतिचार ॥ शंकाकंखा विगिञ्जा० ॥ शंका श्री  
 थरिहततणां बल, अतिशय, ज्ञानलक्ष्मी, गंजीर्यादिक गुण, शा-  
 श्वती प्रतिमा, चारित्रियानां चारित्र, जिन वचनतणो संदेह कीधो  
 ॥ आकांक्षा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, क्षेत्रपाल, गोगो, आसपाल,  
 पादरदेवता, गोत्रदेवता, देवदेहरानो प्रनाव देखी रोग आवे इह-  
 लोक पारलोकार्थे पूज्या, मान्या. बौद्ध, सांख्य, संन्यासी, जरमा,  
 जगत, लिंगीया, योगी, दरवेश, अनेराइ दर्शनीयानुं कष्ट मंत्र च-  
 मत्कार देखी, परमार्थ जाण्याविण नूलाव्या, मोह्या, कुशाख शी-  
 ख्यां, सांजड्यां, श्राद्ध, संवत्सरी, होली, बलेव, माहीपूनम, अ-

जापडवो, प्रेतबीज, गौरीत्रीज, विणायगचोथ, नागपंचमी, लील-  
 णाठठी, शीघलसप्तमी, ध्रुवअष्टमी, नौलीनवमी, अहवदशमी,  
 व्रतङ्गारसी, वत्सप्रारसी, धनतेरसी, अन्नतचौदसी, अमावास्या,  
 आदित्यवार, उत्तरायन, नैवेद्य, याग, जोग, मान्या, पीपले पाणी  
 रेम्ब्या, रेम्बाव्यां घरवाहिर, कूवे, तलावे, नदी, छह, कुम, वावि,  
 समुद्धे, पुण्यहेतु स्नान कीया ॥ वित्तिगिञ्जा ॥ धर्मसंबंधीय फल-  
 तणो सदेह कीधो, जिन अरिहत धर्मना आगार, विश्वोपगारसागर,  
 मोक्षमार्गना दातार, इस्या गुणजणी, पूज्या नहीं. इहलोक पर-  
 लोक संबधीया जोगवठित पूजा कीधी, रोग आतके कष्ट आवे  
 क्षीण वचन याग मान्या, महात्माना ज्ञात, पाणी, मल शोचा-  
 तणी निदा कीधी मिथ्यास्वी साथे प्रीति मानी, तेहनी दाक्षिण  
 लगे तेहनो धर्म मान्यो, श्रीसम्यक्त्व व्रतविपश्यो अनेरो ॥४॥

॥ पहेजे थूलप्राणातिपातविरमणव्रते पाच अतिचार ॥ वह-  
 वठविज्ञेए ॥ द्विपद चतुष्पद प्रत्ये रीशवशे गाढो घाय घाट्यो,  
 गाढ वधण वाघ्यु, घणे नारे पीड्यो, निल्लठण कर्म कीधु, चारा  
 पाणीतणी वेजाये सार सनाल न कीधी, लेणे देणे कुणहने उढ्युं,  
 लघाव्यु, तेणे भूरुख्ये आपण जिम्या, सड्या धान्य रूडीपेरे जोया  
 नहीं पाणी गलता ढोड्यु, जीवाणी शूकव्यु, गलता जालक नाखी,  
 गजण रूडु न कीधु, इधण ठाणा अणशोभ्या वाड्यां, तेमाही साप,  
 खजूरा, विठा, सरोजा, माकम, जूवा, गींगोमा, साहता मूत्र्या, डह-  
 व्या, रूमे धानके न मुक्या कीमी, मकोमी, उदेही, धीमेज, कातरा  
 चूमेज, पतगीया, मेमका, अलसीया, इयलप्रमुख जे कोइ जीव,  
 विणठा, विणसता उवेख्या, चाप्या, डहव्या, हलावता चलावतां,  
 पाणी ठाटता अनेराइ कामकाज करता विध्वसणु कीधु, जीव-  
 रक्षा रूमी न कीधी ॥ पहेजे थूलप्राणातिपात व्रत विपश्ये अनेरो  
 जे को अति ॥



॥ व्रीजे थूलमृपावादविरमणव्रते पांच अतिचार ॥ सहस्ता  
रहस्तदारे ॥ सहसात्कारे कुणह प्रत्ये अयुक्त आल दीधुं, स्वदारा-  
मंत्रनेद कीधी, अनेराइ कुणहनो मंत्र आलोच मर्म प्रकाशयो, कु-  
णहने अपाय पामवा कूडी वुद्धि धरी, कूमो लेख लख्यो, जूठी साख  
नरी, थापण मोसो कीधो, कन्या, ढोर, भूमि सवधिया लेहेणे देहेणे  
वादवढवाड करता मोटकु जुतु वोढया, व्रीजे थूलमृपावादव्रत वि-  
पश्यो अनेरो ॥

॥ व्रीजे थूले अदत्तादान विरमणव्रते पांच अतिचार ॥ तेनाह-  
मपत्तणे ॥ घर वाहिर, खेत्र, खले, परायु अणमोकल्यु लीधुं,  
वापरयुं, चोराइ वस्तु लीधी, चोरप्रत्ये शंवल दीधुं, विरुद्ध राच्यादि  
कर्म कीधु, कूडां मान, मापां कीधां, माता, पिता, पुत्र, मित्र,  
कलत्र, वची कुणहने दीधुं जूदी गांठ कीधी, नवा जूना सरस  
नीरस वस्तुतणा जेजसंजेज कीधा ॥ व्रीजे अदत्तादान व्रत-  
विपश्यो अनेरो ॥ ७ ॥

॥ चोथे स्वदारासंतोष परस्त्रीविरमणव्रते पांच अतिचार ॥  
अपरिग्रहियाइत्तर ॥ अपरिग्रहीता गमन कीधुं, अनंगक्रीडा  
कीवी, विवाहकारण कीधुं, कामजोगतणे विपे अति अजिलाप  
कीधो, दृष्टिविपर्यास कीधो, आठम, चउदशीतणा नियम लेइ  
जाग्या, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, सुहणे स्वप्नां-  
तरे हुआ, चोथे मैथुनविरमण व्रत विपश्यो अनेरो ॥

पांचमे थूल परिग्रह परिमाणव्रते पांच अतिचार ॥ धण  
धन खित्तववुण ॥ धणधन्ननुं परिमाण उपरुं रखाव्युं, सोनु रूपुं  
नवविध परिग्रहण प्रमाण लीधु नहीं, पढवुं विसारयुं ॥ पांचमे परि-  
ग्रह परिमाण व्रतविपश्यो अनेरो ॥ ८ ॥

ठठे दिग्विरमणव्रते पांच अतिचार ॥ गमणस्तय परिमा-

एण ॥ उदृदिशे, अहोदिशे, तिर्यग्दिशं जावा आववातणा नियम  
लेइ नाग्या, एक दिशि संक्षेपी बीजी दिशि वधारी, विस्मृत लगे  
अधिक भूमि गया, पाठवणी आधी मोकली, वाहण व्यवसाय की  
धो, वर्षाकाले गामतरु कीधुं ठठे दिग्विरमणावत विपश्यो० ॥

॥ सातमे जोगोपज्ञोगव्रते पाच अतिचार ॥ सचित्ते पभिवक्षेण ॥  
सचित्त आहारे, सचित्त प्रतिवक्ष आहारे, अप्पोलसहि नस्कणया,  
डप्पोल सहि नस्कणया, तुठोसहि नस्कणया सचित्त नस्कणया  
अपक आहारे डपक आहारे, तुठ्ठथौपधि, कुली आवली, उला,  
उंवी, पहुंक, पापनीतणां नक्षण कीधा, अनतकाय, अथाणातणा  
नक्षण कीधा, तथा रिगणा, विगणा, पीलू, पीचू, पंपोटा, महुमा,  
वमबोर, प्रमुख बहु बीजतणा नक्षण कीधां ॥ गाथा ॥ सचित्त  
दव विगइ, वाणह तवोल वड कुसुमेसु ॥ वाहण सयण विलेवणा,  
वचदिसी नाणजत्तेसु ॥ १ ॥ ए चउद नियम दिनप्रत्ये लीधा नहीं,  
लेइ संक्षेप्या नहीं, सचित्तइव्य, विगय, खासमा, वाहन, तंबोल,  
फोफल, वेसण, सयन, पाणी अंधोलण, फल, फूल, जोजन, आ-  
जावने जे कोइ नियम लेइ नाग्या, बावीश अनक्ष, वत्रीश अन-  
नतकाय माहि आदू, मूला, गाजर, पिड, पिडालु, कचूरो, सूरण,  
खिजोडा, मोरडा, सेलरा कुलीआंबली, वाघरडा, गरमर, नीलीगलो,  
वाडहोल खाधी, वाशी कगोल, पोत्री, रोटली त्रण दिवसना उ-  
दन, मधु महुडा, विप, हेम, करहा, घोडवडा, अजाणां फल, टी-  
वरु, गुदा, बोर, अथाणु, काचु मीतुं, तिल, खसखस, कोठिवमा  
खाधा लगनग वेलाये वालू कीधा, दिन उग्याविण शिराव्या, जे  
कोइ अनेरो अतिचार हुज होय ॥ तथा कर्मत. ॥ ईंगालकम्मे,  
वन्नकम्मे, साडीकम्मे, जाडीकम्मे, फोमीकम्मे, ए पांच कर्म ॥ द-  
तवाणिय्य, लस्कवाणिय्य, रसवाणिय्य विपवाणिय्य, केशवाणि-  
ज्य ए पांच वाणिय्य ॥ जंतपिल्लणाकम्मे, निह्लणकम्मे, दवगि

दावणया, सरइह तलाय सोसणया, असई पोसणया ॥ ए पांच सामान्य, ए पन्नर कर्मादान माहि कीधा, कराव्या, अनुमोद्या अ नेराइ कांइ सावद्यकर्म समाचर्यां होय ॥ सातमेजोगोपज्ञोगव्र तविपइयो अनेरोण ॥ १ ॥

॥ आठमे अनर्थदरुव्रते पाच अतिचार ॥ कंदप्पे कुक्कुशएण ॥ अनर्थदंरु जे कहिये, काम काज पाखे मुधा पाप लाग्या, मुख हास्य, खेल, कुतूहल, अंगकुचेष्टा कीधी, निरर्थक लोकने कर्षण, गाडा वाही, गामातरे कमावानी बुद्धि दीधी, कण वस्तु ठोर लेव राव्या, अनेराइ पापोपदेश दीधा, कोश, कुहाडा, रथ, उखल, मु शल, घर, घटि प्रमुख सज्ज करी मेहेड्यां, माग्या आप्या अंधो ल, नाहणे, पग धोयणे, खाले पाणी ढोड्या, अथवा जीलणा जीड्या, जूवटुं रम्या, नाटक पेसणा जोयां, पुरुष स्त्रीना रूप शृं गार वखाण्या, राजकथा, देशकथा, जक्तकथा, स्त्रीकथा, पराइ तात कीधी, कर्कश वचन वोड्या, सजेडा लगाड्या, शरज, कू कडा, प्रमुख जूजता जोया, कलह करता जोया, लोकतणी उ पार्जना कीधी. सुख कीर्ति देश लइ चितवी. जूण, पाणी, माटी, कण, कपाशिया, काजविण चांप्या, ते उपरे वेग, आले वनस्प ति चूटी, अंगीठ काष्ठ वणिज कीधा, ठाश, पाणी, घी, तेल, गोल, अम्लवेतस, बेरजातणा जाजन उधाडा मेहेड्यां, ते माहे कीडी, मंकोडी, कथुआ, उदेही, घीमेल, गिरोली, प्रमुख जे कोइ जीव विणठा, शूडा, सालही, क्रीडा हेतु पांजरे घाड्या, अनराइ जीवने रागद्वेष लगे एकने रुद्धि परिवार वंठी, एकने मृत्यु हाणी वठी ॥ आठमे अनर्थ दरुव्रत विपयिनअण ॥

॥ नवमे सामायिकव्रते पाच अतिचार ॥ तिविहे, ड्रप्पणिहा एण ॥ सामायिकमाही मन आहट दोहट चितव्युं, वचन सावद्य वोड्यु, शरीर अणपडिलेहुं, हलाव्युं रती शक्तियें सामायिक

लीधुं नहीं, उघाडे मुखें वोढ्या, सामायिकमाहि उंघ आवी, वी  
ज दीवा तणी उजेही लागी, विकथा कीधी, कण, कपाशिया,  
माटी, पाणी तणा संघट्ट हुआ, मुहपत्ती सघट्टी, सामायिक अण  
पूगे पारधु, पारधु विस्तारु ॥ नवमे सामायिकव्रत विपयिन्न अ  
नेरोण ॥ १३ ॥

॥दशमे देशावगाशिकव्रते पांच अतिचार ॥ आणवणे पेस  
वणेण ॥ आणवणप्पयोगे, पेसवणप्पयोगे, सदाणुवाइ, रूवाणुवा  
इ, वहियापुग्गलपस्केवे ॥ निर्मी चूमिका माही वाहिरथी अणा  
व्यु, आपण कन्हेथी वाहिर भोकळ्युं, शब्द संजलावी रूप देखा  
ही काकरो नाख्यो, आपणपणुं उतुं जणाव्यु, पुदगलतणो प्रक्रे  
प कीधो ॥ दशमे देशावगाशिकव्रत विपश्यो अनेरोण ॥

॥अग्यारमे पोपधोपवासव्रते पाच अतिचार ॥ संधारञ्जारु  
विहिण ॥ पोसह लीधे सधारातणी चूमि वाहिरला, थमिला सदि  
से रूडां शोध्यां नहीं, पमिलेह्या नहीं, थमिल वावरता मात्र परठ  
वता चितवणी न कीधी, “अणुज्जाणह जस्मग्गो” न कह्यो, पर  
ठव्या पूंठें वार त्रण वोसिरे न कह्यो देहरा पोसालमाहे पेसता नि  
सरता निसीहि आवस्तहि कहेवी विसारी, पुढवी, अप्प, तेज,  
वाज, वनस्पति, त्रसकायतणा संघट्ट परित्ताप उपड्व कीधा, सं  
थारा पोरिसी तणो विधि जणावो विसार्यो, अविधिये संथाख्या,  
पारणादिकतणी चिंता निपजावी, कालवेलाये देव न वाद्या पोस  
ह असुरो लीधो, सचेरो पाख्यो, पर्वतिथें पोसह लीधो नहीं ॥ अ  
ग्यारमे पोपधोपवासव्रतविपश्यो अनेरोण ॥ १५ ॥

॥वारमे अतिथि संविजागव्रते पाच अतिचार ॥ सच्चित्ते नि  
स्किरणे ॥ सचिन्न वस्तु देव उपर गता असूजतुं दान दीधुं ॥ बहो  
स्वा वेलाये दली रह्या, मत्सर लगे दान दीधु, देवातणी बुद्धपराइ  
वस्तु धणीने अणकहे दीधी, अथवा आपणी करी दीधी, अणदे

वातशी बुद्धे सूक्तुं फेडी असूक्तुं कीधुं, गुणवंत आवे नक्ति न साचवी, अनेराइ धर्म क्षेत्र सीदातां गती शक्ति उद्व्या नहीं, दी नखीन प्रत्ये अनुकंपादान दीधुं नहीं, देतां वारयुं ॥ वारमे अति थि संविज्ञागव्रतविपश्यो अनेरो ॥१६॥

॥ संलेपणातणा पांच अतिचार ॥ इहलोए परलोए ॥ इह लोगा संसप्पन्गे, परलोगा संसप्पन्गे, जीविया संसप्पन्गे, म रणा संसप्पन्गे ॥ इहलोके धर्मतणा प्रजावलगे राजरुद्धि जोग वंठया, परलोके, देव देवेइ चक्रवर्तितणी पदवी वाळी, सुख आवे जीववातणी वांठा कीधी, दु ख आवे मरवातणी वांठा कीधी, काम जोगतणी वांठा कीधी ॥ संलेपणाव्रत विपश्यो अनेरो जे कोइ अतिचार पद्द ॥१७॥

॥ तपाचार वार जेद ॥ ठ वाह्य, ठ अभ्यंतर ॥ अणसणमूणो यरियाण ॥ अणसणजणी उपवासादिक पर्व तिथे तप न कीधुं, ऊ णोदरी वे चार कवल जणा न जठया, इयजणी सर्व वस्तुतणो संक्षेप न कीधो, रसत्याग न कीधो, कायहेस लोचादिक कष्ट क स्था नहीं, संलीणता अंगोपाग संकोची राख्या नही, पञ्चस्काण ज्ञाग्यां, पाटलो रुगतो फेड्यो नहीं, गंठसही पञ्चस्काण ज्ञाग्युं, उपवास, आवील, नीवि कीधे मुखे सचित्त पाणी घाड्युं, वमन हुं ॥ वाह्यतपव्रत विपश्यो अनेरो ॥१८॥

॥ अभ्यंतर तप ॥ पायञ्चित्त विणज ॥ सूधु पायञ्चित्त पडिव ज्युं नहीं, आलोयणातणी सूधी टीप कीधी नहीं, सूधो तप पहेो चाड्यो नहीं, सातजेदे विनय न कीधो, दशजेदे वैयावच न कीधो, पंचविध सध्याय न कीधो, कयाय वोसरायो नहीं, दु.खकय क र्मकय निमित्त काजस्सग्ग न कीधो. शुद्ध्यान, धर्मध्यान ध्यायां नहीं, आर्त्त तथा रौद्ध्यान ध्याया ॥ अभ्यंतर तपव्रत विपश्यो अनेरो ॥१९॥

लीधुं नहीं, उघाडे मुखे बोड्या, सामायिकमाहि उघ आवी, वी  
ज दीवा तणी उजेही लागी, विकथा कीधी, कण, कपाशिया,  
माटी, पाणी तणा सघट्ट हुआ, मुहपत्ती सघट्टी, सामायिक अण  
पूगे पारधु, पारवुं विसाख्यु ॥ नवमे सामायिकव्रत विपयिउ अ  
नेरो ॥ १३ ॥

॥दशमे देशावगाशिकव्रते पाच अतिचार ॥ आणवणे पेस  
वणेण ॥ आणवणप्पयोगे, पेसवणप्पयोगे, सदाणुवाइ, रूवाणुवा  
इ, वहियापुग्गलपस्केवे ॥ निमी जूमिका माही वाहिरथी अणा  
व्यु, आपण कन्हेथी वाहिर मोकळ्यु, शब्द सज्जलावी रूप देखा  
डी काकरो नाख्यो, आपणपणु ठतु जणाव्यु, पुदगलतणो प्रक्के  
प कीधो ॥ दशमे देशावगाशिकव्रत विपइयो अनेरोण ॥

॥अग्यारमे पोपधोपवासव्रते पाच अतिचार ॥ सथारञ्चारु  
विहिण ॥ पोसह लीधे संधारातणी जूमि वाहिरला, थमिला संदि  
से रूडा शोध्या नहीं, पम्हिलेह्या नहीं, थमिल वावरता मात्रू परठ  
वता चितवणी न कीधी, “अणुक्काणह जस्सग्गो” न कह्यो, पर  
ठव्या पूठें वार त्रण वोसिरे न कह्यो देहरा पोसालमाहे पेसता नि  
सरता निसीहि आवस्सहि कहेवी विसारी, पुठवी, अप्प, तेउ,  
वाउ, वनस्पति, त्रसकायतणा सघट्ट परिताप उपइव कीधा, सं  
थारा पोरिसी तणो विधि जणावो विसाख्यो, अविधिये सथाखा,  
पारणादिकतणी चित्ता निपजावी, कालवेलाये देव न वाद्या पोस  
ह असुरो लीधो, सवेरो पाख्यो, पर्वतिथें पोसह लीधो नहीं ॥ अ  
ग्यारमे पोपधोपवासव्रतविपइयो अनेरोण ॥ १५ ॥

॥बारमे अतिथि सविजागव्रते पाच अतिचार ॥ सच्चित्ते नि  
स्किरणे ॥ सचित्त वस्तु हेठ उपर ठता असूजतुं दान दीधु ॥ व्हो  
रवा वेलाये टली रह्या, मत्सर लगे दान दीधु, देवातणी बुद्धंपराइ  
वस्तु धणीने अणकहे कीधी, अथवा आपणी करी कीधी, अणदे



(३९२)

॥ वीर्याचार त्रण अतिचार ॥ अणगूहिय वलवीरियोण ॥ मनोवीर्य धर्मध्यान तणे विपे उद्यम न कीधो, पडिक्कमणे देवपूजा धर्मानुष्ठान दान शील तप ज्ञावना उती शक्तियें गोपवी, आल से उद्यम न कीधो, वेठा पडिक्कमणु कीधुं, रूडा खमासमण न दीघा ॥ वीयाचार तप विपश्यो अनेरोण ॥२०॥

॥ पडिसिद्धाण करणेण ॥ प्रतिपेध, अज्जद्वय, अनत काय, महापरिग्रह, जे कोइ प्राणातिपात, मृपावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्या न, पैशुन, रति अरति, परपरिवाद, माया मृपावाद, मिथ्यात्वशब्द, ए अट्टार पापस्थानक माहे कीधा, कराव्या, अनुमोद्या हुए ते सवि हु मन वचन कायाये करी मिच्छामि डुक्कड ॥२१॥

॥ एवकारे साधु श्रावकतणे धर्मे सम्यक्त्व मूल वारव्रत ए कशोचोवीस अतिचार यद्द द्विस माहे सूद्धम, वादर, जाणतां, अजाणता हुवो हुइ ते सवि हुं मन वचन कायाये करी मिच्छामि डुक्कड ॥२२॥ इति पाहिकादि अतिण ॥१०६॥



## ॥ अध्यात्मचोवीशी ॥

॥ जुमखडुजुमीरह्युरे ॥ एदेशी ॥

राहा जोउ प्रथम जिणंदनोरे जे पोता सुख नीरवाण जिने  
श्वर पुजिये दरशण जेद जुजुवारे मारगनां ए गंण जिनेश्वर पुजिये  
॥१॥ ए आकणी ॥ स्व दरशणने देखतारे बहू आचारज मत जि  
ने० बहू विध मारग जाखीयोरे जुजुवा पक्के कृत जिने० ॥१॥ पुरव  
परपर देखतारे मारग रह्यो ते डुर जिने० तरक थकी विवाद घं  
णोरे पण नहि ते अनुकुल ॥ जिने० ॥३॥ ते कारण उदासनितारे  
मारग दीसे सार जिने० स्व अनुभव दशा लहीरे आगमने अनु  
सार जिने० ॥४॥ निमीत उपादान देखीनेरे कारण कारज जेह  
जिने० जेथी कारज संपजेरे ते कारण गुण गेह ॥ जिने० ॥५॥  
उपादान नीज आदरोरे शुधनी आतम सार जिने० मुनीहुकम  
निज घटमारे परमातम पद निरधार ॥ जिने० ॥६॥ श्रीरिखव दे  
वजीनुं स्तवन संपुर्ण ॥ ॥१॥ अनीहारे वालो वसे विमळा  
चलेरे ॥ ए देशी ॥ अनीहारे अजित जिनेश्वर करता कह्यारे  
स्व स्वरूप निरधार ज्ञान दरशण चरण गुण एहठेरे निज शक्ती सं  
जार अजित जिनेश्वर करता कह्यारे ॥ १ ॥ अनीहारे काल अ  
नादीनी विसरीरे वस्तु पोतानी जेह करम वशे पमथो तेहथीरे रह्यो  
कुमता संगे तेह ॥ अजि० ॥१॥ अनहारे मळीयुं कारण निमी  
त सहीरे सदगुरु तणो सजोग तेथी उपादान प्रगट्युरे टलयो विजा  
वनो जोग ॥ अजि० ॥३॥ अनीहारे तव शक्ती निज संज्ञालतोरे  
जासी सत्ता माही सार देखता आणांद उपन्योरे प्रगट करवा ययो  
तैयार ॥ अजि० ॥ ४ ॥ अनीहारे जथाप्रवर्ती प्रमुख करणथीरे  
जही समकीत सुखकार मोहनी करम डुरे करीरे वितराग थयो  
मनुहार ॥ अजि० ॥५॥ अनीहारे घाती अघाती द्वीहणीरे लीधुं  
शिवपुट राज तेथी करता तु ययोरे वाधी अनंती लाज ॥ अजि० ६

अर्नाहारे करता एम होशे सहीरे ते लेशे अवीचलराज मुनीहुकम  
आशा एहेठेरे आपजा अजित माहाराज ॥ अजि० ॥७॥ इति

॥३॥ जिमजिम ए गीरि नेटीएरे ॥ एदेशी ॥ श्रीसन्नव जिन  
पुजियेरे स्वजाविक कहेवाय स्नेही कारण तु ते सत्येठेरे जधारथ  
कहेवाय स्नेही ॥ श्रीसन्नव ॥१॥ ए आंकणी ॥ उपादान सनावेठेरे  
परने त्यागधी थाय स्नेही० ॥ स्व सवर त्याहा जाणीएरे शुध निर्ज  
रा कहेवाय स्नेही० श्रीसन्नव ॥२॥ घरमध्यान ते ध्यावतारे नेद  
ग्यान नीरधार स्नेही० स्वपर वेहचणा त्याहा करेरे तेहीज शुध व्य  
वहार स्नेही० श्रीसन्नव० ॥३॥ कारण सत्य ते एहेठेरे अवर कार  
ण असत्य स्नेही० वितराग पद तेहथी लहेरे प्रगटे गुण अनत  
॥ स्नेही० श्रीसन्नव० ॥४॥ ज्ञानादीक गुण आ तमारे एफत्वनाव  
कहेवाय स्नेही० तेथी केवळ पामीएरे सलेसी करण ते थाय ॥  
स्नेही० श्रीसन्नव० ॥५॥ सीधसमापत त्याहा करेरे सुख अनतनु  
धाम स्नेही० अव्यावाध पद ते वरघारे मुनीहुकम तस नाम ॥  
स्नेही० श्रीसन्नव० ॥६॥ इति

॥४॥ नीड्नी नाथ नीवारीए ॥ ए देशी ॥ अर्नीनदन जीन व  
दीए जेणे कीधु हो काइ आतमकाज के राग देश मोह जीतीओ  
करता हो लोकोतरनु राज के अर्नीनदन जीनवंदीए ॥१॥ इड् चड्  
दीकसवी नवी जीतेहो कोइ तेहने जाण के तेने जीते ते प्रभु रुहीए  
जेथी प्रगटे हो अनतुनाणके ॥ अजि० २ ॥ परभावमा पेसे नहि तजी  
इंदी हो विषय विकार के ते पावे सुमता सुधा स्वस्वजावे हो  
ते सुख नीरधारके ॥ अभी० ॥३॥ जे रमे गुण ते लहे कारज साथे  
हो पोतानु सार के रमण नासण स्वतणु काइ करता हो पामे  
गुण नमारके ॥ अर्नी० ॥४॥ परदेश असंखे प्रगट होवे अनंत  
चतुष्टी हो करे गुण उदारके ते सुख नोगवे सिधना टाली प  
रजाव हो काइ नीज पद सारके अर्नी० ॥५॥ एम कारज आ

तम तणु समजी करशे हो कांइ जे नरनारके मुनीहुकम टले  
तेहनां जनम मरण हो कांइ नव जजाळके ॥ अभीनंदन० ॥६॥

॥५॥ हारेमारे धरमजीएंदशुं लागी पुरण प्रीतजो ॥ एदशी॥

हारेमारे सुमती जीनेश्वर सुमती दायक नाथजो ॥ अवर न दीसे

डजो दायक एहवोरे लोल हा० ॥ सुमती आवे ज्यारे घर मोजारजो

सुधारो होवे ते कहु कांइ जेहवोरे लोल ॥ हारेमारे० ॥१॥ अंकणी॥

हारेमारे जाय मिथ्यातनी प्रकृतियो त्रण जो तेम अनंतानु बधी चो

कमी जाणीएरे लोल हारेमारे अगनान नातु कुमता संगे जाय जो

रग जरीने सुमता घरमां आणीएरे लोल ॥ हारेमारे ॥२॥ हारेमारे

दीठुं धन संताए अनत जो अविनाशी अचल अखमीत ते सहीरे

लोल हारेमारे निरजन निराकार विमळ जोतजो अव्यावाय सुख

अनतु ते लहीरे लोल ॥ हारेमारे ॥३॥ हारेमारे एम देखीने जा

ग्यो विदानंद चुपजो ग्यानदंन ग्रहिने उठ्यो ताम्वारे लोल हां०

रागद्वेश दीठा चोर घरमाहिजो मोहादिक शत्रुने तेम वळी मारवा

रे लोल ॥ हारेमारे० ॥४॥ हारेमारे मिथ्यताने अव्रत तेम कपायजो

जोगने पण हणीआ निज शकते करीरे लोल हा० आश्रव बंध

तव वेगे नाठा जायजो आव्यो सवर जोधो गुण सघळा धरीरे लोल

॥ हारेमारे० ॥५॥ हारेमारे एरीते जे रमशे स्वरूप मोजारजो स्वस

चाने देखी गुण परगट करेरे लोल हां० मुनीहुकम ते व्यक्तिजावे

धायजो शिवरमणी कांइ सेहेजे ते नरने वरेरे लोल ॥ हारेमारे० ॥६॥

॥६॥ नमारे नमो श्री सेत्रुंजा गिरिवर ॥ एदेशी॥ पद्म प्रजुजीन

पुजा करीजे अव्य जाव दोषनेदेरे द्रव्य पुजाथी स्वर्ग सुखठे जाव

पुजा अखेदेरे पदमप्रभु जीनपुजा करीजे ॥१॥ नवण करीजे स

मरस लहिने अंगलुवन विवेकोरे छुटी आठ मुखकोस करीने न

तरासन एकत्व नेकोरे ॥ पदम० ॥२॥ खायक दरशन चंदन ग्र

ही कुसुम ते पचाचाररे करमदहत धुप उखेवो द्वीअष्ट मंगल

अर्नाहारे करता एम होशे सहीरे ते लेशे अवीचलराज मुनीहुकम  
आशा एहठेरे आपजो अजित माहाराज ॥ अजि० ॥७॥ इति

॥३॥ जिमजिम ए गीरि जेटीएरे ॥ एदेशी ॥ श्रीसन्नव जिन  
पुजियेरे स्वप्नाविक कहेवाय स्नेही कारण तुं ते सत्यठेरे जधारथ  
कहेवाय स्नेही ॥ श्रीसन्नव ॥१॥ ए आंकणी ॥ उपादान सजावठेरे  
परने त्यागथी थाय स्नेही० ॥ स्व सवर त्याहा जाणीएरे शुभ निर्ज  
रा कहेवाय स्नेही० श्रीसन्नव ॥२॥ धरमध्यान ते ध्यावतारे जेद  
ग्नान नीरधार स्नेही० स्वपर वेहचण त्याहा करेरे तेहीज शुभ व्य  
वहार स्नेही० श्रीसन्नव० ॥३॥ कारण सत्य ते एहठेरे अवर कार  
ण असत्य स्नेही० वितराग पद तेहथी लहेरे प्रगटे गुण अनंत  
॥ स्नेही० श्रीसन्नव० ॥४॥ ज्ञानादीक गुण आ तमारे एस्वप्नाव  
कहेवाय स्नेही० तेथी केवळ पामीएरे सलेसी करण ते थाय ॥  
स्नेही० श्रीसन्नव० ॥५॥ सीसमापत त्याहा करेरे सुख अनतनु  
धाम स्नेही० अव्यावाध पद ते वरधारे मुनीहुकम तस नाम ॥  
स्नेही० श्रीसन्नव० ॥६॥ इति

॥४॥ नाडमी नाथ नीवारीए ॥ ए देशी ॥ अर्जनिदन जीन व  
दीए जेणे कीधु हो काइ आतमकाज के राग द्वेश मोह जीतीओ  
करता हो लोकोतरनु राज के अर्जनिदन जीनवंदीए ॥१॥ इंड्र चडा  
दीरुसवी नवी जीतेहो कोइ तेहने जाण के तेने जीते ते प्रभु कहीए  
जेथी प्रगटे हो अनतुनाणके ॥ अजि० २ ॥ परभावमा पेसे नहि तजी  
इंडी हो विषय विकार के ते पावे सुमता सुधा स्वस्वप्नावे हो  
ते सुख नीरधारके ॥ अभी० ॥३॥ जे रमे गुण ते लहे कारज साथे  
ही पोतानुं सार के रमण जासण स्वतणु काइ करता हो पामे  
गुण नमारके ॥ अर्जि० ॥४॥ परदेश असंखे प्रगट होवे अनत  
चतुष्टी हो करे गुण उदारके ते सुख जोगवे सिधना टाली प  
रजाव हो काइ नीज पद सारके अर्जि० ॥५॥ एम कारज आ



अनीहारे करता एम होशे सहीरे ते लेशे अवीचल राज मुनीहुकम  
आशा एहठेरे आपजो अजित माहाराज ॥ अजि० ॥७॥ इति

॥३॥ जिमजिम ए गीरि नेटीएरे ॥ एदेशी ॥ श्रीसन्नव जिन  
पुजियेरे स्वजाविक कहेवाय स्नेही कारण तु ते सत्येठेरे जधारथ  
कहेवाय स्नेही ॥ श्रीसंज्ञव ॥१॥ ए आंकणी ॥ उपादान संजावठेरे  
परने त्यागथी थाय स्नेही० ॥ स्व सवर त्याहा जाणीएरे शुध निर्ज  
रा कहेवाय स्नेही० श्रीसंज्ञव ॥२॥ घरमध्यान ते ध्यावतारे नेद  
ग्नान नीरधार स्नेही० स्वपर वेहचण त्याहा करेरे तेहीज शुध व्य  
वहार स्नेही० श्रीसन्नव० ॥३॥ कारण सत्य ते एहठेरे अवर कार  
ण असत्य स्नेही० वितराग पद तेहथी लहेरे प्रगटे गुण अनत  
॥ स्नेही० श्रीसन्नव० ॥४॥ ज्ञानादीक गुण आ तमारे एस्वजाव  
कहेवाय स्नेही० तेथी केवळ पामीएरे सलेसी करण ते थाय ॥  
स्नेही० श्रीसन्नव० ॥५॥ सी प्रसमापत त्याहा करेरे सुख अनतनु  
धाम स्नेही० अव्यावाध पद ते वरघारे मुनीहुकम तस नाम ॥  
स्नेही० श्रीसन्नव० ॥६॥ इति

॥४॥ नीहमी नाथ नीवारीए ॥ ए देशी ॥ अनीनदन जीन व  
दीए जेणे कीधु हो काइ आप्तमकाज के राग देश मोह जीतीओ  
करता हो लोकोतरनु राज के अनीनदन जीनवदीए ॥१॥ इइ चडा  
वीकसवी नवी जीतेहो कोइ तेहने जाण के तेने जीते ते प्रभु कहीए  
जेथी प्रगटे हो अनतनुनाणके ॥ अजि० २ ॥ परभावमा पेसे नहि तजी  
इदी हो विषय विकार के ते पांवे सुमता सुधा स्वस्वजावे हो  
ते सुख नीरधारके ॥ अभी० ॥३॥ जे रमे गुण ते जहे कारज साथे  
हो पोतानु सार के रमण जासण स्वतणु काइ करता हो पामे  
गुण नकारके ॥ अनी० ॥४॥ परदेश असखे प्रगट होवे अनत  
चतुष्टी हो करे गुण उदारके ते सुख जोगवे सिधना टाली प  
रजाव हो काइ नीज पद सारके अनी० ॥५॥ एम कारज आ

नांतुं हांहां० शाता अशाता जाणीए हवे मोहनि पारुं हांहां०  
 ॥चंद्र० ॥ ४ ॥ अनंतानुवंशी अपचखाणी प्रतिआखान संजल  
 कहिए हांहां० सोळ प्रकृति तिहां गई हिसादिरु खट लहिए हांहां  
 ॥ चंद्र० ॥ ५ ॥ वेद त्रण ते गया मिथ्यात्व त्रण जेदे हाहा० आउ  
 करम ते जाणीए जाखुंतुं चार जेदे हाहां० ॥चंद्र० ॥ ६ ॥ देव मनु  
 प्य त्रीजवनी नारकी चौथी कहिए हाहा० नाम करम हवे जा  
 खशु गति जाति लहिए हांहां० ॥चंद्र० ॥ ७ ॥ शरीर उपर वंधणा  
 संवेण संगतन कहिए हाहा० स्वस्थानने आनुपुरवी वरणादि  
 चउ लहिए हाहां० चंद्र० ॥ ८ ॥ व्याहो गति एम जाणीए प्रतेक  
 प्रकृति आठ हाहां० त्रस थावर दोय दशका ए सरवे नाठ हांहां  
 ॥ चंद्र० ॥ ९ ॥ तिच उच गोत्र करम जे अंतराय पंच कहिजे  
 हाहा० दान लाज नोग उपनोगनो विरज अंतराय लहिजे  
 हांहां० ॥ चंद्र० १० ॥ ए आठे करम हणी गुण आठ जे वरिया  
 हांहां० मुनीहुकम प्रभु आपजो सत्तामा नरिया हांहां० ॥ चंद्र १ १  
 ॥ इति ॥ ॥ ११ ॥ दिठीहो प्रभु दिठी जगगुरु तुज ॥ एदेशी ॥ दि  
 ठाहो प्रभु दिठा सुवधीजिणद मिठुहो प्रभु मिठु सासन ताहरुजी  
 तत्वहो प्रभु तत्व न्नाख्यारे नव मोह्युहो प्रभु मोह्यु मनडु माहरुं  
 जी ॥ दिठाहो प्रभु ॥ १ ॥ जीवहो प्रभु जीव अजीव पुन्य पाप आ  
 श्रवहो प्रभु आश्रव सवर निर्जराजी वग्रहो प्रभु बंध मोक्ष ए नव  
 अनेकहो प्रभु अनेक गुणथी नस्थाजो ॥ दिठा ० ॥ १ ॥ हेयज्ञेय हो प्रभु  
 हेयज्ञेयने उपादेय समजे हो प्रभु समजे तेहिज सुख लहेजी जीवहो  
 प्रभु जीव अजीव जाणवा जोग पुन्यहो प्रभु पुन्य पाप आश्रव क  
 हेजी ॥ दिठा ० ॥ ३ ॥ बंधहो प्रभु बंधसहित ए छाड संवरहो प्रभु  
 सवरनिर्जरा मोक्ष आदरोजी एणीविधहो प्रभु एणीविध नाख्युं  
 तुम तेहिजहो प्रभु तेहिज मुज मनमा धरोजी ॥ दिठा ० ॥ ४ ॥ तेथी  
 हो प्रभु तेथी उपराठारेजेह रखडशे हो प्रभु रखमशे चार गति विशे

साररे ॥पदम० ॥३॥ आरतरुद्ध टालण आरती कीजीए मन उ  
 लासरे चउगति चुरण साथीओ नारव्यो अकृत अक्षेवासरै ॥  
 पदम० ॥४॥ ज्ञान गुणे करी चेतन वासो फळ उपवर्ग निरधा  
 ररे ज्ञान ध्यानथी ए पढ पामी अणहारी पद मनुहाररे ॥पदम५॥  
 नाव पुजा एणिविध शुं करता पामे पदमनुहाररे मुनीहुकम का  
 रणथी कारज समजी लेजो विचाररे ॥ पदम० ॥ ६ ॥

॥७॥ श्रीश्रीपाळ कुमार ॥ एदेशी ॥ श्रीसुपासजीणद सत न  
 गी नाखी जीनेस्वरुजी आस्ति नास्तिरे जेह नित अनित अने  
 क एक धरुजी ॥१॥ सत्य असत्य व्यक्त अव्यक्त जेद अनेद जव्य  
 अजव्य जाणीएजी इत्यादिक बहु जेद सतनगी चित आणीएजी  
 ॥२॥ इव्य खेतरने नाव आस्तिरे नास्ति तुमे कहीजी इव्यथी  
 चेतनराय खेत्रथी असख परदेश ग्रहीजी ॥३॥ काळथी अगुरु लघु  
 जेह नावथी ज्ञानादिक गुण कहाजी ए स्व इव्यादिक चार आ  
 स्ति धर्म माहि लहाजी ॥४॥ धर्म अर्ध आकाश काळ पुदगळ  
 पचे परजणाजी तेथीरे नास्तिनाव समकाळे मिश्रजग वणाजी  
 ॥५॥ उचारण नहि जास तेथी अव्यक्त चोथो लहोजी आस्ति  
 नास्तिने मिश्र जेह त्रणेनो अव्यक्तव कहोजी ॥६॥ जगेवि एम  
 सतचार बहु विध जेद ते जाणीएजी मुनीहुकम आस्तिरे धर्म पोते  
 पोतानुं मानिएजी ॥७॥ ॥८॥ विरतीपणो हुं विनवुं प्रभु  
 अम घेर आवो ॥एदेशी ॥ चड प्रभुजिन आठमा आठ करमने  
 हणिया हाहारे आठ करमने हणिया अनत अष्टगुण ग्रही शिवर  
 मणीपरिया हाहारे ॥ चद्र० ॥१॥ ग्यानावरणी प्रथम हणुं आ  
 वर्ण पाच ते जाणो हाहा० मति सुत अवधी मनपर्जवनु केवल  
 नु आणो हाहा० ॥ चड० ॥२॥ दरशनावरणी वीजु गयु चक्षु  
 अचक्षुनु कहिए हाहा० अवधी केवलनु सही निजा पचनु लहि  
 ए हाहा० ॥ चड० ॥ ॥३॥ वेदनी करमनु ते जाणीए दोय भेदथी



ध्यावो डुरगति डुःखटले निज सरुपवळे स्वस्वरुपनुं सुख पावो  
 ॥अग्निअरण॥६॥ समुचित शक्तिथी समर्थ परजाए लहि व्यक्ति  
 चाव करो चित लाइ मुनीहुकम निज स्वरुपमां रमतां मुगती व  
 धु तेडण आइ ॥ अग्निअरण ॥७॥ इति.

॥११॥ धनधन ते जग प्राणीया मन मोहनमेरे ॥ एदेशी ॥  
 वासुपुज जीन साहेवा मन मोहन मेरे दरशन ताहरु सार मन  
 मोहनमेरे अवर दरशन जे जे कहां मन० ते तो असत्य उपचार  
 ॥मन०॥१॥ जाखु विचार ते दरशननो मन० तत्व तणो प्रकाश  
 मन० देवगुरु तस दाखवु मन० दरशण पण नीवास्त॥मन०॥२॥  
 बोध दरशनमा जाणीए मन० तत्व एकवीस जेह मन० सकट  
 देवगुरु बोध छे मन० भोमी दरशन धार मन०॥३॥ नयायक तत्व  
 त्रेवीश कहा मन० देव इश्वर गुरु जोगी मन० नोमी दरशन  
 जाणीए मन० ते तो ससारना जोगी ॥मन०॥४॥ संखा दरशण  
 तत्व पचवीसछे मन० देव नारायण तास मन० गुरु संन्यासी  
 जाणीए मन० दरशन तस आकाश ॥मन०॥५॥ विशेषक मत  
 जाणीए मन० तत्व चुंवाळीस तास मन० तत्व ज्रमगुरु ब्राह्मण  
 मन० जज दरशणछे जास ॥मन० ६॥ जयमनीए तत्व वार कहा  
 मन० करता कोइ न धार मन० अष्टांग जोगथी मुक्षछे मन० एमां  
 मांइसरु विचार ॥ मन० ॥७॥ ए पांचे दरशण जाणीए मन०  
 त्यां मुगती नहि जाण मन० देवगुरु सरागीठे मन० तेथी डुरेवाण  
 मन० ताहरा दरशण मांहीठे मन० तत्व एकवीस विचार ॥मन०  
 ॥८॥ देव अरीहंत जाखीआ मन० सुसाधु नीग्रथ मन० दरशण  
 चंड तेम कह्युं मन० मुनी हुकम शुध ग्रथ ॥मन० ९॥ संपुर्ण ॥  
 १३॥ दीपक दीपतोरे लोकालोक प्रकाश ॥एदेशी॥ विमलजिन वदी  
 येरे निरमल गुण दीसेठे जास गुण अनंतनीरे जेने प्रगटी गुणकी  
 रास ॥वि० १॥ रूपारूपी जाणतारे स्वपरसमय विचार लोका

जी मुनीहोप्रभु मुनीहुकम तुज आण साचीहोप्रभु साची ते रुदीए  
 वसेजी॥दिठा० ॥५॥ ॥इति॥१०॥ सासन सुलतान श्रीलोढण  
 जिन पास तणारे गुणगाड ॥एदेशी ॥ श्रीसितळ जिनराय सित  
 पणु तुज देखी मनडु धायु ॥ एआकणी ॥ राग देश मोहने टारी  
 थया सुमता रस अतर धारी अज्ञान अगनी छरे वारी॥श्रीसितळ॥  
 ॥१॥ आहट दोहट छरेछमी शुभजाव चित्तु मडी काइ वश की  
 धु मनडु मनी ॥श्रीसित०॥२॥ धरम ध्यान शुकल धारी अगना  
 न तिमिर छरे वारी थया आतम अनुभव सुखकारी ॥श्रीसित०॥  
 ॥३॥ छती परजाय सभारी सतागतथी चित्त धारी प्रगट कीधी  
 तुम हितकारी ॥ श्रीसित०॥४॥ आस्ति स्वजावने सजारो नास्ति  
 स्वजाव छरे वारो सामर्थ परजाए एम धारो ॥श्रीसित०॥५॥ स्वस्व  
 भावमा एम रेहेता परजाव अगनी छरे धरता सितल गुण सेहेजे  
 वरसता ॥श्रीसित०॥६॥ मुनीहुकम सितल ध्याव स्वसपति सुखे  
 पावे शिवरमणी ते तेडवा थावे ॥श्रीसितळ ॥ ७ ॥ इति ॥

॥११॥ देशी कडखानी ॥ अगिआरमा जीन तणी तेवा शास्त्रे  
 जणी करवा सुरते कोइ होवे ए तो कठण कहो सेहेज नविलही  
 इद्र चद्र पण नविय रेहेवे ॥ अगिआरण॥१॥ तप जप किरिआ ब  
 हु विध ते करे कोइ जगती कोइ नाम ध्यावे आतम स्वरुप जा  
 प्या विना तेहनु अज्ञानपणु ते कदीय न जावे ॥अगिआरण॥२॥  
 परजाव याहिकाल अनादिनो अभावी पण व्रत धारे मिथ्यास्वी  
 पण तेह करणी करे पण मोहने ते नविय मारे ॥अगिआरण॥३॥  
 जेहनु ग्यान तेहिज निरवाण छे सुवातमथी सुख पावे स्वदशा  
 नजवा धरुी चेतना अक्षय पदवी तेह पावे ॥ अगिआरण॥४॥  
 परजाव ग्राहि चउगति माहे कह्या पुनरपी पुनरपी तेह पावे तेह  
 कारण समजो तुमे प्राणीआ सदगुरु सगे ते नित रेहेवे ॥ अगि  
 आरण॥५॥ घटमाहि वस्तुछे अततखिदेचरी तेह माहि तमे नित्य

ध्यावो दुरगति दुःखटले निज स्वरूपवळे स्वस्वरूपनुं सुख पावो  
 ॥अग्निधारण॥६॥ समुचित शक्तिथी समर्थ परजाए लहि व्यक्ति  
 नाव करो चित लाइ मुनीहुकम निज स्वरूपमां रमतां मुगती व  
 धु तेडण आइ ॥ अग्निधारण ॥७॥ इति

॥११॥ धनधन ते जग प्राणीया मन मोहनमेरे ॥ एदेशी ॥  
 वासुपुज जीन साहेवा मन मोहन मेरे दरशन ताहरु सार मन  
 मोहनमेरे अवर दरशन जे जे कह्यां मन० ते तो असत्य उपचार  
 ॥मन०॥१॥ नाखु विचार ते दरशननो मन० तत्व तणो प्रकाश  
 मन० देवगुरु तस दाखवुं मन० दरशण पण नीवास॥मन०॥२॥  
 बोध दरशनमा जाणीए मन० तत्व एकवीस जेह मन० सकट  
 देवगुरु बोध छे मन० भोमी दरशन धार मन०॥३॥ नयायक तत्व  
 त्रेवीश कह्या मन० देव इश्वर गुरु जोगी मन० जोमी दरशन  
 जाणीए मन० ते तो संसारना जोगी ॥मन०॥४॥ सखा दरशण  
 तत्व पचवीसछे मन० देव नारायण तास मन० गुरु संन्यासी  
 जाणीए मन० दरशन तस आकाश ॥मन०॥५॥ विशेशक मत  
 जाणीए मन० तत्व चुंवाळीस तास मन० तत्व ज्ञमगुरु ब्राह्मण  
 मन० जल दरशणछे जास ॥मन० ६॥ जयमनीए तत्व वार कह्या  
 मन० करताकोइ न धार मन० अष्टांग जोगथी मुक्षे मन० एमां  
 मांडसरु विचार ॥ मन० ॥७॥ ए पाचे दरशण जाणीए मन०  
 त्यां मुगती नहि जाण मन० देवगुरु सरागीठे मन० तेथी डुरेठाण  
 मन० ताहरा दरशण मांहीठे मन० तत्व एकवीस विचार ॥ मन०  
 ॥ ८ ॥ देव अरीहंत नाखीआ मन० सुसाधु नीग्रथ मन० दरशण  
 चंड तेम कहुं मन० मुनी हुकम शुभ ग्रथ ॥मन० ९॥ संपुर्ण ॥  
 १३॥ दीपक दीपतौरे लोकालोक प्रकाश ॥एदेशी॥ विमलजिन वदी  
 घेरे निरमल गुण दीसेठे जास गुण अनंतनीरे जेने प्रगटी गुणकी  
 रास ॥वि० १॥ रुपारुपी जाणातारे स्वपरसमय विचार लोका

जी मुनीहोप्रभु मुनीहुकम तुज आण साचीहोप्रभु साची ते रुदीए  
 वसेजी॥दिठा० ॥५॥ ॥इति॥॥१०॥ सासन सुलतान श्रीलोढण  
 जिन पास तणारे गुणगाउ ॥एदेशी ॥ श्रीसितळ जिनराय सित  
 पणु तुज देखी मनडु वायु ॥ एआकणी ॥ राग द्वेश मोहने टारी  
 थया सुमता रस अतर धारी अज्ञान अगनी छरे वारी॥श्रीसितळ॥  
 ॥१॥ आहट दोहट छरेछमी शुधनाव चितमु मडी काइ वश की  
 धु मनमु मनी ॥श्रीसित०॥२॥ धरम ध्यान शुफल धारी अगना  
 न तिमिर छरेवारी थया आतम अनुनव सुखकारी ॥श्रीसित०॥  
 ॥३॥ छती परजाय सभारी सतागतथी चित धारी प्रगट कीवी  
 तुम हितकारी ॥ श्रीसित०॥४॥ आस्ति स्वनावने संजारो नास्ति  
 स्वनाव छरे वारो सामर्थ परजाए एम धारो ॥श्रीसित०॥५॥ स्वस्व  
 भावमा एम रेहेता परनाव अगनी छरे धरता सितल गुण सेहेजे  
 वरसता ॥श्रीसित०॥६॥ मुनीहुकम सितल ध्याव स्वसपति सुखे  
 पावे शिवरमणी ते तेडवा आवे ॥श्रीसितळ ॥ ७ ॥ इति ॥

॥११॥ देशी कडखानी ॥ अगिआरमा जीन तणी सेवा शास्त्रे  
 नणी करवा सुरते कोइ होवे ए तो कठण कही सेहेज नविजही  
 इद्र चद्र पण नविय रेहेवे ॥ अगिआरण॥१॥ तप जप किरिआ ब  
 हु विध ते करे कोइ जगती कोइ नाम ध्यावे आतम स्वरुप जा  
 ण्या विना तेहनु अज्ञानपणु ते कदीय न जावे ॥अगिआरण॥२॥  
 परनाव ग्राहिकाल अनादिनो अभवी पण व्रत धारे मिथ्यात्वी  
 पण तेह करणी करे पण मोहने ते नविय मारे ॥अगिआरण॥३॥  
 जेहनु ग्यान तेहिज निरवाण छे सुयातमथी सुख पावे स्वदशा  
 जजवा थकी चेतना अक्षय पदवी तेह पावे ॥ अगिआरण॥४॥  
 परनाव ग्राहि चउगति माहे कह्या पुनरपी पुनरपी तेह पावे तेह  
 कारण समजो तुमे प्राणीआ सदगुरु सगे ते नित रेहेवे ॥ अगि  
 आरण॥५॥ घटमाहि वस्तुछे अनतरिद्वेनरी तेह माहि तमे नित्य

साह्येण॥ वीरता गुण अधर्म इव्यमां स्वप्नावे ठरे होलाल स्वप्नावेण  
 ॥१॥ अवगाहन धर्म ते आकाशे नाखीज होलाल आण नवी  
 वस्तु जीरण काळधी दाखीज होलाल काण ॥ मलण वीखरण  
 स्वप्नाव पुदगलनो जाणीए होलाल पुण ए पंच इव्यनु धर्म ची  
 तमे नवी आणीए होलाल चीण ॥३॥ ज्ञान दरशन चरण गुण  
 ते आपणो होलाल गुण वीरज गुण अनत ए चारे गणो होलाल  
 एण ॥ एहने कहीए धर्म वस्तुनुं सत्यछे होलाल वस्तु० अवर सर  
 व धर्म ते असत्यछे होलाल तेण ४॥ करतो पुदगळीक नाव मुर  
 ख मनचींतवे होलाल मु० जाणो करुछु धर्म पण करम होवे हो  
 लाल पणण॥ धर्मनीज स्वप्नाव मांही जे खेलतो होलाल मां  
 ही०॥ गुण अनंता आप रुदेमां मेळतो होलाल रुदेण ५ सता  
 साथे जेह शकती नावे करी होलाल शकतीण नीमीत कारणधी  
 उपादान चीतवरी होलाल उण ॥ मुनीहुकम उपादे धर्म ते आ  
 दरे होलाल धर्मण टाळी पुदगळीक भावनीज स्वरुपवेरे होलाल  
 नीजण ६ ॥

॥ १६ ॥ पुजो श्री जीन चंदनेरे जवी पुजो श्रीजन चदने  
 ॥ एदेशी ॥ सेवो अचरा नंदनेरे जवि सेवो अचरानदने ॥ अं  
 कणी ॥ सतपणु जिहां परकाशु स्वस्वरुप मुणदनेरे भवि पुजो  
 अचरानंदने सुगुरुसगे संतकहावे रागवेश डुरंदनेरे ॥ जवि सेवो  
 १ ॥ सुगुरु सगे धर्म ते जाणो तजे अधर्म परनेरे जवि० जेह धर्म  
 धी रागवेश वळी प्रगटे एह विकारनेरे ॥ भविण २॥ जे जे तपधी  
 क्रोधादिक जागे धरम न कहिए तेहनेरे जविण स्वसमी एमां जे  
 कोइ राचा नविवंछा कशी एहनेरे ॥ जविण ३॥ चेतन स्वरुपमे  
 संतपणु जाणु परप्ताव असंतधारोरे जविण ते कारण परप्तावने  
 तजीए मोहदशा निवारोरे जविण ४॥ अनंते गुण नरात्रो ए आ  
 तम तेहनु ध्यान करीएरे जविण अवर जंजाळ सविडरे करीने

लोकनुरे प्रथम गुण ते नीरधार ॥ वि० २ ॥ तेम वळी देखतारे  
 अनंत ज्ञान जिणद सुख अव्यावाधनुरे पाम्या सेज थाणद  
 ॥ वि० ॥३॥ कपे नहि कदारे जोवा ए उन्नडवाय हेवी धीरतारे  
 गुण चोधो केहेवाय ॥ वि० ॥४॥ उतपातरे नहिरे स्वभावे ते सुख  
 कार अटलव अरुगाहनारे अरुपी छठो नीरधार ॥ वि० ॥५॥ अ  
 गुरु लवु सातमारे आठमे लवु छे पाच ए सरवे नीरमळ धवारे  
 हवे न रही खमखाच ॥ वि० ॥६॥ एम विमलता ओळखीरे ध्या  
 वो तमे श्रीजिनभुप मुनीहुकम विमलतारे पामे पद अनुप ॥ वि० ॥७॥  
 ॥१४॥ प्रीतमजी रंगरसे रमाए ॥ एदेशी ॥ अनंत जीनेश्वर  
 सुखकारी अनंत गुणे करी जे धारी पाम्या पदवी मनोहारी । अ  
 नंत ० ॥१॥ एआरुणी ॥ काळअनादी अनंतजेह वरगणा आठे  
 कहीतेह वळगी चेतनसु एह ॥ अनंत ० ॥२॥ उछेदी तेहने ताम  
 हणीओ मोह महीपती नाम टाल्युं रागद्वेशनुं ताम । अनंत ० ॥३॥  
 तव पाम्या केवळनाण चार अनता तीहाजाण अनंत सुख तणी  
 खाण अनंत ० ॥४॥ जीव सता अनंत देखी पुदगल अनंत पण  
 पेखी परजाव जाणी उवेखी ॥ अनंत ० ५॥ गुणपरजा अनंत जा  
 णो द्रव्य स्वरुप चीत आणो छती परजाए वखाणो अनंत ० ॥६॥  
 तेहथी अनत नाथ कहीए अनत स्वरुप तेहथी लहीए मुनीहुकम  
 घरमा रहीए ॥ अनंत ० ॥७॥ ॥१५॥ थारा मेला उर मेह  
 जवुके बीजळी ॥ होलाल ॥ जवुके बीजळी हो जाल ॥ एदेशी ॥ धरम  
 जीनेस्वर देव पनरमा सुख करु ॥ होलाल पनरमा सुख करु हो ॥  
 आपे धरम उदार वस्तुनो हेत करु होलाल वस्तुनो घट धरम  
 जेम वस्तु जळमा धारण करे हो ० जळ ० ॥ तेमपट धरम वस्तुनो  
 आछादन वरे होलालके आछ ० ॥१॥ एरु एकनु धर्म अवरमे न  
 सजवे होजाल अच ० ॥ अज्ञानी नवी समजे ते जेम तेम लवे  
 होलाल ते ० ॥ धर्म खव चळण साह्य गुण आवरे होलाल

जाचुं आत्मविना समापक नही जोजो भगवद् अगे उठाही ॥  
 सुंदर० ४ ॥ ऋरीयारुप वहू जेह कळप यर्काछे तेह कलप नही  
 एरु भ्रात ते जोजो धरीने खात ॥ सुंदर० ५ ॥ सत्य अमत्य जे  
 नवी नासे तेथी मनसुं डरेनासे ते कारण अनुचय क्रिजे परजाव  
 तजो घर लीजे ॥ सुंदर० ६ ॥ सरव शास्त्रमाहि जेह अध्यात्म  
 जाव गुण गेह मुनीहुकम चिदानंद ध्यान पामे पद पुरण ज्ञान ॥  
 सुंदर० ७ ॥ ॥१९॥ कपूर होरे अति उजळोरे ॥ एदेशी ॥  
 परजावती ऋगोरनेरे पुजो नथी त्रण काळ उपरुमरसमे जे  
 रम्भारे जनमथी निर विकाररे ॥ प्राणी पुजो परजावती नद १ ॥  
 द्रव्यारथरुदम जाग्वीयारे शब्द अशुद्ध विचार तेम परजायार्थक  
 जाणीयेरे खट जेद निरगाररे ॥ प्राणी० २ ॥ त्रण जेदथी निगम  
 कहीरे सग्रह दोय उदार व्यवहार वहू जेदे कहीरे रजुसुत्र दोय  
 धाररे ॥ प्राणी० ३ ॥ तीहा सुग्री समकित नहिरे धर्म मिथ्या  
 स्वी जोय शब्दनय जव पामीएरे समकित धर्म तव होयरे ॥  
 प्राणी० ४ ॥ तेनय पण एक कहीरे तेम संजीरुठ एक समकित  
 श्रावक साधु तीहारे केवळी धर्म तेने करे ॥ प्राणी० ५ ॥ एवजुत  
 ते सातमीरे सिध समाप्तधार एम नय जेद वरण व्यारे अठाविस  
 उदाररे ॥ प्राणी० ६ ॥ सुय ते माहिथी ग्रहोरे अग्रुध करो तुमे डर  
 मुनीहुकम जीन वचनछेरे करता वाये नुररे ॥ प्राणी० ७ ॥

॥ १० ॥ साजळजो मुती सजमरागे ॥ एदेशी ॥ पदमावती  
 सुत चरण नमीजे जेहथी भव ड.ख जायजी स्वरुप तेहनुं नय  
 णो निरखी निज स्वरुप चित लायजी ॥ पदमा० १ ॥ पुदगळ  
 परा वरतन एक वाकी चरम आवर्णन कहेवायजी सुकळ पक्षी  
 जीव ते जाणो धरमसनमुख ते थायजी ॥ पदमा० २ ॥ वाकी  
 सरव ते ऋश्र पक्षीआ फोगट धर्म पोकारंजी जथा प्रवर्ति करण  
 करे जेइ थतर करण तेवारजी ॥ पदमा० ३ ॥ समकित धारी

सेहज दशा निज वरीएरे ॥ जवि० ५ ॥ तेह स्वरुने जेह रमेछे सं  
 तपद तेहने कहीएरे जवि० जीवन मुक्त ते केहेवाय सरवधी उ  
 त्तम लइएरे ॥ भवि० ६ ॥ ते कारण निजपढने सेवो अमरीतरस  
 ए पीनीएरे जवि० मुनीहुकम कहे सेहेज दशाथी मुगती वधु सु  
 ख लीजीएरे जवि० ७

॥१७॥ रग रसीआ रग रसवनो मन मोहनजी ॥ एदेशी ॥  
 मरीमाता जेहनी मन मोहनजी नाखे धरम सुखकार मनहु मो  
 हुरे मन मोहनजी परमाण नय तीहा नाखीए मन० जेइना दोय  
 प्रकार मनहु० १ ॥ परतक्षने परोक्षे मन० परतक्षना दोय प्रफा  
 र मन० सरर परतक्ष केवळ रह्युं मन० गुण अनत नीरधार ॥  
 मन० २ ॥ देश परतक्ष हवे जाणजो मन० अवधी मन परजव  
 सार मन० रुपी द्रव्ये जाणता मन० नही अरुपी उपचार मन  
 ३ ॥ हवे परोक्षते नाखीए मन० मतीश्रुत उदार मन० मन इडो  
 थी ते लहे मन० अथवा श्रुत सुखकार ॥ मन० ४ ॥ गुह्यमथी  
 ते लहे मन० कोइक सेहेज विचार मन० इव्यस्वरुप तेहथी लहे  
 मन० स्वपरसमी ए धार ॥ मन० ५ ॥ परमाण नयविना रुप  
 नही मन० वायवु ते निरधार मन० ते कारण परमाण नय ग्रहो  
 मन० पामो स्वरुप विचार ॥ मन० ६ ॥ सुमती तत्वारथे ते कही  
 मन० ए नप्रतणो विचार मन० मुनी हुकम ए नयथकी मन०  
 विचारता नरनो पार ॥ मन० ७ ॥ ॥१८॥ ए गेरीवर दरस  
 ए जेह ॥ ए देशी ॥ सुदरसणसुत सुखकारी जे ज्ञानस्वरुप दा  
 तारी टाळी परनाउने दूर थइजानु तुमे काइ सुर ॥ सुदर० १ ॥  
 फिरीया पचरीस ते टाळो तेम तेरन पण विसारो पाच फिरीया  
 पण दूर किजे जयी पाप पड नरीजे ॥ सुदर० २ ॥ ठाणग सुग  
 डगे जेह नाख्यु ठे पापनु गेह ते कारण दूर कीजे आतम स्वरुप  
 लीजे ॥ सुदर० ३ ॥ सामायक नाम ते साचु आतम वर्मनुं



वालेसर काम करने विचारीरे हुंतो तम सार्थे छुं सतीरे ॥ छोम  
तां केम चाले छातीरे तुम गुणे मोहीछि माती वालेसर० २ ॥  
तुम मुगती वधुने चाहोरे ते तो पतीव्रता नही नाहोरे ॥ ए तो  
गणका जाती आहो वाळे० ३ ॥ ए तो सरवथी प्रीती पाळेरे तुम  
थी अर्धीका नवी धरिरे ॥ तेम नमांकांन विचारे ॥ वाले० ४ ॥  
पण गुण एहनो साररे पुनरपीजन मन धाररे ॥ रोग सोग छुं  
नविर वाले० ५ ॥ एम जाणी राजुल चेतीरे ॥ पीठ पेहेलां ती  
हा पोहोतीरे शोकनुं रुप केहेवाने केहेती वाले. ६ ॥ मुनीहुकम  
पण ते चाहेरे सीवरमणी चतिमां लायेरे ॥ तीहां जावा तैयार  
थाये ॥ वाले० ७ ॥

॥ ३३ ॥ चीत चोखे चोरी नवी करीए ॥ एदेशी ॥ प्रजावती  
कथ रुदीए धरीएजी वाला प्रजावती कंथ रुदीए धरीए ॥ ए आं  
कणी ॥ लोहे कनक जेहथी थाए स्पर्शे रुप पारस कहीए जीव  
अनादी अगनांन नरोछे पारस जेठे पारस जइएजी वाला ॥  
प्रजा० १ ॥ ग्राहकता व्यापकता जेह परजावे हता माहरा ते तुज  
दरशन पांमी स्वामी उलटा ते सुलटा साराजी वाला प्रजा० २ ॥  
उपसम क्षयउपसम खायक जेह उदीक परणामीक भाव कही  
एजी वाला. उदीक नाव संसारीक नाख्यो तेह थकी छरे रहीए  
जी वाला ॥ प्रजा० ३ ॥ उपसम क्षयउपसम दोय जाणो तेथी  
कारज पुरु नवी लेवेजी वाला क्षाएक नाव जो प्रगटे माहरो वंछी  
त कारज तो होवेजी वाला ॥ प्रजा० ४ ॥ समकीत चारीत्र ज्ञान  
दरशन ते दान लाज भोग उपभोगजी वाला वीरज जेद नवमी  
ते जाणो एहथी जाय जव रोगजी वाला ॥ प्रभा० ५ ॥ द्वायक  
नावना भेद ए नाख्या करम ग्रंथ बोधे कहीएजी वाला० एह  
स्वभाव सुधो जव प्रगटे पारस परसो तव लहीएजी वाला ॥ प्र  
जा० ६ ॥ ए पारस परसवा उमेद अंतरजोत जागी रंगजी वाला०

तेहने कहिए गुणठाणे चोथे निहाळजी नव आठमे मुक्ति पामे  
 पमेतो अमथ पुदगल काळनी ॥ पदमा० ४ ॥ वीज चंद्र समरूप  
 आतमनु आवरणथी उघाडु धायजी तेह रूपने जे नर वारे तेहनो  
 नवरोग जाएजी ॥ पदमा० ५ ॥ निरजन निराकार ते देखे अ  
 वनाशी पदठे तेहजी अरुपी अमुरती ध्यावो प्रगटे निजगुण  
 गेहजी ॥ पदमा० ६ ॥ अतपर जाय निरमळ तेहना ग्यानादिक  
 देखायजी मुनिहुकम कहे ते ध्याइ जे उत्तम पद लेखायजी ॥  
 पदमा० ७ ॥ ॥ २१ ॥ मुगती सुजाइ मिलोरे मोहनमेरो  
 मुगती सुजाइ मिलो ॥ एदेशी ॥ विजीया सुत पुजोरे प्राणी तु  
 मे विजीया सुतपुजो पाप सत्रु धुजोरे प्राणी तुमे विजीया सुत  
 पुजो ए आकणी ॥ पाप स्थान अठारनी वारी दोख अराड टाळोरे  
 प्राणी ॥ रती अरती डर करो तुमे स्वरूप माही मालोरे प्राणी०  
 १ ॥ डुर्गण कोइनी नवी कीजे जम स्वभाव जाणोरे ॥ प्राणी०  
 नीझा तीद्रा डर दशाए चीतमे केम आणोरे प्राणी० २ ॥ अबो  
 धने अज्ञान तजी जे रागद्वेष वारोरे प्राणी० ॥ ब्रसना तारुणी  
 सग न रहेवु ए तो पाप बेलधारो प्राणी० ३ ॥ सतोप सुदरी घेर  
 तेनी जे वीजाव डर कीजे प्राणी० ॥ कुमता कबुधी पासे मत  
 राखो सुमता सग लीजेरे प्राणी० ४ ॥ गछादीक बहु जेद ते  
 जोता खेद मन नवी लीजीए प्राणी० ॥ आप स्वरूप मे आप र  
 मी जे ते तो मोहजाज कीजीए प्राणी० ५ ॥ ते कारण मोहजाळ  
 मा नवी पडीए सरवर्था अळगा रहीए प्राणी० ॥ सेहेज सरूप  
 में सदा आणंदीत चिदानंद घन लहीए प्राणी० ६ ॥ अनुभव  
 आतम तीहां ते जागे ध्यातायेय कहीए प्राणी० ॥ मुनीहुकम एक  
 त्व जावे नीज स्वरूपमे रहीए प्राणी० ७ ॥

॥ २२ ॥ सोनदा कतने वदोरे ॥ एदेशी ॥ राजेमती कहे सु  
 णो स्वामीरे मुजने केम तें वामीरे साचु बोलोने अतरजामी २॥

संग मारीरे ॥ सखी ॥ ६ ॥ केशुर कांइ गुरुवंदन करतो ॥ घरण  
कमल परीवारिरे ॥ सखी ॥ ७ ॥

पद ६५ मुं.

गुरु जावना.

सखी सांजल वात कांइ माहारीरे ॥ हुं तो आवीळुं डःख  
नी मारीरे ॥ ए आंचली ॥ थीवर साधु हुकममुनी जाणीने ॥  
वली जाणी बहु उपगारीरे ॥ हु तो आवी डःखनी मारीरे ॥ सखी  
॥ १ ॥ छत्रीश गुणछे ए मुनीवरमां ॥ वे ज्ञान तणा बहु जारीरे ॥  
हुतो ॥ २ ॥ भव अटवीमा भुलो जमेछे ॥ प्रीतमने पररमणता  
लागीरे ॥ हुतो ॥ ३ ॥ परघेर जमतो नाटक करतो ॥ लोने  
थओ नीखारीरे ॥ हुतो ॥ ४ ॥ काल थनादी वही गयोछे ॥ तेह  
माहा डःख बहु जारीरे ॥ हुतो ॥ ५ ॥ मुनी थका माहारो प्रति  
म बुजे ॥ नीज घर आवे तो जाड वारीरे ॥ हुतो ॥ ६ ॥ केशुर  
कहंछे गुरुजी माहारा ॥ छे समता सरुपना धारीरे ॥७॥

पद ६६ मुं.

गरबो.

नीज घरथी रे शोहागणा नीकला ॥ आएवा सुगुरुना पास  
जो ॥ वादीरे वेठ'छे परखदा ॥ सांजले वाणी वलाशजो ॥ नीज  
घरथी रे ए सोहागण नीकल्या ए आंचली ॥ नवजयरे गुरु कांइ  
वाचता ॥ गुरु हुकममुनी माहाराजजो ॥ सांजरे प्रीतम माहेरो ॥  
सेवे परमादी आवे लाजजो ॥ नीज घरथीरे ए ॥ १ ॥ नवभयरे  
जारी डःख छे माहरे ॥ साले कांइ रुदीया मोळाररे ॥ समर  
से मजेरण भरण कर ॥ सातानव पाएमा लगारजो ॥ नीज ॥३॥  
प्रीतनरे माहारो छे हांइ लालवुं ॥ लळचायो मोहनीनी साथजो

मुनीहुकम गुण जेह ए जाणे सुख ते पांमे श्रभंगजी वाला ॥  
प्रजा० ॥ ७ ॥

॥ १४ ॥ गीरुआरे गुण तुम तणा ॥ एदेशी ॥ त्रीशजा कीशो  
रने पुजीए जे चरम जीनेश्वर रायरे भाणारे तेहनी शीर धरो  
ए शेवा सुखदायरे ॥ त्रिशला० १ ॥ आकणी ॥ जे रुपठे काइ  
एहनुं ते रुप सरवेमां जाणोरे परजाव पमदो डुर करो तो प्रग  
टे नीज गुण राणोरे ॥ त्रिशला० २ ॥ ज्याहां लगे परजाव रहे  
त्याहां लगे सुख न होवेरे ते कारण अगनान तजो रागदेश न  
जेवेरे ॥ त्रिशला० ३ ॥ ड्वय गुण परजाव जे जाणीने कीजी  
ए ध्यानरे ड्वय जाणधी आतमा जाणो ते उत्तम ज्ञानरे ॥  
त्रिश० ४ ॥ एहीज शरीहंत कीजीए तहीज सीध कहेवायरे ठ  
ती परजाए छे सही तवीएकेमरहेवायरे ॥ त्रिश० ५ ॥ ते का  
रण स्वरुप आपणु शेवो थइ सावधानरे मुनीहुकम ते आतमा  
ते परमात्म मानेरे ॥ त्रिश० ॥ ६ ॥

पद ६४ मुं.

गुरु जावना.

सखी सांजल वात काइ मारीरे ॥ नीजाए गुरु तणी बली  
हारीरे ए आंचली ॥ हुकममुनी छे गुरु हमारा ॥ छे पंच माहा  
वरत धारीरे ॥ सखी ॥ १ ॥ छत्रीस गुण काइ छे मुनी वरमा ॥ ठे  
समता सरुपना धारीरे ॥ सखी ॥ २ ॥ मधुरी धुनी मुनी देता  
देशना ॥ देशना छे कांइ गुणकारीरे ॥ ३ ॥ भय अटवीमा जम  
तो जमेठे ॥ वधे अणंत छःख बहु जारीरे ॥ सखी ॥ ४ ॥ मोहनी  
संप कांइ रमतो रमेछे ॥ लागे नहीं भवजय छःख काइ जारीरे  
सखी ॥ ५ ॥ परमाव छांती काइ नीज घेर आवे ॥ रमे माहारी

संग मारीरे ॥ सखी ॥ ६ ॥ केशुर कांइ गुरुवंदन करतो ॥ चरण  
कमल परीवारारे ॥ सखी ॥ ७ ॥

पद ६५ मुं.

गुरु ज्ञावना.

सखी सांजल वात कांइ माहारीरे ॥ हुंतो आवीछुं डःख  
नी मारीरे ॥ ए आंचली ॥ थीवर साधु हुकममुनी जाणीने ॥  
वली जाणी बहु उपगारीरे ॥ हु तो आवी डःखनी मारीरे ॥ सखी  
॥ १ ॥ छत्रीश गुणछे ए मुनीवरमां ॥ ठे ज्ञान तणा बहु जारीरे ॥  
हुतो ॥ २ ॥ भव अटवीमा भुलो जमेछे ॥ प्रीतमने पररमणता  
लागीरे ॥ हुतो ॥ ३ ॥ परघेर जमतो नाटक करतो ॥ लोने  
थओ ज्ञीखारीरे ॥ हुतो ॥ ४ ॥ काल अनादी वही गयोछे ॥ तेह  
माहा डःख बहु जारीरे ॥ हुतो ॥ ५ ॥ मुनी थका माहारो प्रति  
म बुजे ॥ नीज घेर आवे तो जाउ वारीरे ॥ हुतो ॥ ६ ॥ केशुर  
कहेछे गुरुजी माहारा ॥ छे समता सरूपना धारीरे ॥७॥

पद ६६ मुं.

गरवो.

नीज घरथी रे शोहागणा नीकला ॥ आएवा सुगुरुना पाल  
जो ॥ वादीरे वेठ'छे परखदा ॥ सांजले वाणी उलाशजो ॥ नीज  
घरथी रे ए सोहागण नीकल्या ए आचली ॥ नवजयरे गुरु कांइ  
वाचता ॥ गु ५ हुकममुनी माहाराजजो ॥ सांजने प्रीतम मोहेरो ॥  
सेरे परमादी आवे लाजजो ॥ नीज घरथीरे ए ॥ १ ॥ नवभयरे  
जारी डःख छे माहरे ॥ साले कांइ रुदीया मोकारे ॥ समर  
से मजेरण मरण कर ॥ सातानव पाएमा लगारजो ॥ नीज ॥ ३ ॥  
प्रीतनरे माहारो छे हाइ जालवुं ॥ लळचायो मोहनीनी साथजो

(४५७)

॥ संगत छौंमे प्रीतम तेहनो ॥ छांडे नही मोह राजानो साथजो  
॥ नीज ॥ ४ ॥ सुगुरुनेरे हु कांड वीनवु ॥ समजावो माहारो प्रा  
एनाथरे ॥ पररे रमणता परीहरे ॥ ठांमे कांड मोहनीनो साथ  
जो ॥ नीज ॥ ५ ॥ प्रीतमरे माहारो काइ भोलो वली ॥ जोल  
व्यो परजा रमणतानी माहरे ॥ मारगरे तेहने काइ सुजे नहीं ॥  
गोथां काइ भ्रमणतामा खाएजो ॥ नीज ॥ ६ ॥ केसुर कहेठे गुरु  
जी माहरा ॥ तमे ठो ज्ञान तणा जंमारजो ॥ माहारोरे चेतनठे  
काइ वावरो ॥ छतारो तेहने नवपारजो ॥ नीज ॥ ७ ॥

### लावणी २ ली.

जो आ जुगतीसैं मुनीसारा, अनुचवका ग्रंथ वनाथा, हुकम  
मुनी प्यारा टेक ॥ वीराजे सुरतके वासी, सुरत सुमतामें समा  
नी, नीरमल बुध खासी, सुखकाजीआ अनुचवका ग्रंथ कीआ,  
सुध जैनपर वरत लीया, चीत चचल चपल सारा. अनु हुक ०  
॥१॥ सुच परणती जब आइ, खट दरशणकु समजावा लागे  
सुनो श्रावकजाइ, मतीग्यानपुरा, सुरतासैं साधत शूरा, अवधीसे  
नही अधुरा रागवेशकु जीणे मारा अनु० हुक० ॥२॥ नाव  
नीरमल जथासुधा, अष्टा करमकु डर नीवारे केवल रूप जुध्या  
कुमतकु तोडी, सुमता साथे प्रीत जोडी, अनमतीका मर्त मोमी,  
जैनका कीआ एक तारा, अनु० हुक० ॥३॥ पुखशास्त्रकी साख  
लाइ, अतीत अनागत वरतमानमे प्रगट करु जाइ, करो मत स  
खा, हुकममुनीका वचन वंका, जैन धरमका वाजत डका, सीधा  
तरा तत्व लीया सारा अनु० हुक० ॥४॥ संवत एक नवगावु  
साल चतुर्था त्रतीए बुधसैं वनावुं, उपगार कीजे बहु समज सु  
रता दीजे, अत करण नाव लीजे. जोइताराम जोया जगत सा  
रा अनु० हुक० ॥५॥

## लावणी २ जी.

ज्ञान कला गुणवंत मुनीसर अमृत वचन बोलत वांनी, अ  
 पुरव दरीशण आपको जोयो; हुकममुनी बहु गुरुज्ञानी, गुजरात  
 वीरक्षेत्रके वासी रतनपुरके वसनारी. सुरत शेहेरमां आप वीराजो  
 अनुभवका हे गुणजारी० ज्ञान० अष्ट करमकु डर नीवारे सुमता  
 नारी आप वरी, नवसागरसें पार उतर गए, सीव रमणीसे प्री  
 त करी. ज्ञान० हुकममुनी आतम अरथी, सुगुण सरवे संगधरी,  
 दोष वीकार डर करीने, कुमता नारी परहरी ज्ञान० ॥ हुकम  
 मुनी आचारज मुनीसर पंच परमेष्ठी परमपरी, उनका ध्यान  
 रुदेमां धरतां, असुख करम सवही हरी ज्ञान० ॥ वहिर आतमा  
 कु बोध पमाडी, अतर आतमा ओलखावे, अजर अमर अभय  
 पद पामी, जोतसे जोती मीलावे. ज्ञान० ॥ पंचम काले डरलज  
 दरीशण शुद्ध परुपणाठे तनमे, आपकी वानी श्रवणे सुनके, म  
 गन जयो मेरे मनमें ज्ञान० ॥ मंगलकारी समकीत श्रावक,  
 ताराचंद्र तेज चलके, तीमर मीथ्यात मीटावा माटे, अनुभव  
 ज्ञान दिलिमें प्रगटे ज्ञान० ॥ मेरी इज्ञा आप पुरण करो, दरव  
 नाव अपने तनसे; सुकरात दान द्यो जाचकने जावना जावी  
 नीत नजशें ज्ञान० ॥ सवत ओगणी साल तेताळीस, आसो सुकल  
 पद्ध सारी, वे करजोडी अरज करतहुं, अरजी सुनलो अब मारी  
 ज्ञान० जाचक जोइताराम गुण गावे, चरण कमल मुनी सुख  
 कारी; क्यां तारीफ करुं आपकी, आपके गुण अपरमपारी ज्ञान  
 कला गुणवंत मुनीसर अमृत वचन बोलत वांनी, अपुरव दरी  
 शण आपको पायो हुकममुनी बहु ज्ञानी० ॥

## लावणी ३ जी.

मुगतघन जीतलीआ वंका, मुलक बीच हुकममुनीका वाज

रहा डंका मुग० ॥ करम दलवलकुं क्य कीया, मुगती मैहेलमां खेल करे तो, अनुचव अमृत पांथ्या, सासताजीआ कल्याणज कारज कीया, अमरापद पुरीकु लीथ्या, कुमतकाकर दीया फका मुलक वीच हुकममुनीका वाज रहा रुका ॥१॥ मेरे शुच जाग उदे आया, इण पंचम आरामा, में तो हुकममुनी पाया, पापसे डरता, अनुचवमे चीत रमता शीवरमणीशु सुख धरता, मरण छ ख मेटो मेरे अंका मुलकवीच हुकममुनीका वाज रहा रुका मुग० ॥२॥ अनुचव ओलखरे जाइ, जाव नरमना मेटे तेरी ज गमें सवाइ टेककु टालो० ससार चीत मत चालो, गुमान गर वकु गालो गरजसे चेतन पडे जखा मुलकवीच हुकममुनीका वा ज रहा रुका मुग० ॥३॥ महिमा हुकममुनीकी जानी नही उघडी मेरी आंख खीलो आ गरथ वीना पानी, हुकममुनी साचा; जो इताराम पदकु राचा, थोरमतहे सरव काचा करो मतमनमे को इ शका मुजकवीच हुकममुनीका वाज रहा रुका० ॥४॥

### लावणी ४ थी

सदा कुमता सग ना रहीए॥चज प्रीतम अव उठकर आपणे गुरु-  
 वंदन जइए ॥आकणी॥हुकममुनी जीनसासन दीवोरे ॥ धरम उ  
 पदेश काज मुनीवर बहुत वरस जीवो ॥ देशना मधुरी मन लागे  
 ॥ जेथी सब कठण करम भागे ॥ प्रीतमजी अनुचव नीज लइए  
 ॥ चल प्रीतम अत्र उठकर आपणे गुरु वदन जइए ॥१॥ मुनी  
 वर सात नए जरीथो ॥ क्रोध मानकु मार ॥ मुनीवर समता सरु  
 पे दरीथो ॥ मुनीनी अरुल गती न्यारी ॥ वदे सवी देव शकल  
 नारी ॥ प्रीतमजी मोहनी नव रचीए ॥ चज प्रीतम ॥२॥ मुनीवर  
 नीज धरमा वसीथोरे ॥ शीव रमणीने काज ॥ मुनी मोहराजा  
 सु लडीथो ॥ गुरुनी शीखामणा सारी ॥ तने नही लागे केम प्या



री ॥ प्रीतमजी नीज घरमा रमीएरे ॥ चल प्रीतम ॥३॥ मुनीवर  
 नवगीरी वेगे चमीओरे ॥ परस्वार काज ॥ प्रीतम तु नीज घेर नव  
 वसीओ ॥ घरमे रीधी अनंती सारी ॥ घेर घेर नटके नीखारी ॥  
 प्रीतमजी नीज दोलत लइएरे ॥ चल प्रीतम ॥४॥ मुनीवर गनाने  
 बहु खीलोरे ॥ नव अटवी माटे ॥ प्रीतमजी तुं फीरे वीओ ॥ मुनी  
 तुं ज्ञान हे नारी ॥ समजे कांइ नवीक नरनारी ॥ प्रीतमजी मुज  
 लाहो लइएरे ॥ चल प्रीतम ॥५॥ ग्रंथ तुं बोहोना एक जणीओरे  
 ॥ नही आव्यु मुज पर वाहाल ॥ प्रीतमजी फोगटमां फरीओ ॥  
 नार हु परणीतहु ताहारी ॥ मने केम मेहेले वीसारी ॥ प्रीतमजी  
 नीज घरमा वसीएरे ॥ चल प्रीतम ॥ ६ ॥ मुनीवर शीव रमणी व  
 रीओरे ॥ मीत्र सुरी कहे देव ॥ मेहतो ए गुरु करीओ ॥ वदे स  
 उ अथोलोकनी नारी ॥ दास केसरी जाय बलीहारी ॥ चेतन  
 नीत गुरु संगत रहीएरे ॥ चल प्रीतम ॥७॥

### लावणी ५ मी.

चेत मन चेतन प्यारे ॥ हुकममुनीजी साधु न्यारे ॥ आप स्व  
 रूपकु अपाइ ध्यावे, दावादलसे नीकल वारे ए आचली ॥ जुठी  
 हे माया, जुठी हे काया, जुठा हे शव ससारारे, मात पीता सुत  
 ओर कामनी; सयल कुटव सवी परिवारे, ए सरवे मायाके वधे;  
 तेने छोडी नीकल वारे चेण ॥१॥ रीधी अनंत नीज घरमां न  
 रीहे, मागण जाये घेर घेर वारारे, मागण मागत कोइए न देवे,  
 आप रीधी जुगटे हारे, हे वालो भमे मचीओ रहोहे, उसकु ठो  
 ड होइ जानी न्यारे चेतनण ॥२॥ अप्रमत गुण तुजमे नरो हो  
 काहाड तेने जलदी वारे, पुदगल गुण तुज कोणकामको, रखडे  
 अनंते संसारे, हेइ कोइकु मनसे मारी, आप हो जातुनी न्यारे,  
 चेतनण ॥३॥ मान अपमान तुने नही जगमे, पुदगलमां नमो

ही धारे, जब गद्यो पुदगलने छांती, मान रहो जग संसारे; ए  
इ मान छःखदाएक जगमे, तेहने मेली हो जानी न्यारो चेत  
न०॥४॥ चारे मीत्रीए मोहरी सेना, लुट लीए नीज घरवारे; मो  
हराएका अनता लशकर, घेर बेठे सयले छवारे, एइ मोहको स  
ग ना करना, तेथी सदा रहेना न्यारे चेतन० ॥५॥ ज्ञान दीप  
क तुने गुरु मलोठे, देशना दीए मधुरी धारे, मोहरागको सग न  
करना, ठोमी प्रीतीमीत्री चारं, सुगुरुके संगत रमता, आपे हो  
वे नसि न्यारे चेतन० ॥६॥ मीत्री सुरी केरे धन गुरुजी, ठोम  
दीथ्यो सबी संसारे, मोहरागकु मार मारीने, नीकाल दीथ्यो घर  
से वारे, दास केसरी तुम गुण गावे, चेतन एकल्याछे न्यारे  
चेतन० ॥ ७ ॥

### लावणी ६ ठी

ज्ञान कला गुणवंत मुनीसर ॥ अमृत वचन बोलत वाणी ॥  
अपूर्व दरीशण आपको पाओ ॥ हुकममुनी शरु गुरु ज्ञानी ॥  
टेक ॥ गुजरात वीरक्षेत्रके वासी पंतीतोमा माहा धरम ध्यानी  
॥ आगम अगोचर पदकु पाम्या ॥ एसे मुनी मेरे मन मानी ॥  
ज्ञानी ॥१॥ रजो तमो गुण त्याग करीने ॥ सतो गुण प्रगटयो तन  
मे ॥ आपकी वाणी श्रवणे सुनके ॥ मगन जयो मेरे मनमे ॥  
ज्ञानी ॥२॥ नाम अध्यातम उवण इव्यसे ॥ जाव अध्यातम गत  
पामी ॥ ए ए मुनी मेरे नजरे देखके ॥ सुरता मोरी वीसरामी ॥  
ज्ञानी ॥३॥ देखतहे देख वनहे ॥ मन खोजो सरवे जाइ ॥ व  
स्तु पदारथ एही ठेकाणो ॥ गुरुकी अत्र गत पाइ ॥ ज्ञानी ॥४॥  
हुकम विलास आचार्य मुनीसर ॥ पंच परमेष्ठी परमपरी ॥ उन  
का ध्यान स्वैमा धरता ॥ असुभ करम सब छर करी ॥ ज्ञानी ॥५॥  
पंचमाहावृत सुधा पाजे ॥ गुणजतसि सग धरी ॥ दोष वेताली

संहर करीने ॥ कुमता नारी परहरी ॥ ज्ञानी ॥६॥ अष्ट करमकु  
 डर नीवारें ॥ सुमता नारी आप वरी ॥ जब सागरसे पार उतर  
 गए ॥ शीव रमणीसे प्रीत करी ॥ ज्ञानी ॥७॥ मेरी इत्था आप  
 पुरण करो, इव भाव अपने तनसे ॥ सुक्रीत दान दो जाचकने ॥  
 ज्ञानना जावी नीत नजसे ॥ ज्ञानी ॥८॥ संवत ओगणी एकता  
 ली सालमे ॥ फागण वद बीज वाहारी ॥ क्या तारीफ मे करु  
 आपकी आपके गुण अपरम प्यारी ॥ ज्ञानी ॥९॥ जाचक जोइ  
 ताराम गुण गावे, चरण कमल मुनी सुखकारी ॥ वे करजोमी करुं  
 वीनती ॥ अरज सुण लो अब मारी ॥ ज्ञानी ॥ १०॥

### लावणी ७ मी

अगडडम वगडडम वाजे चौघमा एदेशी ॥ सुगुरु हमारा को  
 इए न पीछाना ॥ वनवगडामां फरता हता ॥ गफा देखकर का  
 उसग रहेता ॥ वाघ वरु वदनरु आता हता ॥ ए आकणी ॥ ए  
 जोगेश्वर वमाहे जोगी ॥ लहे कीसीका नवी रखता हता ॥ काथा  
 मोसेरावी कांइ फीरता ॥ राजा मोहसे लमत कांइ लमता ॥  
 हता ॥ सुगुरु हमारा ॥१॥ मोहो राजाकु डर हठावी ॥ उनोकी  
 फोज कीआ हे चकचुरा ॥ खेमरूपी खडग धरीने ॥ मारी शत्रु दो  
 यने किया पुरा ॥ सुगुरु ॥ २ ॥ आवुं वरुपण थइ थीवर अथ  
 रथा ॥ आवी सुरतमा उवा रहेना ॥ अजवी उनोकी निंदा कर  
 ता ॥ उनको अशर गतीकु होएगा जाना ॥ सुगुरु ॥३॥ थीवर  
 पणामा ए जोगेश्वर ॥ ज्ञान ध्यानमा एरमता ॥ वीनासीत वस्तु  
 ने जुदी पाडीने ॥ धुनी मधुरी देशना देता ॥ सु ॥४॥ थीवर साधु  
 ए वेठाहे ज्ञानी ॥ उनकी मानत जगतमें चलताहे ॥ जातरामे दाखे  
 काइ लोकके ॥ पाए पडी सीफल आवताहे ॥ सु ॥५॥ ज्ञान  
 सखीसहे काइ न्यारा ॥ चेतनका सजाव धरम कहेजाता हे ॥

ही धारे, जब गञ्जो पुदगलने छांमी, मान रहो जग संसारे; ए  
 इ मान ड.खदाएक जगमे, तेहने मेली हो जानी न्यारो चेत  
 न०॥४॥ चारे मीत्रीए मोहरी सेना, लुट लीए नीज घरबारे, मो  
 हराएका अनता लशकर, घेर बैठे सघले ड्वारे; एइ मोहको सं  
 ग ना करना, तेथी सदा रहेना न्यारे चेतन० ॥५॥ ज्ञान दीप  
 क तुने गुरु मलोठे, देशना दीए मधुरी धारे, मोहरागको सग न  
 करना, ठोमी प्रीतीमीत्री चारे, सुगुरुके सगत रमता; आपे हो  
 वे नासे न्यारे चेतन० ॥६॥ मीत्री सुरी केरे धन गुरुजी, ठोम  
 दीयो सवी संसारे, मोहरागकु मार मारीने, नीकाल दीयो घर  
 से वारे, दास केसरी तुम गुण गावे, चेतन एकल्याछे न्यारे.  
 चेतन० ॥ ७ ॥

### जावणी ६ ठी.

ज्ञान कला गुणवत मुनीसर ॥ अमृत वचन बोलत वाणी ॥  
 अपुर्व दरीशण आपको पाओ ॥ हुकममुनी शरु गुरु ज्ञानी ॥  
 टेक ॥ गुजरात वीरक्षेत्रके वासी पमीतोमां माहा धरम ध्यानी  
 ॥ आगम अगोचर पदकु पाम्या ॥ एसे मुनी मेरे मन मानी ॥  
 ज्ञानी ॥१॥ रजो तमो गुण त्याग करीने ॥ सतो गुण प्रगटघोतन  
 मे ॥ आपकी वाणी श्रवणे सुनके ॥ मगन जयो मेरे मनमे ॥  
 ज्ञानी ॥२॥ नाम अध्यातम उवण ख्यसे ॥ जाव अध्यातम गत  
 पामी ॥ ए ए मुनी मेरे नजरे देखके ॥ सुरता मोरी वीसरामी ॥  
 ज्ञानी ॥३॥ देखतहे देख बनहे ॥ मन खोजो सरवे जाइ ॥ व  
 स्तु पदारथ एही ठेकाणे ॥ गुरुकी अब गत पाइ ॥ ज्ञानी ॥४॥  
 हुकम विलास आचार्य मुनीसर ॥ पंच परमेष्टी परमपरी ॥ वन  
 का ध्यान रूदेमा धरता ॥ असुभ करम सब डर करी ॥ ज्ञानी ॥५॥  
 पचमाहावृत सुधा पाजे ॥ गुणजतीसे सग धरी ॥ दोष बेताली

स डुर करीने ॥ कुमता नारी परहरी ॥ ज्ञानी ॥६॥ अष्ट करमकु  
 डुर नीवारे ॥ सुमता नारी आप वरी ॥ जब सागरसे पार उतर  
 गए ॥ शीव रमणीसे प्रीत करी ॥ ज्ञानी ॥७॥ मेरी श्रुता आप  
 पुराण करो, डव भाव अपने तनसे ॥ सुक्रीत दान दो जाचकने ॥  
 नावना नावी नीत नजसे ॥ ज्ञानी ॥८॥ संवत ओगणी एकता  
 ली सालमे ॥ फागण वद बीज बाहारी ॥ क्या तारीफ मे करु  
 आपकी आपके गुण अपरम प्यारी ॥ ज्ञानी ॥९॥ जाचक जोइ  
 ताराम गुण गावे, चरण कमल मुनी सुखकारी ॥ वे करजोमी करुं  
 वीनती ॥ अरज सुण लो अव मारी ॥ ज्ञानी ॥ १०॥

### लावणी ७ मी.

अगडडुम वगडडुम वाजे चोषमा एदेशी ॥ सुगुरु हमारा को  
 इए न पीछाना ॥ वनवगडामां फरता हता ॥ गफा देखकर का  
 उसग रहेता ॥ वाघ वरु वंदनक आता हता ॥ ए आंकणी ॥ ए  
 जोगेश्वर वमाहे जोगी ॥ लहे कीसीका नवी रखता हता ॥ काश्चा  
 मोसेरावी काइ फीरता ॥ राजा मोहसे लमत काइ लमता ॥  
 हता ॥ सुगुरु हमारा ॥१॥ मोहो राजाकु डुर हगवी ॥ उनोकी  
 फोज कीआ हे चकचुरा ॥ खेमारुपी खडग धरीने ॥ मारी शत्रु दो  
 यने किया पुरा ॥ सुगुरु ॥ २ ॥ आवु वरुपण थइ थीवर अ  
 रथा ॥ भावी सुरतमा उवा रहेना ॥ अनवी उनोकी निंदा कर  
 ता ॥ उनाको अशर गतीकु होएगा जाना ॥ सुगुरु ॥ ३ ॥ थीवर  
 पणामां ए जोगेश्वर ॥ ज्ञान ध्यानमा एरमता ॥ वीनासीत वस्तु  
 ने जुदी पाडोने ॥ धुनी मधुरी देशना देता ॥ सु ॥ ४ ॥ थीवर सा  
 ए वेठाहे ज्ञानी ॥ काइ लोकके ॥ सखीसहे काइ  
 त जगतमें चलताहे ॥ जातराम  
 आवताहे ॥ सु ॥  
 धरम

ससजावमे वरते चेतन ॥ ताजो वसहेर काइ तीरताहे ॥ सु ॥६॥  
 परधम ज्ञान पढेहे कीरीया ॥ पुढेतेरामुरसदका कहेताहे ॥ ज्ञा  
 न वीना सीधी नवी पावे ॥ देखे उत्तर धन का कहेताहे ॥ सुगुरु  
 ॥७॥ चेतन नीरजन नीराकारहे ॥ परजावे काल अनादी जमता  
 हे ॥ छांमी परजाव ज्ञाने रमता ॥ शीवरमणीओ वरताहे ॥ सुगुरु  
 ॥८॥ कहेताहे के सुर अगेरु हमारा ॥ साधुमा हुकममुनी कांइ  
 कहेताहे ॥ ज्ञान दीपक अनोपम उनको ॥ खीजमतमा देव ह  
 जुर काइ रहेताहे ॥ सुगुरु ॥९॥

### जावणी ८ मी

सुगुरुने सेवे भवीकजीव ॥ सगत तेहनी कांइ सारीरे ॥ सुगुरु  
 वचन सरधा जो जावे ॥ ज्ञाने कर्म खपे बहु जारीरे ॥ ए आक  
 णी ॥ कुगुरुनो ओलो नवी जोतो ॥ संघ तेहनो नहीं करतारे ॥  
 अशुध परणतीए ते वरतावी ॥ मजे जव अटवी जमतारे ॥ सु ॥१॥  
 सुगुरुनो सजाव छे हेवो ॥ शुच मारग वतजावेरे ॥ मीथ्यात गु  
 णठाणु तने मुकावी ॥ समकीत गुणठाण वरतावेरे ॥ सु ॥२॥  
 सुभ मारगछे ससजावनो तेहमा सदाकाल वीतेरे ॥ खपकक्षेणी  
 ए जोए कांइ चमतो ॥ ज्ञाने कर्म जाए काइ खरते ॥ सुगुरु ॥३॥  
 चेतन अवीनाशी जडछे वीनासी ॥ चेतननपरे सगत काइ लागी  
 रे ॥ संगती दोखे ए पीडतो ॥ केम करी थाए नीरागीरे ॥ सु ॥४॥  
 छामे संगत पर पुद्गजनी ॥ थाए वीजावने काइ त्यागीरे ॥ ज्ञान  
 ध्यानमा करे रमणता ॥ तो थाए नीरंजन नीरागीरे ॥ सु ॥५॥  
 सुगुरुने सेवे सुरी नर ॥ जेठे हुकममुनी जमचारीरे ॥ ज्ञान ध्या  
 नमां करेरे रमणता ॥ परवरती सगली नीवारोरे ॥ सुगुरु ॥६॥  
 केसुर कहेछे चेतन माहारा ॥ विजाव सगजो कहामोरे ॥ ज्ञान ध्या  
 नमा करे रमणता ॥ जगमो करमोसें नावेरे ॥ सु ॥६॥

## लावणी ९ मी.

सुरतमां एक गुरु हमार ॥ जेहनी थीवर अवस्था नारीरे ॥  
 तोए मधुरी दीए देशना ॥ श्रवण सुणे नरनारीरे ॥ ए आंकणी ॥  
 परथम चेतन मनने वाली ॥ वीजाव सगलो काहाडोरे ॥ मोह  
 नी रुपने छोडी करीने ॥ ज्ञाने जगडो करमोसें मामेरे ॥ सु ॥ १ ॥  
 अमृत धारा वरसे देशना ॥ चेतन थीरतापणामा रहेतो ॥ स  
 भाव चारीत्र परगट करीने ॥ ज्ञान ध्यानमां रमतोरे ॥ सु ॥ २ ॥  
 लागो परमाद अनादो कालनो ॥ अवसर तेहने कांड छामेरे ॥  
 स्वनावमा वरते सदाकाल ॥ परजाव सगलो काहामेरे ॥ सु ॥ ३ ॥  
 अशुद्ध परणाती ए छःख अनतु ॥ कालअनादीत हेवे धुरे ॥ शुद्ध  
 परणातीए ज्ञान रमेतो ॥ दरशण नाणने नथी कांड छुटेरे ॥ सु  
 ॥ ४ ॥ अलख नीरजन तु नीराकारछे परवीकार तने वलगोरे ॥  
 शुद्ध उपयोगे ज्ञान रमीने ॥ थाए परथी तुं कांड अलगोरे ॥ सु ॥  
 ॥ ५ ॥ शकताए तुछे कांड ज्ञानी ॥ पर परसानो रीजेरे ॥ ज्ञान गुण  
 प्रगट वीनानो ॥ केम करीने तुं सीजेरे ॥ सु ॥ ६ ॥ धन देशना गुरु  
 तमारी ॥ धन हुकममुनी भ्रमचारीरे ॥ केसुर तमने वंदना करतो  
 ॥ चरणकमलपर वरीरे ॥ सु ॥ ७ ॥

## लावणी १० मी.

सकता सरुपमां करे रमणता ॥ वीभाव सगलो काहामीरे ॥  
 सस्वनावमा सदाकाल वरते ॥ अनादीनो परमाद छोमीरे ॥ ए  
 आंकणी ॥ वीजाव दशामां अनादी वरतो ॥ तेथी कर्म वलग  
 णा वलगीरे ॥ सस्वभावे वरती करीने ॥ करे तेहने कांड अलगीरे  
 ॥ शक ॥ १ ॥ मोहदशामां भुजो भमीओ ॥ नीज शकता नवी  
 सुजेरे ॥ पाम्यो अवसर सुगुरु मलीओ ॥ लावी उपयोगे कांड  
 वुजेरे ॥ शक ॥ २ ॥ कांड जोगी ॥ परनो थाए केम जोगीरे

॥ पर वीकारने काहामी करीने ॥ थाए नीराकार नीरागीरे ॥ शक  
 ॥३॥ रुपमां काइ तु अरुपी ॥ पर रुपनो थयोछे रागीरे ॥ पर रुप  
 मे छामी करीने ॥ थाए नीरजन नीरागीरे ॥ शक ॥४॥ अशुद्ध  
 मारगछे मोहदशानो ॥ तेहमा तु भुजो जमीउ ॥ शुद्ध मारगठे श  
 सचावनो ते मारग नवी जमीअरे ॥ शक ॥५॥ शकताए तुंछे ज्ञा  
 नी ॥ नथी जाणे ज्ञाननो जमतोरे ॥ ज्ञान ध्यानमां करी रमण  
 ता शीवरमणी कांइ वरतोरे ॥ शक ॥६॥ केशुर कहेछे सुगुरु ह  
 मारा ॥ छे हुकममुनी ब्रह्मचारिरे ॥ हेवी देशना काइ दीएछे ॥  
 छे ज्ञान ध्यानना धारिरे ॥ शक ॥७॥

### छावणी ११ मी.

हाथ चक्र त्रीशुल विराजे ॥ अलेक जगावे तेरी नगरीमां ॥  
 श्रीकृष्णाके दरशाण करने आए सदासीव गोकुलमे ॥ ए देशी ॥  
 सुगुरु हमारो रहते सुरतमे ॥ अध्यातम कासीनीरे ॥ परवरती  
 नवी जवाना मनमा ॥ ज्ञान दीपक आतम ध्यानीरे ॥ ए आच  
 ली ॥ सवेग गुणे वरते मुनीवर ॥ अपरमत रहे नीश दहामीहे  
 ॥ ज्ञान बाणे हपोश मुने ॥ छाही शमता सरुपकी वामीहे ॥ सु ॥  
 १॥ सुधा साधु ए हुकममुनीहे ॥ खट दरशाणका जाणीहे ॥ पंमी  
 ताइमा ए काइ पुरे ॥ जीनशाशने बहु ज्ञानीहे ॥ सु ॥२॥ देता  
 देशना नवीक जीवने ॥ जीव ड्यव्य बहु ज्ञानीहे ॥ जागो परचाव  
 लगी वरगणा अंधकारे थअो अगनानीहे ॥ सु ॥३॥ अंधकार मी  
 टावे सुरो थइने ॥ जडजनो थाए काइ त्यागीरे ॥ सुध उपयो  
 गेमा खेले ज्ञानमा ॥ तो थाए नीरजन नीरागीहे ॥ सु ॥४॥ खट  
 ड्यव्यमा एक सुध ड्यव्यठे ॥ चेतन हमारा ज्ञानीहे ॥ गुण परजाय  
 ने जुदा पमेतो ॥ थाप थाए काइ नापीहे ॥ सु ॥५॥ सुध ज्ञाने  
 जो वरते चेतन ॥ जाणे परवश तु परनारीहे ॥ छामे परचाव



लावे समजाव ॥ जलदी वरे शिवनारीहे ॥ सुण॥६॥ कहेतो एक  
सुर गुरु हमारे ॥ ज्ञान अखंभ भंडारीहे ॥ ज्ञान गुणनो मेहे वर  
शावे ॥ पीवे नवीकजीव मनमारीहे ॥ सुगुरु ॥७॥

### लावणी १२ मी.

आथोरे अवधुत जोगी एदेशी ॥ वांदेरे अवधुत जोगी ॥ वीच  
रंता मुनीराज पधारे ॥ हुकममुनी ब्रह्मचारीरे ॥ वांदेरे अवधुत  
जोगी ॥ ए आंकणी ॥ शीयल आचूण ज्ञान काले पण ॥ ओर  
शोइ अमोहरे माला ॥ चदर पुनम लहेलाट वीराजे ॥ होडणां  
भगवा दोशालारे ॥ वांदेरे ॥१॥ जंगल शेवुठे ए जोगेश्वर ॥ तप  
कीधांठे बहु ज्ञारी ॥ पांचने जीती मोहोने मारी ॥ सदागम पर  
कीनीहे अशवारी ॥ वांदेरे ॥२॥ ठत्रीश गुणछे ए जोगेश्वर ॥ छे  
पंच माहावृत धारी ॥ जीव रक्षण होधो हाथ वीराजे ॥ नीज द  
आ वशीछे मन ज्ञारीरे ॥ जाइवांदो ॥३॥ घाती कर्म हेने बेय  
ग्यांठे ॥ एने देव नमेछे ज्ञारी ॥ ज्ञान रमणतामां मुनीवर व  
रते ॥ करम वरगणा नीवारीरे ॥ जाइवांदो ॥४॥ अलकपुरुपठे ए  
जोगेश्वर ॥ लागेठे देशना मधुरी प्यारी ॥ अध्यातम आतम गुण  
पोखे ॥ वंदन करेठे नरनारी ॥ जाइवादे ॥५॥ प्रीतम हमारोठे  
कांइ जोगी ॥ नीज जोगदशा नवी साधे ॥ परपरणती ए चौगती  
जमतो ॥ नीज गुण चारीत्र न पावेरे ॥ भाइवांदे ॥६॥ ज्ञान अ  
णतुठे नीज घरमां ॥ परमादमां नजर न आवे ॥ परमाद ठांडी  
सुनध्याने खेले ॥ सुख अणंतु पावेरे ॥ जाइवांदे ॥७॥ त्रण वस्तु  
छे नीज घर केरी ॥ आवरण वादले धंकांणी ॥ नीजरारुप कांइ  
वाए वावरो ॥ नीज ज्ञाननो थाए कांइ नाणी ॥ जाइवादे ॥८॥  
गुरुने वांदी गुरुगुण लावे ॥ परजावना थाए कांइ त्यागी ॥ केसु  
र कहे चेतन ॥ १० मन करे वेरागी ॥९॥

## लावणी १३ मी.

हमो तमोने आब्या तेमवा ॥ मुनी चालो हमारी साथरे ॥  
नीशाइ नीशाइ करी वंड ॥ जोमी वे मुज द्वाधरे ॥ मुनी ॥१॥  
जवेरनाइ थोर मोतीनाइछे ॥ साथेछे केशरीनाइरे ॥ सुरत थकी  
आब्या वादवा ॥ आब्या आमोदनी माहीरे ॥ मुनी ॥२॥ जल  
वीना तलपे माठली ॥ तेम तलपे सकलसंघ परिवाररे ॥ देशना  
वीनाना माराधी तम टली ॥ जेम वपइओ करे पोकाररे ॥ गुरुश  
प्रीतम विनानी हु वंड सुनी ॥ तेम गुरुवीना सुनो ससाररे ॥ वधां  
जलमा नाव न फरती ॥ तोकाण उतारे पाररे ॥ गुरुचाल ॥४॥

## लावणी १४ मी.

मुनीहुकम देशना सार ॥ मुसाफर पंखी एक देखारे ॥ फीरता  
घेर घेर कुवार ॥ मागण मागत कोइ नव देता ॥ ए आकणी ॥  
पंखीका रूप नहीं पेखारे ॥ नमता ए चौदराज ॥ पंखी तो रूप  
अणत धरता ॥ पुनकु देखो वमाइ ॥ रूपधरी पावे वाशाइ ॥ क  
माशो फकीर थोजातारे ॥ मुनी ॥१॥ पंखीका घर कीने पेखारे ॥  
नव अटवीमाहे ॥ पंखी तो फुजा केम फीरता ॥ कमकी गत ए  
न्यारी ॥ वसो नहीं सुमता घर नारी ॥ पंखी मोहनीकु नहीं ठो  
डता ॥ मुनी ॥२॥ पंखी तो सुर नरपत होता ॥ जेवु उदे पुन  
पाप ॥ पंखी तो कुगती जाता ॥ कमकु देखो अशनाइ ॥ रीधी नीज  
आपे गुमाइ ॥ लोचने अनत काज फीरतारे ॥ मुनी ॥३॥ पंखीकु  
पाख नहीं होतारे ॥ उमे आकाश पाताल ॥ परणमे उचनीच  
घेर जाता ॥ पंखीकु बमी ए मुरखाइ ॥ पेठो नही नीज घरमें धाइ  
॥ उजट थइ परघरमे रमतारे ॥ मुनी ॥४॥ पंखीने अनुभव न  
ही आपारे ॥ पमीथो परघेर स्वाद ॥ पंखी तो अणंत छवपाता  
॥ अल्पसुख आप रहो चाइ ॥ अणंत सुख छोन्दीए नाइ ॥ आप

नहीं मुज स्वरूप जोतारे ॥ मुनी ॥५॥ आ देनेवाला कोइए नव  
 देखारे ॥ प्रगट करे नीज ज्ञान ॥ नटकता नीज घरमां बेसता ॥  
 रमणता परघरनी छांडो ॥ जगमो कर्मोसे मांडे ॥ पावे कांइ माग  
 ण जे चाहतारे ॥ मुनी ॥६॥ मुनीका जेद नहीं परखारे ॥ मुनी  
 पद ज्ञमे परीणाम ॥ जेख लइ अवर वोट फीरता ॥ जेख लइ शु  
 मता नहीं आइ ॥ रमणता परसंगत शाइ ॥ जेखसें केम करी  
 तीरतारे ॥ मुनी ॥७॥ मुगतीका जेद नहीं पायारे ॥ लुटे कर्म श  
 ओपम मुगती तो लोकमे होता ॥ त्रीगकु देव रचावे ॥ सकल वं  
 दनकु आवे ॥ फीरजइ सिधसला खशतारे ॥ मुनी ॥८॥ सखी  
 जग पंखीका मेला ॥ मीत्री शुरी तो देव ॥ गुरुका वचन सीर  
 धरता ॥ देशना गुणकारी लागे ॥ केशुर मन गरुचरण रमतारे  
 ॥ मुनीहुकम ॥९॥

### लावणी १५ मी.

देशीमरचीआनी ॥ देशनाका वाह लगा ए तनमे ॥ मेरा दील  
 खुच रहा उनमे ॥ ए आंकणी ॥ सवेगी साधु हुकममुनी पेखो ॥  
 ज्ञानमांहे जीनशाशन दीवो ॥ ज्ञानकी धुम मचे संघमे ॥ मेरादील  
 खुच रहा उनमे ॥१॥ मुनीके गुण छत्रीश ज्ञारी ॥ ज्ञान रहो  
 मोटो पटधारी, सदा गम जीनाके दीलमे ॥ मेरा ॥२॥ देशना अ  
 मरीत जेम वरसे ॥ सुणवा जीव मेरा तरसे ॥ परमादे चेतन नहीं  
 घरमें मेरा ॥ ३ ॥ नीगोदसें डःख अणता शेहेतो ॥ परजावे  
 चारे गती जमतो ॥ सुणी डःख आगलगीहे तनमे ॥ मेरा ॥४॥  
 नीगोदथी साथे हु भमती ॥ धरीरूप नाटक बहु करती ॥ मेरा  
 डःख नहीं जीनाके तनमे ॥ मेरा ॥ ५ ॥ परमाद छांमी सुध उ  
 पीयोग लावे ॥ ज्ञानसें नीजगुणने ध्यावे ॥ नीजराहे शत्रु हणो  
 रणमे ॥ मेरा ॥ ६ ॥ कहेताहे केसु धन गुरुवरो ॥ वंदन करे देव

चरण तारो ॥ मुनी गुण चेतन रखे दीलमे ॥ मेरा दील बे चरण जनमे ॥४॥

### लावणी १६ मी.

नरशाई महेता भगत हरीना एदेशी ॥ सुरतमां एक साधु पे खो ॥ गोपी परेके अदरे ॥ नाम जीनाको हुकममुनीहे ॥ खटवरीशण मोह पुरे ॥ ए आचली ॥ ठत्रीश गुणछे ए मुनीवर ॥ पमी ताइ मोह पुरे ॥ वादी आवे वाद करणकु जागी जावे आपे छरे ॥ सुरत ॥१॥ पंचमाहा वरत पाळे चोखु ॥ मुनी गुणके अदरे ॥ पुदगल उपर नमेन राखे ॥ तप जपके काइ हे सुरे ॥ सुरत ॥२॥ वसो सदा गम जीनोके दीलमे ॥ रमे ज्ञान गुण अदरे ॥ ज्ञान वा ए काइ हणते शत्रु ॥ क्षय करम करे आप छरे ॥ सुरत ॥३॥ सवेगीए साधु सुधा ॥ जीनशाशनके अंदरे ॥ देवी शाशना से वा करती ॥ आवी वसे जीनाए नरपुरे ॥ सुरत ॥४॥ अमरीत धारा वरशे देशना शकल सधके अदरे ॥ अध्यात्म आत्म गुण पेखे ॥ वसे नवीरुजीव दील अदरे ॥ सुरत ॥५॥ वदन करवा हुं गइती ॥ आणी जाव दील अदरे ॥ सुणी देशना चमकी चीत मा ॥ चेतन वशे मेरा परधरे ॥ सुरत ॥६॥ कालअनावीनो ते काइ रखने ॥ अशुध परणतीके अंदरे ॥ पररमणताए नमता भुलो ॥ नव अटवीके अंदरे ॥ सुरत ॥७॥ परभाव तेपर खेले ॥ मोह दशा के अदरे ॥ नाहाना वीधना ड.ख अणांता ॥ वेधे चारे गतीके अदरे ॥ सुरत ॥८॥ चेतन माहाराने कोण बुजवे ॥ रमे ज्ञान गुणके अदरे ॥ परमाद ठामी शुध उपीथोग लावी ॥ परजाव सगलो करे छरे ॥ सुरत ॥ ए ॥ सुध परणतीए वरतो नीजधरे ॥ समपरीणामके अदरे ॥ नीजरावाण हणेशत्रुने ॥ सुख पामे कोड तीरपुरे ॥ सुरता ॥ १० ॥ कहेताए कसुर चेतन

माहारा ॥ रमे मुनी गुणके अंदरे ॥ मुनी गुणगावे नीजगुण धावे ॥  
खाय कवश दील अंदरे ॥ सुरत ॥१॥

### लावणी १७ मी.

सुगुरु हमारा दीए देशना ॥ चेतन ज्ञान ध्यानमां रमतारे ॥  
ज्ञान शवीसहे कांड न्यारा ॥ संघ हेनो कांड करतोरे ॥ संघ उनो को  
करतो चेतन ॥ परभावथी छर कांड रहेतोरे ॥ ए आंचली ॥ ज्ञान  
ध्यानमा वरते ते मुनीवर ॥ नीशदीन अपरमीत रहेतारे ॥ साच  
हरख जीनाके मनमे ॥ आशा कोनी नवी रखतारे ॥ सुगुरु ॥१॥  
हेवो गुण जे वरते मुनीवर ॥ सुगुरु ते कांड कहेलावेरे ॥ रागद्वेप  
नही जेना मनमां ॥ परजाव कछु नवी लावेरे ॥ सुगुरु ॥२॥ सु  
गुरुका लक्षण हेवा ॥ ज्ञान ध्यानमा रहेतारे ॥ परवरती नवी जी  
नोके दीलमां, शत्रु ज्ञान वाणे कांड हणतारे ॥ सुगुरु ॥३॥ नव  
सायरमां तेह गीराहे परजावथी पार नही पातारे ॥ छांडे परभाव  
लावे समजाव धाय अणंत सुख कांड शातारे ॥ सुगुरु ॥४॥ परगु  
ण हेसो नीसे परोया ॥ कोकाले तेरा नवी होतारे ॥ तेरा गुण हे  
सो तेरी पाशे, उपायोगे शोध उनको करतारे ॥ सुगुरु ५॥ सुध  
परणतीए तु कांड वरते ॥ अशुध परणती परीहरतोरे ॥ ज्ञान  
वाणे कांड श हणीने ॥ द्यक्षणीए कांड चमतारे ॥ सुगुरु ॥६॥  
तुइ नीरंजन नीराकारहे ॥ परजाव वीकार नवी रखतारे ॥  
परजाव वीकारे गुगती दोहेली ॥ केवल नाण नवी आतारे ॥  
सुगुरु ॥७॥ पीता हमारो राजा शीवहे ॥ शीवरमणी हमारी वे  
हेनारे ॥ माहारा विना तेम केम शीजशो, शास्त्रथी गुरुका इम क  
हेनारे ॥ सुगुरु ॥८॥ सुगुरु हमारा हुकममुनीहे ॥ ज्ञान-ध्यानमा  
रहेतारे ॥ देव जीनोकु वंदने आवे ॥ केसुर चरणकमल फरता  
रे ॥ सुगुरु ॥९॥

## लावणी १८ मी.

गुरु चरण कांइ सेवे ॥ नवीकजवि ॥ तारे तो ज्ञान काइ पा  
वेरे ॥ गुरु सामो वीवाद करेयी ॥ भ्रमणतामा गोथां खावेरे ॥  
ए आंचली ॥ गुरु पासे नीत्य दहाडी वेसे ॥ तोए ज्ञान गुण न  
ही आवेरे ॥ सकल्प वीकल्प मनमा पेशीरहे ॥ गुरु वचन सर  
धा नवी लावेरे ॥ गुरु ॥१॥ नव स्थीति होए जेहनी नारी ॥ तेह  
ने भ्रमणाता नारीरे ॥ नव नयतो तेहने जेह नवी लाग्यो ॥ मन  
वश तेहने नारीरे ॥ गुरु ॥२॥ धरम हुंनवा फरतो धरोधर ॥ तोए  
धरम हाथ नहीं आवेरे ॥ धरम सीद्धीहे नीज धरमां ॥ परमादमा  
नजर न आवेरे ॥ गुरु ॥३॥ सुरत शहेरमांही वरसायुहे ॥ गुरु  
हुंनमुनी कहेलावेरे ॥ पाए पडीने पुछे तेहने ॥ सभाव धरम बत  
लावेरे ॥ गुरु ॥४॥ केशुर कहेछे ए गुरु हमारे ॥ ज्ञान गुण वरशा  
वेरे ॥ नवीकजीव कांइ नर पीवे ॥ अनवीजीव प्यासा जावेरे ॥५॥

## लावणी १९ मी.

पास जीणंद वंदनकु जाता ॥ मेरी संघ कबु आताहे ॥ जीनवर  
वांदी करम खपावी ॥ सम परणाम काइ लाताहे ॥ ए आंचली ॥  
शाहापोर बीच एक बडा देवलहे ॥ नाम चंतामण कहेलाता हे  
चोवीश जीनवर फरता वीराजे ॥ लोक वंदनकु जाताहे ॥ पास  
॥१॥ पीताजीनोको अस्वशेन हे ॥ वाछा देवी जीनोकी माता  
हे ॥ त्रीण लोक वदन काइ करते ॥ इजादीक सेवा कांइ करता  
हे ॥ पास ॥२॥ ए जगत पीता ए लोक नरिजन ॥ जगत गुरु क  
हेलाताहे ॥ नाम ठनोका हयडे रखते ॥ वीधन छुर कांइ जाताहे  
॥ पास ॥३॥ आंगीआ बनीहे कंचन केरी ॥ बीचवीच मणी सो  
होताहे ॥ वाजुवध काइ वेरखा वीराजे ॥ हीरा मुगटे काइ हस  
ताहे ॥ पास ॥४॥ समो शरणपर जीनवर वीराजे ॥ नाटक उदर

कांड धाताहे ॥ ताल तंबुरो शारंगी बाज रही ॥ मरदंग थाप कांड  
 देताहे ॥ पास ॥५॥ एंड नीरजन शाहेव मेरा ॥ मेरी अरज नहीं  
 सुणाताहे ॥ केसुर कहेछे और न मागु ॥ समकीत दान कांड दे  
 ताहे ॥ पास ॥६॥

### लावणी १० मी.

मेरामन थीर न पदता अवीनासी ॥ मेरामन ॥ ए आंचली ॥  
 अनादी जमतमे जड़े वावरी ॥ तम रहे परघरके वाशी ॥ मेरा  
 ॥१॥ जे जोइए सोए तेरा घरमां ॥ कायकु धुमत बनकाशी ॥ मेरा  
 ॥२॥ पररमणतामां डःख अणतु ॥ मोहोनी डालत कांड फांशी ॥  
 मेरा ॥३॥ थाप सभावमां आपड खेले ॥ परजावथी रहे उदाशी  
 ॥ मेरा ॥४॥ मनने मारी कांड पापने जीते ॥ शीवरमणी थाए  
 तारी दाशी ॥ मेरा ॥५॥ केसुर कहेछे चेतन मारा ॥ केरनीजरा म  
 न राख उदासी ॥ मेरा ॥६॥

### लावणी ११ मी.

पाए पने गुरु हुकममुनीने ॥ ज्ञान गुण जेहेना जाशेरे ॥ ज्ञान  
 वाणे कांड शत हणीने ॥ खेले संग हमारीरे ॥ तुं रमे संघ हम  
 रीरे ॥ ए आकणी ॥ ए सनसार असार जाणीने ॥ थीआ पचमा  
 हावत धारीरे ॥ मनने मारी पापने जीती ॥ करम वरगणा नीवा  
 रीरे ॥ रमे ॥१॥ थीवर साधु बहु गुणवंता ॥ जेनी देशना मधुरी  
 लागे प्यारीरे ॥ अध्यातम आतम गुण पोखे ॥ पररमणता नीवारी  
 रे ॥ रमे ॥२॥ पररमणताए काल अनादी, सहु अणंत डःख बहु  
 चारीरे ॥ कहेतां तेहनो पार न लाथे ॥ सुन्न ध्याने जुओनी वी  
 चारीरे ॥ रमे ॥३॥ ज्ञान तुजमां छे अणंतु ॥ ए अशुद्ध गणतीए  
 दंकाणुरे ॥ परणती वदली नीजरा लावे ॥ थाए तारे तो कांड

थजवालुरे ॥ रमे ॥४॥ केशुर कहेंछे गुरुजी हमारा ॥ हुकममुनी  
 बहु ज्ञानी ॥ तेहने मारी वदना होजो ॥ नवी जोय हवे काइ ना  
 णीरे ॥ रमे ॥५॥

### लावणी ११ मी.

काएकु भखे पीशेखेरे ॥ अथधुत ॥ एइ जोग नही लेखे, ए आच  
 ली ॥ जोगी यइने जगल सेवी ॥ करे तपसा जारी ॥ नीज जोग  
 की बात बुजे ॥ वीजाव वसाछे जारीरे ॥ अथधुत ॥१॥ जटा वधा  
 री को नसम लगावे ॥ अजेऊ जगावे जगमाहे ॥ थाशा तरसना  
 मनमा रही हे लोभ वसोहे घट माँहेरे ॥ अथधुत ॥२॥ काष्ट जला  
 वी को अगत पावे ॥ आ भसमखाकर रहेते ॥ नरमणता पामे न  
 कांइ जमतु ॥ धीर गडी नवी रहेवेरे ॥ अथधुत ॥३॥ शीर मुमावी  
 को तप जप करते ॥ करे कष्ट कीरीया बहु भारी ॥ परजावे ते का  
 इ वरती ॥ नही परणंती सुगारिरे ॥ अथधुत ॥४॥ को आचारज  
 शास्त्र शीखीने ॥ पनीत हुवे बहु जारी ॥ मन वरते तेहनु लोक  
 वरतीमा परही मान दशा बहु जारीरे ॥ अथधुत ॥५॥ नीसिह जो  
 गहे नीज घरकेरा ए जोगदशाकु सावे ॥ वीजाव जगला डर करी  
 ने ॥ नीज ज्ञान रमणता लावेरे ॥ अथधुत ॥६॥ साथे गुन जोग  
 जेह मुनीवर ॥ परवरती ते नवी राखे ॥ समकीत गुणवाणे ते  
 परवरतीने ॥ मीध्यात वस्तुने ठामेरे ॥ अथधुत ॥७॥ ज्ञान ध्यान  
 मा वरते मुनीवर ॥ जेद ज्ञान काइ लावे ॥ विनाशीत वस्तुने  
 जुदी पामीने ॥ सम जावना जावेरे ॥ अथधुत ॥८॥ ससजावमां  
 सदाकाल वरती ॥ ज्ञान ध्यानमा रमेठे ॥ हेवा साधु हुकममुनीठे ॥  
 परणाम केशुर करेठे ॥ अथधुत ॥९॥



## लावणी ९३ मी.

ओ हुकममुनी सुगुरु हमारा ॥ तमने हुं कांइ शेवुरे ॥ ज्ञान  
 तमारानी जाउ बलीहारी ॥ उपगार मानी कांइ लेवुरे ॥ ए आं  
 चली, छत्रीश गुण तमे वीराजो ॥ ठो पंचमाहा वरत धारीरे ॥ ज्ञान  
 आनुशण बहु शोभता ॥ सदागम वसोछो बहु भारीरे ॥ ओ हु  
 कममुनी ॥ १ ॥ संमरजावना तमे कांइ वीचरो ॥ ध्यान अगोवर धरता  
 रे ॥ खीमारूपी खडग धरीने ॥ वेरी शत्रुने कांइ हणता ॥ हुकम  
 मुनी ॥ २ ॥ लमत लमोछो कांइ मोहो राजासे ॥ इंदरी पांचने  
 मारीरे ॥ ज्ञाने मोहोनी करमने दाय करीने ॥ ज्ञाने करम वरगणा  
 नीवारिरे ॥ ओ हुकममुनी ॥ ३ ॥ तमने शेवानो लाज अणंतो ॥  
 चेतन मुनी गुण पावेरे ॥ मुनी गुण आवे संमर जावे ॥ नवनेहे  
 डःख कांइ जावेरे ॥ ओ हुकममुनी ॥ ४ ॥ मोती मुनीछे चेलो तमा  
 रो ॥ तप जप कीरीआ करतोरे ॥ जोला नदरीकछे सजावे ॥ सु  
 गुरु वैयावच्च करतोरे ॥ हुकममुनी सुगुरु हमारा ॥ हु तमने कांइ  
 शेवुरे ॥ ज्ञान तमारानी जाउ बलीहारी ॥ उपगार मानीने लेवुरे ॥  
 ओ हुकममुनी ॥ ५ ॥ सुधा सुगुरु हुं तमने पेखु ॥ छो धरम तणा  
 आचारीरे ॥ धरम सिद्धि ए नीज धरमो ॥ उपीयोगे चेतन जुवे  
 चीत धारीरे ॥ ओ हुकममुनी ॥ ६ ॥ मीत्रीसुरी कांइ वंदन करतो ॥  
 चरणकमलपर वारीरे ॥ केसुर कहेछे सुगुरु हमारा ॥ ठे ज्ञान त  
 णो नंडारीरे ॥ ओ हुकममुनी सुगुरु हमारा ॥ हुं तमने कांइ शेवु  
 रे ॥ ज्ञान तमारानी जाउ बलीहारी ॥ उपगार मानीने लेवुरे ॥ ७ ॥

## लावणी ९४ मी.

ओ मठवाशी अवशरे लावे उदाशी ॥ ममता मठनी कांइ महें  
 छेरे ॥ सुध उपीयोगे नीज धरमां ठरीने ॥ सजावे ज्ञान ध्यानमा  
 खेलेरे ॥ ए आंचली ॥ नीगोद थकी हुं साथे नमती ॥ एले काल

अनादी गुमावोरे ॥ ममता न ठानी तहे अर्थीर वस्तुनी ॥ तेथी न  
 वन्य पार नहीं आव्योरे ॥ ओ मठवाशी अवशरे धरे उदाशी ॥  
 ममता मठनी महेजरे ॥१॥ अर्थीर वस्तुपर राखे ममता शानी ॥  
 वीणशी जाता वार नहीं जागेरे ॥ काहानी नरमणता ते उपरथी  
 ॥ छानी परमाद काइ जागेरे ॥ ओ मठवाशी ॥२॥ ज्ञान गुणठे  
 तारा नीज घर केरा ॥ तेहमा सस्यजावे काइ वरतेरे ॥ ठानी त्र  
 शना अर्थीर वस्तुनी ॥ लावी उपीयोग परजावथी छटकेरे ॥  
 ओ मठवाशी ॥३॥ ज्ञान ध्याने रमता गुणे वधशे ॥ नीजराए क  
 पकेणीए काइ चडशेरे ॥ ज्ञाने अष्ट करमनो क्य करीने ॥ शेजे  
 शीवरमणीने काइ वरशेरे ॥ ओ मठवाशी ॥४॥ उदाशीनता शे  
 रीए जाता ॥ राखे नहीं तने कोइ घेहेरीरे ॥ सुज मारग काइ शी  
 धनो जमशे ॥ शेजे मीटी जाशे भयन्य फेरीरे ॥ ओ मठवाशी  
 ॥५॥ सुगुरु एक हुकममुनीछे ॥ भावे तेहेने वादवा गइतीरे ॥  
 हेवी देशना तेहना मुखनी सानजी ॥ मुनपणे काउसगे कांइ  
 रहीतीरे ॥ ओ मठवाशी ॥६॥ कहेठे केसुर धनसुगुरु हमारा ॥  
 वो ज्ञान तणा नडारीरे ॥ अमरीत धारा वरशी देशना ॥ भावे मने  
 लागी बहु प्यारीरे ॥ ओ मठवाशी अवशरे धरे उदाशी ॥ ममता  
 मठनी काइ महेजरे ॥ सुज उपीयोगे नीज धरमा ठरीने ॥ सभा  
 वे ज्ञान ध्यानमा खेजेरे ॥७॥

### लावणी २५ मी.

प्रीतम हमारो जुजो पमोछे ॥ भुल जो रमणतामा जमतोरे ॥  
 मोहनी रमाए घेहेलो कीधोठे ॥ लाजे धरी रुप बहु रमतोरे ॥  
 ए आचली ॥ काल अनादीनो ते काइ रखडे ॥ सगत ड.ख अ  
 णतुं शहेतोरे ॥ तोए मोहनीनो सध न छांमे ॥ आवी नीज घ  
 रमा नही रहेतोरे ॥ चेतन हमारा ॥१॥ मान मवीरा मोहनी

संग पीने ॥ असुध मारग पडीओरे ॥ असुध परणतीमां ते कांइ  
 वरते ॥ तेथी सुज मारग नही जडीओरे ॥ प्रीतम हमारा ॥२॥  
 सुज मारगछे नीज घर केरो ॥ सस्वजावमा जो वरतेरे ॥ मोहनी  
 रंमाने काहामी मुकाने ॥ लावी उपीयोग परजावथी ठटकेरे ॥  
 प्रीतम हमारो ॥३॥ शकतानाछे ए ज्ञानी अणंतो ॥ परवीकार  
 एने बलग्योरे ॥ परपीमाने डरे करीने ॥ रमी ज्ञाने थाए काइ अ  
 लगेरे ॥ चेतन हमारो ॥४॥ शकता एठे अणत बलधारी ॥ मो  
 हनी संगे बलहीण कीधुरे ॥ चोर दोए काइ लाग्या केडे ॥  
 ज्ञान रुपी धन हरी लीधुरे ॥ चेतन हमारो ॥५॥ अवसरे सुव उ  
 पीयोग लावी ॥ रडा मोहनी संग काइ ठांडेरे ॥ लावी थीरता  
 नीज घरमां ठरीने ॥ दोए वेरी घरमाथी काइ कहाडेरें ॥ प्रीतम ह  
 मारो ॥६॥ मनने मारी पापने जीते ॥ परजाव काइ डर करतोरे ॥  
 सुगुरुने शेवी करीने ॥ ज्ञान ध्यानमा रमतोरे ॥ चेतन हमारो ॥७॥  
 सुगुरु एक हुकममुनीछे ॥ छे ज्ञान ध्यानना धारीरे ॥ संमर भावता  
 ते कांइ वीचरे ॥ धरम तणाछे धारीरे ॥ प्रीतम हमारो ॥८॥ धरम  
 सीधी नव नीधीए घरमां ॥ परमादे नजर नही आवेरे ॥ छांमे पर  
 माद लावे संजाव ॥ संजावे सुख अणतु पावेरे ॥ चेतन हमारो  
 ॥९॥ ए देशना ठे हुकममुनीनी ॥ हमे सुणीती श्रवणेरे ॥ कहेठे  
 केसुर चेतन हमारा ॥ सुगुरु शेवी रहे चरणेरे ॥ प्रीतम हमारो भुजो  
 पडोठे ॥ भुजे नरमणतामां भमतोरे ॥ मोहनी रमाए घेलो कीधो  
 ठे ॥ लोने धरी रुप बहु रमतोरे ॥१०॥

लावणी ९६ मी.

सुरतमां एक वमाहे जोगी ॥ नीज जोगना धारीरे ॥ संमर जाव  
 नाने कांइ वीचरे ॥ इंदरी पाचने मारी ॥ ए आचजी ॥ छत्रीश गु  
 णछे जोगेश्वर ॥ ठे पचमाहावरत धारीरे ॥ ज्ञान आभुशण अगे  
 रचाठे ॥ सदागम वशाठे नारीरे ॥ सुरतमां ॥१॥ अंध्यातमना ठे

अनादी गुमावोरे ॥ ममता न ठानी तहे अर्थीर वस्तुनी ॥ तेथी न  
 वन्य पार नहीं आव्योरे ॥ ओ मठवाशी अवशरे धरे उदाशी ॥  
 ममता मठनी महेजरे ॥१॥ अर्थीर वस्तुपर राखे ममता शानी ॥  
 वीणशी जाता वार नहीं लागेरे ॥ काहानी नरमणता ते उपरथी  
 ॥ छात्री परमाद काइ जागेरे ॥ ओ मठवाशी ॥२॥ ज्ञान गुणठे  
 तारा नीज घर केरा ॥ तेहमां सख्यजावे काइ वरतेरे ॥ ठानी न  
 ज्ञाना अर्थीर वस्तुनी ॥ लावी उपीयोग परजावथी छटकेरे ॥  
 ओ मठवाशी ॥३॥ ज्ञान ध्याने रमता गुणे वधशे ॥ नीजराए क  
 पक्षेणीए काइ चडशेरे ॥ ज्ञाने अष्ट करमनो क्य करीने ॥ शेजे  
 शीवरमणीने काइ वरशेरे ॥ ओ मठवाशी ॥४॥ उदाशीनता शे  
 रीए जाता ॥ राखे नहीं तने कोइ घेहेरीरे ॥ सुज मारग कांइ शी  
 धनो जमशे ॥ शेजे मीठी जाशे भयन्य फेरीरे ॥ ओ मठवाशी  
 ॥५॥ सुगुरु एक हुकममुनीछे ॥ भावे तेहने वांदवा गइतीरे ॥  
 हेवी देशना तेहना मुखनी सानजी ॥ मुनपणे काउसगे कांइ  
 रहीतीरे ॥ ओ मठवाशी ॥६॥ कहेठे केसुर धनसुगुरु हमारा ॥  
 ओ ज्ञान तणा नडारीरे ॥ अमरीत धारा वरशी देशना ॥ भावे मने  
 लागी बहु प्यारीरे ॥ ओ मठवाशी अवशरे धरे उदाशी ॥ ममता  
 मठनी काइ महेजरे ॥ सुत्र उपीयोगे नीज धरमा ठरीने ॥ सभा  
 वे ज्ञान ध्यानमा खेजेरे ॥७॥

### लावणी २५ मी.

प्रीतम हमारो जुजो पमोछे ॥ भुळ जो रमणतामा जमतोरे ॥  
 मोहनी रमाए घेहेलो कीधोठे ॥ लोजे धरी रुप बहु रमतोरे ॥  
 ए आचली ॥ काज अनादीनो ते काइ रखडे ॥ सगत छ.ख अ  
 एतुं शहेतोरे ॥ तोए मोहनीनो संघ न छामे ॥ आगी नीज घ  
 रमा नहीं रहेतोरे ॥ चेतन हमारा ॥१॥ मान मदीरा मोहनी

लोकी दोहीलो सुगुह संजोगरे ॥ अवसर ठतो पामी करीजी ॥  
 पडे केम करमने सगरे ॥ हुकममुनीने ॥४॥ परमाव आपे तजी  
 करी श्रोता सुणो देइ कानरे ॥ सम प्रणाम धारणा करोजी ॥ रा  
 खे नही लगार मानरे ॥ हुकममुनी ॥५॥ मानवजव सुरलोक  
 इउतोजी ॥ तेहने एजे केम काहामो गुमाररे ॥ वीखवाद तुजने  
 नवी घटेजी ॥ कांइ वसे सुमताधरे नाररे ॥ हुकममुनीने ॥६॥ आ  
 प ठीइ जोवे नहीजी ॥ लागे रमणतापर सारीरे ॥ अनुभव नीज  
 केम वीसरेजी ॥ नय आवरण न गणे लगाररे ॥ हुकममुनीने ॥७॥  
 गुण ग्रहे अरीहतनाजी ॥ वेहेची जुदा पामे छव्य पांचरे ॥ मुल  
 स्वभाव प्रगट करेजी ॥ पामे तो समकीत साचरे ॥ हुकममुनी ॥८॥  
 चेतन जाव चारीत्र उपनेजी ॥ कहे मीत्री सुरीनी नाररे ॥ कृपक  
 श्रेणीए तु चमेजी ॥ कहे केसुर पामे भवपाररे ॥ हुकममुनीने  
 जइए वादवाजी ॥ हावा परव पजुसणना दीनरे ॥९॥

### घहुली २ जी

आव्या परव पजुसणा आणंदेरे ॥ हुकममुनीनी देशना सुणो  
 जी ॥ आंकणी ॥ कलप वहेवार मुनी वांचताजी ॥ चोवीसमा  
 जीननो अधीकाररे ॥ ज्ञान त्रण सहीत जनमीआजी ॥ राणी त्री  
 शला कुखे कुमाररे ॥ हुकममुनीनी देशना सुणोजी ॥ इंझादीक  
 ओछव करेजी ॥ नदीसर धीपे आणंदेरे ॥ राय सीधारथ दान  
 दीएजी ॥ थाअ गीत ज्ञान नाटारंजरे ॥ हुकममुनीनी देशना  
 सुणोजी ॥१॥ जोवन अनुकरमे पामीआजी ॥ परणा जनादाजी  
 कइ नाररे ॥ मातपीता देव लोक थआजी ॥ दीआ दान संवठरी  
 उदाररे ॥ हुकममुनीनी ॥३॥ त्रीस वरस घरमा रह्याजी ॥ नही  
 राग दवेख लगाररे ॥ अवसर आपे जाणी करीजी ॥ पठे लीथो  
 सजम नाररे ॥ हुकममुनीनी ॥४॥ कलप प्रजुजीए कर्योजी ॥ कर

काइ रशीया ज्ञान ध्यानना धारीरे ॥ खट दरशाणा जाण पी  
ठानक ॥ धरम तणा काइ धोरीरे ॥ सुरतमां ॥२॥ चेतन हमारो  
शकता जोगी ॥ हु जोगण केमे काइ जमतीरे ॥ चेतन हमारो पर  
सग न ठाडे ॥ तेथी जवनाटक बहु करतीरे ॥ सुरतमां ३ ॥ जव  
जयनुं मने ड.ख अणतु ॥ चेतन पीरता नही लावेरे ॥ नररमणता  
मा जुलो भमीने ॥ मोहनी सगे काइ माहालेरे ॥ सुरतमां ॥४॥  
शकताए अज्ञानी अणंतो ॥ ज्ञाने सुध उपीयोग काइ लावेरे ॥  
वेरी दोएने काहामी धरमाथी ॥ नीजराए रहेला करम खपावेरे ॥  
सुरतमा ॥ ५ ॥ सस्वजावठे नीज घर केरो ॥ सुध परणतीए  
खेलेरे ॥ परजाव सयलो छर करेतो ॥ सजावे सुख अणतु लवेरे ॥  
सुरतमा ॥६॥ केसुर कहे ए गुरु हमाग ॥ ए हुकममुनी काइ  
जोगीरे ॥ सुध आतमरस नरनर पीवे ॥ ठे आतम ध्यानना जोगी  
रे ॥ सुरतमां एक बडाहे जोगी नीज जोगता धारीरे ॥ संमर जाव  
नाने काइ वीचरे ॥ इदरी पांचने मारीरे ॥७॥

### घहुली २ ली.

सइअरो मोरीरे ॥ आचोनी सवाइ गुरु वादीए जी ॥ एवेशी ॥  
सइअरो मोरीरे ॥ हुकममुनीने जइए वादवाजी ॥ हावा परव  
पजुसणना दीनरे ॥ हुकममुनीने जइए वादवारे ॥ आंकणी ॥  
दीए मधुरी धुनी देशनाजी ॥ चेतन नीज अनुजव लावेरे ॥ पर  
सगत तुने नवी घटेजी ॥ काइ ड ख अणतु पावेरे ॥ हुकममुनीने  
जइए वादवाजी ॥१॥ परसगत करता थकाजी ॥ रखमे अनंत  
सनसारं ॥ सम उपसम ड ख वेववाजी ॥ लाधे नही वर्धाजिल  
पाररे ॥ हुकममुनी ॥२॥ मान माया मद केरीजी ॥ नमीथो च  
उ गती मोहोजाररे ॥ अनंता सुख ड ख वेदीआजी ॥ नीज सा  
ताना पाथो मे लगाररे ॥ हुकम ॥ ३ ॥ मानुपनव अती दोही

मानने छोडी देइने ॥ आवो कांड मारे धामजी ॥ सुरत ॥६॥ मन  
 वृती जो मनने जीते ॥ हेवो वृत नहीं वीजोजी ॥ चेतन वगने मो  
 ह्यी गनार्थी ॥ आतम ध्यान जोजोजी ॥ सुरत ॥७॥ मन जीतुं ते  
 ऐ सखी जगजीत्यो ॥ आप धरे राज करे नरपुरजी ॥ पर लशकर पर  
 वेश न पावे ॥ माहारा अंने धणो डुरजी ॥ सुरत ॥८॥ मीत्री सुरी  
 कहे धन गुरुजी ॥ धीरता जोइ करु रूप परमाणजी ॥ संग केसरी  
 गरु पद सेत्रे ॥ चेतन राखसे समपरीणामजी ॥ सुरत सोहागण  
 साएण वंठी ॥९॥

### घहली ४ थी.

परव पचुनण आव्या आ प्रीतम ॥ करे कांड नीज धेर वास  
 जी ॥ ए आचनी ॥ पररमणता परनोग ठानी ॥ सुणो वीर चरी  
 त्रजी ॥ सार सुगीने त्रण्णा छोडे ॥ ससार जाणो असारजी ॥ पर  
 व पजुतण ॥१॥ क्रोध कजा एने वेश करीने ॥ मन धरे वडराग  
 जी ॥ पर पुदगननी शोभा न राखे ॥ माननो करे कांड त्यागजी ॥  
 परव ॥२॥ धर धेर डवारे तु कहां भट ठे ॥ लोलपीपणुं लइ साथजी  
 ॥ लोन वशे ताहां धरम पामे ए ॥ समकीत न आवे हाथजी ॥  
 परव ॥३॥ नारी धमा मम वाहानी तुजने ॥ केम आवुं हुं तने इ  
 आदजी ॥ हवे कइ परणती वदली ॥ छाने मन वीखवादजी ॥ परव  
 ॥४॥ सुगुहनी आधच करजे ॥ पाले सीयल नीरधारजी ॥ अस्त्री  
 परनी वंठना तजजे ॥ आवे दधीजल पारजी ॥ परव ॥५॥ करम  
 कथा जंजालने छोडी ॥ श्रोता थइ दीए कानजी ॥ धरम ते तो  
 कोइज पामे ॥ छानो वीखअ तरत मानजी ॥ परव ॥६॥ जावे  
 करी मुनी हुकम वंदे ॥ मीत्रीसुरीनी नारजी ॥ परभाव तजी नी  
 ज धरमा पेठो ॥ सीध केसरी वदे शतवारजी ॥ परव ॥७॥

म खपाववाने काजरे ॥ होय उदे जीहां करमनोजी ॥ तीहां काउ  
 संगे रहे मुनीराजरे ॥ हुकममुनी ॥५॥ वपत्तरग प्रभुर्जीए बहु सह्या  
 याजी ॥ थीर राखो समपरणामरे ॥ नाग चंडकोसी वुजवो ॥ चे  
 तन राखी नीज ठामरे ॥ हुकममुनी ॥६॥ साली वद्धे प्रभुर्जी आ  
 वीआजी ॥ ध्याता काइ सुकल ध्यानरे ॥ नीज ज्ञान परगट करो  
 जी ॥ रचना समोसरण नीधानरे ॥ हुकममुनी ॥७॥ गठतमादीक  
 वीप्र वुजवा ॥ थवा गणधर अगोआररे ॥ अनेक उपदेसे तारीआ  
 जी ॥ प्रनु पोहोता मुगती मोजाररे ॥ हुकममुनी ॥८॥ मीत्रीसुरी  
 वदन करेजी ॥ अनता तीरथकर नाथरे ॥ केसुर प्रदक्षा दइ करी  
 जी ॥ वदे सअल तीरथकर मुनी नाथरे ॥ हुकममुनीनी देशना  
 सुणोजी ॥ आव्या परव पजुशण आणादरे ॥९॥

### घट्टली ३ जी.

सुरत सोहागण साएण वंठी ॥ आमोदयामरसजा नामे प्रीतम  
 जी नीज ठाम पधारा ॥ हुकममुनीने पाए लागोजी ॥ सुरत चुकेथी  
 धाय मन घहेल्लु ॥ वेसे थीर नवी ठामजी ॥ रात दीन परघाहामां  
 आवे ॥ आवे नहीं नीज मुकामजी ॥ सुरत ॥१॥ तमोछो वृती  
 माहाराठो पती ॥ कुमतासग नवी ठाजेजी ॥ ज्ञानीठोके मथावो  
 अगनानी ॥ माहारी देह घणु दाजेजी ॥ सुरत ॥२॥ अपरमद चा  
 रीत्र नीज घरमा नर्युंठे ॥ बहार नटके शं थावेजी ॥ सुख अनंतु  
 नीज घरतुं मुकीने ॥ लोक प्रवृती केम जावेजी ॥ सुरत ॥३॥  
 वीनएनकाअ न देखु तनमा ॥ परसंगंत करो शा माटेजी, पराथा  
 प्रेम काज अनतो ॥ फरसा पुदगल साटेजी ॥ सुरत ॥४॥ करम क  
 था सव तमारा वशमां ॥ तेनो नहेमो ठोमोजी ॥ सम उपसम  
 छ ख वेठती वेला ॥ नथी थावता कोइ आमाजी ॥ सुरत ॥५॥  
 उकराइ मान सीध अणतु ॥ देखडावु मारा सामजी ॥ लोकीत



कहुं अश्वतारजी ॥ पुज ॥ ३ ॥ देसना सुणीने अनुभव लेइए ॥  
 परभाव करीए त्यागजी ॥ मोहराजासु जुयज करीए ॥ आवो  
 क्यांधी लैश लागजी ॥ पुज ४ ॥ कुगुरुनो संग न करती ॥ तेहना  
 वचनथी रहेजे छरजी ॥ काला ग्रहमां नांखी देशो पन्शे समुद्र  
 पुरजी ॥ पुज ॥ ५ ॥ वीरचामीत्र मगरुजी सुणावे ॥ जीन चोवी  
 शने अधीकारजी ॥ नाम लेतो नव नय जाये, समकीत आवे नी-  
 रधारजी ॥ पुज ॥ ६ ॥ गुरुनी वयावच करजे, सधनी करजे जग-  
 तीजी ॥ सम परणाम नीज धारण करजे, मनमां मान न धरतीजी  
 ॥ पुज ७ ॥ सीयल आभुपण छलन पहेरी ॥ परजोग इज्ञा नवी  
 करतीजी ॥ परपुदगल शोना नव तुजने ॥ नीजगुण मन कांड  
 लेतीजी ॥ पुज ८ ॥ सुरनारी मुनी हुकम वंदे ॥ गुरुगुणज्ञाने जो-  
 तीजी ॥ कहे केसुर सुगुरु संगतथी ॥ कुमता महेलेरोतीजी ॥ पुज ९ ॥

### घहली ७ मी.

हुकममुनी वंदने गइ ॥ परव पजुशण मांयजी ॥ सखी  
 परमुख सांजली ॥ नीज गुरु कथा अधीकारजी ॥ ए आंचली ॥  
 लालमदनो लामको ॥ वस राधणपोर गामजी ॥ वालपणेथी  
 वैरागीयो ॥ हुकमसा जेनुं नामजी ॥ मुनी हुकम ॥ १ ॥ वणज  
 वहेपार बहु करे ॥ राजरजवामे दीये बहु मानजी ॥ पण धंधे  
 चीत लाधे नही ॥ मन जोवा शास्त्र ग्मानजी ॥ मुनी हुकम ॥ २ ॥  
 पीता मरण पाम्या पछे ॥ काडीबोध लीधो साक्षीजी ॥ माता  
 छःखीयारी छरे करी ॥ संजम लीधो कांड वाटजी ॥ मुनी हुकम  
 ॥ ३ ॥ तप कीधां घणां आकरां ॥ सहोपरीसय धारजी ॥ कठण  
 क्रम छरे करी ॥ मोहोराजा वाधो जेसो हाथीजी मुनी ॥ ४ ॥  
 वायवरु जीहां वसे ॥ अटवन धन घोहोरजी ॥ मुनी ॥ ५ ॥ वीकट  
 पंथ मुनी साचरे ॥ गणे नही पुदगल जावजी ॥ मुनी ६ ॥ शास्त्र

## घहुली ५ मी.

लीजावत कुवर जजो ॥ एदेशी ॥ पांच सात सखी जेजी मली ॥  
 चाली मुनी वदण काजरे ॥ सखी ॥ मुनी देखी मन चिंतवे ॥ एके  
 सो मल्योठे साजरे ॥ सखी ॥ मुनी रीधी तमे साजलो ॥ १ ॥ दोय  
 नारी सगे रहो ॥ रमे तेहने सगे तेहरे ॥ सखी ॥ पुत्र चार ते ज  
 न्मीया ॥ मार्या तेमे दोय एहरे ॥ सखी ॥ २ ॥ दोय उछेरा ते सही ॥  
 अर्धीको धरी मन हेजरे ॥ सखी ॥ चार नारीठे तेहने ॥ प्रतेके प्र  
 तेके सेजरे ॥ सखी ॥ ३ ॥ पुत्र त्रण तेने जनमीया ॥ अर्धीकोठे जा  
 स उठाहरे ॥ सखी ॥ दोय नीज वले रह्या ॥ एवा दावाने साहरे ॥  
 सखी ॥ ४ ॥ त्रीजो आगेवान थथो ॥ दोयने ठडा तेणे ठामरे ॥  
 सखी ॥ चार पुत्र तेणे हणया ॥ टाल्युंठे तेहनु धामरे ॥ सखी ॥ ५ ॥  
 ते ह्ये हेते मुनीवरा ॥ वरीया नवी नारी एकरे ॥ सखी ॥ पुत्र चार  
 तेणे पर्सव्या ॥ तेणे कीथो उशा जत्रीजाथी नेकरे ॥ सखी ॥ ६ ॥  
 धाकता शत्रु तेणे हणया ॥ पछे धयो सत्राव उद्योतरे ॥ सखी ॥  
 तेवा मुनीवरवडीए ॥ जीहा प्रगटी अनती जोतरे ॥ सखी ॥  
 ॥ ७ ॥ मुनी हुकम कहे गावता वली सांजलता अर्थ एहरे ॥ सखी ॥  
 नीज स्वरुपे प्रगट होचे ॥ वली पामे सीवर मणी गेहरे ॥ सखी ॥ ८ ॥

## घहुली ६ ठी

पुज पजुसण करवा आव्या ॥ वदने जावुं मारी वेहेनीजी  
 ॥ ए आकणी ॥ काइ दहामानी हुल्लु तरसी ॥ सुगुरु जोती वा-  
 टजी ॥ पुरव पुने मुनी हुकम पथार्या ॥ करवा चोमासु माटजी ॥  
 ॥ पुज पजुसण करवा आव्या ॥ १ ॥ वीचरंता मुनी वनमा  
 नमता ॥ धरता आतम ध्यानजी ॥ क्रोध मान माया नव जीते  
 ॥ पाए व्यातम ज्ञानची ॥ पुज ॥ २ ॥ वंदने जइने घहुली काहु  
 काठसग रहु नीरधारजी ॥ वीनये करीने गुरुने वंड ॥ सफळ

नीरे ॥ तमे सांजलजो नव प्राणीरे ॥ जाणे मोक्ष तणी नीसानी  
 ॥ हुकम ॥७॥ संवत अयोगत्रयीश पांत्रीसेरे ॥ आसो सुद ठठने  
 दीवसेरे, कीधी घहुली मन उलास ॥ हुकम ॥९॥ श्राविकाए घ  
 हुली कीधीरे ॥ तेथी पामीए उतम रीधीरे ॥ ते प्राणी पाम्या सी  
 धी ॥ हुकम ॥१०॥

### घहुली ९ मी.

साहेली एणीपेरे वीनवे ॥ चालो वेनी मुनीवर पासरे ॥ वांदि  
 पातक धोइए ॥ गुण प्रगटे अती उलासे ॥ साहेली ॥ जगवी अंगे  
 भाखीउ ॥ तुंगीआ नगरी अधीकारीरे ॥ फल एनु करमे जाखीउ ॥  
 शीवपुर तणु ए साररे ॥ गाथा ॥१॥ परथम सांजलवुं कहु ॥ ज्ञान  
 प्रगट सुखकाररे ॥ वीरती ते पछे कही ॥ संवरथाए नीरधाररे ॥३॥  
 पछे वर्णन पुठे करे ॥ नीरजीरा तणो दाताररे ॥ आ करीए पद ते  
 लहे ॥ शीव जावा तणा विचाररे ॥४॥ एवुं फल ते भाखीउ ॥ चो  
 वीसमो जीनचंदरे ॥ ते कारण मुनीवढीए ॥ जेथी होए सुखनो कं  
 दरे ॥५॥ बीजां पण फल जाखीयां ॥ श्रीदांते जोजो सर्वंधरे ॥  
 मुनी वादी घउली करे ॥ तेहनो जाए डःख द्वदरे ॥६॥ गुरु आग  
 ल ते गावता ॥ समकीत नीरमल थाशेरे ॥ मुनीहुकम उश्रव मला  
 मन वठीत तस थाशेरे ॥ गाथा ॥७॥

### घहुली १० मी.

श्रीअलचंद्रमीने वरीरे ॥ पीयारी जे पाले नरनारजी ॥  
 चंपा नअरी समोसर्याने ॥ पुरण नदर वनमोजारजी ॥ चोवीसमा  
 जीनेश्वरने ॥ चोतरीश अतीशअ धारेजी ॥ नवीजीन वंदो ए उ-  
 पगारी ॥ जे तारे नरनारजी ॥ आकणी ॥ १ ॥ वन पालरु वधाम  
 णीने ॥ दीए कुरणी करानुर्जी ॥ साढीवार लाख सोनीआने ॥ वली  
 पच मग पसाएजी ॥ २ ॥ हसंग आरथीने पलवीकाइ ॥ पाला

खट जोया घणा ॥ खेंची काढो तत्व सारजी आत्म सचावी गुण  
 प्रहा ॥ पाम्या थीरता अपारजी ॥ मुनी हुकमवदने गइ ॥ परवा ॥ ७ ॥  
 आजीव घणाने परबोध करे ॥ जाखे काइ साचो धरमजी ॥ वस्तु  
 असत नव दाखवे ॥ अध्यातम थाए मरमजी ॥ मुनी ॥ ८ ॥  
 जावी आबडे गरु सामराजी ॥ देवे करयो बहु ठाठजी, नाना वीध  
 रचना करेजी ॥ पधरावा सोवन पाटजी ॥ मुनी ॥ ९ ॥ थीवर  
 थया थीरतामां पडे ॥ नीग्रंथ सीयलना धारजी ॥ पुरव पुने सुरत-  
 मा वसीया ॥ वदे सयल नरनारजी ॥ मुनी १ ॥ गुणसुणी गुणवंती थइ  
 वारे वारे वदे सुरनारजी ॥ सग केशरी उद्योत थइ तरु, वदन कीर्त  
 नीरधारजी ॥ मुनी हुकम वंदने गइजी ॥ परव पजुपण मांहेजी ॥  
 राजा परमुखे सांजलीजी ॥ नीज गुरु कथा अधिकारजी ॥ १ ॥

### घहुली ८ मी

सुरत शेहेरने गोपीपेरे ॥ मुनी हुकम आवी समोसेरे ॥ संग  
 सकल वदना करे ॥ हुकममुनी राजने जइ वंदो रे ॥ गुरुनी देशना  
 छे घणी सारिरे ॥ सठ संघने लागेछे प्यारिरे ॥ एउनी ज्ञाननी जा  
 उ वलीहारीरे ॥ हु १ ॥ गुरु अध्यातम वाणी संजलावेरे ॥ इव्य गुण  
 परजाय ओलखावेरे ॥ जम चेतनना वेंचण समजावे ॥ हुकम ॥  
 ११ ॥ गुरुनी परुपणाछे साचीरे ॥ एतो समजावे सिद्धांत वांची  
 रे ॥ तोमे करम करा नीकाचीत ॥ हुकम ॥ ३ ॥ गुरु मुनी मारग  
 मा पुरारे ॥ सुध ज्ञान दरशाणमा सुरारे ॥ मोह ममता ए रहे डुरा ॥  
 हुकम ॥ ४ ॥ गुरु सुधो मारग देखमावेरे ॥ गुरु आतम स्वरुप ओ  
 लखावेरे ॥ सध प्रणती समजावे ॥ हुकम ॥ ५ ॥ पुरु श्रावक पुनरे ॥  
 सुगुरु मल्या रतनरे ॥ ज्ञान समजावे बहु मन ॥ हुकम ॥ ६ ॥ गुरु  
 अध्यातमना रसीआरे ॥ गुरु आतम ज्ञानमा वसीआरे ॥ पर  
 नावसे डर खशीआ ॥ हुकम ॥ ७ ॥ गुरुनी वाणी ते अमीए समा

उमराव सामतसार ॥ आमत परमुख दीसे घणारे ॥ देखंता हरख  
 अपार ॥ चालो ॥२॥ दोसामती तीहा वाधा पमारे ॥ एक घाणी  
 मांही पीलत ॥ एक वध जोमीए धरेरे ॥ एकने मारदहंत ॥ चालो  
 ॥३॥ चौचौने सु पीथोरे पंचवध वधलहत ॥ पंच ते आवतां पाछां  
 वलारे ॥ त्रण ते देखी रहंत ॥ चालो ॥४॥ त्रण ते काढां घरधी  
 वारणेरे ॥ चौउ ते आपे नाठा जाय ॥ सात ते धीरज मन धरे  
 नहीरे ॥ आठ मन उद्वेग थाय ॥ चालो ॥५॥ त्रण ते पडखे धीरे  
 नहीरे ॥ चठ ते उजा सुकाय ॥ तेरमा उदयनर बोले नहीरे ॥  
 चठ ते नीरवल थाय ॥ चालो ॥६॥ वीस एकवीस अलगा करीरे  
 वावीसशुं मामोठे वाद ॥ तेवीस तजी गया मुलसुरे ॥ वीता पामे  
 वीखवाद ॥ चालो ॥७॥ एम गणे ते अलकरारे ॥ जे पाले सुध  
 आचार ॥ वादी वधावो मुनी जावसुरे ॥ जइए लुछणा सुखका  
 र ॥८॥ ए घड्डीली जे गाशे हेतधीरे ॥ ते लेशे मगलमाल ॥  
 मुनीहुकम कहे गाता थकारे ॥ टुटशे छःखनी जाल ॥ चालोरे  
 सहीओ मुनीने वांदवारे ॥९॥

### घड्डीली १३ मी.

हवे वीरजीणेसर राअारे ॥ राजग्रही नगरीए आव्यारे ॥ गुण  
 सीयल चइत मन जाव्यारे ॥ रेवाने आझा तीहां लाअारे ॥ जन  
 राअारे ॥१॥ वनपालक वधामणी देवेरे ॥ सरणीक नरपतीने ते  
 वेरे ॥ मुगट वरजी भुवणा होवेरे ॥ साढी वारलाख सोवन देवेरे  
 जन ॥२॥ सरणीक वदवाने आवेरे ॥ चेलणा परमुखने जावेरं ॥  
 वांदी हेज घणो मन लावेरे ॥ देशना सांभली सुख पावेरे ॥ जन  
 ॥३॥ राजा राणी देखी मन मोयुर ॥ नआणु करवा चारीत्र खो  
 युरे ॥ साधु साधवीए अम सोयुरे ॥ जगननाये गीतने जोयुरे ॥  
 जन ॥४॥ उपदेस देइने वालारे ॥ पतीपतनीरुप नीरधारारे ॥ पा



मुनी वंदीए ॥ जेठ कायना पीररे गुरु वंदीए ॥ अंतरे जोदेअंजनर  
हेरे मुनी वंदीए ॥ परआ जीतवे धीररे गुरु वंदीए ॥३॥ तरणातत्व  
ने आराधतारे मुनी वंदीए, टालता वीकथा चाररे, गुरु वंदीए ॥ तरण  
डंडथी वीरमीअरे मुनी वंदीए ॥ जे पाले नीरती आचाररे गुरु  
॥४॥ दोष वेतालीस टालतारे ॥ मुनी वंदीए ॥ अमुदाअनी  
नीख आचाररे गुरु वंदीए ॥ एवो आहार गवेखतारे मुनी वंदीए ॥  
नहीं इज्ञानो उपचाररे ॥ गुरु वंदीये ॥५॥ एतादीक गुण नाखी-  
यारे मुनी वंदीए ॥ कहो मुनीनो आचाररे गुरु वंदीये ॥ धन धन  
पाले मुनी रायरे ॥ मुनी वंदीए मुनी हुकम कहे वंदीए ते मुनी वं  
दीए ॥ कहे मुनीवर ए नाणरे गुरु वंदीए एह घहुली जे गावसेरे  
मुनी वंदीए ॥ तसरु कोम कल्याणरे गुरु वंदीए ॥६॥

### घहुली १६ मा.

कांकडीनयरीए पयार्थी ॥ सेसरंवन समोसरारे ॥ चउद  
सहेसमुनी परिवारे ॥ चोवीसमो जीनेशरिरे ॥ नवीआवंदो तेजी  
मुनीराया ॥ जेहथी सीव सुख पायारे ॥१॥ राजप्रमुख वंदणा  
थावे ॥ वारपरखदा तीहा मजीन ॥ देशना सुणी धनो काकणी ॥  
जसमाता नदरजलीन ॥ नवीआं ॥२॥ अनुमत लइ चारीत्र ली-  
धु ॥ अनीग्रहसेवो सीदरेसे ॥ ठठ पारणे आवेल करशुं ॥ आर  
करपण न आदरे ए ॥ नवी ॥३॥ तप करता शरीरनी सोजा ॥  
नाखु ते तमे साहीजोए ॥ रुधीरमास ते ताहा नवी दीसे ॥ रहो  
असतीनी थांजलीए ॥ नवीआ ॥४॥ केरपद आंगली मुकी जा  
णो ॥ कुणो मगफली सुकवीयो ॥ जंधा जेम पखी जन नाखी ॥  
केड उदर सवी सुकवुंए ॥ नवी ॥५॥ पास लउ जुजवी गणाए ॥  
मुख करमाणु कमलपेरे ॥ मस्तक तुवरु सरखु दाखु ॥ चवसुसुनी  
गोखजा पेरेए ॥ नवीआ ॥६॥ एतादीक बहु रूप वखाणु ॥ अनु

म्या अननीवार विचाररे ॥ पुदगलथी सुचीतधाररे ॥ जन ॥५॥  
 आमतरने जन चाखेरे ॥ इखुवीखे सुखने कुण राखेरे ॥ की  
 मर ए चारीतर चाखेरे ॥ मीठामी दोकडो देवा वेचवु शाखेरे ॥  
 जन ॥६॥ एवा जननी गहुली गायेरे ॥ ह्दमे नुलट अतीशय  
 लाझेरे ॥ मुनीहुकम ते चीत धाझेरे ॥ मनवठीत ते सुख पाआ  
 रे ॥ जनराअरे ॥७॥

### घहुली १४ मी.

नवीआ वदो मुनीराया ॥ सुत्र सीधात सुणो आआ ॥ पाप  
 पमल जेहथी जाआ ॥ एवा मुनीवर नीत नमीए ॥१॥ वस्तु धर  
 मजी ओलखावे ॥ नयन खेपकमं पे लावे ॥ खट छव्यमा उत  
 रावे ॥ एवा ॥२॥ पक्षआल माथे लेता ॥ परमाण चार तीहा देता  
 ॥ खटकारक माही लेता ॥ एवा ॥३॥ नीश्रे व्यवहार तीहा दाखे ॥  
 धरवा रथक दस्त ते जाखे ॥ परजाय ठोअ ते पाखे ॥ एवा ॥४॥ छ  
 व्य गुण परजाये दाखे ॥ जुदा जुदा जेद ते जाखे ॥ डरगताथी  
 पमता राखे ॥ एवा ॥५॥ एम स्वरुप ते ओलखावे ॥ न्याय तरक  
 माथे लावे ॥ पुदगल अगथी ठोडावे ॥ एवा ॥६॥ एवा गुरुना गु  
 ण गावे ॥ मोवस कारण गहुली लावे ॥ मुनीहुकम कहे नीत्य  
 ध्यावे ॥ एवा मुनीवर नीत नमीए ॥७॥

### घहुली १५ मी.

चपानगरीसमोसया जनवंदीए ॥ गुधरमा अणगाररे गुरु  
 वंदीए ॥ जवुसामी पुठीठरे मुनी वदीए ॥ साधुनो ए आचाररे  
 गुरु वदीए ॥१॥ सुधरमा कहे जवुसुणो मुनी वदीए ॥ जे पाले  
 माहा वरत पाचरे गुरु वदीए ॥ अन प्रवचन पालतारे मुनी वंदीए  
 नही अवर मनो अचरे गुरु वदीए ॥२॥ दसवीध जती धरमधरे



ते वाहाला ॥ सकता ॥७॥ धन गुरुजी ताहारी देशनारे ॥ धन हु  
कममुनी गुरुनाथ वाहाला ॥ वादे केसुर प्रेमथीरे ॥ हैमे हरख  
धरी जोमी हाथ वाहाला ॥ सकता ॥८॥

### घहुलो १८ मी.

साजलरे तुं सजनी महारी ॥ सुगुरु उपदेश कांड सुणीएजी ॥  
परजावे, छु.ख अणंत काल अनादी सहीएजी ॥ ए आकणी ॥  
चेतन हमारो परजावमा खेलेरे ॥ ज्ञान ध्यानमां नवीरमतोजी ॥  
लाग्यो परजाव आदीकालनो ॥ तेथी चारे गतीमां जमतोजी ॥ सा  
जलसे ॥१॥ ज्ञान ध्यानमा वरते ते मुनीवर ॥ अपरमत रहे नीश  
वहामीजी ॥ हरख सोच नही जेहना मनमां छाए समता शरुप  
की वाडीजी ॥ सांभल ॥२॥ देवी देवलाने नवी माने ॥ आशा  
कोइनी नवी राखेजी ॥ समरने कांड जावता वीचरे ॥ परजाव स  
गलो मीटावेजी ॥ सांजल ॥३॥ हेवो गुण जे वरते मुनीवर ॥ ते सुगुरु  
कहेलावेजी ॥ रागद्वेष नही जेहना मनमा ॥ नीजराए क्रम खपा  
वेजी ॥ सांजल ॥४॥ सुगुरुना लक्षण कहेवा ॥ ज्ञान ध्यानमा ते  
रहेताजी ॥ परवरतीमा ते नवी वरते ॥ सुध उपीओगे वीचरता  
जी ॥ सांभल ॥५॥ भव सायेरमां चेतन पडीओ ॥ परजावे पार  
नवी आवेजी ॥ छोड परभाव लावे समजाव ॥ उपीओगे अण  
ता सुखदाइ पावेजी ॥ सांजल ॥६॥ असुध परणतीमां चेतन वर  
ते ॥ ते शुध परणती कांड लावेजी ॥ ज्ञान गुणने खोली काहा  
डी ॥ परभाव सगलो मीटावेजी ॥ सांजल ॥७॥ ए नीरजन नीरा  
कारणे ॥ परवीकारे छु.ख पावेजी ॥ परवीकारने परहरी रेतो ॥  
नाए दरशण काइ आवेजी ॥ सांजल ॥८॥ सुगुरु हमारा हुकम  
मुनीछे ॥ समर ते काइ जावेजी ॥ ज्ञान रमणतामा ते काइ रहे  
ता ॥ तेनो केसुर गुण गावेजी ॥ सांजल ॥९॥

तरववाइइ देखजोरे ॥ एवा मुनीवर नीत नीत वंदी ॥ आतम  
 अनुभव पोखजोए ॥ नवी ॥७॥ ए घहुली जे गावे सुणे ॥ नरिम  
 लसमकीत एहनुरे ॥ मुनी हुकम ते घहुली करता ॥ मन वंठीत  
 होए तेहनुरे ॥ नवीआ ॥७॥

### घहुली १७ मी.

मदनर कोथल टहुकरती रे ॥ एदेशी ॥ सकता सरुपमे खे  
 जतो ॥ मनमु करी तारे हाथ वाहाला ॥ परजाव सगलो परी ह  
 रीरे ॥ ज्ञाने रमो प्राण नाथ ॥ वाहाला ॥ ए आंकणी ॥ परजावे  
 छःख अनत गणुरे ॥ सहु अनादीकाल ॥ वाहाला ॥ जनम मर  
 ण छ स्ववेधीआरे ॥ कोए न लीधी सनाल वाला ॥ सकता ॥१॥  
 जागे भुज ए ताहरीरे ॥ पाम्यो अवसर आवेला वाहाला ॥ का  
 हामे मोहोने मुलथीरे ॥ ठाडी परमाद कांइ जाग वाहाला ॥ स  
 कता ॥२॥ परवस्तु ते पारकीरे ॥ कोइकाले तारी नवी थाय वा  
 हाला ॥ छामे ममता तेहनीरे ॥ पलटायो शीद जाए वाहाला ॥  
 सकता ॥ ३ ॥ प्रथम मन तु जीततोरे ॥ उपीओग मोहो  
 नी कर काइ डर वाहाला ॥ मोहनी क्रम द्यय गथा थकीरे ॥ सा  
 ते क्रम धाशे चकचुर वाहाला ॥ सकता ॥४॥ असुध परणती परी  
 हरीरे ॥ वरते सुध परणाती माहे वाहाला ॥ ताहारी वस्तुने तु ओ  
 लखेरे ॥ ज्ञाने जन्मी जुदो काइ थाए ॥ वाहाला ॥ सकता ॥५॥  
 सकता ए ज्ञानी घणोरे ॥ ठे नीरजन नीराकार वाहाला ॥ काहाडे  
 वीकार तु पारकोरे ॥ थाए केवलरुप नीरधार वाहाला ॥ सकता ॥  
 ६॥ जावु तारी हु जावनारे ॥ जुजे माहारा प्राणनाथ वाहाला ॥  
 सुगुरु वादी करीरे ॥ मुना गुण करे काइ हाथ ॥ वाहाला ॥ स  
 कता ॥७॥ शीवरमणानी हु वेनडीरे ॥ देखाडु शीघनो साथ वा  
 हाला ॥ माहारा बीना कम सीद जसोरे ॥ माहारी साखपुरे सीधा

मां करे रमणता ॥ सेज शीव रमणीने कांड वरतोरे ॥ सुगुरु ॥३॥  
 सुगुरुने सुरीनर वंदे ॥ कुगुरुका सग नवी करतारे ॥ कुगुरुथी कु ग  
 ती पामे ॥ जवो भवतो जमतारे ॥ सुगुरु ॥४॥ सुगुरु सेवे सम  
 कीत जेवा ॥ सुगुरुछे पर उपगारीरे ॥ केसुर कांड तेहने वंदन कर  
 ता ॥ चरणकमल परीवारीरे ॥ सुगुरु ॥५॥

### घहुली ११ मी.

पुज पजुशण आव्या माहारी बेनी ॥ मारे वांदवा जावुजी ॥  
 ए आंकणी ॥ वीचरंता मृनीराज पधार्या ॥ हुकममुनी ज्रमचारी  
 जी ॥ श्रीवर साधु बहु गुणवता ॥ ज्ञान तणा नडारीजी ॥ पुज  
 ॥१॥ ज्ञान ध्यानमा ते काड वरते ॥ सगली परवरती नीवारीजी  
 ॥ अध्यातम आतम गुण पेखे ॥ आतम सुख हीतकारी नी ॥ पुज  
 ॥२॥ परवरतीमा माहरा प्रीतम वरते ॥ ज्ञान गुण नवी लावेजी  
 ॥ परवरतीमां ड.ख अणंतु ॥ काज अनादी पावेजी ॥ पुज ॥३॥  
 लागी रमणता अनादी काजनी ॥ नधी खशी जातो तेहनो मेल  
 जी ॥ करम वटमणाए वींटी लीधोछे ॥ तेहना डःखे यइ हुं घेली  
 जी ॥ पुज ॥४॥ मोहराजाए सारो जग घेहेर्यो ॥ जोर तेहनु ठे जा  
 रीजी ॥ परवरतीमां ते वरतावे ॥ नवी जोवा देए सामु माहारीजी ॥  
 पुज ॥५॥ गुरु उपदेसे मनने गोपी ॥ मन कर वेरागीजी ॥ परजा  
 व सगजो डुर करतो थाए नीरंजन नीरागीजी ॥ पुज ॥६॥ केसुर  
 कहेछे गुरु हमारे ॥ माथे हाथ मुक्घोछे नारीजी ॥ चेतन माहारो  
 परवरती छांमंतो ॥ जाठ गुरूनी बलोहारीजी ॥ पुज ॥७॥

### घहुली १२ मी.

सइपर मोरीरे आवोनीशवाइ गुरु वादीएजी ॥ एदेशी ॥ सइ  
 भर मोरीरे हुकममुनी जइए वादवाजी ॥ आवा परव पजुशणना

## घहुली १९ मी.

परव पजुशण अनोपम आव्या ॥ वदे शीयल वृत्त धारीजी ॥  
 भावे करी नवीकजीन वदो ॥ हुकूममुती धर्मचारीजी ॥ ए आंक  
 णी ॥ तास पसाए पजुशण कीधा ॥ सकल संघ नरनारीजी ॥  
 मीध्यातीने श्रावक कीधो ॥ मुनीगण बहु उपगारीजी ॥ ज्ञावेकरी  
 ॥१॥ एक अपवास करी न जाणे ॥ तेणे आठ कीधा उदारीजी ॥  
 इच्छामेदे श्रावक मुनी ॥ वृत्त चोथाने धारीजी ॥ ज्ञावे ॥२॥ बे  
 श्रावकीआए अठाइ कीधी ॥ पचस्काण मुनी गुण कारीजी ॥ कोइ  
 नव जाणे ए तपवंता ॥ करे धर्म चीत उदारीजी ॥ भावे ॥३॥  
 मुली सावकीआ परजावना कीधी ॥ समसरी दीन सारीजी ॥  
 अठमीआने पारणां कराव्या ॥ तप अतीम बलीहारीजी ॥ ज्ञावे  
 ॥४॥ ज्ञान दीपक ए मुनी कहाणे ॥ सव मले बहु नारीजी ॥ संवत  
 श्रोगणीस एरुत्रीस मधे ॥ कीधा पजुशण सुख कारीजी ॥ ज्ञावे  
 ॥५॥ क्रोध मान मायाकु छामो ॥ करां गुरु वैयावच सारीजी ॥  
 आप ठीदरकु आपइ जोवे ॥ समकीत लो नरनारीजी ॥ ज्ञावे  
 ॥६॥ मीत्री सुरी कहे धन मुनीसर ॥ ज्ञान गुण नडारजी ॥ केसुर  
 कइ करजोमी वंदे ॥ मुनी मुनीना वृत्त धारीजी ॥ भावे ॥७॥

## घहुली २० मी.

सुगुरु हमारा हमे पीछाना ॥ ज्ञान ध्यानना धारीरे ॥ समीजा-  
 वनाये काइ वीचरे ॥ परवरती सगळीनीवारे ए आकणी ॥ एछे  
 जोगीश्वर मोटाठे जोगी ॥ नथी परनाए काइ जोगीरे ॥ वीजाव  
 दसाने डर करीने ॥ थयाछे नीराकार नीर रोगीरे ॥ सुगुरु ॥ थी  
 वर साधुछे माहारा काइ ज्ञानी ॥ ज्ञान ध्यानमा रमतारे ॥ ज्ञान  
 बीनाना चेतन सुना ॥ जव अटवीमा जमतारे ॥ सुगुरु ॥१॥ ज्ञान  
 जगमो नहीं जगमा ॥ खोत्यो नथी ते जमतारे ॥ ज्ञान ध्यान

आतम ज्ञानी नीरधाररे ॥ जीन सासन धुजनीक खराजी ॥ सम  
 ता सरुप भंडाररे ॥ चालो ॥३॥ देव सकल प्रावे वांदवाजी ॥ अंते  
 वर, लइ साधरे वरास केसर करे बांटणांजी कुसम वधावे नरना  
 थरे ॥ चालो ॥४॥ इंदरादीक ओछव करेजी थाए नादारंजना ठा  
 वरे ॥ देइ खमासमणो वदन्न करेजी ॥ वार एकसोत्तेआठरे ॥ चालो  
 ॥५॥ हेवा गुरु तुने नहीं सीजेजी ॥ आवा इखमकाल मोजाररे  
 ॥ देवे, साख सात्री कहीजी ॥ ए शीवरमणी भरधाररे ॥ चालो ॥६॥  
 माहारु वंदन, नीशदीन हजोजी ॥ रवी उगमत भाणरे ॥ दास केसरी  
 ती ए वीनतीजी ॥ देजो, समकीत दानरे ॥ चालो ॥७॥

### घहुली ९४ मी.

हुकममुनी ज्ञाननो कंदो ॥ जवीकजीव रंगरसे वंदो ॥ ए थांच  
 ली ॥ मुनीठे माहा वरत धारी ॥ सागरसमी समताठे सारी ॥ छत्री  
 श गुण ए ठे पटधारी ॥ भवीक ॥१॥ मुनीनी देशनाठे सारी ॥ भ  
 वीकजी मनमां लागे प्यारी ॥ हेना संघनी जाउ वल्लहारी ॥ जवीक  
 ॥२॥ गुरु वचन चीतमा लावेरे ॥ जीव अजीव तने ओलखावे ॥  
 नीज आतम ध्यान नीज धरेलावे ॥ जवीक ॥३॥ आतमध्यान  
 तणा रशीया ॥ अध्यातम गुणे भरीया ॥ जेणे कोध कखाय डुरे क  
 रीआ ॥ जवी ॥४॥ ज्ञानदीपक तपना सुरा ॥ नयी कोइ नएवली  
 कांइ अधुरा ॥ जेणे करम कराठे चकचुरा ॥ जवीक ५ ॥ मुनीने  
 मीत्रीसुरी नमीआ, मुनी काइ नव गीरी वेग चडीआ; सवा  
 रथ सीधीना ए वसीआ ॥ भवीक ६ ॥ केसुर कांइ गुरु वदन  
 करतो ॥ गुरुना गुण हेमे धरतो, मुनीजी मने राखो पमतो,  
 जवीकजीव रंगरसे वदे ॥७॥

दीनरे ॥ हुकममुनी जइए वांदवाजी ॥ ए आंकणी ॥ दीए सधुरी  
 धुनी देशनाजी ॥ चेतन नीज अनुभव लावरे ॥ परसंगत तुने त  
 वी गटेजी ॥ काहे ड ख अनत पावरे ॥ हुकम ॥१॥ परसंगत कर  
 ता थकीजी ॥ रखडे अनतो ससाररे ॥ मम उपसम ड ख चेठवा  
 जी लाधे नही दधीजल पाररे ॥ हुकम ॥२॥ मान प्राया माहुरीजी  
 भमीथो चौगती मोजाररे ॥ अणत सुख ड ख वेधीआजी ॥ नीज  
 साता न पामे लगाररे ॥ हुकम ॥३॥ मानव जव अतीडलहोजी ॥  
 डलहो सुगुरु सजोगरे ॥ अक्सर छनो पामी करीजी ॥ पडे क्रमे  
 क्रमने सगरे ॥ हुकम ॥४॥ परमाद थाप तजी करीजी ॥ सातो  
 सुण देइ कानरे ॥ समपरीणाम धारण करेजी राखे लगार नही  
 मानरे ॥ हुकम ॥५॥ मानव जवसुर लोका इछतोजी ॥ तेने एले  
 कामे केम गुमाररे ॥ वीखवाड तुजने नवी गटेजी ॥ कांइ वसे सुम  
 ता घरनाररे ॥ हुकम ॥६॥ आप ठीदर जुवे नहीजी ॥ लागे रमण  
 ता परसारीरे ॥ अनुभव नीज केम वीसरेजी ॥ जय आवरण न ग  
 णे लगाररे ॥ हुकम ॥७॥ आ गुणागाहे हरीअतनाजी ॥ वेरी जुदा  
 पामे डव पाचरे ॥ मुज सजाव प्रगट करेजी ॥ पामो समकीतसाच  
 रे ॥ हुकम ॥८॥ चेतन जाव चारीत्र उपनेजी ॥ कहेमीत्री सुरीनी  
 नाररे ॥ रूपरुश्रेणीए तु चमेजी ॥ कहे केसुर पामे जव पारडे ॥  
 हुकम ॥ ९ ॥

### घहुली ९३ मी

कुवर हसारो नजरे देखताजी ॥ एदेशी ॥ चालो बेनी जइए वाद  
 वाजी ॥ आवा मुनीहुकम नीग्रथरे ॥ चालो ॥ मुनी जेसो तारामा  
 चदरमाजी ॥ ज्ञान तणा गुण ग्रामरे ॥ चालो ॥१॥ मुनीनी मधुरी  
 देशनाजी ॥ दीए अचरीत रसालरे ॥ आतमसरुप समजावताजी ॥  
 मीटे नवोनव जजालरे ॥ चालो ॥२॥ ज्ञान दीपक ए मुनीवराजी

तां आणंद वरते पुर ॥ ललना ॥ चेतन ॥३॥ शदीगर थीरता  
लइ ॥ जावे सम परीणाम ॥ ललना ॥ बेरी दोएने काइ वश  
करी॥तजे लोच माया ने कांइ मान॥ललना॥चेतन॥४॥ ज्ञान ध्या  
न तुं खेजतो ॥ परजाव काहामो घर वाहार ॥ ललना ॥ सस  
जावमां रमी करी ॥ करम वरगणा नीवार ॥ ललना॥ चेतन  
॥५॥ ज्ञान ध्याने रमता थका ॥ जाशे जरण मरणनां छुःख ॥  
ललना ॥ जाती रुप प्रगट थशे ॥ थाशे अणंतकालनुं सुख ॥  
ललना ॥ चेतन ॥६॥ रुहे केसुर धन देशना ॥ धन धन हुकम  
मुनी गरु नाथ ॥ ललना ॥ सुरीनर तमने वंदन करे ॥ जोमीने  
बेहाथ ॥ ललना ॥ चेतन ॥७॥

### आनम भावननी घहुली १७ मी.

देशी ललनानी॥ चेतन केम भलो जमे॥जवअटवीनी मांहे॥ललना  
परजाव केम लागी रहो॥बोमी परमाद वेगलो थाय ॥लजना॥ चेतन  
॥१॥जागे जुल ए तु ताहरी॥ज्ञान जमथी जुदो कांइ थाय॥ललना॥  
असुय मारगने परीहरी ॥ वरते सुज मारगनी माहे ॥ ललना ॥  
चेतन ॥२॥ फरतु मन वाली करी ॥ वशे थीरता लइ घरमाहे ॥  
ललना ॥ गुणपरजाय ने थोलखी ॥ करी बेहेचण जुदो काइ  
थाए ॥ लजना ॥ चेतन ॥३॥ सजावे रमता थका ॥ मुजगतीए  
काइ जाए ॥ ललना ॥ खप करम बेरी खशे ॥ सुख अणंतु थाए  
॥ ललना ॥ चेतन ॥४॥ सुगरुने शेवी करी ॥ मुनी गुणा करे कांइ  
हाथ ॥ लल ॥ ॥ मुनी गुग पाखी शीधी नथी ॥ पुछे हुकममुनी  
गरु नाथ ॥ ललना ॥ चेतन ॥५॥ ए मुनी ज्ञानी बहु ॥ छ ज्ञा  
न तणो भडार ॥ ललना ॥ ज्ञान ध्यानमां खेलता ॥ राखे नही  
परजाव लगाव ॥ लजना ॥ चेतन ॥६॥ कहे केसुर गरु माहरा ॥  
बेतरण तारण मुनी नाथ ॥ ललना ॥ आवी देव वंदन करे ॥

## घहुली १५ मी.

वीरजीनेश्वर उपदीसे ॥ एदेशी ॥ ज्ञानी ध्यानी रीसावीआ,  
 वसे वनवगमानी मांहेरे ॥ सुरता देश डुर करी ॥ गालु मन आमो  
 द माहेरे ॥ ज्ञा ॥ हवे ज्ञानी ध्यानी वंदन करी ॥ ध्यावो आतम  
 ध्याने जाइरे ॥ मीथ्यात मतीने परहरो ॥ नीज घरनी धारो ठक  
 राइरे ॥ ज्ञा ॥१॥ ज्ञान ज्ञानी गुणे रमो ॥ परजाव करो काइ ड  
 ररे ॥ परुष्या जण वंदन ॥ नीज घरनु सुख जरपुररे ॥ ज्ञानी ॥२॥  
 परपीडा संगत थकी ॥ वधो अणंत डु ख अपाररे ॥ तोए संजाव  
 न पाल्यो ॥ पने परमा नथी कांइ साररे ॥ ज्ञानी ॥३॥ परपरणीती  
 राख्या थका ॥ बलवंत थाए मोहोरायरे ॥ वेहेरी ली.ए चोपासथी  
 ॥ गाल्या करे पींजरनी माहेरे ॥ ज्ञानी ॥४॥ रुपी वस्तु जाणो  
 पारकी ॥ जाणे ज्ञान पोतानु नीरधाररे ॥ जावो समर ज्ञावना ॥  
 लावो मुजतत्व वीचाररे ॥ ज्ञानी ॥५॥ मुज चारीत्रने आदरो ॥  
 वीकजप काहामो सरवे डुररे ॥ शाती गुणनीरे करी ॥ करम मेज  
 काहाडो काइ डुररे ॥ ज्ञानी ॥६॥ मीत्री सुगे वीनती करे ॥ सुरत  
 पधारो माहाराजरे ॥ केंसुर काइ वदन करे ॥ मुनी माहारी राखजो  
 लाजरे ॥ ज्ञानी ॥७॥

## घहुली १६ मी.

देश मनोहर मालवो ॥ एदेशी ॥ चेतन जइ वंदन करे ॥ आव्यो  
 हुकममुनी अणगार ॥ लजना ॥ ज्ञान आभुशणे शोचिता ॥  
 सदागमपर थआछे असवार ॥ लजना ॥ चेतन जइ वदन करे  
 ॥ ए आचली ॥ छत्रीश गुणे वीराजता ॥ कवे दआ फुलनीठे मा  
 ल ॥ लजना ॥ पचमाहा वरत चेखु पाजता ॥ पुनम चदर बी  
 गजे छे जाल ॥ लजना ॥ चेतन ॥१॥ ज्ञान ध्यानमा खेलता ॥  
 करी काइ डुर ॥ लजना ॥ अध्यातम गुण पोखता ॥ सुण



तां आणंद वरते पुर ॥ ललना ॥ चेतन ॥३॥ शदीगर थीरता  
 लइ ॥ लावे सम परीणाम ॥ ललना ॥ वेरी दोएने काइ वश  
 करी ॥ तजे लोच माया ने कांइ मान ॥ ललना ॥ चेतन ॥४॥ ज्ञान ध्या  
 न तुं खेजतो ॥ परजाव काहा मो घर वाहार ॥ ललना ॥ सस  
 नावमां रमी करी ॥ करम वरगणा नीवार ॥ ललना ॥ चेतन  
 ॥५॥ ज्ञान ध्याने रमना थका ॥ जाशे जरण मरणनां छःख ॥  
 ललना ॥ जाती रुप प्रगट थशे ॥ आशे अणंतकालनु सुख ॥  
 ललना ॥ चेतन ॥६॥ कहे केसुर धन देशना ॥ धन धन हुकम  
 मुनी गरु नाथ ॥ ललना ॥ सुरीनर तमने वंदन करे ॥ जोमीने  
 वेहाथ ॥ ललना ॥ चेतन ॥७॥

### आनम भावननी घहुली २७ मी.

देशी ललनानी ॥ चेतन केम भलो जमे ॥ जव अटवीनी मांहे ॥ ललना  
 परजाव केम लागी रहो ॥ गोमी परमाद वेगलो थाय ॥ ललना ॥ चेतन  
 ॥१॥ जागे जुल ए तु ताहरी ॥ ज्ञान जमथी जुदो कांइ वाय ॥ ललना ॥  
 असुख मारगने परीहरी ॥ वरते सुन्न मारगनी माहे ॥ ललना ॥  
 चेतन ॥२॥ फरतु मन वाली करी ॥ वशे थीरता लइ घरमाहे ॥  
 ललना ॥ गुणपरजाय ने ओलखी ॥ करी वेहेचण जुदो कांइ  
 थाए ॥ ललना ॥ चेतन ॥३॥ सजावे रमता थका ॥ मुनगतीए  
 वाइ जाए ॥ ललना ॥ स्वप करम वेरी स्वशे ॥ सुख अणंतु थाए  
 ॥ ललना ॥ चेतन ॥४॥ सुगरुने शेवी करी ॥ मुनी गुण करे कांइ  
 हाथ ॥ ललना ॥ मुनी गुग पाखी शीधी नथी ॥ पुछे हुकममुनी  
 गरु नाथ ॥ ललना ॥ चेतन ॥५॥ ए मनी ज्ञानी बहु ॥ छ ज्ञा  
 न तणो भडार ॥ ललना ॥ ज्ञान ध्यानमां खेळता ॥ राखे नही  
 परजाव लगार ॥ ललना ॥ चेतन ॥६॥ कहे केसुर गरु माहारा ॥  
 बेतरण तारण मुनी ॥ ललना ॥ आवी देव वंदन करे ॥

नामी शीशु जोडी वे हाथ ॥ लजना ॥ चेतन ॥७॥

घहुली ९८ मी.

शिवेगी एक साधु पेखा ॥ ज्ञान ध्यानना धारीरे ॥ वेहेनी ॥ सम  
र नावे नीजरा लावे ॥ सदागम वशाछे ज्ञारीरे ॥ वेहेनी ॥१॥ ए  
जोगेश्वर मोहोटा ठे जोगी ॥ ठे नीज जोगना धारीरे ॥ वेहेनी ॥  
मन वचन काया थीर करीने ॥ इंझी पांचने मारीरे ॥ वेहेनी ॥  
मन वचन काया थीर करीने ॥ इंझी पांचने मारीरे ॥ वेहेनी ॥२॥  
छत्रीश गुणठे ए मुनीवर ॥ ठे पचमाहा वरत धारीरे ॥ वेहेनी ॥  
दोए वेरीने वश करीने ॥ ज्ञान करम वरगणा नीवारीरे ॥ वेहेनी  
॥३॥ मधुरी धुनी दीए देशना ॥ नवीक जीव गुणकारीरे ॥ वेहे  
नी ॥ अजवीने मन रुचे ॥ जेहेनी नवस्थितीथी होय ज्ञारीरे ॥  
वेहेनी ॥४॥ काल अनादीनो चेतन रखमे ॥ लागी नरमणता ज्ञा  
रीरे ॥ वेहेनी ॥ असुध परणतीए ते काइ वरते ॥ ससजाव वीशारीरे  
॥ वेहेनी ॥५॥ ससजावमा जे खेले चेतन ॥ थाए ज्ञाननो धारी  
रे ॥ वेहेनी ॥ परजाव सगलो डुर करतो ॥ जलदी वरे शिवना  
रीरे ॥ वेहेनी ॥६॥ मोती मुनी कहे धन गरुजी ॥ हुकममुनी ब्रह्म  
चारीरे ॥ वेहेनी ॥ आवे देव काइ तमने वादवा ॥ चरणकमल  
परवारीरे ॥ वेहेनी ॥७॥

घहुली ९९ मी.

महीचारी महीचालारे महीवेचवा ॥ एदेशी ॥ सखी आवेरे  
साधुजी वादवा ॥ थाव्या हुकममुनी अणगारजो ॥ ज्ञान ध्या  
नेरे मुनीवर खेलता ॥ परजाव राखे नहीं जगारजो ॥ सखी आ  
वेरे साधुजी वादवा ॥ ए आचजी ॥ ब्राह्मणो थीरता रहेनी शु  
कहु ॥ मुनीनु मन न दगे लगारजो ॥ मन वचनरे काया थीर  
करी ॥ रमे ससजावे नीरधारजो ॥ सखी आवेरे ॥१॥ पांचने जीतीरे

मुनी ए प्रेम शु, वेरीडाए काहाडा घरवार जो ॥ गनान जाण  
 रे शत्रुने हणी, जीती मोहराजाने माख्यो मारजो ॥ शखीण  
 ॥१॥ हु गइतीरे मुनीने वादवा, मुनी गुण पेखी हरखी अपार  
 जो ॥ धन धन रे ए काइ मुनीवरा, जेहने मीटाव्यो जव जे  
 आयो पार जो ॥ शखी ॥३॥ मुनी गुण धारी रे छुख काइ साज  
 रा, वेधा जे अणंत अपार जो ॥ चेतन माहरो रे परमाद शेव  
 तो, तो केम पांमशे जव जेहे पार जो ॥३०॥४॥ परमादने ठा  
 डी रे गनान ध्याने रमें, काहाडी मुकेश सगलो परजाव जो ॥  
 वश काइ करे वेरीने वली, शदागंमथी करे वनाव जो ॥ शण  
 ॥५॥ शाधपणुं लावे रे चेतन माहरो, मनमो आणे काइ वैराग  
 जो ॥ मन वचन काया रे राखे श्रीर करी, परजाव करे काइ  
 त्याग जो ॥३०॥६॥ आत्म ध्यानी रे ठे ए मुनीवरा, ठे गनान  
 तणो जंनार जो ॥ जेहने आवे रे सुरपती वादवां, जावे केसुर  
 वादे वारंमवार जो ॥ शखीण॥७॥ संपूर्ण ॥

### ॥ घहुली ३० ॥

माहारेतो जावुरे मुनीवर वांदवा, चेतन आवे हमारी साथ  
 ॥जालेरो॥ वीचरता मुनी आवीआ, श्रीवर हुकममुनी गरु नाथ  
 ॥जालेरेण॥ मारेतो जावुरे मुनीवर वांदवा ॥ ए आंचली ॥ ठ  
 त्रीश गुणेरे मुनी कांइ वीराजता, ठे पच माहावरतधार ॥ ला  
 लेरेण गनान आनुपणे शेजता, शदा गमपर थयाठे अशवार ॥  
 ॥जालेरेण ॥ मारेतो जावुरे, शंमर जावतारे मुनी कांइ वीचरे ॥  
 धरता अगोचर ध्यान ॥लाण ॥ परजाव शयलो डुरे करी दीए  
 दयारूपी काइ दान ॥ लाण॥ मारेतो जावुरे मुनीवर वांदवा ॥  
 मुनी दीयेरे मधुरी बुनी देशना वरशे जेम अमरीतधार ॥ लाण  
 नवीक जीव मन जीजतुं, अजवी लाथे नही पार ॥लाण॥ मा

रेतो जावुरे ॥३॥ चेतन माहारारे परमाद केम शेवतो, परनाच  
करे काइ डुर ॥ला०॥ सुध अपीयोगे संजावो, वरततो आणदपुर  
॥ला०॥ मारेतो जावुरे मुनीवर वांदवा ॥४॥ शकताए रेछे तु उ  
जलो तने वलगो परवीकार ॥ला०॥ शगती दाखे पीरतो, अपी  
योग दाखे तेनीवार ॥ला०॥ मारेतो जावुरे मुनी वादवा ॥५॥  
शीवरमणीरे माहरी आए वेनकी, सुमता वे मारू नामा ॥ला०॥  
माहारी सगे काइ खेलता शीवरमणी करे परणाम ॥ ला० ॥  
मारेतो जावुरे मुनीवर वादवा ॥६॥ केसुर कहेठेरे धन ए देश  
ना, धन धन हुकममुनी गरूनाथ ॥ला०॥ आवे सुरपती तमने  
वादवा, जावे जोडीने वे हाथ ॥ ला० ॥ मारेतो जावुरे मुनीवर  
वांदवा ॥ ७ ॥

### घहुली ३१ मी.

जोलो माहारो चेतन रे जव अटवी जमे पररमणतानी  
माह ॥जालरे॥ लागी ब्रमणता जमवा तणी, तेथी नीज घर  
नही सोहाहे ॥ला०॥ जोलो माहारो पीतम रे जव अटवी भमे  
॥ ए आकणी ॥ मोहोनीएरे जोलव्यो एहने, नाखी मोहो तणी  
काइ जाल ॥ला०॥ मोहोए पींजर कांइ गालीओ ॥ चोकीए मु  
काकरम रखेवाल ॥ला०॥ जोलो माहारो चेतन रे जव अटवी  
जमे ॥१॥ ए जूळ ठे रे अनादी कालनी, शेजे ते केम करी जाए  
॥ला०॥ सु गुरुने काइ शेवतो, जावे नीज गुणने काइ धाए ॥पा०  
॥जो०॥२॥ तागे रे जुल एदनी, लावी अपीओग सुरवीर था  
ए ॥ला०॥ पररणातीने परीहरी, वरते सुध परणातीनी माहे ॥  
ला०॥भो०॥३॥ काहाडे ब्रमणतारे जय तणी, सरदा जावे का  
इ खाश ॥ला०॥ सभभावे रमी करी, नीज घरमा करे काइ वा  
श ॥ला०॥ जोलो माहारो चेतन रे भव अटवी जमे ॥ ४ ॥ केसुर.

कहे ठे रे चेतन माहरो, रमे गनांन ध्याननी माहे ॥ ला० ॥ मी  
धात वस्तुने परीहरी, नीज घरमो काइ शोहाए ॥ ला० ॥ जोलो  
मारो चेतन रे चुले भव अटवी जमे ॥५॥

### ॥ घहुली ३२ मी ॥

शखी आवेरे मुनीवर वादवा, आएवा हुकममुनी अण  
गारजो थीवर शाधुरे गुणवंता घणा, ठे ज्ञानतणा नडारजो ॥  
शखी आवेरे मुनीवर वांदवा ॥१॥ ठत्रीस गुणेरे मुनी वीराज  
ता, ठे पंचमहावरत धारजो ॥ ज्ञानरे आनुपणे शोभता, शदा  
गंमपर अग्राछे अशवारजो, शखी आवेरे शाधुजी वादवा ॥२॥  
सवर भावेरे मुनी कांइ वीचरे, मुनीवरनो एठे स्वज्ञावजो ॥  
मुनी गुणठेरे कोइ ज्ञावावमो, राखे नही परज्ञावजो शखी आ  
वेरे शाधुजी वादवा ॥ ३ ॥ कृपश्रेणीरे मुनीवरचडे, वीज्ञावराचे  
नही लगारजो ॥ मन वचनरे काआ थीर करी, मार मोह राजाने  
कोइ मारजो शखी आवेरे ॥४॥ मुनी देतारे मधुरी ध्वनी देशना  
नीवीण राखो नही तमे रागजो राग राखेरे डुखठे अणंतगणु ॥  
आवे नही नवजय पारजो, शखी आवेरे ॥५॥ चेतन माहारारे  
नेह नवी राखतो, ठे नेहेनो मोटो पासजो ॥ नेह राखेरे जे जन  
उपरे फरी मलवुं पडे तेहने खाशजो, शखी आवेरे मुनीवर वादवा  
॥६॥ कहेठे केसुरे चेतन माहारा, सुगुरुनु धरे तुं ध्यानजो ॥ सुगुरु  
शेवेरे शमकीत पामशे, जाशे लोन्न मायाने मानजो, शखी आवेरे  
साधुजी वादवा ॥७॥

### घहुली ३३ मी.

गनान पुजवा जावु माहारे, गडी परमाद काइ उठेरे ॥  
सुध अपीजगे ज्ञाने रमे तो, नवजहे काइ मुदे रे ॥ ए आचली

॥ कारतग माशनी सुकल पचमी, गनान पाचम कहे लोकरे ॥  
 ज्ञान ध्यांनमा रमवु माहारे, सुगरु हुकममुनीनी घोभरे ॥  
 ज्ञान० ॥१॥ डवादडा जोडी चदरवानी बाधी, थमणी पाठा व  
 हु ठवीया रे ॥ वीवेक धरीने गनान काइ ठवीया, लावी उपी  
 नग पुजे कोइ नवीआरे ॥ ग० ॥१॥ वाज ज्ञान सुगरुगम लइ  
 ने, नीज ज्ञान गुण सभारे ॥ जोगे जुल मनादी कालनी, पर  
 भाव शगलो नीवारे रे ॥ ग० ॥३॥ अग पखाले शमता रूप पाणी  
 श्री, सुज ध्याने वुप काइ धरतो रे ॥ सुध उपीयोगे धन केशर गोली,  
 दयारुपी फुल काइ ठवतो रे ॥ ग० ॥४॥ ज्ञान गुण ठे नीज घे  
 र केरा, तेहनो थाए तु जोगीरे ॥ ठाडे ब्रह्मना परभोगनी, ज्ञा  
 ने थाए नीरजन नीर रोगीरे ॥ ग० ॥५॥ शकता ए तु ज्ञानी अण  
 तो, ते स्वजावीक रूप परकाशे रे ॥ ठाने परभाव लावे समभाव,  
 सजावे सुख अणतु पाशे रे ॥ ग० ॥६॥ कहे ठे केसुर चेतन हमारा,  
 सुगरु हुकममुनीने शेवे रे ॥ ज्ञान ध्यांनमो रमी करीने, सरधाए स  
 मकीत काइ लावे रे ॥ ज्ञान पुजवा जावु मारे, ठाडी परमाद कांइ  
 ठेरे सुध ॥ उपीजोगे ज्ञाने रमे तो नव नेह कुप काइ मुदे रे ॥ ३॥

### सशाय.

कोयलो परवत धुधलोरे लाल ए देशी.

प्रणमु पाम जीणदनेरे लाज, तेवीसमा जीनराज सुखका  
 रीरे ॥ तेह तणा पसायथीरे लाल, करु सशाय सुखदाय सुख  
 कारीरे ॥ ते गुणे अणगार कहारे लाल ॥ ए आकणी ॥ गाथा १ ॥  
 वीरजीनेबर उपदीसेरे लाल, गौतमादी साधु पास सुखकारी रे  
 ते जंबु पासे नाखीठेरे लाल, पचम गणधर जास ॥ सुखकारीरे  
 ते ॥ १ ॥ मुनीपण वीचरसुरे लाल, एवो अर्जीप्राय जास सुखकारी  
 रे ॥ तेहने धर्म ए उपदीसेरे लाल, रदीए सम उनवात सुखकारीते ॥

॥३॥ शरद चीते अनुष्ठान करेरे लाल, नीआणु करे कोय सुखण नो-  
गनी वंदन छुरे करी रे लाल, आतम गुण ते जोय ॥ सुख ते ॥४॥  
मात पीतादीकनो सहीरे लाल, पुत्र कलत्र तेम सुख ॥ वे देश  
राग ते जाणीएरे लाल, साचो तेहनो नेम ॥ सुख ते ॥५॥ संखा  
कखी सवी तजीरे लाल, लेतो प्राहार ते सुध. सुखण ॥ संजम  
मारग आचरे लाल, एवी साधुनी बुध ॥ सुख. ते ॥ ६ ॥ ते  
वीण साधु होव नहीरे लाल, कहे ते जुगं जाण ॥ सुखण ॥ मुनी  
हुकम आगे सहीरे, कहे सुतासबी नाण ॥ सुख. ते ॥ ७ ॥

### सञ्चाय २ जी.

॥ नीडडी वेरण हुइ रही. ए देशी. ॥

साधु कहीए तेहने जे राग अयुवे अलगुरे ॥ उत्तम कीरी  
आ आचरे, जे संजम गुणो वलगारे ॥ गाथा ॥ १ ॥ साधु असंजमथी  
उत्तरे, जे जोइ सीधातने साररे ॥ आतम गुणने राखतो, छुर  
गती पडता धारे रे ॥ साण ॥ १ ॥ ज्ञान जाणानुं सारए, जे आतम  
गुणने जाणेर ॥ ते परधरमा केमरमे, ते नीजधर रमणा मानरे ॥  
सा ० ॥ ३ ॥ सर्व जीव आप सरीखा, देखे सताए सरखारे ॥ जो  
कखायने छुर करे, जेणे आतम गुणने परखारे ॥ साण ॥ ४ ॥ स  
चीत अचीत धर्वनो, लोन्न तजी थया तेहरे ॥ ते समपरीणामी  
होवे, वंडक नंदक सम एहरे ॥ सा ० ॥ ५ ॥ कोइ चरचे चंदने, कोइ  
वध बंधन करतारे ॥ फल करमनु जाणीने, सुजासुज मानवी  
जलतारे ॥ साण ॥ ६ ॥ चीताचीत माही नहीं, कोइने छेखे सुख न  
मानेरे ॥ एम समपरीणामे रहे, तेहने मुनीवर जाणारे ॥ साण ॥  
७ ॥ एम मुनी गुण उंजखी तुमे, पुजोने पडी लाजारे ॥ मुनी हु  
कम कहेसे आगले, असाधुने करजो डाजारे ॥ साण ॥ ८ ॥

## सशाय ३ जी,

आखनीए मे आज शेषुजो दीगो रे. ए देशी

मोजे रमता मुनीवर चाले, जे सवर गुणने वरतारे ॥ ए  
तपतने वली लुखो, आहार मजेते करतारे ॥ संवर धारोरे ॥१॥  
डाजादीक संथारे सुता, तेम वली बेसण तेवुरे ॥ सीत ताप परी  
शहसहेता, पण तीहा समजावे रहेवुरे मोजे ॥२॥ डसमंस परी  
शह सहेतो, व्याकुल चीत न होवैरे ॥ सतकार पुजा पण नहीं  
वठे, परससा तेम जोवैरे ॥मोजे॥३॥ तप सजम अनुष्ठान रहे  
तो, ज्ञान कीरीयामे पुरोरे ॥ करम रहीत धावाने वठे, ते साधु  
नहीं अधुरोरे ॥मोजे॥४॥ जाणे गुण कखायादीकथी, मोहनी  
खाधे ते आखीरे ॥ एम जाणी सगसवीतजी मदना छरे ले दा  
खीरे ॥मोजे॥५॥ ते गुणे करी तपसी कहीये, तप वार जेदे जा  
ख्योरे ॥ अनीअतर तपवीण नवी खपे, कर्म केवलीए बाख्योरे  
॥मोजे॥६॥ मोरुपणानी चाह धरोतो, ए गुण रुदयेमा राखोरे  
मुत्तीडुरुम आगेवली कहेशे ॥ सुत्रमाहे जे जाखोरे ॥मोजे॥ ७॥

## सशाय ४

कपूर होवे अति ऊजलो, ए देशी

सजतीपणु जो चाहीए रे, तो समजो ए रीत ॥ रागरग  
नवी कीजीए रे, साधुपणानी ए रीत ॥ साधुजी धरो सजम  
गुण सार, जेहथी जवनो पार ॥साधु॥१॥ न चीतन जाखीए ए  
क तेरे, आठ माहे ते जाण ॥ भोमी कप न ज परदेशमा रे, वत  
र नगर वीनाण ॥साण॥ २ ॥ सुपन लक्षण सुजा सुजनु रे, तेम  
सांमुझीक जाख ॥ तल मसादीक तेम सही रे, मुनीवर ते न दा  
ख ॥साण॥३॥ देवकुल परसादना रे, तेम वली वडनो जाण ॥  
सलीप शाख दाखे नहीं रे, जेइनु जलु ठे नाण ॥साण॥४॥ सुव



ददेव देवी तणा रे, ज्ञाखे नही वीचार ॥ कोइ सजावे कोइ मं  
 त्रथी रे, समज रुदयमा धार ॥साण॥५॥ जेथी जीव हींसा होवे  
 रे, खरुं पाप नीरास ॥ ते जाणी मुनी बोले नही रे, जेहने अनु  
 ज्ञव वास ॥साण॥६॥ नीमीत ज्ञाखणथी नरक गती रे, अनुज्ञ  
 वथी मुगती होय ॥ मुनी हुकम ढाल आगले रे, कही सु ज्ञाव  
 जोअ ॥ साधुण॥ ७ ॥

### संज्ञाय. ५

साधुजी समता आदरो, तजो करोध नीधार ॥ मेरेलाला ॥  
 करोध थकी डुरगती होवे, तमे समजो रुदय मोजार ॥मेण॥सा  
 ॥ १ ॥ ए आंकणी. ॥ एकगणीन, डुगणीयो, त्रीगणीन चवग  
 ण ॥मेण॥ लीं व रस उकालीयो, अति कटुकते जाण ॥मेण॥सा  
 ॥२॥ सीव जाता परथमनाण, वीजो सरव वरती जाण ॥मेण॥  
 त्रीजो देह वरती घातीन, चोथे समकीत हाण ॥मेण॥साण॥३॥  
 एम गुण गाती ज्ञाखीन, पनवणाए वीचार ॥मेण॥ ते कारण  
 रोधने तजा, जेथी ज्ञव जंजाल ॥मेण॥साण॥४॥ विधक मुनी क  
 रोधथी, अगनी कुमार थाय ॥मेण॥ नगर खेले, वाजी मुनी  
 नरके जाय ॥मेण॥ साण॥५॥ एतादीक बहु मुनीवरा, करोधथी  
 चारीत्र बोरे ॥ मेण॥ करोधथी तरीन को नहीं, हवे समतानां  
 फल जोय ॥मेण॥साण॥६॥ खंधक सीखते पाचमे, पील घाणी  
 मोजार ॥मेण॥ समता ज्ञावेनी अचल रहा, वरीआ शीव वधु  
 आर ॥मेण॥ ७ ॥ बंधक बाल उतारीया, जीवतां तेराए ॥मेण॥  
 सुकल ध्यान समता थकी, तुरत शिवपुर जाय ॥मेण॥साण॥८॥  
 एम ज्ञान जोशी काउसग रहा, बाधी चारीनी पाल ॥मेण॥ खेर  
 अंगारा माथे जरा, शीव पोतोगज सुख चाल ॥मेण॥ साण॥ ९ ॥  
 एतादीक बहु उधरा, समताये ते चार ॥मेण॥ ते कारण समता

वरो, काढो करोधने डुर ॥मे०॥सा०॥१०॥ तप गनान एक एक  
थी, नवी तरो को नीरधार ॥मे०॥समुदाय सरवे मले, तप योगे  
शिव चधु नार ॥मे०॥सा०॥११॥ सुमती गुपती पाले नहीं, करे  
करोध अपार ॥मे०॥७ कहो मुगती ते केम होशे, तु करजो मन  
सु विचार ॥मे०॥सा०॥१२॥ मुनी हुकमजी आतमनी, समजावे  
वांगंमवार ॥मे०॥समता सहीत जव साइरा, तव लेसो शिवप  
द सार ॥मे०॥सा०॥१३॥

### संज्ञाय. ६

#### राग सोरठ

निज सरूपने धाए रे ज्वीक जीव नीज सरूपने धाये रे  
॥ए आकणी ॥ जव अटवीमा तु जमे, डुख अणतु केम पाए रे  
मारु मारु करा करेवे, तारु कोइ नव धाए रे ॥जवा॥१॥ अरूपी  
धइ रूप धरे, राज चादनी माए रे ॥ जटक जटक तुं एम करे, क  
रम बुटण केम धाए रे ॥जवा॥२॥ आप नीरंजन एकीलो, पडे  
माहा समुझनी माहे रे ॥ काहाडाकाशमर धनथी, आप वीचा  
रमे मन माए रे ॥जवा॥३॥ वीरीअ अणंतनो तुं धणी, नीरखल  
केम करी धाय रे ॥ मोहनी सरूप गाडे नहीं, बल किण तेषी  
कहेवाय रे ॥जवा॥४॥ कुम कपट मन लेखवी, बाधे अनंतो स  
सार रे ॥ त्रसमान गाडी ते वली, केम आवे समुझनो पार रे ॥  
जवा॥५॥ अप्रमत गुण लेखवो, हरख शोक मन न लाये रे ॥ नि  
जरा सरूपनी दाखवे, आतम नीरमल तुज धाए रे ॥जवा॥६॥  
ज्ञान विपक गुरु मत्तो, मोहनी तजे चेतन राय रे ॥ गुणघर देह  
रीअंतता, सुख अणतु तुज धाय रे ॥जवा॥७॥ मी त्री सुरी वद  
न करे, मुनी हुकम गुरु महाराज रे ॥ मोहनी कर्म डुरे करे, नि  
ज घेर आपो आतम राज रे ॥जवा॥८॥ वास केसरि मन ठटकी

उ, सुणी गुरु वचन दीज साथ रे ॥ संगीथीउ नीगोदना ॥ वल  
गा ठो तम वाथ रे ॥नवा॥ए॥

सञ्ज्ञाय. ७

इहो.

पास जी शंद परीणाम करी ॥ वीनती करुं करजोड ॥ म  
या करो मुज उपरे, पोचाडो मनना कोड ॥ १ ॥ पुरसा दाणी  
गोडी पासजी, तम नोधाराना आधार ॥ नवनय ज्ञावट डुरेक  
रो, समुद्र उतारो पार ॥ २ ॥ सेवक हुं प्रभु ताहेरो, नीस दीन  
धरु ताहारु ध्यान ॥ केम न सुणो परभु माहेरु, आपो समकी  
त दान ॥३॥ सरद पुनेमनो चांदलो, रवी उगमतो ज्ञाण ॥ हेवा  
गुरु हुकममुनी, तेहने करु परिणाम ॥४॥ जिनसासने जग दीव  
डो, मुनीवर समो नवी कोय ॥ अंधकार उजस करे, नीज घर  
मां पेसे नवी कोय ॥५॥ हेवो मुनी गुरु माहेरो, उत्रोश गुण नि  
धान ॥ राग छेप नहीं मन विपे, नहीं माया नहीं मान ॥ ६ ॥  
खट शास्त्र जाणे खरा, जोतीश वेद पुराण ॥ सात नए जेहना  
मुख वीसे, सकल गुण निधान ॥७॥ पडीताश्मां पुरण सही, पं  
च माहा वरत धार ॥ समता रस सागर समो, ग्नान तणो जंडा  
र ॥ ८ ॥ हेवा मुनी गुण वीस्तारु, श्रोता देजो कान ॥ साज्जता  
वेरी खसे, खोसे लोप्ते माया ने मान ॥९॥

सञ्ज्ञाय. ८

देश मनोहर मालवो ए देशी.

हुकममुनी वंदन करे, आणी अधीको ज्ञाव ॥ललना॥ त  
रण तारण ए मुनीवर, ए ठे ज्ञव जज्ञ नाव ॥ललना हुकम॥ ए आंक  
णी ॥ मुनी जारे हताग्रहस्था वासमा, ताहारथी मन विराग ॥

धरो, काढो करोधने डुर ॥मे०॥सा०॥ १० ॥ तप गनान एक एक  
 थी, नवी तरो को नीरधार ॥मे०॥ समुदाय सरवे मले, तप योगे  
 शिव वधु नार ॥मे०॥सा०॥ ११ ॥ सुमती गुपती पाजे नही, करे  
 करोध अपार ॥मे०॥ कहो मुगती ते केम होशे, तु करजो मन  
 सु विचार ॥मे०॥सा०॥ १२ ॥ मुनी हुकमजी आतमनी, समजाये  
 वारंमवार ॥मे०॥ समता सहीत जब साइरा, तव जेसो शिवप  
 द सार ॥मे०॥सा०॥ १३ ॥

### सञ्ज्ञाय. ६

राग सोरठ.

निज सरुपने धाए रे ज्वीक जीव नीज सरुपने धाये रे  
 ॥ ए आकणी ॥ ज्व अटवीमा तु जमे, डु.ख अणतुं केम पाए रे  
 मारु मारु करा करेठे, तारु कोइ नव थाए रे ॥जवा॥ १ ॥ अरुपी  
 धइ रूप धरे, राज चादनी माए रे ॥ जटक जटक तुं एम करे, क  
 रम बुटण केम धाए रे ॥जवा॥ २ ॥ आप नीरंजन एकीलो, पडे  
 माहा समुझनी माहे रे ॥ काहाडाकाशमर धनथी, आप वीचा  
 रमे मन माए रे ॥जवा॥ ३ ॥ वीरीअ अणतनो तुं धणी, नीरवल  
 केम करी धाय रे ॥ मोहनी सरुप ठाडे नहीं, वल किए तेथी  
 केइवाय रे ॥जवा॥ ४ ॥ कुरु कपट मन लेखवी, धाधे अनंतो सं  
 सार रे ॥ असमान गडी ते वली, केम आवे समुझनो पार रे ॥  
 जवा॥ ५ ॥ अप्रमत्त गुण लेखवो, हरख शोक मन न लाये रे ॥ नि  
 जरा सरुपनी दाखवे, आतम नीरमल तुज थाए रे ॥जवा॥ ६ ॥  
 ज्ञान विपक गुरु मत्तो, मोहनी तजे चेतन राय रे ॥ गुणघर देह  
 रीश्रंतता, सुर अणतु तुज थाय रे ॥जवा॥ ७ ॥ मी वी सुरी वद  
 न करे, मुनी हुकम गुरु महाराज रे ॥ मोहनी कर्म डुरे करे, नि  
 ज घेर आणे आतम राज रे ॥जवा॥ ८ ॥ दास केसरी मन बटकी

तिहा अति घणो, जावे वंदन करे नरनार ॥ल०॥हु०॥१४॥ ब्राह्म  
 ण जाट मागण घणा, आवे वीवादे बहु लोक ॥ ल०॥ संघे जणो  
 तेहना मन तणा, तेने शास्त्रथी अनुजोग ॥ल०॥हु०॥१५॥ अत्र  
 र लोक बहु वादता, कहेता धन धन ॥ ल ०॥ अरथ शुध करी  
 आपीऊं, धनधन तमारु ज्ञान ॥ज०॥हु०॥१६॥ धिवर साधु सम  
 ता बहु, ग्नान तणो जंरार ॥ज०॥ सुधो मारग काइ दाखवो,  
 जावे नहीं मीछ्या लगार ॥ल०॥हु०॥१७॥ इंवरी पाचे जेणे वश  
 करी, त्रण गुप्ती राखी जेहणे पासा॥ज०॥मन जीत्युं एणे सर्वथा,  
 नीज घरमा कीघो कांइ वास ॥ज०॥हु०॥१८॥ ध्यान आतम ध  
 रता घणुं, परजाव कहामो घर वाहार ॥ल०॥ देता मधुरी देसना  
 सांजले ठे जवीक नरनार॥ज०॥हु०॥१९॥शास्त्र खट जाणे खरा,  
 वीद्या अपरम पार ॥ ल० ॥ वीद्या मद मुनीने नहीं, राखे नहीं  
 मान लगार ॥ल०॥हु०॥२०॥ कीधा ग्रंथ मुनीए घणा, शास्त्रने  
 अनुसार ॥ल०॥अध्यातम गुण पालता, निजआतम गुण आचार  
 ॥ल०॥हु०॥२१॥ वांचे ग्रंथ जे मुनी तणो, पामे जविक काइ ज्ञा  
 न ॥ल०॥ मीछ्यात वस्तुने परिहरे, तजे मोह माया ने मान ॥  
 ल०॥हु०॥२२॥ गुण निधि गुणवंत घणा, गुण काइ सागर समा  
 न ॥ ल० ॥ जाणे खट राग रागणी, वली जाणे अनेक पुराण ॥  
 ल०॥हु०॥२३॥जीव दया पाले घणी, वली वेरीना कांइकाल ॥ल०  
 ॥पर दया पलटे नहीं, निज दया उपर बहु वाहाल ॥ल०॥हु०॥  
 २४॥ तप करवामां तपेस्वरी, वनवगमाना फरनार ॥ज० ॥राखे  
 जय नवि कोइ तणो, लश्कर मोहोटां करे संवारा॥ल०॥हु०॥२५॥ वे  
 री धुजावे रण विषे, लडे शत्रु शुरण मोऊार ॥ ल० ॥शत्रु नासे  
 चीस पाडता, ठाडे पोतानुं कांइ मान ॥ज०॥हु०॥२६॥ श्रीवरप  
 णे विरता लइ, वसे निज घरमा करी वास ॥ल० ॥ जावे समर  
 जावना, आणी मन उजासा॥ल०॥हु०॥२७॥ हेवा मुनी घोडा ध

लण॥ शास्त्रनु सोधन करे, धरम उपर बहु राग ॥लण॥हुण॥ १ ॥  
 वेश धरी काठी तणो, देव घोने थइ स्वार ॥लण॥ मारगमा मु  
 नीने मळ्यो, वे हाथे करतो जुहार ॥लण॥हुण॥२॥ अथ सरथउ  
 एम देव कहे, मनमा शु धारोठे वीचार ॥ लण ॥ वारु होयते की  
 जीए, हवे सेने लगामो छो वार ॥जण॥हुण॥३॥ वीचार करे मुनी  
 मन घणो, हवे केम करवु निरधार ॥लण॥ घरना लोक नही आ  
 पशे आगना मुल लगार ॥लण॥हुण॥४॥ घेर नगया पाठा फरी,  
 आव्या काठीआवारु मोजार ॥ लण ॥ संसार थस्तार जाणी  
 करी, जावे लीधो सजम चार ॥लण॥हुण ॥५॥ काया घणीए मु  
 नी कारमी, घणो कारमो अथीर सस्तार ॥लण॥ घर कुटूंव परी  
 वार तजी, माथे लीधो मेहनो चार ॥लण॥हुण॥ ६ ॥ संजम लइ  
 तप आदरो, हणवा करम कठोर ॥लण॥ मोहो राजाने काइ जी  
 तीउ, घरमाथी काढी मुक्यो वे चार ॥ल॥हुण॥ ७ ॥ वन वगने  
 फीरता फंर ॥ वसे वाहाग वरु जहा जाण ॥लण॥ सोधी गफा  
 काउसग रहे, लेशत्रु सुरण मेदान ॥लण॥हुण ॥ ८ ॥ एणीवेरे सं  
 जम पालता, करम कर्या चकचुर ॥लण॥ सदा गम आवी वसो  
 मोहोनु लशकर गयु काइ डुर ॥लण॥हुण ॥ ९ ॥ पालणपोर मुनी  
 वीचरता, वीचरता जरुच मोहोजार ॥ लण ॥ देशना दीधी तीहा  
 अती घणी, वदन करता हता नरनार ॥लण॥हुण॥ १० ॥ आमोदे  
 मुनी पधारता, तिहा लोक मिले अपार ॥जण॥ आवक आमण  
 कोळी घणा, रजपुत कणवी पाटीदार ॥लण॥हुण॥ ११ ॥ आवक  
 करता बीजा घणा, चाहना राखे मुनीपर अपार ॥लण॥ वदन क  
 रवाने आवता, साथे लइ पोतानो परिवार ॥लण॥हुण॥१२॥ चा  
 ले मानता मुनी तणी, आमोद परगणानी माडे ॥लण॥ जाए  
 राग दाखे लोकना, सीफल तोरण वंघाय ॥जण॥हुण॥१३॥ मुनी  
 अथस्था थिवर थइ, वसो सुरत सहेर मोजार ॥लण॥ सध मीले

## संज्ञाय १०.

हुकुममुनीने जाऊ नामणेरे लाल, उपगारी मुनी नाथेरे  
 सोजागीलाल ॥ देण मधुरी धुनी देशनारे लाल, बुजे माहारो  
 प्राणनाथेरे सोजागी लाल ॥ हु० ॥ चेतन हमारो चुलो पड्योरे  
 लाल जव अटवीनी मांहे सोजागी लाल ॥ लाघे मारग नही  
 तेहनेरे लाल, हवे श्री गती माहुरी थायेरे सोजागी लाल ॥ हु० ॥  
 ॥१॥ दावादल लागी रहोरे लाल, रेण अंधारी घोररे ॥सो०॥ वी  
 टी लीघो मोहोना लशकरेरे लाल, गळे वलगा ठे बेण चाररे  
 सोजागी लाल ॥हु० १॥ सम उपसम दुःख वैधतोरे लाल, गती  
 चार भोजाररे ॥सो०॥ नाटक करतो नत नवारे लाल, साता  
 नथी लगाररे सोजागी लाल ॥हु० ३॥ साते नीगोदशी हुं जमुरे  
 लाल, भ्रमणतानो सह साररे ॥सो० ॥ काल अनादी वही गयो  
 रे लाल, आव्यो नहीं दधी जल पाररे सोजागीलाल ॥ हु० ४ ॥  
 साता असाता दुख वेधीयारे लाल, लीघा नीच कुल धरे अवता  
 रे ॥सो०॥ श्रीजंच गती पण भोगवीरं लाल, खेचा उपाड्या बहु  
 जाररे सोजागी लाल ॥हु० ५॥ पीउमो हमारो लालचुरे लाल,  
 माया मोहनी संघरे ॥सो०॥ गमन करतां ते असुरे लाल, नीज  
 बसनो अयो काइ जंगरे सोजागीलाल ॥हु० ६ ॥ संगती दाखे पी  
 न्तोर लाल, पररमणतानी माहे रे ॥सो०॥ मारग तेहने सुजे नही  
 र लाल पळटाया परघेर जायरे सोजागीलाल ॥हु०७॥ अउसरपामी  
 हु वीनवुरे लाल, मलीठ सुगुरु साक्षातरे ॥सो०॥ मारग देखामे  
 पाधरोरे लाज, जेहनी साख पुरे सीशंतरे सोजागीलाल ॥हु०८॥  
 ॥१॥ पामे प्रतीबोध मुनीअकारे लाल, आणे मन वैरागरे ॥सो०॥  
 पररमणता परीहरीरे लाल, मोहनी रूप करे कांइ त्यागरे सो  
 जागीलाल ॥हु० ९॥ संसार जाखे सरवे कारमोरे लाल, नटके  
 नहीं घेर घेर डुवारे र ॥सो०॥ वस्तु पर जाणे पारकीरे, वस्तूत

॥ पच मरा मोआजार ॥ ल० ॥ आतम गुण परगट करे, हे  
 ॥ सिव रमणीना वरनार ॥ ल० ॥ हुण ॥ २० ॥ सूरपती आवे जेहने  
 ॥ दवा, साथे लइ पोतानो परिवार ॥ ल० ॥ भावी दिए खमास  
 ॥ मणा, एकसोने वली आठवार ॥ ल० ॥ हुण ॥ २१ ॥ धनधन हेनी  
 ॥ मातने, धनधन कुटूंब परिवार ॥ ल० ॥ जेहने कुले ए मुनी उपना,  
 ॥ धन धन ए अणगार ॥ ल० ॥ हुण ॥ २२ ॥ कुल घणु मुनीनुं दिपतु,  
 ॥ पुत्र पण साथु जाण ॥ ल० ॥ अमदावादमा विचरता, जेहने नहीं  
 ॥ मायाने मान ॥ ल० ॥ हुण ॥ २३ ॥ ज्ञानमा ते पंकीत हता, वली शा  
 ॥ खना बहु जाण ॥ ल० ॥ थावी पहोंच्यु आवखुं, गया देव लोक  
 ॥ पान्या निरवाण ॥ ल० ॥ हुण ॥ २४ ॥ चेलो मुनीने एक ठे, मोती  
 ॥ मुनी गुणवान ॥ ल० ॥ तप करी कर्म खपावता, वजी जणवानु  
 ॥ काइ ध्यान ॥ ल० ॥ हुण ॥ २५ ॥ सेवक एक मुनी तणो, नामे मीत्री  
 ॥ सुरी काइ जाण ॥ ल० ॥ ते जावे गुरुने वांद तो, तजी मान मा  
 ॥ याने लोच ॥ ल० ॥ हुण ॥ २६ ॥ थावक एक मुनी तणो, नामे केसुर  
 ॥ काइ जाण ॥ ल० ॥ एक गुण वंदन करे, वली सघनुं इच्छतो क  
 ॥ ब्याण ॥ ल० ॥ हुण ॥ २७ ॥

### सज्जाय. ए

उद्दो.

हवे गुरुने करु विनती, उपगारी मुनी नाथ ॥ दीए मधुरी  
 ॥ देशना, बुजे माहरो प्राणनाथ ॥ १ ॥ प्रितम माहरो लालचु, की  
 ॥ नसे खेलु में दाव ॥ २ ॥ मेलाप करवा माहेरो, भ्रमणता करावे  
 ॥ डुर ॥ निज घरमा वासो वसे, तो वरते आणंद पुर ॥ ३ ॥ परधी  
 ॥ काम धागे नहीं, एम जाणो गो नी/धारा ॥ परने कहाडो मन अ  
 ॥ की, शाने लगडो गो वार ॥ ४ ॥ ज्ञान दिपक परगट करे, आणे  
 ॥ मन चैराग ॥ पर रमणता परिहरी, करे मोहनीनो त्याग ॥ ५ ॥



समो श्रवर न जाण रे ॥सोण॥हुण॥२॥

### सञ्ज्ञाय ११.

घरे श्रगोचर ध्यान रे, एपण जोग वहे उपध्यान ॥ ए आ  
कणी ॥ प्रथम मन वाली करी रे, मोहनी रूप करे काइ डुर ॥  
विज्ञाव सघजो परिहरी रे, ज्ञाने करम करे चकचुर रे ॥ अण॥ १ ॥  
मन वचन काया थीर करी रे, तजे लोन माया ने मान ॥ पर  
रमणता पलटी करी रे, लावी अनुभव सुन्न परीणाम रे, ॥ अण  
॥ २ ॥ पाचने जीते प्रेमथी रे, पिखय करे काइ डुर ॥ ससज्ञाव  
मा पलटी करी रे, वरतावे आलंद पुर रे ॥ अण॥ ३ ॥ ए जोग ठे  
ताहरा घर तणा रे, तेहने गोडी परमाद संज्ञाल ॥ संज्ञालीने  
भावरे रे, काहामे पर विकार रे ॥ अण॥ ४ ॥ ए जोग जाहर परगट  
से रे, तारे थारो तारुं काइ काम ॥ परज्ञावे सानो जटकतो रे,  
ले निजघर करी मुकाम रे ॥ अ० ॥ ५ ॥ संवेग तुं आतमा रे, मा  
हारो ठे प्राणनाथ ॥ तारा गुण तुं प्रगट करे रे, तो देखामुं सिद्ध  
नो साथ रे ॥ अ० ॥ ६ ॥ हेवो जोग वरततारे, हुकममुनी गुरु ना  
थ ॥ जेहने सुरपती वंदतारे, जोडी करी वे हाथ रे ॥ अ० ॥ ७ ॥  
ज्ञान दिपक ए मुनीवरा रे, जेहमा गुण जंमार ॥ ते गुणने ग्राही  
करी रे, परगुणने निवार रे ॥ अण ॥ ८ ॥ मुनी गुण ज्ञावे ज्ञावना  
रे, मुनी गुण प्रगट थाय ॥ केसुर कहे ठे ते सेवतां, जरण मरण  
नय जाय रे ॥ अण॥ ९ ॥

### सञ्ज्ञाय १२.

राखे श्रगोचर ध्यानरे श्रपो, जोग वहे उपध्यान ॥ ए आंक  
णी ॥ सकता ए तु जोगी खरो रे, साथतो हारो निज जोग ॥ म  
न वचन काया थीर करी रे, गने पराया जोग रे ॥ अण॥ १ ॥ स

लखे पोते नीरधाररे सोनागीलाल ॥हु० १०॥ सूरज सरखो क  
 जलोरेलाल, नीरजन नीराकाररे ॥सो०॥ घेहरी लीधो करमवादाळे  
 रे लाल, आवे नीजरा पठी लगाररे सोनागीलाल ॥हु० ११॥ वेरी  
 कामे घरमाथकीरे लाल, बंध करे आवरण डुवाररे ॥सो०॥ सम  
 परीणाम लावी करीरे लाल, कृपश्रेणीचमै अपाररे सोनागीला  
 ल ॥हु० १२॥ पाचने जीते प्रेमशुरे लाल, त्रणने राखे कांइ पा  
 सरे ॥सो०॥ मन मारे काइ सरवधारे लाल, ज्ञान घरमा करे का  
 इ वासरे सोनागीलाल ॥हु० १३॥ अपरमत नीसदीन रहेरे लाल  
 सघजो कहानी मुके परजावरे ॥सो०॥ समर जावे जावनारे ला  
 ल, सदा गमथी करे वनावरे सोनागीलाल ॥ हु० १४ ॥ सकता  
 सरूपमा खेलतारे लाल, विनाव करे काइ छुरे ॥ सो० ॥ परवि  
 कार सघलो परीहरेरे लाल, वरते ज्ञान ध्याने नरपुरे सोनागी  
 लाल ॥हु० १५॥ सकता एतो ज्ञानी घणोरे लाल, तने वलगोठे  
 परविकाररे ॥सो०॥ परजाव सघलो तजी करीरे लाल, थाए नीर  
 जन नीराकाररे सोनागीलाल ॥हु० १६॥ धन्य गुरुजी ताहरी दे  
 ज्ञानारे लाल, धन धन हुकममुनी गुरुनाथरे ॥सो०॥ पडतो राख्यो  
 मारो पित्रमारे लाल, उपदेशे जालो वे हाथरे सोनागी लाल  
 ॥हु० १७ ॥ नगणीसैं पिसतालीसरे लाल, आसो सुद परुवो गु  
 रुगाररे ॥सो०॥ मुनी गुण जावधारे लाल, सुणवा नवीक नर  
 नाररे सोनागीलाल ॥हु० १८ ॥ मंगलकारी ए जावनारे लाल,  
 ए स्त्रीखशो नरनाररे ॥ सो० ॥ रोग दोख नव नय मटेरे लाल,  
 गुण प्रेहे पामे नव पाररे सोनागीलाल ॥हु० १९॥ गुरु वादे का  
 इ प्रेमथीरे लाल, करी प्रदक्षणा जोडी हाथरे सोनागीलाल ॥हु०॥  
 शेवक सूरि मुनी तणारे लाण ॥ तमो ससार तारण मुनीनाथ रे  
 सो०॥हु०॥२०॥ केसुर जावे मुनी जावनारे लाण ॥ नाइ दीन घ  
 गुण व्यानरे ॥सो०॥ समरन कोइ वीनवे रे लाण ॥ गुरु

ताएतुं अतुल बली रे, पण बलगो ठे परवीकार ॥ ते विकार  
सघलो डुरे करी रे, थाए निरंजन निरधार रे ॥चे०॥६ ॥ कहे ठे  
केसुर चेतना रे, आणंद घन माहाराज रे ॥ अवसर तुं नही चु  
कतो रे, वादे हुकममुनी माहाराज रे ॥ चेतन तुं ताहारु सरुप  
निहाल, तारु सरुप निहाल रे ॥चे०॥७॥

### सञ्ज्ञाय. १४

सासु पुठेरे बहु वात, वस्तु क्या गइरे ॥ एदेशी ॥  
परमाद तुं केम शेवरे ॥चेतन॥ नरमणतामा केम जम  
तोरे, गंडी नरमणता काहाडी परजाव सुज्ज अनुभवमां कोइ  
रमतोरे ॥ ए आकणी ॥ एक घडी पण तुं थीर नवी बेमे, असुध  
परणतीमा रमतोरे ॥ थीरता पाखी शीधी नथी ताहारी, माटे  
मनने वइ कांइ करतोरे, परमाद तुं केम शेवरे ॥चेतन ॥१॥ परथी  
काम नवी थाइ ताहारु, राग दवेशे बहु वधशेरे ॥ करमबंध  
कोइ पडशे एथी, असर गतीए जइ पडशेरे परमादतु केम ॥२॥  
अनुजव हेतु ठे कांइ ताहरो, ते वना नांण नही आवेरे, थीरता  
पाखी चारीत्र नवी फरशे, तो शीवपुरी केम करी जावेर ॥ पर  
माद ॥३॥ परथम तु काइ मनने जीती, अशुध मारगने ठामेरे ॥  
सुभ मारगमा वरती सदाकाल, ज्ञान जगमो करमोसे मांडेरे  
॥ परमाद ॥४॥ ताहारी वस्तु ठे ताहारी पासे, ज्ञाने हुंडवा जटके  
रे ॥ थीरता रुपी वाडी ठाहीने, परजावथी काइ ठटकेरे ॥प० ५॥  
शकताए तु ज्ञानी अणंतो, ते ज्ञान गुण संजारे ॥ जरु वस्तु  
थी जुदो पडीने मोहनीरुप नीवारे रे ॥ परमादतु केम ६ ॥  
कहेठे केसुर चेतन हमारा, सुगरु वैयावच करतोरे ॥ सुगरुनेशेवी  
परभाव मेली, ज्ञान ध्यानमां रमतोरे ॥ परमाद तुं केम शेवरे  
चेतन, भरमणतामा केम जमतोरे ॥ ७ ॥ इति

सजावमां वरती करी रे, विज्ञाव करे काइ डुर ॥ ज्ञान ध्याने र  
 ची करी रे, वरतावे आणव पुरे ॥अ०॥१॥ परजावने विचारतो  
 रे, गणे मणी कचन खाण ॥ ताहरा गुणने तुं जावतो रे, आ  
 णी सम परिणाम रे ॥अ०॥३॥ परवस्तु जाणी पारकी रे, अपी  
 योगे तेहनी रमणता वारु ॥ सुज मारग पळटी करी रे, जगडो  
 शत्रुसे माडरे ॥अ० ॥४॥ लइ जोग नपि भावता रे, लोक ला  
 जत जग माहे ॥ निज जोगने थादरी रे, रमे ज्ञाने निज घट  
 माहे रे ॥अ०॥ ५ ॥ शकता ए गुण ज्ञानी घणारे, तने वजगा  
 वे पर विकार ॥ ते मोहोनी रूप वानी करी रे, घाए निरंजन नि  
 राकार ॥ अ० ॥ ६ ॥ एम चीदानदने जावतो रे, केसुर जोडी वे  
 हाथ ॥अवसरे उपोयोग लइ करी रे, निज ज्ञाने रमो प्राणनाथ  
 रे ॥अ०॥ ७ ॥

### सवाय १३.

सासु पुठे रे वडु वात, वसतु कहा गइ रे ॥ ए देशी.

ताहारु सरुप तु निहाल रे ॥चेतन. ॥ परजाव सघलो नि  
 वार ॥ ए आकणीः ॥ आ परजावे रमो घणु रे, कहाडो अनादी  
 रे काल ॥ ते ताहारु सरुप नही उलखु रे, नवि लीधी तेहनी  
 सजाव रे ॥चे०॥१॥ अरुपी तु साहेबो रे, तने न घटे रुपीनो रे  
 संग ॥ रुपीनो संग करता थका रे, लागे करम आवे आरंज रे  
 ॥चे०॥३॥ मनने केम नही जीततो रे, सघलो मननोठे रे वि  
 गाड ॥ माटे परथम जीती करी रे, ज्ञाने कृपश्रेणी काइ मा  
 डरे ॥चे०॥३॥ पर उपाजण वेदना रे, ठे चौगती डुखनो रे ठाव ॥  
 ते पर वेदना नवि वेधतो रे, मुनी गुण करी काइ हाथ रे ॥चे०॥४॥  
 शकताए तु गनानी घणो रे, ते गनान गुण मन लाव ॥ मीथात  
 मतीने परिहरी रे, समकीत गुण वाणे आवरे ॥चे०॥ ५ ॥ शक

लहीने, शुधपरणती काइ लावोनी हो ॥ भावे सुगरुने काइ शे  
 वोनी हो ॥१॥ मारग अशुधमा तमे काइ पडीआ, वीजावे डुख  
 अणंतु पामोनी हो ॥ ज्ञावे सुगरुने ॥ २ ॥ मन तमारु श्रीर  
 करी राखो, वीजाव सगळो नीवारोनी हो ॥ भावे सुगरुने कांइ  
 शेवोनी हो ॥३॥ सुजगतीठे ससजावमा, सजाव शुज ध्यान  
 काइ ध्यावोनी हो ॥ ज्ञावे सुगरुने कांइ शेवोनी हो ॥ ४ ॥  
 सुज ध्याने काइ सुख अणंतु, संज्ञावे शीवरमणी कांइ पामो  
 नी हो, ज्ञावे सुगरुने काइ शेवोनी हो ॥ ५ ॥ ऊपगारी सुगरु  
 ज्ञवीकना, ओ ज्ञवी सुगरु जावना ज्ञावोनी हो ॥ ज्ञावेसुगरु  
 ॥६॥ सुगरु हमारा हुकममुनीठे, परतीप्रोध तेहनो काइ लावो  
 नीहो ॥ ज्ञावे सुगरु ॥७॥ अथीरवस्तु नथी कामनी तारे ॥  
 तजी ज्ञावचारीत्र काइ लावोनीहो, ज्ञावे सुगरुने काइ सेवो  
 नी हो ॥८॥ दीएठे शीखामणहो केसुर चेतनने, चेतन ज्ञावे  
 मुनी गुण गावोनी हो ॥ ज्ञावे सुगरुने काइ शेवोनीहो, ज्ञावे  
 सुगरुने काइ शेवोनी हो, शेवी शुध उपीनग काइ लावोनी हो ॥९॥

### सज्ञाय. १७

देशी लावणीनी चाल नाटकनी.

हुकममुनी सुगरु हमारा, गावुं गुण हुं तमारारे ॥ गुण  
 गाता ज्ञान जो प्रगटे, ज्ञवज्ञय डुख जाए मारारे ॥ एआकणी ॥  
 पररमणता लागी चेतनने ज्ञरमणतामा ज्ञटकेरे ज्ञरमणताए  
 ज्ञवज्ञय डुख करतो, माहारा रुदेमा लागे ते खटकोरे ॥ हुकम  
 मुनी ॥ १ ॥ खटको नथी तेनो मारा चेतनने, मदमां मातो  
 कांइ फरतोरे ॥ मान मदीरामां चोकी रहीने नीजवेर आवी  
 नही ठरतोरे ॥ हुकममुनी ॥ २ ॥ वेरीने वश कांइ चेतनपडी  
 ठे, मननी साथे काइ जमतोरे लाग्यो लोन्नकाइ परसंगतमा ॥

## सद्याय. १५

तमे क्या रमी आब्या रात, काहानुडा बोलोनी ॥ साचु

बोलो तो बलीहारी रे, काहानजी बोलोनी ॥ ए देशी

आ परजावे रमो शा माटे, नाथ काइ बोलोनी ॥ ससजा

वे रमोतो बलीहारी रे, ज्ञान ध्याने खेलो तो जात्र वारी रे ॥

नाथ काइ बोलोनी ॥ ए आकणी ॥ काल अनादी एजे गयो रे,

नही ठाब्यो मोहोनो साथ, मोहोए पिजर तमने घालीवा रे ॥

करम वरगणा साथ, नाथ काइ बोलोनी. ॥ परजावे रमो शा

माट ॥ ना० ॥ १ ॥ डु ख अणतु मेहे शहु रे, माहारी दया नही

आवी मन साथ, परदयाए बहेवारीयो रे ॥ तारा बधवे नीज हा

थ ॥ ना० ॥ २ ॥ सुखनथी परजावथी रे, पर घरे रमे शा माट ॥

पर उपाजण वेदना रे, ठे चोगनी डुख ठाठ ॥ ना० ॥ ३ ॥ ससजावे

सुख घणु रे, नवा करम बध नही धाए ॥ रहेला करम निजराए

खरे रे, सजावे सुजगतीए जाए ॥ ना० ॥ ४ ॥ शीव रमणीनी हुं

बहेनडी रे, तमारु मन करो माहारे हाथ ॥ सुज ध्याने काइ खे

लता रे, शेजे देखशो सिद्धनो साथ ॥ ना० ॥ ५ ॥ हेवी अमरीत

धारा देशनारे, दीए हुकममुनी गरु नाथ ॥ ज्वीक जीव श्रव

णे सुणी रे, हरखे जाले माहारो हाथ ॥ ना० ॥ ६ ॥ केसुर जावे

शेवतो रे, हुकममुनी गरु नाथ ॥ समरने काइ जावतो रे, फरतु

मनडु करी काइ हाथ ॥ नाथ काइ बोलोनी ॥ परजावे रमो शा

माट, नाथ काइ बोलो ॥ ससजावे रमो तो बलीहारी रे, गनान

ध्याने खेलो तो जात्र वारी रे ॥ ना० ॥ ७ ॥

## सज्ञाय १६

नाथ सुगरुने काइ सेवोनी हो, सेवी शुभ उपीजंग काइ  
लावोनी हो ॥ ए आकणी ॥ राग नेरवी ॥ सुभमारग १

अब माहाराजको वचन सुनके, रुदीयामा दृढ लायो ॥ ओर  
फीसाद सब डुर करीने, एक नामसें लेहे लायो ॥आ०॥१॥ अ  
तीसय सहीत वीराजत हो प्रभु, एसो ज्ञान कबु न पायो ॥ सब  
जनतेरो समरण करत दे, घरघर मंगल गायो ॥ आ०॥ ३ ॥ व  
सत रूतुमें गुण गुस्का गावत, अवील गुलाल उभायो ॥ ताल  
मृदग जांज ही वाजत, जेसंग अब तो आयो ॥आ०॥४॥

पद ६८ मुं.

राग सोहेनी.

अंग उपंग आद ज्ञानी, देखी अचरत नदन मन मानी हो  
जी ॥ ए आंकणी ॥ सोज्जीत सीहासन आसन वेठे, बोलत अ  
मृत वानी ॥ हो०॥ १ ॥ हेम वरण तनु सोज्जीत, अनोपम जाको  
चीत गंगाको पाणी ॥ हो०॥ ३ ॥ ब्रह्म लोकथी देव सब आवत, गु  
रु सेवत चीत आनी ॥ हो०॥ ४ ॥ नवीजीव मुनी हुकमकु सेवत,  
जेसंग के चीत एही नांणी ॥ हो०॥ ४ ॥

पद ६९ मुं.

राग बेरावल.

जालचंद के लावे, तुम सदा रहो बोल वाले ॥ ए आंरुणी ॥  
अचरत नंदन सब डख कंदन, एसो मुनी हुकम वीराजे ॥ अंत  
र जेदको ज्ञान कहो तुमे, जब नीज स्वरूप ही ठाजे ॥ ज्ञा०॥ १ ॥  
शीतल चीत ज्यो जीम चंदन, जाको राग छेश डुर भागे ॥ दे  
शाना दे के नवीकु तारे, जाको घट ज्ञानसु लागे ॥ ला०॥ २ ॥  
देश देशमें धरम थापन कीयो, एसो जस जगतमें गवाये ॥ व  
गीत पुरण देव नगीनो, ब्रह्म लोकसे आये ॥ ज्ञा०॥ ३ ॥ धन माता  
धन पीता तुमचो, जाको कुल दीपायो ॥ राधनपुरमे जनम घ  
रो, तुम जेसंग गुरु गुण गायो ॥ ला०॥ ४ ॥

मोहोनी रूपमा रमतोरे, ॥ हुकममुनी ॥ ३ ॥ शुध मारग काइ तमे  
 देखाडो, बुजी शुध उपीउग काइ लावोर, शुध उपीउगे शभावे  
 रमीने ॥ नीजराए करम खपावेर ॥ हुकममुनी ॥ ४ ॥ अकाम  
 नीजराए उचो चडीउ, शुधनीजरा काम केम न आवेरे ॥ वेरीने  
 काहाकी ज्ञाने रमेतो, सजावे सुख अणतु पावेरे ॥ हुकममुनी ॥  
 ॥ ५ ॥ नवनय डखनो लावी खटको, पररमणता काहाडेर ॥  
 अत्राय करमने ज्ञाने रोली, सजावे रूपश्रेणी काइ मांडेरे ॥  
 ॥ हुकममुनी सुगरु ॥ ६ ॥ तमेवो ज्ञानी गरु हमारा, वो ज्ञा  
 नध्यानना धारीरे ॥ नवी जीवने दीउ देशना नथी सुणतां अरज  
 केम मारीरे ॥ उ हुकममुनी ॥ ७ ॥ अरज एटलीठे काइ हमा  
 री, हमारो चेतन नीज घेर आवेर ॥ परभाव सघवो डर करीने  
 आतम अनुभव लावोरे ॥ उ हुकममुनी ॥ ८ ॥ आतम अनुभव  
 जोती रूपवे, अवकार अनादीनो मीटावेरे ॥ नीज सरुप काइ  
 नजरे नीहाली ॥ सुखे सीधपुरीए काइ जावेरे ॥ हुकममुनी ॥ ९ ॥  
 ज्ञानी गुरुतमेवो नीर्ग्रथा, अनोपम सुधदेशना तमे दीधीरे ॥ केसुर  
 काइ ग्रहण करीन जावे पोने पुस्तके कीवी रे ॥ उ हुकममुनी  
 ॥ १० ॥ मीत्रीसुरी काइ शेवा करतो, नीशदीन जगतीमां  
 रेहेतोरे ॥ गावा गुण काइ केसुररशीउ, भावे चरण कमल फरश  
 तोरे ॥ हुकममुनी सुगरु हमारा, गावु गुण तमारारे ॥ गुणगाता  
 ज्ञान जो परगटे, भवन्नय डख जाए माहारा रे ॥ ११ ॥ इति

पद ६७ मं.

राग वसंत

वधावो भाज वसंत जयो अति आनंद, निरखा श्री गुरुदे  
 व नगीनो ॥ जालावारुसे जाल सुनके दुदुत शीखोर आयो तव  
 मुनी हुकमको वदन नीहाली जयो अग प्रेम सवायो ॥ आण ॥ १ ॥



( ४६९ )

भव माहाराजको वचन सुनके, रुदीयामां दृढ लायो ॥ ओर  
फ्रीसाद सब डर करीने, एक नामसें लेहे लायो ॥आ०॥१॥ अ  
तीसय सहीत बीराजत हो प्रजु, एसो ज्ञान कवु न पायो ॥ सब  
जनतेरो समरण करत हे, घरघर मंगल गायो ॥ आ०॥ ३ ॥ व  
सत हनुमें गुण गुरुका गावत, अवील गुलाल उमायो ॥ ताल  
पृथग जाऊ ही बाजत, जेसंग अथ तो आयो ॥आ० ॥४॥

पद ६८ मुं.

राग सोहेनी.

अंग उपंग आद ज्ञानी, देखी अचरत नंदन मन मानी हो  
ची ॥ए आंकणी ॥ सोज्जीत सीहासन आसन वेठे, बोलत अ  
मृत बानी ॥ हो०॥ १ ॥ हेम वरण तनु सोज्जीत, अनोपम जाको  
चीत गगाको पाणी ॥हो०॥३॥ ब्रह्म लोकथी देव सब आवत, गु  
रु सेवत चीत आनी ॥ हो०॥४॥ नवीजीव मुनी हुकमकु सेवत,  
जेसंग के चीत एही नाणी ॥हो०॥४॥

पद ६९ मुं.

राग बेरावल.

लालचंद के बाबे, तुम सदा रहो बोल वाले ॥ए आंकणी॥  
अचरत नंदन सब डख कंदन, एसो मुनी हुकम बीराजे ॥ अंत  
र नेदको ज्ञान कहे तुमे, जब नीज स्वरूप ही ठाजे ॥जा०॥१॥  
शीतल चीत जयो जीम चंदन, जाको राग देश डर भागे ॥ दे  
शना दे के नवीकु तारे, जाको घट ज्ञानसु लागे ॥ ला०॥ १ ॥  
देश देशमें धरम आपन कीयो, एसो जस जगतमें गवाये ॥ व  
गीत पुरण देव नगीने, ब्रह्म लोकसे आये ॥जा०॥३॥ धन माता  
धन पीता तुमचो, जाको कुल दीपायो ॥ राधनपुरमे जनम ध  
रो, तुम जेसंग गुरु गुण गायो ॥ला०॥४॥



गुण ग्राम प्रथमही कीजे, इष्ट समरण एही जिजे ॥ नीरमल  
 घोती पोती सब धरो, आसन बेसन एकात करो ॥१॥ गुरुके  
 गुन अनंतही धारो, उनसे करम मेल सब गावो ॥ तव निरम  
 ल पद जब साइ, तव ज्ञान ध्यान कीजे सवाई ॥३॥ गुरु रूप लंठन  
 सब दिख लाज, मुरत धारके ध्यान बरावु ॥ प्रेम सहीत सब कि  
 जे ज्ञाना, तासे वंठीत हुवे मन माना ॥ ४ ॥ तन मन बन एक  
 गुरु जाणी, स्तुती किजे वारंवार नेह आणी ॥ गुरु तात मात  
 इष्ट देवा, गुरु प्रताप पामे सब मेवा ॥५॥ उहा.  
 श्री गुरु वरणात्कु, करु वचन गुण वृंद ॥ दोष मती कोइ दिजी  
 यो, करु मधु नारही वंद ॥१॥

### पद ७३ मुं.

अथ उद मधुजा रही, सोज्जीत गरु राज ॥ मुनी हुकम  
 माहाराज, शासन शीणगार दीपक कीयो अपार ॥ १ ॥ संसार  
 नाश सवेग, वासण माहाव्रत धार ॥ सुमती गुप्ती सार ॥ २ ॥  
 अठार सहस शिलग, धरमके घोरिंग ॥ त्री गुण राग, अगुन स  
 व त्याग ॥३॥ सम चोरस अंग, हेम वरण रंग ॥ दृढह कायं, अ  
 टमी शशी जाल ॥४॥ पवीत्र सब सुन चरीत्र, शीतल चीत अं  
 ग प्रगटो पद अजग ॥५॥ कुरना अपार सब डरीत, पाट एसे अ  
 नंत उपमा लहंत ॥ ६ ॥ गुनके नीधान पुजही प्रमाण, आपसे  
 आप दिनकर प्रताप ॥ ७ ॥ नीरमल ज्ञान अंतर ध्यान, अमरीत  
 बेन सब सुख देन ॥८॥ सिद्धत पुरांन खट शाख जाण, एसे हे  
 गुरु देव कीजे पद सेव ॥९॥ चकोरज्युं चंद कीटज्युं जंग, एसे ही  
 सनेह कीजीये नही ठेह ॥१०॥ गुरु वचन शब्द कहे जेह, दृढ  
 कर ज्युं वपैया लहे मेह, एसी धरीये ज्युं टेक दीन दीन वसेप ॥  
 ११॥ एक चीत धरीये व्यांन, एही समकीत मन आंन ॥ कीजे

( ४७० )

पद ७० मु.

राग वेरावल.

जन मुनी हुकमको हुकम जे माने, ताकु रोग सोग न आवे ॥ ए आकणी ॥ जाकु सेवे ब्रह्मदेव ए, एही पुन्यही जारे ॥ जे जन गुरुको ध्यान करे जत्र, ताकु अतर दरसन ठारे ॥ जण ॥ १ ॥ एक वचन गुरुको ध्यावे, ताकु ध्यान ज्ञान सुख आवे ॥ अंतर दरसन पावे नीरमल, तव ब्रमणा कबहु नथावे ॥ जण ॥ २ ॥ एसो गुण देखी करु स्तुती, तव मेरो आतम सफल ही आवे ॥ नीरमल पद चाहु नीश दीन, तव सशय डुर जावे ॥ जण ॥ ३ ॥ मोहो मीथ्यातकी फदमें रहो प्रजु, भव तोरे चरणो शीश नमायो ॥ जो दीक्षमा जाणो तो दीयो गुरु गम, तो जेसगकु प्रेम होष सवायो ॥ ज ० ॥ ४ ॥

पद ७१ मुं.

राग खजाची.

पुरव प्रीत ठे जी मारे, जुनी प्रीत ठे लेहेर ॥ खीरा नाथसे मारे, पुरानी प्रीत ठे ॥ ए आकणी ॥ वधत वधत बहोत गुण बाधो, एसा मुनी हुकम बीराजे ठे मारे पुरव ॥ १ ॥ जाको चित विजावसे न्यारो, अनुभव ज्ञानमे लीन ठे ॥ जेण ॥ २ ॥ सब नवी जन भरज करत हे, चरण कमल सेवन मागे ठे ॥ जेण ॥ ३ ॥ सो प्रीत वचन अती सुंदर, जे सग गुरु इष्ट ध्यावे ठे ॥ जेण ॥ ४ ॥

पद ७२ मु.

श्रीगुरुस्तुति-चोपाई.

प्रथम श्री गुरुदेव आराधु, प्रातसमे सबी सशे विराधु ॥ अतर ध्यानमे ज्ञान कर लीजे, मिथ्या मल सब डुर करीजे ॥

गुण प्राप्त प्रथमही कीजे, इष्ट तमरण एही जिजे ॥ नीरमल  
 बोती पोती सब धरो, आसन बेसन एकांत करो ॥२॥ गुरुके  
 गुन मनंतही धारो, उनसे करम भेख सब गाखो ॥ तव निरम  
 ल पद जब साइ, तव ज्ञान ध्यान कीजे सवाई ॥३॥ गुरु रूप खंडन  
 सब दिख जाउ, मुरत धारके ध्यान धरावु ॥ प्रेम सहीत सब कि  
 जे ज्ञाना, तासे वंभीत हुवे मन माना ॥ ४ ॥ तन मन मन एक  
 गुरु जानी, स्तुती किजे वारंवार नेह आणी ॥ गुरु तात मात  
 इष्ट देवा, गुरु प्रताप पामे सब भेवा ॥५॥ छहा.  
 श्री गुरु वरदानकु, करु वचन गुण वृंद ॥ दोष मती कोइ दिज्जी  
 यो, करु मधु नारही उद ॥१॥

### पद ७३ मुं.

अथ उद मधु ज्ञा रही, तोजीत गरु राज ॥ मुनी हुकम  
 माहाराज, ज्ञासन शीषागार दीपक कीयो अपार ॥ १ ॥ संसार  
 नाश सवेग, वास्तव माहाव्रत धार ॥ सुमती गुप्ती तार ॥ २ ॥  
 भडार सहस्र शिखर, धरमके घोररिंग ॥ त्री गुण राग, अगुन स  
 व त्याग ॥३॥ सम चोरस्त अंग, हेम वरण रंग ॥ दृढ काय, अ  
 ष्टमी शशी जाल ॥४॥ पत्रीत्र तव सुन चरीत्र, शीतल चीत अ  
 ग प्रगटो पद अजग ॥५॥ कुरना अपार मय छरीत, पाट ऐसे थ  
 नंत उपमा लहत ॥ ६ ॥ गुनके नीघान पुजही प्रमाण, आपसे  
 आप दिनकर प्रताप ॥ ७ ॥ नीरमल ज्ञान अंतर ध्यान, अमरीत  
 वेन सब सुख देन ॥८॥ सिखात पुरान खट शास्त्र जाणु, ऐसे हे  
 गुरु देव कीजे पद सेव ॥९॥ चकोरज्यु चंद्र कीटज्यु चंग, ऐसे ही  
 सनेह कीजीये नही वेह ॥१०॥ गुरु वचन शब्द कहे जेह, दृढ  
 कर ज्यु वपैया लहे मेह, एसी धरीये ज्यु टेक दीन दीन वसेप ॥  
 ११॥ एक चीत धरीये ध्यान, एही समकीत मन थान ॥ कीजे

नी कवहुसे खेह, धरीये सवसे सनेह ॥११॥ राग द्वेष अरु मोह  
 करीये वीओह रोक, रोघन इही विकार एही सवर मन धार ॥  
 १३॥ तव दृढ मन धीर एही जान समीर, धरीये एक ध्यान करी  
 ये निज काम ॥१४॥ तत्व पहीचान गुरु गम निज्ञान, तव वाज  
 अतर भेदा करीये जुदा जेद ॥ १५ ॥ तव सव अघन नाश जए  
 अनुभव वास, तव अज्ञय पद शोय गुरु प्रतापे होय ॥१६॥ ओर  
 सत मिले कोय त्यासे ज्ञान कर लोय, विवेकते करी नेह क बहु  
 करीयेनि वेह ॥ १७ ॥ नक्तो करो मनचग जिन आणाको रग,  
 शास्त्र ग्रथ सुनी कान अनुभवमा वधे वान ॥१८॥ गुरु वचन क  
 हे सोय एही करे नही कोय, वदन मानजो मोय गुरु सेवो तोय  
 ॥१९॥ शिणोर सेहेर रेवाकी लेहेर, मुनी हुकमराज बहोत बढा  
 ई लाज ॥२०॥ सवत उगणीश शाल तीन उर विस, फागुन मा  
 स सार पडवे गुरुवार ॥ २१ ॥ जेसग कियो हुलास नयर ध्रांग  
 डावाश, मुनी चरण निवो देह उपगार करो धरी जेह ॥२२॥ गुरु  
 वागुण अपार ज्ञानको नहि पार, अल्पमे गुण गाय तोय गाथा  
 ते त्रिप वद सोय ॥२३॥

### पद ७४ मुं.

श्री गुरु स्तवना साखी

प्रणामी पास जीणदने करु कविता सार, गुण गुरुजीना वर  
 एवु शास्त्र तणे अनुसार ॥ मारा गुरुजी तारी वाणीये मनमोहु  
 मारा गुरुजी तारी वाणी जागे मीठी मारा गुरुजी ॥१॥ आमोद  
 गामने गादरे, धरम साजखानु ग्राम ॥ गुरुजी होय तो दाखवे,  
 मारे स्वरूप जाणानु काम ॥ मा० ॥ २ ॥ ससारमा डुखठे घणु, ते  
 कहु नवि जाय ॥ गुरुजी मले तो वेरुवे, मने सरणे रहानु  
 धाय ॥ मा० ॥ ३ ॥ ससारमा राची रही, नरक त्रीजच गती

पाय ॥ गुरुजी मले तो ठोम्बे, नही तो चार गती माहे जाय ॥  
 माणा॥४॥ सर्व जगत्रने घेरो वेगो, विषय सुभट निरधार ॥ गुरुजी  
 मले तो ठोम्बे, हुतो पद पामुं मनुहार ॥माणा॥५॥ मुजने एक सं  
 देह ठे, पट ड्यनो वली जेह ॥ गुरुजी मले तो समजावे, जड  
 चेतनना संदेह ॥माणा॥ ६ ॥ गुरु पणुं एम जाणीये, जे नीग्रंथ अ  
 एगार ॥ एवा मुनीने वांदता, पामी जे नव पार ॥माणा॥७॥ मु  
 नी गुण एम जाणीये, निज स्वरुपमा रम्यो जेह ॥ पर ड्य वूरे  
 लेखेवे, जेने शिव रमणीशु स्नेह ॥माणा॥८॥ साधु गुण एम जा  
 णिये, मन वश कर्तुं निरधार ॥ राग द्वेश वूरे करी, तेतो पद पाम्या  
 मनोहार ॥ माणा॥ ९ ॥ श्रावक गुण एम जाणिये, श्रद्धा विवेकी  
 जेह ॥ गुरुजीनु वचन उथापे नहि, समकित सुधु पामा तेह ॥मा०  
 ॥१०॥ हुतो तारा उपदेशथी, धरम पाम्यो तु सार ॥ गुरुजी मढ्या  
 नहोत तो, खात परमा धामी केरो मार ॥माणा॥ ११ ॥ गुरुजी ता  
 रा गुण क्यम विसरु, तेतो आप्यु आत्म गुण राज ॥ तेनो वद  
 लो केइ परे वजशे, तेतो साखुं ठे मारु काज ॥माणा॥ १२॥ तारा  
 गुणनो नुंसीगण थाठ, क्यम करी सरण भवाय ॥ कोड नव जो  
 करु चाकरी, तोए मुजथी न भपाय ॥माणा॥ १३ ॥ इत्यादि मुज  
 चिनती, कही सक्तेप सार ॥ मुनी हुकम जो शरणे राखो तो, ना  
 थो पामे पद मनोहार ॥माणा॥ १४॥

पद ७५ मु.

श्री गुरु स्तवना लखी ठे

मनडु मोह्यु गुरुजी उपरे जो, सरस्वत् स्वामने विनवु जो  
 ॥ सद गुरु लागु पाय जो, गुण गुरुजीना वरणवुं जो ॥ शास्त्र तणे  
 अनुसार जो ॥ मनडु ॥ १ ॥ श्रावक आमोद गामना जो, नित्य रहे  
 तुम पास जो ॥ प्रभु तुम वांणी साजले जो, वेगजो ठे तुज दास  
 जो ॥ म० ॥ १॥ ॥ ते तो अलगा वश्या जो, हुं रह्यो तुमथी

नी कवहुमे खेह, धरीये सबसे सनेह ॥११॥ राग द्वेष अरु मोह  
 करीये वीठोह रोक, रोघन इही विकार एही सबर मन धार ॥  
 १३॥ तव दृढ मन धीर एही जान समीर, धरीये एक ध्यान करी  
 ये निज काम ॥१४॥ तव पहीचान गुरु गम निज्ञान, तव वाज  
 अतर भेदा करीये जुदा जेद ॥ १५ ॥ तव सब अधन नाश नए  
 अनुभव वास, तव अज्ञय पद शोय गुरु प्रतापे होय ॥१६॥ ओर  
 सत मिले कोय त्यासे ज्ञान कर लोय, विवेकसे करी नेह क बहु  
 करीयेनि ठेह ॥ १७ ॥ नक्तो करो मनचग जिन आणाको रग,  
 शास्त्र ग्रथ सुनी कान अनुभवमा वधे वांन ॥१८॥ गुरु वचन क  
 हे सोय एही करे नही कोय, वदन मानजो मोय गुरु सेवो तोय  
 ॥१९॥ शिणोर सेहेर रेवाकी लेहेर, मुनी हुकमराज बहोत बढा  
 ई लाज ॥२०॥ सबत जगणीश शाज तीन उर विस, फागुन मा  
 स सार पडवे गुरुवार ॥ २१ ॥ जेसग कियो हुलास नयर ध्रांग  
 डावाश, मुनी चरण निवो देह उपगार करो धरी जेह ॥२२॥ गुरु  
 वा गुण अपार ज्ञानको नहि पार, अल्पमे गुण गाय तोय गाथा  
 ते विष उद सोय ॥२३॥

### पद ७४ मुं

श्री गुरु स्तवना साखी

प्रणामी पास जीणदने करु कविता सार, गुण गुरुजीना वर  
 एवु शास्त्र तणे अनुसार ॥ मारा गुरुजी तारी वाणीय मनमोहु  
 मारा गुरुजी तारी वाणी जागे मोठी मारा गुरुजी ॥१॥ आमोद  
 गामने गादरे, धरम साजलानु ठाम ॥ गुरुजी होय तो दाखवे,  
 मारे स्वरूप जाणानु काम ॥ मा० ॥ २ ॥ ससारमा डुखठे घणु, ते  
 तो कहु नवि जाय ॥ गुरुजी मले तो ठोरुवे, मने सरणे रह्यानु  
 थाय ॥ मा० ॥ ३ ॥ ससारमा राची रही, नरक त्रीजच गती



पाय ॥ गुरुजी मले तो बोरुवे, नही तो चार गती मादे जाय ॥  
 माणा॥४॥ सर्व जगत्रने घेरी वेगो, विषय सुभट निरधार ॥ गुरुजी  
 मले तो बोरुवे, हुंतो पद पामु मनुहार ॥माणा॥५॥ मुजने एक स  
 देहे वे, पट ड्यनो वली जेह ॥ गुरुजी मले तो समजावे, जड  
 चेतनना संवेद ॥माणा॥ ६ ॥ गुरु पणुं एम जाणीये, जे नीग्रंथ अ  
 णगार ॥ एवा मुनीने वादता, पामी जे नव पार ॥माणा॥७॥ मु  
 नी गुण एम जाणीये, निज स्वरुपमा रम्यो जेह ॥ पर ड्यनू दूरे  
 लेखेवे, जेने शिव रमणीशु स्नेह ॥माणा॥८॥ साधु गुण एम जा  
 णिये, मन वश कर्युं निरधार ॥ राग द्वेश दूरे करी, तेतो पद पांम्या  
 मनोहार ॥ माणा॥ ९ ॥ श्रावक गुण एम जाणिये, श्रद्धा विवेकी  
 जेह ॥ गुरुजीनु वचन उथापे नहि, समकित सुधु पांमा तेह ॥माण  
 ॥१०॥ हुंतो तारा उपदेशथी, धरम पांम्यो तु सार ॥ गुरुजी मळ्या  
 नहोत तो, खात परमा धामी केरो मार ॥माणा॥ ११ ॥ गुरुजी ता  
 रा गुण क्यम विसरु, तेतो आप्यु आतम गुण राज ॥ तेनो वद  
 लो केड परे वजशे, तेतो साखुं ठे मारु काज ॥माणा॥ १२ ॥ तारा  
 गुणनो जंतीगण थाठ, क्यम करी सरण अवाय ॥ कोड नव जो  
 करु चाकरी, तोए मुजथी न अपाय ॥माणा॥ १३ ॥ इत्यादि मुज  
 चिनती, कही संक्षेप सार ॥ मुनी हुकम जो शरणे राखो तो, ना  
 थो पामे पद मनोहार ॥माणा॥ १४ ॥

पद ७५ मुं.

श्री गुरु स्तवना लखी ठे.

मनडु मोह्यु गुरुजी उपरे जो, सरस्वत् स्वामने वित्तु जो  
 ॥ सद गुरु लागु पाय जो, गुण गुरुजीना वरणवुं जो ॥ शास्त्र तणे  
 अनुसार जो ॥ मनडु ॥ १ ॥ श्रावक आमोद गामना जो, नित्य रहे  
 तुम पास जो ॥ प्रभु तुम वाणी साजले जो, वेगलो ठे तुज दास  
 जो ॥ मण ॥ १ ॥ गुरुजी तमे तो अलगा वश्या जो, हुं रह्यो तुमथी

डर जो ॥ मन मारु तुम पासे रह्युं जो, क्यम करी थायु हजुर जो  
 ॥ म० ॥ ३ ॥ गुरु गुण एणीपरे जाणीये जो, जे नीश्रंथ अणगार  
 जो ॥ एश मुनिने वादता जो, उतरिए नव पार जो ॥ म० ॥ ४ ॥  
 कनक पायाणने सम गणे जो, सम गणे नदक वदक सार जो ॥  
 मुगति ससारने सम गणे जो, सम गणे राय रक निरधार जो ॥ म०  
 ॥ ५ ॥ सुर गिरी पेरे समद्विर ठो जो, चड समानी समता सार जो  
 समुड सरिखा गज्जिर ठो जो, जाणे केवली अवतार जो ॥ म० ॥  
 ६ ॥ ससारमा रहा जे प्राणीया जो, दुख जोगवे असार जो ॥  
 तेहने तु जो सरण राखे नहि जो, क्यम उतरे नव पार जो ॥ म०  
 ॥ ७ ॥ ससार समुड भगाव ठे जो, तेदना स्वामि मोह केहेवाय  
 जो ॥ रागने द्वेश तेहमा रखा जो, क्यम करी पार पमाय जो ॥  
 म० ॥ ८ ॥ मोह रायनो प्रधान जाणिये जो, मिथ्यात नाम ठे धार  
 जो ॥ कृपायादिक चोरटा मली जो, जोखव्यो मुजने निरधार जो ॥  
 म० ॥ ९ ॥ मोह राय केरी सुता जो, जे कुमति नाम केहेवाय जो  
 ॥ केडो मारो मुके नहि जो, क्यम करी सरण श्रवाय जो ॥ म०  
 ॥ १० ॥ एणी विध ससार ग्रहो सही जो, वधारे प्राणी निरधार  
 जो किरपा करिने वतावोये जो ॥ ज्यम तरिये नव जल पार जो  
 ॥ म० ॥ ११ ॥ तव हस्ती किरपा करी बोलीया जो, साजल मानु न-  
 वसार जो, निझ परमाद डरे करी जो ॥ एकण चितथी धार जो  
 ॥ म० ॥ १२ ॥ प्रथम सदगुरु सेविये जो, जेहथी समकित शुध थाय  
 जो ॥ मनने वश करी राखीये जो, तजिये रिपय कखाय जो ॥  
 म० ॥ १३ ॥ क्रोधादिक शत्रु जितीये जो, रागने द्वेश निरधार जो ॥  
 खट ड्यने जाणिये जो, जेहथी निज स्वरूप पामो सार जो ॥  
 ॥ म० ॥ १४ ॥ ब्राह्मण पपाल डरे करी जो, नजिये आत्म राम जो ॥  
 एणी विध उपाय जाणिये जो, जेम सिजे आत्म काम जो ॥ म०  
 ॥ १५ ॥ एणी विध देशना साजली जो, हु पामो आत्म गुण राज

जो ॥ गुरुजी तमारी किरपा थकि जो, साख्या ठे माहरां काज जो  
 ॥ म० ॥ १६ ॥ हुंतो तमारा उपदेशी जो, पाम्यो तुं धरमज सार  
 जो ॥ गुरुजी मढ्याथी वंछित थयु जो, नहि तो परमाधामी केरो मार  
 जो ॥ म० ॥ १७ ॥ गुरुजी तुज गुण केम विसरु जो, केम करी सरण अ  
 वाय जो ॥ कोरु नव जो करु चाकरी जो, तो मुजथी बदलो न थपा  
 य जो ॥ म० ॥ १८ ॥ इत्यादिक मुज विनती जो, कहि संक्षेपे आज जो ॥  
 मुनीहुकम किरपा करे जो, तो नाथो पामे अविचलराज जो ॥ म० ॥ १९ ॥

### पद ७६ मु. राग वैराट

ज्ञान ध्यानमा खेले मारा चेंतन, पररमणता नीवारी रे ॥  
 ए आकणी ॥ पररमणताए दुख अणतु, जरण मरण जय ज्ञारी  
 रे ॥ अवसरे माहारु कह्युं मानी, रमो सजावे मन मारी रे ॥ ज्ञा  
 ना ॥ १ ॥ पररमणताए काल अनादी, जरमणतामा गुमावो रे ॥  
 आशा वलुधो घेर घेर नटक्यो, नव जय पार नही आव्यो रे ॥ ज्ञा ०  
 ॥ २ ॥ ताहारो धरम काइ ताहारी पासे, शानो घरो घर नटके रे ॥  
 आशा ठानी देवी देवनी, परजावथी काइ ठटके रे ॥ ज्ञा ० ॥ ३ ॥  
 शकताए तुं ज्ञानी अणंतो, तारा ज्ञान गुण संजाले रे ॥ मोहनी  
 रूपनो त्यागी अइने, निजराए जगमो करभोसे माडे रे ॥ ज्ञा ० ॥  
 ४ ॥ राखे रमणता ज्ञान गुणनी, परजाव सघजो निवारी रे ॥ स  
 सजावमा खेजी सदा काल, फरतु मन काइ मारी रे ॥ ज्ञा ० ॥ ५ ॥  
 ज्ञान गुण ठे सुखना हेतु, सुख अणंतु काइ आपे रे ॥ जरण मर  
 णना जय मिटावी, शिव रमणीनो कंथ करी थापे रे ॥ ज्ञा ० ॥ ६ ॥  
 कहे ठे केसूर चेतन हमारा, जावे सुगुरुने तु शेवे रे, सुगुरु एक  
 हुकममुनी ठे ॥ वादिने मुनी पद लेवे रे ॥ ज्ञा ० ॥ ७ ॥

### पद ७७ मुं.

गोडीचारा दरशण दो माहाराज. ए देशी  
 ज्ञान गुणने धार न ॥ परजाव सघलो निवार ॥ ए

आकणी ॥ परजावे दुख अणत घणुरे, ते सहुं अनादि रे काल  
 जरण मरण दुख वेधिआ रे, बलगी मोहो जंजाल रे ॥ चेण॥१॥  
 थीरता लइ ज्ञान गमे रे, फरतु मन काइ मार ॥ ससजावमा खे  
 ली करी रे, परपरणती निवार रे ॥ चेण॥२॥ शकता अनु ज्ञानी  
 घणो रे, मोहनी रूपे अयो रे खुमार ॥ ते मोहनी रूप तजी करी  
 रे, थाए निरजन निरधार रे ॥ चेण॥३॥ पर वस्तु ते पारकी रे,  
 निश्वे नहि तारी थाए ॥ तेउपर ममता शानी करे रे, जव लाखणो  
 जाए रे ॥ चेण॥४॥ असरगती परजावथी रे, शास्त्र कहे निरधार ॥  
 ससजावे सुज गति रे, बली पामे जव जय पाररे ॥ चेण॥५॥ ज्ञाने  
 गुण प्रगट थाशे रे, शेज प्रगट थाशे ताहारु रूप ॥ खपशे करम  
 निजराथकि रे, मुदशहे जव जहे कुपरे ॥ चेण॥६॥ सुगुहने सेवतां रे,  
 जातो नहि कुगरुनी रे पास ॥ कुगरुथी कुगति जशे रे, करशे चारे  
 गतिमा वाश रे ॥ चेण॥७॥ सुगरुने शेवि करी रे, मुनी गुण करे  
 काइ हाथ ॥ मुनी गुण ठे सजावमां रे, उलखावशे हुकममुनी  
 नाथ रे ॥ चेण॥८॥ केहेठे केसुर ए मारा गरुं रे, ठे ज्ञान तणो जमारा ॥  
 थावी देव वदन करे रे, हु पण करु नमसकार रे ॥ चेण॥९॥

### पद १७ सु

॥ देशी दिवालीना तवननी ॥

मारा थादि जीनशे लाग्युठे ध्यान, विजु मने काइ गमे ॥  
 ए देशी ॥ आउ मन मोहन पितम हमारा, ध्यान धरु हु तामरु  
 रे ॥ अशरे मोहनी सघ वांणी, माहारी सघे रमो तो लागे सारु  
 रे ॥ ए आंकणी. ॥ आ सार शु दिवो तमे मोहनी सघमा, जव  
 जय पार नहि आव्या रे ॥ जरमणता जुला जमिने, एले काल  
 अनादि गुमावो रे ॥ उ मनण॥१॥ लपट पणानी लाज नधि तमने,  
 लोक लाजत हु लाजु रे ॥ माहारी सघे जो खेवो सजावे, रमा  
 मोहनीनु माथु काइ जाजु रे ॥ उण॥२॥ आ ढग तमारा मने नथि

गमता, शुध उपीयोग कांइ लावो रे ॥ ज्ञान बाणो काइ शत्रु ह-  
 णिने, रहेला करम खपावो रे ॥उ०॥३॥ सिधि नयि काइ निज  
 घर पाखी, आ एक केम करी पावे रे ॥आ एरु वना चारित्र केम  
 फरशे, दरशण नाण केम आवे रे ॥उ०॥४॥ अंतरगट काइ खोली  
 ताहारु, ज्ञाने जरुथी पडे काइ जुदो रे ॥ जादे ज्ञाने वेहेचण क  
 रिने, नव जय कुप काइ मुदो रे ॥उ० ॥५॥ ए वात हमे साची  
 कहि ठे, जइने सुगरुने काइ पुगो रे ॥ सुगरु एक हुकममुनी ठे,  
 तेहनु ज्ञान लइ काइ वुजो रे ॥उ०॥६॥ मोतीमुनी कहे गरु हमा  
 रा, केसूर काइ जगमो करतोरे ॥ ए गरु तो हमारा दिशे, गाइ  
 गुणने पाए काइ पढतो रे ॥उ०॥७॥

### पद ७ए मुं.

श्री सुगरुजी हुकममुनी माहाराजनी गुणजावना लखी ठे.

उ उपगारी सुगरु हमारा, ध्यान धरु वुं तमारु रे ॥ धान  
 धरंता मुनी गुण प्रगटे, नव जय डख जाए माहारु रे ॥ ए आ  
 कणी ॥ नव जयनुं मने दुख अणंतु, मारा रुदिआमां ते साले  
 रे ॥ चेतन हमारो निज घरे न आवे, रंडां मोहनीनी संघे काइ  
 माहाले रे ॥उ०॥१॥ काल अनादिनो ते काइ रखमे, डख अणंतु  
 सेहतो रे ॥ जरमणातामा जुलो पणिने, जुले नव अटविमा नम  
 तो रे ॥उ०॥ २ ॥ असुध मारगमा ते काइ पणिउ, परजावे सुज  
 मारग नहि सुजे रे ॥ लावि उपीयोग ज्ञाने रमेतो, मोहो राजा काइ  
 धुजे रे ॥उ०॥३॥ ससजावमा सुख अणतु, सरधाए खाएक फरशेरे ॥  
 जावचारित्र आवि शेजे, शेजे शिव रमणीने काइ वरशे रे ॥ उ०  
 ॥४॥ केसूर कहे ठे सुगरु हमारा, ज्ञाने हुकममुनीने पेखुरे ॥ संमर  
 जावना ते काइ विचरे, जेहना ज्ञानतणु नहि लेखु रे ॥उ० उ०॥५॥

### पद ८० मु.

गौतम गणधर १ स्वामी, समरण करुवु हु तमारो ॥

समरण सजाव जो प्रगटे, शेजे नव जय डख निवारु रे ॥ ए  
 आकणी ॥ तमे ठो गणधर विरजिणदना, जाव प्रजुपर बहु रा  
 खो रे ॥ गुण तेहनो राखो गुथीने, सुध आतम रस काइ चाखो  
 रे ॥ गौतमणा॥१॥ आसो वद अमाशने दिवसे, विरजिणद मुगते  
 सधाव्या रे ॥ गडो जाव तमे प्रजुना उपरथी, तारे दरशण ना  
 ण काइ आव्योरे ॥ गौण ॥१॥ तमारी पाटे सुगरु थया हशे, जे  
 आतमध्यानना धारी रे ॥ तेहने माहारी वदना होजो, जे नविक  
 ना उपगारी रे ॥ गौण ॥३॥ अखेलनधिना तमे धणी ठो, अश  
 टापद काइ चडिआरे ॥ जावे जिनवर चोविश यादि, तापस  
 पदरशेहे बुजविआ रे ॥ गौण ॥४॥ तमे ठो ज्ञानी माहारा गरुजी,  
 तमने हु काइ शेवुरे ॥ सरधा आवे हेवी किरपा करो तो, शेज हु  
 समकित लेउ रे ॥ गौण ॥५॥ सुगरु एक आ काले पेख्या, हुकममु  
 नि नरमचारी रे ॥ सजर जावनाने कांइ विचरे, तजी लोन्न  
 माया मन मारी रे ॥ गौण ॥६॥ कहे ठे केसुर चंतन हमारा, मुनि  
 पदने काइ शेवे रे ॥ मुनी गुण गावे शमर जावे, सरधाए सम  
 कित काइ लेवे रे ॥ गौण ॥७॥

### पद ८१ मु.

उ मठवाशी ठे तु शिवपुरी वाशी, हु समरण करु तु ताहा  
 रुरे ॥ सजाविक जो दरशण दिन्न तो, सेजे जाए डख काइ मा  
 रुरे ॥ ए आकणी ॥ हु डखीयारी अनादि कालनी, तुज केडे का  
 इ नमती रे ॥ तमे परजावे परघेर निराजो, ए टेव तमारि नधि  
 गमती रे ॥ उ मठवासी ठे तु शिवपुर वासी, हु समरण करु तु  
 तास्रे ॥ सजाविक जो दरशण दिन्न तो, सेजे जाए डख काइ  
 माहारुरे ॥१॥ दरसन तमारानी ठे अजिनाखी, अजिनाख पूरो  
 माहारो पासो रे ॥ उपीयोगे परमाद ठानीने, विजाव घरमाथी  
 रे ॥ उण ॥२॥ विकार न शेजे निरजनने, निररोगी

ज्ञानो होये रोगी रे ॥ सूराने आलस होय ज्ञानु, जोगी ज्ञानो  
 होय परजोगी रे ॥३॥ तमे जोगेस्वर निज घरना जोगी, हुं  
 हुं जोगण तमारी रे ॥ नरमणताने डुरे करिने, संजावे संगे रमो  
 काइ मारी रे ॥४॥ तम कारण तप संजम किरियां, कोहोनी  
 क्या लगी करीए रे ॥ तमे तो परजावमां खेलो, जवसाहेर के  
 म तरिऐरे ॥५॥ ससजावे सुख श्रणंतु, वझी सुजगतिए कांड  
 जावे रे ॥ करम खरे तेहना काइ वोहोला, श्रंते सिव रमणी कां  
 इ पावे रे ॥६॥ कहे ठे केसुर चेतन हमारा, श्रिता लइ कांड  
 वेसे रे ॥ मनने मारी ज्ञाने रमिने, परजावे परमा तुं नहि पेसे रे  
 ॥७॥ मठवासी ॥७॥

### पद ८२ सु.

दरशणे लागे ठे मारु मन, ओ पितमः ॥ दरशणे लागे ठे  
 मारु मन ॥ सुंदर देहेरु चिंतामण केरु, फरता कांड चोविश जि  
 एंठ ॥१॥ वमादेवी नंदन त्रिजुग वंदन, इंजादिक काइ  
 चोशेट नमत ॥२॥ सुगट बहु जारी श्रांगि वनी कांड  
 सारी, प्रनु मुख पुनेमचंड ॥३॥ नाटांरभ आवे गु  
 णीजन गुण गावे, बाजत ताल मरदंग ॥४॥ अंग प  
 खालु माहारु रुवे श्रजवालु, सुज ध्याने कांड अंगलोवंत ॥५॥  
 धुप ध्यांन धरु हुं फुलडा वेरु, केशरे कांड तिलक करंत  
 ॥६॥ आरती उतारु जवने निवारु, जाव कांड शि-  
 फत उवंत ॥७॥ चंतामण पुजे कुमताथी कांड धुजे,  
 समताए सिव रमणी वरंत ॥८॥ केसुर कहे ठे ताहारु  
 दरशण देवे, सेजे हुं साहेर तरत ॥९॥

### पद ८३ भुं.

सेवे परमादतुं केम रे, चेतन ॥ जावे माहारा पर प्रेम ॥  
 ए आकणी ॥ तने ॥ परजावनो रे, वरते पर परणती,

नी माहे ॥ पररमणताए डुख घणु रे, वेधु चारे गतिनी मांहे रे ॥  
 चेंणाळाणा॥१॥ हु डुखीआरी निगोदधी रे, आवी जमती ताहारी  
 साथ ॥ काल अनादि दुखे गयो रे, अवसरे मोहनो गमे काइ  
 साथरे ॥चेणाळाणा॥२॥ पर प्रेमे पिना घणी रे, रखडे अणतो सं  
 सार ॥ ते पर पिनाने परिहरी रे, थाए निरजन निरधार रे ॥चे०  
 ॥लाणा॥३॥ असर गति परजावधी रे, दुखनो हेतु ए जांण ॥ ते पर  
 जावने परिहरी रे, तजे लोच मायाने मान रे ॥चेणाळाणा॥४॥  
 गाडी परमाद सजावे रमे रे, वरते सुज्ज ध्याननी माहे ॥ सुज्जध्या  
 ने शुज्ज गति रे, अते सिवपुरीए जाए रे ॥चेणाळाणा॥५॥ सुगरुनी  
 हेवी देशना रे, वरसे जेम अमरित धार ॥ नविक जीव श्रवणे  
 सुणी रे, सरधाए पामे जव जे पाररे ॥चे० ॥ला० ॥६॥ सुगरु ए  
 वा कोण ठे रे, ठे हुकममुनी गरुनाथ ॥ केसुर जावे तेहने वाद  
 तो रे, नामी शीश जोडी वे हाथरे ॥चेणाळाणा॥७॥

### पद ८४ मुं. राग जैरवी.

हमारा मन मेला न हो, तमारा मन नहि हे नहि हे ॥ एदेशी ॥  
 हमारी सघ खेलोनी हो, पराज सघ मेहेलोनी हो ॥ ए देशी ॥

तुमारी सघमें जमती निगोदशे, तुमारा मन मोहनीशे  
 लग रहीआ ॥ हमारी संघ खेलोनी हो ॥ पराज सघ मेहेलोनी  
 हो ॥ १ ॥ सह दुख अणंतु परसगतमे, काल अनादि जामीआ  
 हो ॥हणा॥२॥ परसगतमे रावण बुडे, जीनोका मसतग दश को  
 पिआ हो ॥हणा॥३॥ शुध उपियोग लावी सजावे रमो तो, लठ  
 तमारा वलिहा हो ॥हणा॥४॥ सुभध्याने काइ सुज्ज गती वे, संजा  
 वे सिवरमणी वरइया हो ॥हणा॥५॥ ए देशना हुकममुनीनी, सु  
 णी सुरपती पाये पडइआ हो ॥हणा॥६॥ केहता ए केसुर चेतन ह  
 मारा, ज्ञान ध्यानमे तु काइ रमिया हो ॥हणा॥७॥३॥



## શુદ્ધિપત્રક

૧ આ પુસ્તકમાં ધણે કેનાણે શબ્દોમાંથી અક્ષરો છૂટા પડી ગયા છે, તથા શબ્દોનો આગલો પાછો અક્ષર ખીન શબ્દ સાથે બળી ગયેતો છે, તે સમાજીને વાચ્યુ

પૃષ્ઠ લાટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ લાટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩	૪ ૫	પ્ર	૫૩	૧ સુધ	સુધિ
૧૧	૧૦ કલ્પ	કલ્પ	૫૪	૨૦ હેતકારી	દિતકારી
૧૨	૮ સ્વ	સ્વ	૫૬	૧૦ યુધ	બોધ
૧૩	૭ વ્યવહાર	વ્યવહારે	"	૧૪ સખ	સવ
૧૪	૧૦ મેહેવા	મેહેવ	૫૭	૬ પૂરવે	પૂરવે
૧૫	૨૩ ભેનો	ભવશ્લો	૬૧	૨૨ પાવત	પાવત
૧૬	૨૩ ખશિ	ખુશી	૬૨	૫ મિદ	મિધ
૧૮	૨ એ ધ્યાન	એ ધ્યાન ન કરવુ	૬૩	૧ કર	કરે
૧૮	૨૧ દેર્ષણુ	દરાન	"	૨૨ દણુ	દણી
૧૯	૮ યર્ષ	ન યર્ષ	૬૪	૧૪ નિપપ	નિલેષ
૧૯	૨૩ કલાન	લીન	૬૫	૧૦ વરમય	વરમય
૨૦	૮ તે એ	તેવે	૬૫	૧૬ સત	સત
"	૧૨ શ્વ	શ્વર	૬૬	૦ ને	નય
"	૨૪ અન	અન્ય	"	૨૦ અમગાહક	અવગાહક
૨૧	૩ હેતકારી	હિતકારી	૬૭	૧૫ ઘણુક	ઘણુક
૨૨	૨૦ ધુ	ધુવ	૬૮	૭ પ્રત્તા પ્રત્વે	પરત્તા પરત્વે
૨૬	૨૩ સત દત	તાન્ત, દાન્ત		૮ છટો	છટ્ટો
૩૧	૪ ૨ ત ધાંત	" "		૧૦ સમીચે ખેત્ર	સમય ક્ષેત્રે
૩૨	૭ દ્રમ નિના	દ્રવના	"	આર્દિત	આર્લિ
"	૨૪ પયાયે	પર્યાયે	"	અમી	સમ
૩૫	૨૩ લખ્ધ	લુખ્ધ	૧૧	યે	ય
૩૬	૯ હપ્પોનથી	હપ્પો છે	"	આવૈતી	આવવી
૪૦	૩ રૂપાણી	રૂપીણી	"	આસ્તીકા	આસ્તીકાય
૪૨	૧૦ વણાસિક	વિનાસિક	૨૪	મામા	સામાન્ય
"	૨૪ વીજ	ખીજ	૬૯	૩ એમા માન	એ સામાન્ય
૪૩	૨૬ એમાં	હિસા		૭ એસે સમાવ	વિરોધ ભાવ
૪૮	૯ અસેની	અસારી		૮ એસે સમાવ	વિરોધ ભાવ
૪૮	૧૧ સેનીયા	સગી	૧૧	નીર અવીએ	નીર અવ્યેન સઅ
૪૯	૮ રાત	ગત		વરવેઅ	
૪૫	૭ અશુદ્ધ અનુભવ	શુદ્ધ અનુભવ	૧૨	મકાયે	મકીય
"	કતીન સુન	અકતીન શુદ્ધ	૧૪	ખીઠે	ખાનું છે
૪૯	૧૩ ગવલતયુ દ્રવ્યના	એ નત નદાયુ દ્રવ્યનુ	"	તાઠી	ન હી
૫૦	૧૦ અનમન	અનુમન	૨૩	ધન	ધમ
૫૧	૧ ૨૬	૨૫	૨૬	વસે સમ	વિરોધ ધમ
"	૧૦ ૨	૨	૭૦	૮ વિરય ભૂત	આરિનું
"	" ૨	૩		૫ આરાધે	આધાર
"	" ૩	૪	"	૫ પરન વીક્ષા	રાપર વ્યવસાધિ
૫૧	૧૧ ૪	તે	૭	દૌ	ધુવે

	१२ त्रीयदस	त्रीयोदस
	१५ भेकेतव्यी-अम व्यक्तव्यी-अव्यक्तव्यी	कृतव्यी
७१	१० सद्भाव असद	सद्भाव असद्भाव
	१० आरपीत	अपीत
	१८ त्रेते केर	प्रत्येके
	२२ सभ विधे	सभये
७२	८ सत्वा सत्व	सत्वा सत्व
	१२ सभन	सभये न
	२५ सत्वा सत्व	सत्वा सत्व
७३	६ अम	अम
	१३ रतनाभर-अवता	रतनाकर वतारिका
	२२ रोषुने	प-न
७४	३ रवे गीना	रव-या
	१२ उप्रैयुति	अप्रैयुति
	१५ प्रैय्मी	प्रैयय
	१८ धि	धि
	२० कुट रत	कुटरथ
	" परष्ठी भीष्म	परीष्ठीभीष्म
	२२ धनुपरावरतने	धनु परावरतने
	" परावे रैतन	परावर्तन
७५	१७ प्राव	प्रव
७६	११ जेहे	जेय
	१५ (त्री) गाथाभा	पा अरक्षुअधूरु छे
	१६ धि	धि
७७	८ भुमी	भुनि
	१० सारम ॥ अद्रामनी सारम	अद्रामनी ॥
	१५ रैषुभवो	प्रैषुभवो
	१६ रागती	रागती
	२१ जा	जा
७८	३ वरक्षुतिमे	परक्षुतिमे
	५ अेत्र	अेत्री
७९	१ भवान	भवन
	४ भवे	भव
	५ सुनाते	स्वभाव ते
	" भवान	भवन
	८ भवित	भवन
	१० भवत	"
	१५ भवान	"
८०	११ वाधीत भाय	वाधीत सुभ भाय
८२	७ ससादी	ससाधी
	८ कुणर	कुणर
	१० मकडे	मेकडे

८३	१० तात्रक्षुभा	तात्रे अेभा
	१८ भारे	भां रे
	२७ थाया	थया
	२८ पाभे	पाभी
	३४ अरथ	अर
	३६ सनारथ	सर्दारथ
	" वाधीतवीजे	वाधीत इत नीजे
८४	३ अरद	वृद
	५ अतरे	क्षेत्रे
	६ ओजे	जे
	७ सीधित	सीधाते
	७८ अम शउ	धुवस वरक्ष
	अमस	
	१२ अम छे	वरक्षे छे
	२१ सिधापरा	सिद्धिपरा
	२४ सवी	सवी
	" भोगविसान	भोगवी विसान
	२६ अेउ सकर	छद्र रकैरतन करे
	रतन करे	
	" वन	गिन
	२८ नवा	उन
	३१ मल्ली अने	( अे अरक्षु वर न
	स्वर वांइता	जेधअे )
८३ ८४ ८५	} वन	गिन
८६ ८७ अे		} पृष्टोभा इउ
सेक ठेकाणे		
८५	१ वरस	वरक्ष
	४ जेहतवेभनधी	जयत विमानधी
	१० सधुर्ध	अधुर्ध
	११ ववी	ववे
	१५ अज्ञानत बीर	अज्ञान तिमिर
	२६ परभवनीभांय	परभावति भाय
८६	१ कनर	कुचरी
	३३ (त्री) गाथाभा	प्रत्येके प्रत्येके तोर
	अधुधी गाथा	} रक्षु कृत्य अष्ट भगण
	नधी)	
८७	१ धुण	धवण
	१२ अेद्रीमन	छद्रीमन
	१८ जेनीत	अभ्युत
८८	१४ जे	जय
८८	३२ आव-यो	आनउे
८९	२ आशाकि	हास्यादि
८९	१४ धरेभ	द्वय
९०	२२ नव	२१

१०४	८	प्रका	प्रकार	२७६	२	भव्य	भव्यजन
	२५	भव	भ्रम		१२	प्रकृती	प्रकृति
१४६	८	तेथी	तेथी	२८२	५	वभवे	वभवे
	१०	तेवी	तेवी रीते		६	अथ	अथी
१५४	३२	वेदु	वेदु	२८६	५	लेजे	लहीजे
१५७	८	अभिधा	अभिधान		१३	जयजिन	जययोग
१६८	५	पुण्य निमन	पुण्यविमन		१४	परभव	परभाव
१७४	२८	नात	वृत्ति	२८७	१०	पतीश्वे	पतीश्वरे
१७५	३	पावक	पावक		१८	भवेगे	भवेगे
१७८	१६	पदम	पदम	२८८	१७	पदमा	पदीमा
१८०	१६	लाग्या हे	लागाया हे	२९०	१२	विधि	विधि
१८१	१७	धनु	धनु		१३	स्तभावे	स्वभावे
१८२	३	हेम	हिम		१७	भीष्मना	भीष्मना
२०६	१४	साक्षाक	साधक	२९१	५	आनी	ग्या
२०८	२	अमति	अनिवृत्ति		११	भव	नवे
२०९	२४	क्षयक्षि	क्षय लक्षि		"	नता	न्या सा
२१०	२३	दिनकरभोध	भोध दिनकर		१२	सुरधु	सुरने
२२४	१४	अनगान	अनतगान		२४	पथु	रिषु
२२८	१५	ध्याध्वे	ध्याध्वे	२६	७५	तुरग याने-	} (अ २६ छ)
२२९	१४	जलतीरे	जल			तीहु अगनात द्या	
२३१	१२	धर्मभोग	धर्मभोग			दीथे-मनपरमे	
२३२	६	३	३	२९६	२२	परभाव	परभव
	७	पोतानी	पोतानी साहि	२९५	१२	तरे	तेरे
२३६	८	प्रीयर	प्रीय (रक्षक)		२०	सरधा	सरधा
२३९	१३	भजे	भज्यो	२९८	३	सहेना	से डेहेना
२४०	२४	प्रीयर	प्रीय (रक्षक)			सहे	से
२५६	१०	अपरमद	अपरमत्त	२९९	२	शकता	शक्ति
२५९	८	जियो	जियो		४	परती	परश्रुति
	२१	पर सगती	पर सगती	३०७	१	कभात्	कभान
२६५	१	दीपक	दीपक	३१७	२४	वाधु	वाधु
२६६	४	भासे भाट	वसे वा भाट	३१८	२६	सयव	सयरे
	८	वरगणो	अवर वपु	३२३	१६	सभगिर	सुदगिर
	"	रभे पाण	रभवाण	३२८	२०	वृत्त्यन्ति वृत्	वृत्त्यन्ति निल
	२३	दागेरी दोग		३३५	२५	सित	शित
२६८	७	अेनी	अेणीपरे	३६१	११	प्रभावत्	प्रभावात्
२६९	१	मन प्रजेव	मनपर्यव	३६६	२६	धारिणु	धारिणु
	१८	सानेरे	समनेरे	३६४	१६	५	५
२७०	५	तो पडरो	नही तो पडरो		२०	परभाय	परभाव
२७२	५	ताम	दान	३६५	१५	मिथ्याता	मिथ्यात
२७३	८	डीडु	डाडु	३८८	१३	ध्याव	ध्यावे
	२३	येनत	येतन	३९६	१३	सभा	साभ्य
२७५	५	सुभजन	सुभनेन	४००	१६	शुभपरम	शुभ परमय
	८	रन	रान	६०३	३	आत	आत
	"	डेन	डीने	६११	१५	न्यारे	न्यारे
	१०	डडवानो	डडवाने	६१२	८	नीसे	डनिसे



१०४	८ प्रका	प्रकार	२७६	२ भव्य	भव्यगन
	२५ गव	गव	१२ प्रकृती	प्रकृति	
१४६	६ तेशी	नेथी	२८२	५ वपञ्जे	वपञ्जे
	१० तेषी	तेषी रीते	६ अथ	अथी	
१५४	३२ वेद्वु	वद्वु	२८६	५ लेञ्जे	लेञ्जे
१५७	८ अभिधा	अभिधान	१३ ऽथजिन	ऽपयोग	
१६८	५ युष्य निमज	युष्यविमज	१४ परभव	परभाव	
१७४	२८ नात	वृत्ति	२८७	१० पतीञ्जे	पतीञ्जे
१७५	३ पावक	पावक	१८ मरेञ्जे	मरेञ्जे	
१७६	१६ पञ्म	पञ्म	२८८	१७ पञ्मा	पञ्मा
१८०	१६ लाञ्जा हे	लाञ्जा हे	२९०	१२ विध	विधि
१८१	१७ धवु	धवु	१३ स्तभावे	स्तभावे	
१८२	३ हेम	हिम	१७ भीपुनमा	भीपुनमा	
२०६	१४ साक्षक	साक्षक	२९१	५ ग्यानी	ग्यानी
२०८	२ अम्रति	अम्रति	११ गव	गवे	
२०९	२४ कालपिध	काल लपिध	" गता	ग्या ला	
२१०	२३ दिनकरभाध	भाध दिनकर	१२ सुखु	सुखे	
२२४	१४ अनज्ञान	अनज्ञान	२४ पपु	पिपु	
२२८	१५ ध्याधञ्जे	ध्याधञ्जे	२६ नल तुरग ग्या-	तीट् अगनान दशा } (अ २६ छे) धीये-मनपरमे	
२२९	१४ नवनीमे	नल			
२३१	१२ अक्षमोञ्ज	अक्षमोञ्ज	२८६	२२ परभाव	परभव
२३२	६ उ	उ	२८५	१२ तरे	तरे
	७ ग्यातानी	ग्यातानी ल्याडि	२० सरधा	सरधा	
२३६	८ पीयर	पीय (रक्षक)	२९८	३ सहेना	से डहेना
२३९	१३ भञ्जे	भञ्जे		से	
२४०	२४ पीयर	पीय (रक्षक)	२९९	२ शकता	शक्ति
२५६	१० अपरमज	अपरमज	४ परती	परपुति	
२५९	६ ग्या	ग्या	३०७	१ कभात्	कभात्
	२१ पर सगती	पर सगती	३१७	२४ वापु	वापु
२६५	१ दपिक	दीपक	३१८	२६ सयल	सयते
२६६	४ भायो भाट	वसो वा भाट	३२३	१६ सभगिर	सुहगिर
	६ वरग्या	अवर धपु	३२८	२० वृत्पन्ति वृत्	वृत्पन्ति निल
	" रभे पाण	रभवाण	३३५	२५ सित	पित
	२३ हागेरी हाग		३६१	११ प्रभावत्	प्रभावत्
२६८	७ अेनी	अेणीपरे	३६८	२६ कारिपु	कारिपु
२६९	१ मन प्रनेव	मनपर्यव	३८४	१६ व	व
	१६ सान्जेरे	समन्जे रे	२० परभाव	परभाव	
२७०	५ तो पञ्शे	नदी तो पञ्शे	३९५	१५ निव्यता	निव्यता
२७२	५ ताञ्ज	लाञ्ज	३८८	१३ ध्याव	ध्यावे
२७३	८ हाडु	हाडु	३९८	१३ सपा	शाप्य
	२३ येनत	येतन	४००	१६ गुपुपरम	गुपु परम
२७५	५ सुपरवन	सुपतेनन	४०३	३ आत	आत
	६ रञ्	रञ्ज	४११	१५ न्यारे	न्यारे
	" केञ्	कीञ्जे	४१२	८ तीसे	धनसे
	१० कञ्चानो	कञ्चानो			

૪૧૫	૧૪ શરૂ	સુર
૧૪ શક્તાએ	સત્તાએ	
૧૮ શક્તા	સત્તા	
આ પૃથ્વી પછી	} શક્તા સત્તા	
વાગેના બીજા પુ		
શ્રેયા મણે દેહાણે		
૪૧૬	૧૬ શબુને	શબુને
૪૧૭	૯ નમેન	ત્રિમન
	૨૧ વેધે	વેદે
૪૨૧	૧૮ શ	શબુ
૪૨૩	૧૨ કરે	કરે
૪૨૮	૧૦ લેરે	લેરે રે
	૨૩ મદકેગીછ	મદકેગીછ
૪૩૨	૮ એવા દાવાને	એ પાવાને
૪૩૩	૧ મ ગરૂછ	ગુરૂછ
	૧૬ લાલમદ	લાલમદ
૪૩૫	૧૨ આકરીએ	અકાંચ
	૨૫ હસગઆરથી	અથ ગજ રથને
	ને પલખી કાઈ	પાલખી કાઈ
૪૩૬	૭ એના-કપા	શકો-કપા
	૧૪ વારીઓ	વીદારીઓ
૪૩૮	૧૦ કમ	કમ
	૧૩ ધરવા રથક	દ્રવ્યાથક
	૧૭ મોબસ	મોલ
૪૩૯	૧ પીરરે	પ્રીયરે
	૮ તેમની વદીએ	(૨ ડે)
	૧૩ કાકડી	કાકડી
	૨૦ સાહેતોએ	સાખતોએ
	૨૩ પાસલજી	પારાનીઓ
	૨૪ ચમચુ	ચણુ
૪૪૦	૨૫ સીદ	સિદ્ધ
૪૪૧	૧૨ સમરને	સ્વખાને
૪૪૨	૨૧ કાઈ બેગીરે	મઈ બેગીરે

૪૪૪	૯ સાતો	સતો
	૧૫ હરીઅત	અરીહત
૪૪૫	૩ વર	ઠિર
૪૪૬	૩ સુગતા	સુગન
૪૪૮	૧૧ રૂએ	રૂએ નદી
૪૫૧	૧૩ માર	મારે
૪૫૨	૨૫ મમજિત	સમખિત
૪૫૩	૨ વ ન	વળન
	૧૮ ધવ	દ્રવ્ય
	૨૧ ચીતા	ચિત્ત
	" સુખ	સુખે
૪૫૪	૧૨ કન	કમ
	૨૫ સુખ	સુખ
૪૫૫	૧૩ દેહ	દેહ
	૧૬ ખેલે	ખ
	૧૯ પાચને	પાચસે
	" પીલ	પીલ્યા
	૨૧ આર	નાર
	૨૧ બધક બાદ	બધક ખાલ
	૨૩ ખારી	ખારી
	૨૫ આર	પૂર
૪૫૬	૫ હુકમછ	આતમની હુકમ નિજ આતમને
૪૫૭	૧૯ ખોસે	ખમે
	૨૨ કરે	કરો
૪૫૮	૧૨ આર	ચોર
૪૬૦	૧ પચમરા	પચમ આરા
૪૬૧	૧૩ ધરે	ધરે
૪૬૫	૧૪ અસર	અસદ્
૪૬૬	૧૨ ચોગની	ચો ગતી
૪૬૮	૧૫ નિમયા	નિમ્રથી
૪૭૫	૨૦ જરણુ	જનમ
૪૭૬	૪ શક્તાઅવુ	સત્તાએ વુ
	૫ પુમાર	પુમાર
	૨૦ તામર	તમાઈ

(૨) આ શુદ્ધિપત્રમા (૧) અગલના શબ્દો સુધારવા ઉપર નજર ગળી છે જોડણીની ભૂલો તમા અશુદ્ધ ભાષાથી લખાએલ સુધાર્વું નથી (૨) વળી બીજા અગલના શબ્દો પણ ના સમજાયાથી તથા મરત બૂનથી સુધારવાના રહી ગયા હો (૩) ધ વૃખઈ અક-  
 કળની સુધારેલ છે માટે વિદ્વાન પુ ઠોને મારી એની અગળ છે કે, આ શુદ્ધિપત્રમા અને  
 આ પ્રત્તકમા જે કર્ક દોષ રચા હોય તે સુધારી લેવો

